

नालन्दा - वैवनागरी - पालि - ग्रन्थमालाय

सुत्तपिटके

दीघनिकायपालि

(२. महावग्गो)

पद्यानसंशोधको
भिक्षु जगदीसकरसपो



बिहारराजकीयेन पालिपकासनमण्डलेन
पकासिता

६० २५०२

वि० २०१५

१६५८

THE
DĪGHANIKĀYA
(2. MAHĀ VAGGA)

General Editor
BHIKKHU J. KASHYAP



PĀLI PUBLICATION BOARD
(BIHAR GOVERNMENT)

GENERAL PREFACE

The teaching of the prophets is generally distorted by the beliefs of the world and the interpretations of the priests. If we wish to ascertain what the founders of great religions taught, we have to get back to the original sources.

Buddhism in all its forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the austerities practised by him till he attained enlightenment appeal to the Hinayāna, the Pali, or the Southern school, his life of service and compassion for 45 years after the attainment of enlightenment is the authority for the Mahayāna, the Sanskrit or the Northern school.

The religious quest springs from the consciousness of the imperfection and suffering of the world. The questions which worried Tolstoy in the fiftieth year of his life disturb all thinking men. 'What is life? Why should I live? Why should I do anything? Is there any meaning in life that can overcome inevitable death?' Nijinsky summed up the whole problem in his *Diary* when he wrote "The whole life of my wife and of all mankind is death." How can we be saved from the body of this death? This is the problem of religion.

The Buddha traces suffering to selfish desire. Suffering is the result of tension between a living creature's essential impulse to try to make itself into the centre of the universe and its essential dependence on the rest of creation. Craving is that which binds the individual to the creative process. The individual with selfish desire becomes the slave of the universe. We can overcome suffering only if we get rid of *trsnā* or *tanhā*. To attempt to get rid of suffering through the various devices of self-deception is not to cease to suffer but to suffer in a different way.

The Buddha formulates the eight-fold path of morality which helps us to eliminate selfish desire and overcome suffering. When the Upaniṣads declare, 'That thou art', *tat tvam asi*, it is not a mere statement of fact. It is a call to action. Make thyself that which thou know thou canst be. Whereas the Hindu mind believes in a permanent element in the individual which can stand firm and unshaken in the midst of change, the Buddhist stresses the dynamic character of the self. No change is possible with an unchanging consciousness. We can achieve the possibilities in us by the exertion of the will rather

GENERAL PREFACE

The teaching of the prophets is generally distorted by the beliefs of the world and the interpretations of the priests. If we wish to ascertain what the founders of great religions taught, we have to get back to the original sources.

Buddhism in all its forms goes back to the life and teaching of the Buddha. While the austerities practised by him till he attained enlightenment appeal to the Hinayāna, the Pāli, or the Southern school, his life of service and compassion for 45 years after the attainment of enlightenment is the authority for the Mahāyāna, the Sanskrit or the Northern school.

The religious quest springs from the consciousness of the imperfection and suffering of the world. The questions which worried Tolstoy in the fiftieth year of his life disturb all thinking men. "What is life? Why should I live? Why should I do anything? Is there any meaning in life that can overcome inevitable death?" Nijinzky summed up the whole problem in his *Diary* when he wrote: "The whole life of my wife and of all mankind is death." How can we be saved from the body of this death? This is the problem of religion.

The Buddha traces suffering to selfish desire. Suffering is the result of tension between a living creature's essential impulse to try to make itself into the centre of the universe and its essential dependence on the rest of creation. Craving is that which binds the individual to the creative process. The individual with selfish desire becomes the slave of the universe. We can overcome suffering only if we get rid of *tṛṣṇā* or *taṇhā*. To attempt to get rid of suffering through the various devices of self-deception is not to cease to suffer but to suffer in a different way.

The Buddha formulates the eight-fold path of morality which helps us to eliminate selfish desire and overcome suffering. When the Upaniṣads declare, "That thou art", *tat tvam asi*, it is not a mere statement of fact. It is a call to action. Make thyself that which thou know thou canst be. Whereas the Hindu mind believes in a permanent element in the individual which can stand firm and unshaken in the midst of change, the Buddhist stresses the dynamic character of the self. No change is possible with an unchanging consciousness. We can achieve the possibilities in us by the exertion of the will rather

than by the play of the intellect. Religion is not a creed, but a vital process. It is no use railing against God or destiny when we are ourselves the authors of our disgrace. If few are chosen, it is because few choose to be chosen. The Buddha laid stress on the creative freedom of man. The Buddha did not encourage dependence on the supernatural. He could not conceive of a being capable of creating a world for the express purpose of its creatures praising him. The ten veramaṇīs or prohibitions or abstinences called *dasasīla* or *dasasīkṣāpada* which the novices in the path of Buddhism utter are given in these words: "I take upon myself the abstinence, (1) from destroying life, (2) from taking what is not given, (3) from leading an unchaste life, (4) from speaking untruth, (5) from giving myself to intoxicating drugs, (6) from eating at irregular hours, (7) from seeing musical and dancing performances and other shows and pageants, (8) from wearing garlands, perfumes, unguents and other bodily decorations, (9) from using high couches and seats, (10) from accepting gifts of gold and silver." The first five are the Buddhist *pañcaśīla*.

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
 Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
 Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
 Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi
 Surā-merayamajja-pamādaṭṭhānā
 veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Conflicts in the world are conflicts in the human soul enlarged. If men were at peace within themselves, the outer conflicts between nations would inevitably cease. By practising the Buddha's *pañcaśīla* we will develop patience, courage, love and unselfishness. The Buddha teaches us that even in an age of anxiety and violence, it is possible to gain and maintain inner harmony, which is not at the mercy of outward circumstance.

Nirvāṇaṃ paramaṃ sukham : Nirvāṇa is the highest bliss. It is not a negative state of annihilation but a positive state of joy, consciousness grown from an unhappy to a beatific one. The Buddha does not tell us that man is but a bubble on the turbulent surface of nature and that he has no destiny save to undergo dissolution. The Hindu affirms that man can realise his identity with Brahman, the ground of all being; the Buddhist says that man can live in a transfigured world where *saṃsāra* and *nirvāṇa* are one. In *Mahā-saccaka Sutta*, the Buddha himself is reported to have described the supreme triumph of reaching the goal of his quest as follows:

“When this knowledge, this insight had arisen within me, my heart was set free from intoxication of lusts, set free from the intoxication of becomings, set free from the intoxication of ignorance. In me, thus emancipated, there arose the certainty of that emancipation. And I came to know: “Rebirth is at an end. The higher life has been fulfilled. What had to be done has been accomplished. After this present life there is no further for this or that. This last insight did I attain to in the last watch of the night. Ignorance was beaten down, insight arose, darkness was destroyed, the light came, inasmuch as I was there strenuous, earnest, master of myself.” Thus ended the struggle of six long years.

The Buddha is said to be a physician. Even as the physician strives to restore to health a sick man, the Buddha tries to restore us to our normal condition. If our leaders become normal, we may be able to replace the present social order in which division, falsehood and violence prevail, by a new one in which humanity, truth and brotherhood will reign.

On the occasion of the 2,500th anniversary of the Buddha's parinirvāṇa, the Government of India decided to publish standard versions in Devanāgarī script of the complete Pāli and the Sanskrit texts of the two schools, Southern and Northern, in the hope that some of the readers of these books may be impelled to love the good, to practise altruism and hold their spirit aloof from the desires and ambitions of the world.

S. Radhakrishnan

INTRODUCTION

1. The Pāli Tipiṭaka

After the passing away of the Buddha at Kusinārā, the disciples had assembled to pay their last homage to him. The Venerable Mahā Kassapa, the chief of the congregation, was delivering words of consolation to the bereaved assembly, reminding them of the declaration of the Buddha —“It is the very nature of all things near and dear to us that we must divide ourselves from them.” Subhadra, a monk who had received ordination in an advanced age, however, did not look gloomy. He took a perverted view of the situation and spoke —“Do not grieve, brothers, for now we are definitely released from the restraint of the Great Teacher and his too rigid discipline. While the Teacher lived, we were constantly rebuked for failing to observe the hard rules, but, now we are at liberty to do as we please, therefore, do not grieve.” These words sounded a note of warning against the future possible distortion of the Dhamma at the hands of faithless members of a similar category. The Venerable Mahā Kassapa felt an urgent need for convening a Grand Council of the leading Elders of the Sangha to make a full collection of the teachings, and also to adopt means for their right preservation and transmission to posterity. He addressed the Bhikkhus thus —“Come, friends, let us chant together the Dhamma and the Vinaya.” The Venerable Mahā Kassapa drew a list of five hundred names of the topmost disciples to be appointed as members of the Council. At first, the name of the Venerable Ānanda was left out in view of the fact that he had not attained Arhathood till then. But, as no one else in the Sangha had the privilege of listening to the Teacher so very closely and for such a long period of time, his participation was deemed necessary and important. He was, consequently, asked to go to a suitable abode and develop insight, so as to become an Arhat and be able in time to join the Council. King Ajatasattu made necessary arrangements for the accommodation and convenience of the convention at Rājagaha, a favourite resort of the Teacher himself. A spacious beautiful pavilion was raised for the meeting at the entrance of the Sattapanni cave, on the northern side of the Vebhāra Hill.

Venerable Ānanda made the best efforts to train himself in developing insight. He kept walking up and down for the whole night absorbed in deep meditation, and, early in the morning, as he was going to stretch himself on the bed, his feet had left the ground and the head had not reached the pillow, at that moment, as if by a flash of light, darkness was dispelled and the sublime light of sainthood dawned upon him. And, through his miraculous super-human power of an Arhat, he appeared all of a sudden on his appointed seat in the hall, as if emerging out of the ground, exactly as the proceedings were going to be started.

With the permission of the Sangha, Venerable Mahā Kassapa asked Upāli questions on Vinaya, relating to the different monastic transgressions, the matter, the occasion, the individuals concerned, the principal rules (paññatti), the amended rules (anupaññatti) and all other details about them. In this, the Vinaya text was agreed upon and settled. Then, again, with the permission of the Sangha, he asked Ānanda questions on the Dhamma, the occasion of a sermon and the person or persons with reference to whom it was preached.¹

The commentary, *Atthakatha*, of a much later date, assumes that the *Abhidhamma Pitaka* was also included in the collection of the Dhamma, and that the *Tiṭṭhaka*, as it is available to us, was finalised at this very stage.

A century after the passing away of the Buddha, a great controversy arose in the Sangha concerning the interpretation of some Vinaya rules. This necessitated the holding of the Second Council at Vesālī. Seven hundred leading Elders from distant parts of the country assembled to take part in it, and they had drawn up a new edition of the Scripture, resulting in the fixing up of the *Pitakas*, *Nikāyas*, *Angas* and *Dhammakā handhas*.²

A century after, when King Asoka embraced Buddhism and gave patronage to its propagation, the richly furnished monasteries became centres of attraction even for the members of other sects. They donned the yellow robe, either by proper ordination or stealthily, and went about as Bhikkhus enjoying the privileges and honour given to them. They could not, however, leave their own inclinations behind, and began to twist and distort the Doctrine in their own ways. This led to a state of confusion, and it became difficult to distinguish the true principles from the coloured ones. The Elders

1 *Cullavagga*, Chapter VI 2 *Sumangalavilasini*, *Nidanakatha*

3 *Cullavagga*, Chapter XI

felt the necessity of safeguarding the purity of the Dhamma by affecting a total purge of the alien elements in the philosophical life of the Saṅgha. This task was entrusted to the Venerable Moggaliputta Tissa, a saint, thinker and writer. He compiled a book called the Kathāvattu, refuting all the foreign theories, which was adopted as a book of the Tipiṭaka at the Third Council held at Pāṭaliputta under his presidentship. After the council, Asoka despatched missionaries to the then civilised parts of the world for a wide propagation of the Dhamma¹.

Prince Mahinda and Princess Saṅghamittā renounced the world and joined the Order to lead a mission to Siḥaladīpa (Ceylon). Since then, the island became a stronghold of Buddhism, and, even up to this day, has maintained the tradition of Pāli Tipiṭaka with all religious zeal².

Up till then, the Tipiṭaka was traditionally handed down orally from teachers to pupils. The complete Scripture was compiled in the form of books for the first time in Ceylon in 29 B C., under the patronage of king Vaṭṭagāmaṇi Abhaya, with all the detailed classifications that are now obtained in the Pāli Tipiṭaka of the Theravāda School. This was done at the Council convened for the purpose, known as the Fourth Great Council³.

The Fifth Council, according to orthodox tradition, was held at Mandlay, Upper Burma, in 1871, under the patronage of king Mindon. In this Council the entire Pāli Tipiṭaka was revised, re-edited and finally engraved on 729 marble slabs as follows⁴ —

Vinaya	111 slabs
Sutta :	410 slabs
Abhidhamma :	208 slabs

Now, in this present age, the necessity of bringing out an upto-date edition of the Tipiṭaka printed on modern machines was felt. This task was taken up by the Burmese Chaṭṭha Saṅgāyana, the Sixth Great Council, held in Rangoon, which opened on the 17th May 1954 in the artificially built Rock Cave, especially constructed for the purpose, at a little distance from the city. Two thousand and five hundred of the most erudite Bhikkhus, from all parts of the world, participated in chanting the Tipitaka together. A modern printing press was installed in a separate building and there the texts were printed as soon as they received the sanction of the Saṅgāyana. The

1. *Mahāvamsa*, chapter V. 2. *Mahāvamsa*, op. cit. 3. *Mahāvamsa*, chapter X-XXIII. 4. बौद्ध धर्म के २२०० वर्ष, १९२९, p. 35.

Council kept functioning for two years, and concluded on the fullmoon day, May 1956, synchronising with the 2500th Jayanti of the Buddha.

In Ceylon, Burma, Thailand and Cambodia the principal religion of the people is Theravāda Buddhism, that adheres to Pāli Tipiṭaka as its Scripture. There, they have been having editions of it in their own scripts. Pali Text Society, London, has been able to complete the publication of a major portion of it in Roman characters. But, as yet, it is not fully available in any script of India.

It is with a view to removing this want that the Government of India and the State Government of Bihar have jointly sanctioned a scheme of editing and publishing the entire Pāli Tipiṭaka in Devanāgarī, which will be complete in 40 volumes of about 400 pages each. This task has been entrusted to the Devanāgarī Tripiṭaka Publication Department, Nalanda. It aims at presenting a co-ordinated edition of the text based on the printed books in Roman, Sinhalese, Burmese and Siamese scripts.

The following chart will show the distribution of books in the literature:—

TIPITAKA

VINAYA PIṬAKA

1. Mahāvagga
2. Cullavagga
3. Pācittiya
4. Pārājika
5. Parivāra

SUTTA PIṬAKA

1. Dighanikāya
2. Majjhimanikāya
3. Saṃyuttanikāya
4. Aṅguttaranikāya
5. Khuddakanikāya, which contains the following fifteen books:—

- i. Khuddakapāṭha
- ii. Dhammapada
- iii. Udāna
- iv. Itivuttaka
- v. Suttanipāta
- vi. Vimānavatthu
- vii. Petavatthu
- viii. Theragāthā
- ix. Therīgāthā
- x. Jātaka
- xi. Niddesa

ABHIDHAMMA PIṬAKA

1. Dhammasaṅgaṇi
2. Vibhaṅga
3. Dhātukathā
4. Puggalapaññatti
5. Kathāvatthu
6. Yamaka
7. Paṭṭhāna

- xii. Paṭisambhidāmagga
- xiii. Apadāna
- xiv. Buddhavaṃsa &
- xv. Cariyāpiṭaka

2. The Present Volume : its Place in the Tipiṭaka

The three Piṭakas represent the three sections of the Canon. Their subject matter and ways of treatment differ from one another. The five books of the Vinaya Piṭaka deal with the rules and regulations of monastic Discipline; the five Nikāyas of the Sutta Piṭaka are collections of the discourses delivered by the Buddha at different places, on different occasions, and addressed to different congregations; and, the seven Pakaraṇas of the Abhidhamma Piṭaka are treatises on the technical psycho-ethical philosophy presented in terms and style suited to it.

The first Nikāya of the Sutta Piṭaka is the Dīgha Nikāya, a collection (Nikāya) of long (Dīgha) sermons. There are as many as 34 long sermons (Suttas) contained in it, divided in three books, called the Sīlakhandhavagga, the Mahāvagga and the Pāthikavagga.

The present volume is an edition of the Mahāvagga, the Second book of the Dīgha Nikāya. This name, some times, confuses a beginner with the first book of the Vinaya Piṭaka of the same name. The distinction may be specified by calling the present volume as *Dīghanikāye Mahāvaggo* and the other as *Vinayapiṭake Mahāvaggo*. Out of the names of the ten Suttas contained in it, seven are conjoined with the epithet Mahā (great). This is why it has been given this name. Here, the word 'Mahā' indicates partly that they are great in length and partly that they are held in high esteem. As the third Sutta, the Mahāparinibbāna Sutta, gives a touching and inspiring record of the last days and hours of the life of the Buddha, it has been very often singled out as an independent book for study and recitation all over the Buddhist countries. Several editions of it have been available both in the Theravāda and in the Mahāyāna traditions.

The ninth Sutta, the Mahā Satipaṭhāna Sutta, which presents a full course of self-culture, has also borne an outstanding identity of its own as a piece of Word of the Buddha for daily recitation and meditation. Out of reverence for this Sutta, devoted disciples have, at places, got it inscribed on costly gold plates and the letters studded with grains of precious stones, and kept enshrined in Stupas.

3. The Present Volume : a Summary.

With this much of introduction to the present volume, the Mahāvagga of the Dīghanikāya, let us have a summary of the ten Suttas contained in it, giving an outline of their contents and way of treatment :—

(1) Mahāpadāna Sutta

The Buddha was staying in the Jetavana monastery at the Karerī cottage. There, at the request of the Bhikkhus, he delivered a Discourse to them on the subject of remembering former lives. He gave to them a list of the names of the previous Buddhas, with details of information about them, as regards their family, place of birth, tree of Enlightenment, two chief disciples, and the cardinal events in the life of a Buddha.

Then, he narrated to them the whole life of Vipassī, the Supreme Enlightened One, from his birth to the attainment of Mahāparinibbāna, revealing that the lives of all the Buddhas are identically alike in their cardinal turning points, and it is only in their details that they differ. The common nature of the life of the Buddhas is called Dhammatā. Thus, when he enters the womb of his mother;—there appears an infinite and splendid radiance pervading the entire universe, his mother is virtuous and pure, is possessed of all grandeur of mundane achievement, is free from disease; on the seventh day after his birth, his mother passes away and is born in the Tusita heaven; his mother brings forth standing, not sitting or reclining as the other women do; when he issues from his mother's womb, gods receive him first, afterwards men; he comes forth stainless, undefiled by mucus or blood, as a jewel laid down on muslin; when he is born, two showers of water appear from the sky, one of cold and the other of warm; just after his birth, he stands on both feet and, with his face to the north, takes seven strides, and, looking around on every side, he declares :—“Chief am I in the world, eldest am I in the world, foremost am I in the world; this is my last birth. There is now no more taking a birth.”

When Vipassī was born, his father, king Bandhumā invited the astrologer Brāhmanas to read the future of the boy. They predicted that if he stayed at home he was sure to be a Cakkavattī Monarch; and, if he renounced the world he would become a Buddha, Supreme Enlightened One. The king had three palaces built for the young prince, one for the rains, one for the winter and one for the summer. One day, the Prince went out on a chariot to have a stroll through the city. On the way, he caught sight of a decrepit leaning on a staff, tottering as he walked.

On different occasions, he came across a sick man, and then a dead body being carried for cremation. These sights opened the eyes of the prince to the real nature of life, and he was very much brooding over it. One day, on a similar outing, he met a mendicant on the way, head shaven and clad in yellow, who told him that he had seen the evils of mundane existence and that he was out in search of Peace and Liberation. Prince Vipassī left the royal palace to lead the life of a monk in search of truth. After due efforts and meditation he got insight into the causal links of the cycle of birth and death; dispelled darkness and attained to sainthood. He became a Supreme Buddha. Then, the Mahā Brahmā appeared before him and entreated upon him to take compassion on the grieved world, preach the Dhamma to them and lead them to Nibbāna.

Khanda and Tissa were the first two disciples of his. They were followed by eighty-four thousand inhabitants of the city of Bandhumatī. The Dhamma of Lord Vipassī spread far and wide. For the guidance of his Sangha he laid down the Pātimokkha and full code of Discipline.

(2) Mahā Nidāna Sutta

The Buddha was staying at Kammāsadamma, a township in Kuru. There, he gave discourse on Patuccasamuppāda, the cycle of birth and death, to Venerable Ānanda —

Old age and death are based on birth, birth is based upon the continuity of life-process, life process is based on grasping, grasping is based on craving, craving is based on feeling, feeling is based on contact; contact is based on psycho physical existence, psycho physical existence is based on (rebirth-) consciousness.

Then, the Buddha went on to explain the same, link by link — had a being not taken his birth, he would not have experienced old age and death, had a life-process not been continuing, there would have been no birth, had there been no grasping, there would not have been the continuity of life-process, had there been no craving, there would have been no grasping, had there been no feeling, there would have been no craving, had there been no psycho physical existence, there would have been no contact, had there been no (rebirth-) consciousness, there would have been no psycho-physical existence.

The Buddha further explained that the different theories about the

existence of a permanent and unchanging soul arise due to the ignorance of this Law of Paṭiccasamuppāda.

(3) Mahā Parinibbāna Sutta

The Buddha was dwelling in Rājagaha on the Gijjhakūṭa hill. Then, Vassakāra, the prime-minister of Magadha, approached him and said that King Ajātasattu was going to attack the Vajjis and crush their power. The Buddha pointed out to them that Magadha could do them no harm as long as they would have the following seven qualities :—collecting together frequently in public meeting of their clan; mutual concord; regard for the ancient institutions of their clan; reverence for elders; protecting the prestige of the fair sex; honouring their shrines; arranging for the safe and convenient stay of the Arhants.

After Vassakāra had gone away, the Buddha got the monks assembled in the Service Hall and delivered a discourse to them on the seven conditions of the welfare of a community, corresponding to the seven qualities of the Vajjis. He further preached to them on upright conduct, earnest contemplation, and true wisdom.

From Rājagaha, the Buddha went to Ambalatthukā and was staying there at Rājāgārika. There, he taught the disciples how ignorance is at the root of all evils and that it must be dispelled for the realisation of Liberation. Then, he came over to Pāvārika mango-grove at Nālandā. There, the Venerable Sāriputta approached him and, after doing homage to him, said:—“Lord, such faith have I in the Exalted One that methinks there never has been, nor will there be, nor is there now any other, a monk or a Brāhmana, who is greater and wiser than the Exalted One, that is to say, as regards the higher wisdom.” He further explained that he had made this statement on the ground that the perfection of the Dhamma was such that it did not admit of any doubt.

From Nālandā, the Buddha went to Pāṭaligāma with a big assembly of monks. There, he preached a sermon to his disciples on the merits of a moral life and on the demerits of an immoral one. At that time, Sunīdha and Vassakāra, the chief ministers of Magadha, were building a fortress at Pāṭaligāma to repel the Vajjis. They offered the Buddha and the Bhikkhu Saṅgha a meal at their residence. While the Buddha passed by, they settled amongst themselves—“The gate through which the Buddha will emerge

will be called the Gotama-door, and the ford at which he will cross the Ganges will be called the Gotama ferry ”

* * * * *

On the other side of the Ganges, the Buddha was staying at Kotigāma and Nādikā. There, he gave a discourse on the Four Noble Truths and preached the Dhammadaśa sermon. He proceeded on and reached Vesālī and was staying in the Mango grove of Ambapālī, a courtesan of the city. Ambapālī was the first to approach him and offer him an invitation for a meal. The nobles of Vesālī felt humiliated that a harlot of the city outbeat them in doing honour to the Buddha. They offered rich prices to her to let them have the merit of giving the first meal to the Buddha, but, she would not forego the unique prestige even for any offer.

* * * * *

In the village Velua, the Buddha said — What, then, Ānanda, does the Order expect of me? I have preached the Doctrine without making any distinction between exoteric and esoteric, for, in respect of the Dhamma, Ānanda, the Tathagata has no such thing as the closed fist of a teacher, who keeps some things back. O Ānanda, be ye lamps unto yourselves. Be ye refuge unto yourselves. Betake yourselves to no external refuge ”

* * * * *

At Capala shrine, the Buddha addressed the venerable Ānanda and said — “How delightful a spot, Ānanda, is Vesālī, and how charming the Udena shrine, and the Gotamaka shrine, and the Sārandada shrine, and the Capala shrine, Ānanda, whosoever has developed and thoroughly mastered the four superhuman powers, Iddhis, he, should he desire it, could remain in the same birth for an aeon or for the remaining part of it ” Ānanda, as if through the influence of the Mara, the Evil One, missed to entreat on him to take compassion on the world and live as long as that.

* * * * *

From Vesālī, the Buddha went over to Bhandagama, to Hatthigama, to Bhoganagara, and then to Pava. There, at Pava, he was staying in the Mango grove of Cunda, a smith. Out of his devotion, Cunda prepared a nice meal, including *sukaramaddava*, and offered it to him. When he had eaten that meal, there fell upon him a dire sickness, the disease of dysentery. He went aside from the path to the foot of a certain tree, and said — ‘Gold, Ānanda, the robe in four, and spread it out for me. I am weary, Ānanda, and must rest awhile ’” Ānanda did it, and went to the river Kakuttha to fetch some

water At that time five hundred carts had crossed the shallow river and the water stirred up by the wheels had become fouled and turbid But, as soon as Ānanda reached the edge of the stream, it began to flow clear and bright Ānanda brought water in the bowl The Buddha drank of it

After taking rest for a while, the Buddha took his bath in the river, came across and laid himself down in a mango grove on the bank He asked Ānanda to remember that, after he had passed away, he should approach Gunda, the smith, and encourage him by saying that his was the last meal that the Tathāgata had partaken, after which he had attained the great Parinibbāna

* *

* *

* *

Then, the Buddha came to the Sāla Grove of the Mallas, the Upavattana of Kusinārā, on the further side of the river Hiranyavati He said —“Spread over for me, O Ānanda, the bed with its head to the north, between the two Sāla trees I am weary, Ānanda, and would lie down” This being done, he laid himself down on his right side, with one leg resting on the other

At that time the twin Sāla trees were all one mass of bloom with flowers out of season, and all over the body of the Buddha they dropped themselves, out of reverence for him And heavenly Mandarava flowers, too, and heavenly sandal wood powder came falling from the sky, out of reverence for him And heavenly music was sounded in the sky, out of reverence for him

At all these marks of reverence, the Buddha addressed Ānanda and said —“Now it is not thus, Ānanda, that the Buddha is rightly honoured, revered, or venerated But, it is the devoted disciple, living the life in the fulfilment of the Dhamma, who rightly honours, reverences or venerates the Buddha with the worthiest homage Therefore, O Ānanda, be ye constant in the fulfilment of the greater and of the lesser duties, and be ye correct in life ”

* *

* *

* *

The Buddha said —“There are these four places, Ānanda, which the devoted disciples will visit with feelings of reverence—here the Tathāgata was born, here he attained supreme and perfect insight, here was the kingdom of Righteousness set on foot by the Tathāgata, here the Tathāgata attained the Great Parinibbāna ”

The Buddha got Ānanda called to his side and said —“Enough, Ānanda, do not let yourself be troubled Have I not, on former occasions,

told you that it is in the very nature of all things most near and dear unto us that we must divide ourselves from them, sever ourselves from them For a long time, Ānanda, have you been very near to me by words of love, kind and good, that never varies, and is beyond all measure You have done well Ānanda, be earnest in effort, and you too shall soon be free from the Bondage”

* * * * *

The Venerable Ānanda said —“Let not the Lord die in this little wattle and daub town, in the midst of the jungle, in this branch township For, lord, there are other great cities, such a Campā, Rājagaha, Sāvattu, Sāketa, Kosambi and Varānasi Let the Lord die in one of them There are many nobles and Brāhmanas and house holders who are devoted to the Tathāgata, who will pay due honour to the remains of the Tathāgata”

The Buddha forbade Ānanda to think like that, for, he said, it was at this very place that long long ago there had flourished a big city, the capital of a Cakkavatti king, Mahāsudassana And, he revealed that this king was none else but he himself

Then, Subhadda, a member of the other sect, approached Ānanda and expressed his eagerness to see the Buddha The Buddha happened to overhear his words He asked Ānanda not to check him, but to let him come He preached the Dhamma to him Thus, Subhadda was the last disciple converted and admitted in the Order himself by the Buddha, who became yet another among the Arahants

* * * * *

The Buddha addressed the Venerable Ānanda and said —“When I am gone, Ānanda, let the Doctrine and Discipline, which I have set forth and laid down for you all, be the Teacher to you Let the Order, if it should so wish, abolish the lesser and minor rules let the Order impose the High Penalty on Bhikkhu Channa let Channa say whatever he may like, but none should either speak to him, or exhort him, or admonish him”

And, the last word of the Buddha was— “All things are transitory Work out your salvation with diligence”

* * * * *

At the moment of his passing out of existence, there arose a mighty earthquake, terrible and awe-inspiring, and the thunders of heaven burst forth Then, the Bhikkhus who were not yet free from the passions, some

stretched out their arms and wept, and some fell headlong on the ground, rolling to and fro in anguish, saying :—"Too soon has the Lord died, too soon has he passed away, too soon has the Light gone out in the world !" But, those of them who had become Arahant bore their grief collected and composed at the thought—"Impermanent are all component things; how is it possible that they would not pass away ?"

Now, the Venerable Anuruddha and the Venerable Ānanda spent the rest of that night in religious discourse.

The Mallas of Kusinārā took the perfumes and garlands, and all the musical instruments, and five hundred suits of apparel, and went to the Upavattana, to the Sāla Grove of the Mallas, where the body of the Buddha lay. There they passed the day in paying honour, reverence, respect and homage to the remains of the Buddha with dancing and hymns, and music, and with garlands and perfumes, and preparing decoration-wreaths to hang thereon.

They carried the body by the north to the north of the city; and entering the city by the north gate they carried it through the midst of the city into the midst thereof; and going out again by the eastern gate they carried it to their shrine, called Makutabandhana Cetiya; and there, to the east of the city, they laid the body down. Then, they wrapped the body in a new cloth, then they wrapped it in carded cotton wool, then again they wrapped it in a new cloth and again in carded cotton wool ... and so on in five hundred layers. And, then they placed the body in an oil vessel of iron, and covered that with another. And then they built a funeral pyre of all kinds of perfumes, and they placed the body upon it.

And that time the Venerable Mahā Kassapa was coming to Kusinārā from Pāvā. A naked ascetic showed him the Mandārava flower that he had picked up at Kusinārā and gave him the information of the great functions that were being held there at the cremation of the body of the Buddha.

On that, of those of the Bhikkhus who were not yet free from the passions, some stretched out their arms and wept, and some fell headlong on the ground, and some reeled to and fro in anguish. Now, at that time, a Bhikkhu named Subhadda, who had been received into the Order in his old age, was seated in that company. He spoke out:—"Enough sirs ! weep not, neither lament; we are well rid of the Great Samana. We used to be annoyed by being told—"This beseems you, this beseems you not." But now we shall be able to do whatever we like; and what we do not like, that we shall not have to do !"

As the Venerable Mahā Kassapa and his assembly came up to the pyre and paid their homage to the Teacher, it caught fire itself. When it was all burnt up, there came down streams of water from the sky and extinguished the pyre. The Mallas of Kusinārā also brought water scented with all kinds of perfumes and extinguished the pyre.

Then, king Ajātasattu of Magadha, the Licchavis of Vesālī, the Sākiyas of Kapilavatthu, the Bulis of Allakappa, the Koliyas of Rāmagāma, the Brāhmaṇa of Vethadipa and the Mallas of Pāvā, all of them put their claim to a share in the sacred relics of the Tathāgata. Then, a wise Brāhmaṇa, Dona, divided the relics equally into eight parts, with fair division, and gave one to each of the claimants. The Brāhmaṇa got the vessel for himself in which the relics were kept. The Mauriyas of Pipphalivana came late to claim for a share. As nothing of it was left out, they took away only embers of the pyre.

(4) Mahā Sudassana Sutta

The Buddha was staying at Kusinārā, in the Upavattana, the Sāla Grove of the Mallas, between the Twin Sāla trees at the time of his death. The Venerable Ānanda said to him : "Let not the Lord die in this little wattle-and-daub town, in the midst of the jungle, in this branch township. For, Lord, there are other great cities, such as, Campā, Rājagaha, Sāvattihī, Sāketa, Kosambī and Vārānaśī. Let the Lord die in one of them. There, there are many wealthy nobles and Brāhmaṇas, who will pay due honour to the remains of the Tathāgata."

The Buddha forbade Ānanda to think like this; for, he said, it was at this very place that long long ago there had flourished a very prosperous Capital city of the Cakkavatti king, Mahāsudassana. And, he further revealed that this king was none else but he himself in one of his previous births.

The royal city Kusāvati was surrounded by seven ramparts; and was surrounded by seven rows of palm trees, of gold and precious stones.

When, on the Upoatha full moon day, the king had purified himself and had gone on the uppermost floor of his palace, there appeared to him the heavenly Cakka Ratana, with its nave, its tire, and all its thousand spokes complete. Then, he rose from his seat, and reverently held a pitcher in his left hand, and with his right hand he sprinkled water on the Wheel. Then the wondrous wheel rolled onwards towards the region of the East. Then, all the rival kings in the region of the East came to him and said :— "Come,

O Mighty king ! Welcome O Great king ! All is thine, O Great king !
Do thou, O Great king, be a Teacher to us !”

King Mahā Sudassana spoke — “Ye shall slay no living thing Ye shall not take that which has not been given Ye shall not commit adultery Ye shall speak no lie Ye shall take no intoxicants” Then, all the rival kings in that region became loyal subjects unto the Great king

Then, the wondrous Wheel plunged down into the great waters in the East and rose up out again and rolled onward to the region of the south of the west of the North all the rival kings in that region became loyal subjects unto the Great king

The wondrous Wheel went forth conquering over the whole earth to its very ocean boundary, and it returned back again to the royal city of Kusāvati and remained fixed on the open terrace as a glorious adornment to his inner apartments

Further, there appeared to the Great king the *Hatthi Ratana*, Elephant Treasure, all white, wonderful in power the *Asa Ratana*, Horse Treasure, all white, with a crowblack head, and a dark mane, wonderful in power, flying through the sky the *Mani Ratana*, the Gem Treasure, bright, with eight facets, excellently wrought, clear, transparent, perfect in every way the *Itthi Ratana*, Woman Treasure, graceful in figure, charming in manner and of the most fine complexion, surpassing human beauty the *Gahapati Ratana*, wonderful Treasurer, possessed of a marvellous power of vision by which he could discover treasure far and near *Parinajaka Ratana*, the Wonderful Adviser, learned, clever, and wise, and capable of leading the king to undertake what he ought to undertake These were the seven Ratanas that had appeared to the Cakkavatti king, Maha Sudassana

Sakkā, the king of the gods, ordered the Heavenly Builder, Vissakammā, to create a mansion for the Great King, a league in length on the east and on the west, and half a league in breadth on the north and on the south

The Buddha addressed Ānanda and said — “See, Ānanda, how all these things are now past, are ended, have vanished away Thus impermanent, Ānanda, are component things, thus transitory, Ānanda, are component things, thus untrustworthy, Ānanda, are component things”

(5) Janavasabha Sutta

The Buddha was staying at Nādikā At that time he was wont to make declarations as to the rebirths of such followers of the Doctrine as had passed

away round about—among the Kāsīs and Kosalans, the Vijjis and Pañcālas, the Macchas and Saurasenas, saying :— “Such a one has been reborn there, and such an one there.”

They requested the Buddha to make a similar declaration about the rebirths of the followers of the Doctrine in Magadha. Then, in the evening, the Buddha, arising from his meditation, went out and sat down on a mat spread in the shade behind the building. There, he narrated to Ānanda how an invisible spirit, Janavasabha, had made himself heard saying:—“I am Janavasabha, O Lord,” who was none else but king Bimbisāra. He had already become a Sotāpanna, and was going to attain to the stage of Sakadīgāmi. The spirit communicated to the Buddha how Brahmā Sanañkumāra had made his appearance amongst the Tāvātimsa gods; and, rising up into the air he sat down crosslegged in the sky, and preached them the glory of the Tathāgata and his Doctrine. He submitted an account of the laes of Magadhan disciples who, after their death, were born in the higher realms and had attained to the stages of sainthood.

The Venerable Ānanda heard all these from the Buddha, and communicated the same to the disciples, male and female, monks and lay.

(6) Mahā Govinda Sutta

The Buddha was staying at Rājagaha on the Gijjhakūta Hill. Then, at night, the fairy musician Pañcasikha Gandhabbaputta appeared before him and offered him his salutation and, taking permission from him, narrated the following experience of his at the assembly of the Tāvātimsa gods—

A vast celestial company was seated round about, and at the four quarters of the firmament sat the four Mahārājā gods - Dhatarattha, lord of the East; Virūlhaka, lord of the South; Virūpākkha, lord of the West; and Vessavana, lord of the North. The gods, who were born in the Tāvātimsa Heaven as a result of the merits they had earned by leading the holy life under the Tathāgata, outshone others in radiance, beauty and glory. There, Sakka, the king of the gods, addressed a discourse to them on the eight eminent glories of the Tathāgata, the unique excellence of his. Some of the gods said:— “How nice it would have been if more Tathāgatas were born in the world !” Sakka told them that it was impossible for more than one Buddha to arise in the same period.

Then, from out of the North came forth a splendid light, and a radiance shone around. Then, Sakka addressed the gods :—"According to the sign now seen, the light that ariseth, the radiance that appeareth—will Brahmā now be made manifest." Therefore, they all sat in silence with folded hands and crosslegged awaiting the appearance of Brahmā. Soon after, Brahmā approached the assembly, and, while invisible, recited stanzas in praise of the Tathāgata. Then, the Brahmā appeared before them seated in the sky and narrated to them the story of Mahāgovinda, the wise Brāhmana :—

Once upon a time, there was a king named Disampati. His minister was a Brāhmana named Govinda. The king had a son named Renu; and the minister had a son named Jotipāla. These two were intimate friends of other six young princes.

After the minister Govinda had died, his son Jotipāla was appointed on his post; and, after the death of Disampati, the prince Renu was anointed on the throne. Renu got the kingdom divided equally amongst his friends.

Later on, Jotipāla took leave from his administrative duties and devoted himself to the practice of Brahmavihāra. He renounced home and adopted the life of a monk. He became a great saint. He had a very big assembly of disciples. After their death, according to their respective achievements, they were born in different planes of heavenly existence. Even they who accomplished the lowest realm of all attained the realm of the Gandharva fairies.

This story being told, the Buddha revealed that he remembered all those incidents; for, it was he himself who was the Brāhmana Minister at that time.

(7) Mahā Samaya Sutta

The Buddha was dwelling among the Sākiyas, at Kapilavatthu, in the Mahāvana, with a great assembly of five hundred monks, all Arahants. And, gods from the ten thousand world systems had gathered there to visit the Buddha and the Brotherhood. Four gods of the Suddhāvāsa heaven approached the place and each recited a stanza before him.

The Buddha addressed the monks and gave them the names of gods who had assembled there on that occasion. They were — Yakkhas, Vessāmitta, Kumbhera, king Dhatarattha, Gandhabbas, Virūḷha, Kumbāṇḍas,

Virūpakkha, Nāgas, Kuvera, Māyā, Kutendu, Vetendu, Vitu, Vitucca, Candana, Rāmasettha, Kinnughandu, Nighandu, Panāda, Mātaḥ, Cittasena etc etc etc

(8) Sakka-pañha Sutta

The Buddha was staying in Magadha, to the east of Rājagaha, at a Brāhmana village named Ambasaṇḍā. There, he resided on the Vēdiya mountain to the north of the village, in Inda Sāla cave.

Then, Sakka, the king of the gods, surrounded by Tāvātimsa gods, and attended by Pañcasikha Gandhabbaputta, appeared there on the Vēdiya mountain, filling all round with a brilliant radiance. Then, Pañcasikha took his lyre and sang a song on it concerning the Awakened One and the Dhamma, the Arhants and love, and, the Buddha was pleased to hear it. Sakka and all of the other gods entered the cave and paid their homage to the Buddha. Having obtained his permission, Sakka put his question —

“By what fetters, Sir, are men and gods bound in that they, wishing very much to be free from these, do nevertheless live in enmity, hating, injuring, hostile and malign ?”

Buddha—“By the fetters of envy and selfishness are they bound in that they, wishing very much to be free from these, do nevertheless live in enmity, hating, injuring, hostile and malign.”

Sakka—“But envy and selfishness, Sir, what is the source thereof, the cause thereof ? What gives birth to them ? How do they come to be ?”

Buddha—“Things as dear and not dear to us, Ruler of gods, this is the source and cause of envy and selfishness, this is what gives birth to them, this is how they come to be.”

Sakka—“But, what, Sir, is the cause of things being dear and not dear, what gives birth to these feelings, how do they come to be ?”

Buddha—“Desire, Ruler of gods, is the cause of things being dear or not dear. If desire be present, things become dear and not dear to us.”

Sakka—“But desire, Sir, — what is the source and cause of that ?”

Buddha—“Flights of thoughts, Ruler of gods — this is the source, this is the cause of desire.”

Sakka—"But what, Sir, is the source and cause of the flights thoughts?"

Buddha—"The source, Ruler of gods, and the cause of our flights thoughts is falling in the worldly complications."

The doubts of Sakka were removed; and he gained an insight into the Truth.

(9) *Mahā Satipaṭṭhāna Sutta*

The Buddha was staying at Kammāsadhamma, a city in the Ku country. He addressed thus to the Bhikkhus — This is the only Path of the purification of the beings, for rising above all misery and grief, for the liberation from all bondage, for the realisation of insight, to the attainment of Nibbāna; namely, the four Ways of Mindfulness.

The Bhikkhu goes into the forest, or to the roots of a tree, or to an empty chamber, and sits down crosslegged, holding the body erect, alert in mind, aware of the physical states.

He practises *Ānāpānasati*, being aware of his respiration. Mindful he inhales, mindful he exhales. While inhaling a long breath, he is aware that he is inhaling a long breath, while inhaling a short breath, he is aware that he is inhaling a short breath; while exhaling a long breath, he is aware that he is exhaling a long breath, while exhaling a short breath, he is aware that he is exhaling a short breath.

While he is walking, standing, sitting or lying down, he is aware of it.

He reflects upon this very body, from the soles of his feet below upward to the crown of his head, as full of impurities :— Here is in this body hair, stand down, nails, teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, kidney, heart membranes, spleen, lungs, stomach, bowels, intestines, excrement, bile phlegm, pus, blood, sweat, fat, tears, serum, saliva, mucus, synovial fluid and urine.

He reflects upon this very body with respect to its fundamentals :— there are in this body the four primary elements of earth, water, heat and air.

He reflects upon the dead bodies thrown in the cemetery, in the different stages of decomposing, and applies that perception to this very body of his own— this body, too, is even so constituted, is of even such a nature, cannot escape this state.

When the Bhikkhu is affected by feelings pleasurable, painful or neutral, he is aware of it.

When there arises a thought in him, of love, or hate, or dullness ... he is aware of it.

He is constantly aware of the nature of the Four obstacles (Nīvaraṇa), the five aggregates (Khandha), the Spheres of sense (Āyatana), the Four noble truths (Ariyasaccāni).

The Buddha said, :—"O Bhikkhus, who so shall thus practise these Four ways of Mindfulness for seven years is destined to be an Arhat, or atleast a Sakadāgāmi. Or, not to speak of seven years, who so shall thus practise these Four ways of Mindfulness for six years, for five only, for four only ... for one year only ... for one month only ... for seven days is destined to be an Arhat, or atleast a Sakadāgāmi.

(10) Pāyāsī Sutta

The Venerable Kumāra Kassapa was going on tour with a great company of Bhikkhus in Kosala country, and was staying at Setavyā, in the Simsapa Grove. At that time, the Chiefstain Pāyāsī was residing at the same City, who had fallen a victim to an erroneous view —"There is no life hereafter, nor there is a result of deeds, good or bad."

Pāyāsī approached Kumāra Kassapa and asserted that there is no life hereafter. He said that he had requested many friends and relatives of his, who were about to die, to send words to him after they had been born some where else, but none of them had ever complied with it.

With the help⁶ of similes, Kumār Kassapa explained that, if they had been evildoers and born in purgatory, they are not allowed by the Pit Keepers to come back to the world and tell you about themselves; or, if they had been good and noble and born in heaven, they themselves would loath to come to the foul realm of human beings.

Pāyāsī placed another argument to prove that there can be no life hereafter by saying that if the monks and Brāhmanas did actually believe in a better state of existence hereafter, they would have certainly committed suicide to expedite achievement of the same.

Venerable Kumāra Kassapa gave the simile of making an attempt to take out the child atonce by cutting open the stomach of the pregnant woman

and explained that the result of the deeds of a man cannot be realised by committing suicide

Pāyāsī gave an account of practical experiment that he had made to find out if there was any thing as life or soul in a man which leaves the body after he is dead. He got a man perfectly sealed in a jar, and when he knew that he was dead inside, he made a thin hole on it, and watched carefully, in vain, to see if any thing did actually emerge out through it

The Venerable Kumāra Kassapa explained that the individuality of a man consists in the process of thought, which could not be conceived in terms of physical limitation. In a dream one goes out to distant places without actually emerging out of the body

The last argument of Pāyāsī was that he had been holding and advocating this view since long and that he was so much attached to it that he found it difficult for him to shun it at that stage

The venerable Kassapa narrated the parable of friends gone out to earn money. They saw a heap of hemp thrown away. Then one said to the other — "Here is a heap of hemp. do you make some into a bundle, I'll do the same and we'll carry it away." The other consented, and they did so

Bearing this burden they went on to another village street. There they saw a heap of hempen cloths. And the one said to the other — "This heap of hempen cloths is just the thing we want hemp for. Well then, friend, do you throw away your load of hemp, I'll also throw away my load, and we'll also each take a load of hempen cloth." Then, other friend replied — "I have brought this load of hemp a long way, friend, and it is well tied up — that is enough for me. you choose for yourself." So the former changed his load for one of hempen cloth.

Then they came to another village street. There they saw a heap of flex, and to another where they saw linen cloth.

Venerable Kassapa said — "Even like the simile of the load of hemp, methinks, prince, is what you say. Renounce, Prince, this evil set of opinions, renounce them. Let them not be long a source of bale and sorrow to you."

Prince Pāyāsī was ultimately convinced of his error, and he accepted the discipleship of Venerable Kumāra Kassapa.

4 The Present Volume : Its importance

A glance at the list of these ten Suttas at once reveals that the importance of the present volume is principally different from that of the previous one

A major portion of the book is dedicated to the description of and to the events connected with gods, spirits and legendary accounts. And, these, as they do to a certain extent, of course, present materials valuable for historical and cultural studies

The first Sutta, the Mahāpadāna Sutta, gives detailed accounts of the lives of the six Buddhas previous to the historical one Siddhattha Gotama. Rhys Davids has rightly remarked — “So exactly do these legends follow one pattern that it has been possible, without the omission of any detail, to arrange them in parallel columns.” These descriptions, at least, serve the great purpose of bringing into relief the basic principle of Buddhism that the functioning of the Law is without a beginning in the temporal series. This may also be attributed to the general Indian tendency of trying to glorify a thing by proving it to be ancient in origin.

The fourth Sutta, the Mahāsudassana Sutta, is important not only as a piece of Buddhist mythology, but even as one that has, perhaps, a more ancient origin. The Sutta is obviously an expansion of the reference made about it in the previous one, the Mahaparimibbāna Sutta. The same legend recurs as the Mahāsudassana Jataka, No. 95 in Fausboll's edition, though differing in several important particulars. This has led scholars to presume that both of them might have been derived from a common older version of it. The long description of the riches and glory of Maha Sudassana resembles to the sun myth to a considerable degree, on the basis of which Rhys Davids writes —

“It must at once be admitted that whether the whole story is based on a sun story, or whether certain parts or details of it are derived from things first spoken about the sun, or not, it is still essentially Buddhistic. A large portion of its contents has nothing at all to do with the worship of the sun and even that which has, had not, in the mind of the author, when the book was put together. Whether indebted to a sun myth or not, it is therefore perfectly true and valid evidence of the religious belief of the people among whom it was current, and no more shows that the Buddhists were unconscious sun worshippers than the story of Samson, under any theory of its possible origin, would prove the same of the Jews.”

It is interesting to note that this view deserves collaboration with the fact that even now sun-worship forms a most integral element in the religious life of the present Magadha-Gaya and Patna—the original central home of Buddhism, inspite of the fact that the people have lost their Buddhist consciousness. The distinctive nature of this element is marked all the more when we see that sun-worshipping is almost unknown as soon as one crosses the boundary of this province.

Though the details given in this Sutta are legendary, they do enable one to judge as to what was then thought to be the greatest possible luxury and glory of the mightiest and most righteous king.

The fifth, the sixth, the seventh and the eighth Suttas—Mahā Govinda, Mahā Samaya, Sakkapañña and Janavasabha—represent a most important source for studies in the Buddhist conception of Indra, Brahmā and the different Buddhistised communities of gods, fairies and ethereal beings of varied character and radiance.

The Mahā Parinibbāna Sutta opens with a reference to the political tussle that was going on between Magadha and Vesālī, ideologically opposed to one another. It gives a graphic description of the occasion that led to the construction of the city of Pāṭaliputta on the bank of the Ganges. This long Sutta is a store of valuable material for studies in the history and culture of the period.

The Second Sutta, the Mahā Nidāna, explains the Law of Paṭiccasamuppāda, the very pivot on which rests the entire system of Buddhist philosophy.

The importance of the Mahāsatipaṭṭhāna Sutta, last but not the least, cannot be overestimated as a sermon on practical training in the seventh factor of the Noble Path, namely — *sammā sati*. For generations, this Sutta has been a source of inspiration and guidance to the many who have cared to listen to the teachings of the Buddha and have set their heart to the actual fulfilment of the Path — men and women, monks and laity.

5. The Present Edition

This presents a co-ordinated edition in Devanāgarī of the third volume of the Dīghanikāya, the Pāṭhikavagga, based on the following versions of the text :—Barnes -Chaitanyasāhityana publication, 1936; Sinhalese - edited

by Rev W Siri Nānavasa Thera, 1929, Sinhalese - Mahāmakuta Government publication, 1926, Roman - edited by J E Carpenter, P T S 1911

For preparing our MSS, we have adopted the Chattrasāṅgāyana edition as our basic text, an edition that has been brought out by the efforts and sanction of an international Sangha constituting of the zealous holders of the orthodox Theravāda tradition. Very often, we have agreed in selecting the readings and in paragraph-arrangement, but, we have broken new grounds by providing a system of headings and sub headings and adopting a method of punctuation, thereby making the text more useful for the modern reader.

(a) *Headings*

In the old fashioned books, no headings have been given in the beginning of a section. Instead, it is at the end that we have words like *muttham*. But, to the modern reader, this presents a difficulty in forming a complete picture of the Sutta as an organic unity. We have, therefore, ventured to provide headings, numbered and arranged, with the purpose of bringing to relief the order and sequence in the parts of the Sutta. As far as possible, the headings have been constructed with words picked up from the body of the text, the chief objective being to indicate at the outset what does the section contain. Our readers should note that they have been supplied by us and that they do not belong to the original text.

The principal headings have been printed in 16pt Mono Black and are numbered, with the article sign. Notable heads contained in it have also been printed in 16pt Mono Black, but have not been numbered. The sub headings have been serially numbered either in figures or in letters, and have been printed in 14pt Mono Black. Headings still subordinate to it have been numbered and printed in 12pt Mono Black. In the folio of odd pages, it is only the principal headings that have been mentioned, not the subordinate ones.

(b) *Selection of readings*

In selecting a reading for our text out of the variants available, philological consideration, no doubt, has been the chief consideration, but, at the same time, we have not lost sight of the importance of the historical usage. When different forms are both grammatically correct and current in use, we have put one in the text and mentioned the others in the foot notes. In such cases, selection of one form does not mean the rejection of others.

(c) Punctuation marks

Originally, no punctuation marks were used in Pali, except, perhaps, one for full stop. The Siamese edition has followed the same tradition. But as the syntax of Pali is, at times, so very difficult and complicated, the use of the modern marks of punctuation is decidedly advantageous in making out the meaning explicit and in bringing out clearly the interconnections between the different constituent clauses and phrases, which, in their absence, would have remained obscure, if not misleading. We have, therefore, used all the modern marks freely, not in a mechanically rigid manner, but, only with a view to facilitating the correct understanding of the sentences. And in this, we have tried to be systematic and consistent.

The following marks have been used — full stop of Devanagarī (.), comma (,), colon (:), semicolon (;), note of interrogation (?), note of interjection (!), hyphen (-), dash (—), double inverted commas (" "), and single inverted commas (‘ ’).

In the first volume of this series, the Mahavagga, we used inverted commas to denote a reported speech only where it was preceded by a reporting verb. But, now, we have decided to use them even where the reporting verb has not been mentioned. The quotation of a principal reported speech has been indicated by the use of double inverted commas, whether preceded by a reporting verb or not, the quotation of a subordinate speech, contained in it, has been indicated by the use of single inverted commas, and, the quotation of speech or speeches contained even in that has been indicated not by inverted commas but simply by the use of a dash after its reporting verb. Fresh paragraphs occurring in the principal reported speech have been opened with double inverted commas, and, those occurring in the subordinate speech have been opened with single inverted commas.

(d) Abbreviations

In the foot note, the abbreviation रो• stands for the Roman edition, सि• stands for the Sinhalese edition, स्या• for the Siamese edition and म• for the Burmese edition.

In the margin, the abbreviation 'R' stands for the Roman, and 'B' for the Burmese editions. They indicate that the page number put by its side begins from that line. Reference to the page numbers of the Roman edition will facilitate the use of the P. T. S. Pali-English Dictionary, as well as other

modern publicat'ons in or on Pali, in which references are made to the books of the Roman edition.

(e) *Corner-references*

On odd pages of the book, the corner numbers refer to the Sutta, the principal heading and the paragraph occurring at the end of the page; and on even pages they refer to those occurring at the beginning of the page.

(f) *Spelling*

About the mode of our spelling, it is necessary to note that we have generally treated the indeclinable particles *va*, *pi* and *ti* as independent words, as the initial vowels of *eva*, *api* and *iti* are very often dropped in Pali.

The Parasavarṇa combination has essentially been made when occurring in the same word, as—*Saṅgha*, *Kiṅci*, *Pañca* etc. At other places, this combination has been generally avoided as - *evaṃ pi*, *kammaṃ ti* etc. But, to show that the other forms are also grammatically valid, we have, on occasions, used this form also—*evampi*, *kammanti* etc.

Some western editors have accepted the same method of spelling; but, in cases where 'ti' is preceded by 'i' or 'pi' by 'a' they have applied the Sanskrit rule of sandhi—*akāḥ savarṇe dīrghah;* and have spelt the indeclinable particles together with the preceding words; as, *desestī* and *tassāpi*. But, in such cases also, we have spelt them separately as - *desesī ti* and *tassā pi*. The lengthening of the preceding vowels before *ti* and *pi* may well be explained by the rule—*Byañjane dīgharassā* (Moggalāna 1.33), which allows lengthening of a short vowel, if it precedes a consonant; as *in-munī+care*=*munī care*; *Khantī+paramam*=*Khantī paramam*, *Gotama+t.*=*Gotamā ti*, *Hoti+t.*=*Hotī ti*.

* *

* *

* *

The printing of the first two volumes of the series—*Mahāvagga* and *Cullavagga* — is almost complete, and we are taking steps to get their copies released for general distribution.

As a matter of course, we should have next taken up the remaining three volumes of *Vinaya Piṭaka* — *Pācittiya*, *Pārājika* and *Parivāra*, the final press-copies of which has been ready since long. But, we found it more suitable to give precedence to the printing of the three volumes of the *Dīgha Nikāya*.

Due to unavailability of paper, actual printing was started as late as by the end of February '58. And it is only in a period of about two months that the printing of these volumes has been completed.

The batch of our staff posted at the press for reading proofs — consisting of an editor, Shri L. N. Tiwari, M. A., and two assistant editors, Shri Birbal Sharma, M. A. and Shri Shyamdeo Dubedi, M. A. — had to work very hard day and night, to bring out these three volumes in such a short time

Dr. A. K. Narain, M. A. Ph. D., of the Banaras Hindu University has prepared the final press-copy of this Introduction and has also seen it through the press. My best thanks are due to him for the same.

We thank the proprietor and the staff of the Vidya Mandir Press (Private) Ltd., Varanasi, for their promptness and willing co-operation which made it possible to print these volumes in time.

Bhikkhu J. Kashyap.

आमुख

१. पालि तिपिटक

कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात् उनसे शिष्यगण एकत्रित हो अपनी-अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर रहे थे। उस समय सङ्घनायक आयुष्मान् 'महाकस्सप' सभी को सान्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला रहे थे—“सभी वस्तुयें अनित्य हैं और उनमें वियोग होना अवश्यम्भावी है”। उस परिपद् में 'सुभद्' नामक एक बुद्ध प्रव्रजित भिक्षु भी था, जो दुःखी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा था—“भिक्षुओं, दुःखी मत हो। अब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये। वह बराबर कहता रहता था—“यह करना तुम्हें विहित है और यह नहीं। अब हम स्वैच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। अतः आप लोग दुःखी न हों”। 'सुभद्' के इन शब्दों से चंतावनी सी मिली और आयुष्मान् 'महाकस्सप' ने इन शिष्यगणों का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का आयोजन हो, जिसमें बुद्ध-वचन का प्रामाणिक संग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हो सके और आगामी पीढ़ियों में उसकी परम्परा अबाध-गति से चल सके। अतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया—“आवुसो, हम लोग 'धम्म' और 'विनय' का सङ्ग-यन करें”। उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की। पहले तो उन्होंने आयुष्मान् आनन्द का नाम उनमें सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि तब तक वे अर्हत्-पद की प्राप्ति न कर सके थे। परन्तु सम्पूर्ण सङ्घ में भगवान् के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सीमायुक्त आयुष्मान् आनन्द के अतिरिक्त और किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। अतः अन्त में आयुष्मान् 'महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित करना पड़ा। आयुष्मान् आनन्द भी पूरी श्रद्धा और कीर्ति से ध्यानारम्भ में तल्लीन हो गये, जिससे वे बैठक की तिथि के पूर्व ही अर्हत्-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सके।

तत्कालीन मगध-सम्राट् अजातशत्रु ने राजगृह के 'वेभार' पर्वत के उत्तर-पार्श्व में स्थित 'सप्तपर्णी' गुहा व द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुगणों की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई।

उत्तर आयुष्मान् आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-नाम हुआ। सारी रात वे ध्यानमग्न हो चक्रक्रमण करते रहे। प्रातः काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे, उनके पैर भूमि से उठ चुके थे और उनका सिर सक्रिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका अज्ञानाधिकार नष्ट हो गया और उनमें परम ज्ञान की ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने अर्हत्-पद की प्राप्ति कर ली। अपनी दिव्य शक्ति से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप में अपने लिये निर्धारित आसन पर ऐसे विराजमान हुए माना वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हो।

सङ्घ की प्रभुमति लेकर आयुष्मान् 'महानस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पूछे और आयुष्मान् उपालि ने भी सङ्घ को उन प्रश्नों का सन्निस्तार उत्तर दिया। फिर उसी प्रकार आयुष्मान् 'महाकस्सप' ने आनन्द से भावान् बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्न किये, जिनका उन्होंने पूर्णरूपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें 'विनय' और 'धम्म' दोनों का संग्रह किया गया। पर इन सङ्गीति के कई शताब्दी पश्चात् लिखे गये 'अद्रुकुपा-साहित्य' में यह उल्लेख मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही 'अभियममपिटक' का भी संग्रह हो गया था और जिस रूप में आज हमें 'तिपिटक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उतना उसी समय निर्माण हुआ था।

बुद्ध निर्वाण के एक शताब्दी पश्चात् विनय के नियम को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिम पर निर्णय करने के लिये वैशाखी में एक दूसरी बैठक बुलाई गई। इसमें देश के सुदूर प्रांता के चुने हुये विख्यात सात सौ भिक्षु सम्मिलित हुये। इसी कारण यह द्वितीय सङ्घीति 'सप्तशतिका' नाम से प्रसिद्ध है।

इसके एक सौ वर्ष बाद जब सम्राट् अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया और उसके प्रचार को राज्याध्यय प्राप्त हुआ, तब लाभ देखकर अन्य मतावलम्बी नी बौद्ध-विहारों की और आकृष्ट हुये। विविध प्रव्रज्या ग्रहण करके अथवा चुपचाप ही घले वस्त्र धारण कर के अपने को बौद्ध-भिक्षु घोषित करके विहारों में रहने लगे। किन्तु उनके लिये अपने पुराने सत्कार और विचार छोड़ना सरल नहीं था। अत उन्होंने अपनी-अपनी तरह से धर्म की उलट-पलट व्याख्या करनी प्रारम्भ कर दी। फलत भिक्षु-सङ्घ के बौद्धिक जीवन में एक उच्छ्वलता प्रकट हुई और धर्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करना बर्झिन हो गया। धर्म के नायक स्वविर भिक्षुओं ने धर्म की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के लिये तथा उसे विरोधी तत्वों से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सङ्घीति की आवश्यकता समझी। सम्राट अशोक के गुरु आयुष्मान् 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के असोकायम नामक विहार में इस सङ्घीति की बैठक हुई। आयुष्मान् 'तिस्स' ने अशुद्ध भूतों का सण्डन करते हुए और मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 'स्वविरवाद' नामक धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'व्यावत्यु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सङ्घ ने तीसरी सङ्घीति में बुद्ध-वचन का ही गौरव प्रदान किया। आज भी यह 'तिपिटक-साहित्य' वा एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है। इस सङ्घीति के पश्चात् अशोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निमित्त धर्मभूतोंको भेजा।

राजकुमार 'महिन्द' और राजकुमारी 'सङ्घमिता' ने गृहत्याग पर भिक्षु-सङ्घ में प्रव्रज्या ग्रहण की। उन लोगों ने दक्षिण में सुदूर सङ्घाद्वीप की यात्रा की और वहाँ वे धर्म की स्थापना करने में सफल हुये। आज तक बौद्ध 'पालि-तिपिटक' की परम्परा सङ्घा में अनुप्राणित हो रही है।

ईसा पूर्व २६ में राजा 'वट्टगामिनी अशय' के सन्निधान में एक चौथी सङ्घीति की बैठक हुई, जिसमें सम्पूर्ण 'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया। फिर स्वविरवाद की मान्यता के अनुसार वर्मा देश के माण्डले नामक नगर में १८७१ ई० में राजा मिण्डन के सन्निधान में पाँचवीं सङ्घीति वा आयोजन हुआ, जिसमें सारे तिपिटक वा सशेषन और मम्मदान किया गया और उन्हें सङ्घमन्त्र की पट्टियों पर इस प्रकार उल्लिखित कर दिया गया -

विनय	१११ पट्टियाँ
सुत	४१० पट्टियाँ
अभिधम्म	२०८ पट्टियाँ

लोग इस आश्चर्यचकित बन चुके थे कि अथवा सु। में आयुष्मान् यथा पर 'तिपिटक' वा सुदूर ने सुदूर मुद्रित सन्निधान प्रकाशित किया जाय। वर्मा में होने वाले 'सुद्ध-सङ्घातन' में इस प्रकार की पूर्ण करने का निश्चय किया गया। राजधानी रंगून में बुद्ध की दूर सुदूर तिपिट पायाग-गुहा में १७ मई १६५४ को गङ्गाया की बैठक प्रारम्भ हुई। भारत के सिन्धु देश से आयात कर शार्द गद्दस विद्वान् भिक्षुओं ने गङ्गाया में भाग लिया। गङ्गाया शारदश्रीमन्त मूत्र 'तिपिटक' को यहाँ अपने मुद्रण-यंत्र में मुद्रित कर लिया गया। १६५६ ई० की वर्षा-मौसी बुद्ध-वचनों के दिन गङ्गाया की बैठक पूर्ण हुई।

सङ्घा, वर्मा, शार्दश्रीमन्त शारि में गङ्गुयमं बौद्ध-परिवार है जिसका वर्तमान रूप है — 'पालि-तिपिटक'। उन देशों में उनकी अपनी अपनी तिपिटकों में अथवा-अथवा पर 'तिपिटक' के सुदूर ग सुदूर

संस्करण प्रकाशित होते रहे हैं। लन्दन की 'पालि टेक्स्ट सोसायटी' ने भी 'तिपिटक' के अधिप्राय या प्रवक्तान रोमा लिपि में किया है। किन्तु अभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अभूल्य साहित्य उपलब्ध नहीं है।

इस अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के समुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण 'पालि तिपिटक' को देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई। प्रायः चार-चार सौ पृष्ठी वाले चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा। इसे पूर्ण करने का भार नालन्दा के 'देवनागरी तिपिटक प्रकाशन विभाग' को सौंपा गया है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिंहली, बर्मी तथा स्वामी लिपियों में मुद्रित ग्रन्थों के आधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है।

'तिपिटक' के ग्रन्थों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा —

तिपिटक		
विनयपिटक	सुत्तपिटक	अभिधम्मपिटक
१ महावग्ग	१ दीघनिकाय	१ धम्मसङ्गणि
२ चुल्लवग्ग	२ मज्झिमनिकाय	२ विभङ्ग
३ पाचिसिय	३ सयुवतनिकाय	३ धातुकथा
४ पाराजिक	४ अट्ठ मुत्तरनिकाय	४ पुग्गलपञ्जाति
५ परिवार	५ खुद्कनिकाय	५ कथावत्यु
	(१) खुद्कपाठ	६ यमक
	(२) धम्मपद	७ पट्टान
	(३) उदान	
	(४) इतिवुत्तक	
	(५) सुत्तनिपात	
	(६) विमानवत्थु	
	(७) पेतवत्थु	
	(८) धेरमाया	
	(९) धेरीमाया	
	(१०) जातक	
	(११) निद्देश	
	(१२) पटिसम्भिदामग्ग	
	(१३) अणदान	
	(१४) बुद्धवज	
	(१५) चरियापिटक	

२. प्रस्तुत ग्रन्थ तिपिटक में इसका स्थान

बुद्ध-वचन के जो तीन मुख्य भाग हैं, उन्हीं को 'तिपिटक' (तीन पिटाठी) कहते हैं। उनके विषय और शैली एक दूसरे से भिन्न हैं। निशु-सङ्घ के निर्माणसम्बन्धी विवरण तथा अनुशासनसम्बन्धी नियम 'विनयपिटक' में समूहित हैं। बुद्ध द्वारा भिन्न भिन्न स्तर के लोगों को दिये गये उपदेशों का सङ्कलन 'सुत्तपिटक' में है और पारिभाषिक शब्दों में उपदिष्ट गम्भीर धर्मदर्शन का विवेचन 'अभिधम्मपिटक' में है।

दोषनिकाय में ३४ लम्बे-लम्बे 'सुत्त' हैं, जो तीन खण्डों में विभक्त हैं—लीलखलन्धवग्ग, महावग्ग, और पायिकवग्ग ।

प्रस्तुत ग्रन्थ इसी दूसरे खण्ड 'महावग्ग' का देवनागरी-संस्करण है । इस नाम से 'विनयपिटक' के इसी नाम के पहले ग्रन्थ का प्रायः भ्रम हो जाता है । अतः इस भ्रम के निवारणार्थ प्रस्तुत ग्रन्थ को 'दोषनिकाय महावग्गो' और दूसरे को 'विनयपिटके महावग्गो' कहा जा सकता है । प्रस्तुत खण्ड के दस 'सुत्तो' में से सात 'सुत्तो' के नाम के आगे 'महा' शब्द लगा है । इसलिये इस खण्ड को 'महावग्ग' की सज्ञा प्रदान की गई है । 'महापरिनिब्बान-सुत्त' नामक तीसरा 'सुत्त' बुद्ध के अन्तिम दिनों और समय का अत्यन्त मानिक एवं प्रेरणादायक विवरण उपस्थित करता है । इसीलिये बौद्ध देशों में अध्ययन एवं नित्य-पाठ की दृष्टि से इसका अला से एक स्वतन्त्र पुस्तक के रूप में प्रकाशन हुआ है । स्वयिरवाद तथा महायान परम्पराओं में इस 'सुत्त' के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं ।

इस खण्ड का नवम 'सुत्त' 'महासतिपट्टान-सुत्त' है, जिसमें आत्म-नयन की सम्पूर्ण विधियों का विधान है । समाधि-भावना तथा नित्य-पाठ के लिये सम्पूर्ण बुद्ध-बचन में इसका अपना एक निजी एवं वैयक्तिक महत्त्व है । प्रह्लादु शिष्यों ने इस 'सुत्त' के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये इसे बहुमूल्य रत्नजटित स्वर्ण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण कराकर स्तूपों में रख छोड़ा है ।

३ प्रस्तुत ग्रन्थ : एक रूपरेखा

(१) महापवान-सुत्त

बुद्ध जेतवन विहार की 'करेरी कुटी' में ठहरे हुये थे । वहाँ भिक्षुओं की प्रार्थना पर बुद्ध ने उनको पूर्व जन्म की स्मृति के विषय में उपदेश दिया । उन्होंने पूर्व-प्रादुर्भूत बुद्धों का नाम, कुल, जन्म-स्थान, बोधिवृक्ष तथा उनके दो प्रवात श्रावकों और जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक बतलाये ।

तत्पश्चात् उन्होंने सम्पूर्ण सम्बुद्ध 'विपस्सी' की जन्म से लेकर महापरिनिर्वाण तक की सम्पूर्ण जीवन-व्याप्त्युत्तरे हुए चतुस्र्याय वि सभ्यी बुद्धों के जीवन की विशेष बातें समान होती हैं । बुद्धों के जीवन की यह समानता 'धम्मता' कहा जाती है । इस प्रकार जब बोधिसत्त्व माता की कोप में प्रविष्ट होते हैं तब इस लोभ में देव-लोक से भी अधिक् प्रकाशवान एक अलौकिक दिव्य-आभा प्रकट होती है । बोधिसत्त्व की माता प्रवृत्ति से ही शीलवती तथा सभ्यी प्रकार के ऐश्वर्यों से सम्पन्न होती है । उनके जन्म ग्रहण करने के एक सप्ताह परचा उनको माता शरीर त्याग कर 'सुपित-देवलीक' में उत्पन्न होती है । जब वे जन्म ग्रहण करते हैं, तब सर्वप्रथम उन्हें देवता लो। लेने हैं और तब मनुष्य । वे जब माता की कोप से निकलते हैं, तब वे बिल्कुल निर्मल, अशुचियों से प्रविष्ट और बिसद होते हैं; जिनकी उपमा कानी के रेशमों वस्त्र में रकते हुये मणि-रत्न में दा जा सक्ती है । उनके जन्म ग्रहण करने पर आवाश से दा नील और उज्ज्वल जलवासायें गिरती हैं, जिसे बोधिसत्त्व और उनकी माता वा उदक-गुरुय हुआ है । वे उत्पन्न होते ही समान परी पर रखे हो उत्तर की ओर मुंह करी तात पग चलते हैं तथा सभ्यी दिगामों को देख कर इग श्रेष्ठ यथा की प्रोपित करते हैं—'इग लोक में मैं श्रेष्ठ हूँ । इग लोक में मैं श्रेष्ठ हूँ । इत लोक में मैं मनने श्रेष्ठ हूँ । इत भेरा सन्तिग जन्म है । धर भेरा पुनः जन्म नहीं होगा' ।

'विपस्सी' के जन्म लेने के पश्चात् उनको पिता राजा वन्नुमान ने ज्योतिष-शास्त्र में पारंगत ब्राह्मणों को बुला-कर बुभार वा भविष्य पूछा । उन्होंने राजा वन्नुमान के पूछने पर बताया कि क्षाणिक पुत्र बड़ा भाग्यशाली है । बुभार महापुत्रा के कर्त्तव्य लक्षणां से मुझ हूँ जिनके मुत्र महापुत्रण की दो ही लक्षणां होती हैं—यदि क्त पर में रक्षा है तो धार्मिक शान्ति स्थापित करने वाला गात्र रत्ना में मुत्रा शत्रुर्त्तौ राजा होता है और यदि गृह त्यागकर प्रश्रित होता है तो सगर के धाचरण को हटाने वाला सम्पूर्ण सम्बुद्ध भर्त्तु होता है । राजा ने बुभार के वार्त्त, निगिर और प्रीम निवार के निचे पीत शम्भार विनिग कराये । एग दिन बुभार न्य पर बुभार नगर-भ्रमण-हेतु निकले । मार्ग में उन्होंने एक मत्त-वीथन पूछ को टेड़े बण्ड वा गट्टार से, बान्ने हुये जाते देगा ।

अन्य श्रवणों पर उन्होंने एक व्याधि-ग्रस्त मनुष्य को तथा उनके बाद अन्वेषण-क्रिया के लिये अर्थी पर ले जाये जाने वाले मृत व्यक्ति को देखा । इन दृश्यों के माध्यम से जीवन की वास्तविकता देख राजकुमार जीवन के सम्बन्ध में चिन्तन करने लगे ।

इसी प्रकार एक अन्य श्रवण पर भ्रमणार्थ जाते हुए राजकुमार ने एक मुण्डित वापाय-वस्त्रधारी प्रव्रजित को देखा, जिसने उन्हें बतलाया कि उसने ससार के कष्टों और दुःखों को देख शान्ति और निर्वाण प्राप्त करने के लिये प्रव्रज्या ग्रहण की है । तब परम सत्य के अन्वेषण के लिये कुमार 'विपस्ती' ने राज-प्रासाद से अपना महाभिनिष्क्रमण किया और प्रव्रजित हो गये । अपेक्षित प्रयत्न तथा समाधि से उन्हें भय-चक्र के प्रत्ययो में अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई । उनका अन्धकार सदा के लिये विनष्ट हो गया, 'बोध' की प्राप्ति हुई और वे सम्यक् समुद्ध हो गये । तब महाब्रह्मा ने उनके सामने प्रकट होकर इस दु खी ससार पर कृपा कर अपने 'धम्म' को बतलाने और इस प्रकार ससार के प्राणियों को निर्वाण-मार्ग की ओर प्रवृत्त कराने के लिये उनसे कहा ।

उनके 'खण्ड' और 'तिसस' नामक दो अग्र-श्रावक हुए । इसके पश्चात् बन्धुमनी नगरी के चौपसी सत्सु निवासी भी उनके शिष्य हुए । सुदूर प्रदेश तक भगवान् 'विपस्ती' के धर्म का प्रसार हुआ । उन्होंने सत्सु में अनुशासन को चिरस्थायी बनाने के लिये 'मात्सिमोख' तथा तत्सम्बन्धी अन्य विधानों की देवना की ।

(२) महानिदान-सुत्त

बुद्ध कुहदेश के 'कम्मास-दम्म' नामक नगर में विहार कर रहे थे । वहाँ उन्होंने आयुष्मान् आनन्द को 'पटिच्च-समुप्पाद' पर उपदेश दिया —

जरा-मरण जाति पर, जाति भव पर, भव उपादान पर, उपादान तृष्णा पर, तृष्णा वेदना पर, वेदना-स्पर्श पर, स्पर्श नाम-रूप पर, नाम-रूप विज्ञान पर, और विज्ञान नाम-रूप पर आधा रित है ।

बुद्ध ने इसी श्रृङ्खला की प्रत्येक कड़ी को और स्पष्ट रूप से समझाते हुये कहा—“यदि जाति न हो तो जरा-मरण न रहे, यदि भव न हो तो जाति न रहे । यदि उपादान न हो तो भव न रहे; यदि तृष्णा न हो तो उपादान न रहे । यदि वेदना न हो तो तृष्णा न रहे, यदि स्पर्श न हो तो वेदना न रहे । यदि नाम-रूप न हो तो स्पर्श न रहे; यदि विज्ञान न हो तो नाम-रूप न रहे और यदि नाम-रूप न हो तो विज्ञान न रहे” ।

भगवान् बुद्ध ने नित्य तथा कूटस्थ आत्मा की स्थिति के विषय में प्रचलित विभिन्न मतों के विषय में अपना विचार प्रस्तुत करते हुये यह व्यक्त किया कि इस 'पटिच्च-समुप्पाद' के सिद्धान्त को न जानने से ही इस प्रकार की दृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं ।

(३) महापरिनिव्वान-सुत्त

बुद्ध राजगृह के 'गिज्जकूट' पर्वत पर विहार कर रहे थे । मगध-महामात्य दसमवार ब्राह्मण ने भगवान् बुद्ध के पास जाकर उन्हें बतलाया कि सम्राट् अजातशत्रु वज्जियों को उच्छिन्न करने के लिये जा पर आक्रमण करने जा रहा है । तब बुद्ध ने 'वस्सकार' से कहा कि जब तक वज्जियों में निम्नलिखित सात गुण विद्यमान होंगे, तब तक उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता— सम्मति के लिये अपनी सभा में एकाग्र होगा; एतद् होकर श्रेष्ठ आदि तथा उत्थान और करणीय कर्तव्य करना; अग्रजन्त को प्रज्ञप्त न मानना तथा अपने प्राणिन विज्र-पर्यं वा अनुकरण करना; अपने बयो-बुद्धों के प्रति पूजा भाव रखना; स्त्री-वर्ग के सम्मान की रक्षा करना; धर्मीयों के टहलने वा सुविधाजनक तथा सुरक्षित प्रवन्ध करना, अपने बंधुओं की पूजा करना ।

ब्राह्मण 'वस्सकार' के जाने वे परचात् सब भिक्षुओं को उपस्थानशाला में एकत्रित कर बुद्ध ने उन्हें सात अपरिहाणीय धर्मों का उपदेश किया, जो सङ्घ के उत्थान के लिये परमावश्यक हैं। तत्पश्चात् उन्होंने शील, समाधि और प्रज्ञा के विषय में भी बतलाया। उन्होंने कहा कि शील से परिभावित समाधि महाफलवती होती है, समाधि से परिभावित प्रज्ञा महाफलवती होती है तथा प्रज्ञा से परिभावित चित्त आसवों से विमुक्त हो जाता है।

राजगृह ने बुद्ध 'अम्बलट्टिका' धर्मों और वहाँ 'राजागारिक' में ठहरे। वहाँ उन्होंने अपने शिष्यों को सम्नो-धित करते हुये यह बतलाया कि सब दुःखों का मूल अविद्या है। अतः निर्वाण के साक्षात्कार के लिये इसका विनाश होना परमावश्यक है। इसके बाद बुद्ध नालन्दा के 'पावारिकामवन' में धाये। वहाँ आमुष्मान् 'सारिपुत्त' बुद्ध के पास गये और उन्हें अभिवादन करते उनसे कहा — "नन्ते, मेरा ऐसा विश्वास है कि 'सम्बोधि' में भगवान् से बढ़कर कोई दूसरा श्रमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा और न इस समय है। 'सारिपुत्त' का यह वक्तव्य धर्म की पूर्णता पर ही आश्रित था और इस पूर्णता में किसी सन्देह की आशङ्का नहीं थी।

नालन्दा से बुद्ध महान् भिक्षु-सङ्घ के साथ 'पाटलिगाम' को गये। वहाँ उन्होंने अपने उपासकों को सदाचारी जीवन के सुपरिणाम तथा दुःराचारी जीवन के दुष्परिणामों से अवगत कराया। उस समय वज्जियों के आक्रमण की रोक-थाम के लिये 'पाटलिगाम' में 'सुनीध' और 'वस्सकार' नामक 'गणध' के प्रभावशाली एक नगर बसा रहे थे। उन्होंने बुद्ध और उनके भिक्षु-सङ्घ को अपने निवास-स्थान पर भोजन के लिये आमन्त्रित किया। इसके पश्चात् जब बुद्ध उनके यहाँ से भोजनादि से निवृत्त होकर चलने लगे तब वे दोनों यह निश्चय कर उनके पीछे चलने लगे कि आज भगवान् जिस द्वार से निकलेंगे, उसे 'गोतम-द्वार' कहा जायगा और जिस तीर्थ से गङ्गा नदी पार होगी, वह 'गोतम-तीर्थ' के नाम से प्रसिद्ध होगा।

* * * * *

गङ्गा के उस पार भगवान् 'कोटिगाम' तथा 'नादिका' में ठहरे। वहाँ उन्होंने चार धर्मों के लिये धर्मों में तथा धर्मों के आदर्शों के सम्बन्ध में एक उपदेश भी दिया। वहाँ से चल कर वे वैशाली पहुँचे और 'अम्बपाली-वन' में ठहरे। वहाँ अम्बपाली गणिका ने सर्वे प्रथम पहुँचकर भगवान् बुद्ध को भिक्षु-सङ्घ के साथ भोजन के लिये आमन्त्रित किया। जब वैशाली के लिच्छिवियों ने सुना कि भगवान् बुद्ध ने अम्बपाली का आमन्त्रण स्वीकार कर लिया है, तो उन्हें नानि हुई कि बुद्ध का सम्मान करने में एक गणिका ने उन्हें पराजित कर दिया। लिच्छिवियों ने अम्बपाली से कहा कि यदि वह बुद्ध को पहले उनके यहाँ भोजन करने दे तो वे उसे इस बात के लिये शत-सहस्र कापापण देंगे, किन्तु अम्बपाली ने किसी भी मूल्य पर इस सम्मान के लिये स्वीकार न किया।

* * * * *

'वैलुव-ग्राम' में पहुँच कर भगवान् बुद्ध ने कहा — "आनन्द, भिक्षु-सङ्घ मत्सरो क्या चाहता है? मैंने धर्म का स्पष्ट रूप से उपदेश दिया है। तथागत ने धर्मों के सम्बन्ध में कोई 'आचार्य-मुट्टि' नहीं छोड़ी। आनन्द, आत्मदीप, आत्मशरण, अनन्यशरण, धर्मदीप, धर्मशरण और अनन्यशरण होकर विहार करो"।

* * * * *

'चापाल-चैत्य' में भगवान् बुद्ध ने आनन्द को सम्बोधित करते हुये कहा — "वैशाली तथा 'उदयन चैत्य', 'गोतमक-चैत्य', 'सारवद-चैत्य' तथा 'चापाल-चैत्य' चित्तने रमणीय हैं। आनन्द, जिसने चार ऋद्धिपाद सिद्ध कर लिये हैं, यदि वह चाहे तो इसी जन्म में वह कल्पभर भयवा कल्प के शेष काल तक ठहर सकता है। तथागत को भी ये चार ऋद्धिपाद सिद्ध हैं। अतएव यदि वे चाहें तो वे भी कल्पभर या कल्प के शेषकाल तक ठहर सकते हैं। बुद्ध वे ऐसा बहने पर भी दुष्ट मार द्वारा प्रभावित चित्त वाले आनन्द भगवान् से यह प्रार्थना न कर सके कि तथागत ससार पर अनुकम्पा करने के लिये कल्पभर या कल्प के शेषकाल तक ठहरे"।

* * * * *

बैंगारो से बुद्ध 'मण्ड-ग्राम', 'हमित्त-ग्राम' तथा 'भोग ग्राम' में गये और वहाँ ने वे पात्रों पहुँचे। पात्रों में बुद्ध 'चुन्द-कम्मर-पुत्त' के आश्रय में ठहरे। बुद्ध ने उन्हें अपने यहाँ निधु-मल्ल के साथ भोजन के लिये निमन्त्रित किया और इसने लिये उसने बहुत से उत्तम साध-वस्तुओं के साथ 'सूकरप्रद' भी तैयार कराया। 'चुन्द' का भोजन ग्रहण करने के पश्चात् बुद्ध को खत-साववा भयदूर रोग हो गया और मरणान्तर पीडा होने लगी। तब भगवान् मार्ग से हटकर एक वृक्ष के नीचे गये और उन्होंने आयुष्मान् भानन्द से कहा कि मेरे लिये चार पर्ण करने गपाटी विद्या वा। मैं था गया हूँ और बैठना चाहता हूँ। भानन्द ने वैसा ही किया और भगवान् विद्ये आसन पर विश्राम करने के लिये बैठ गये। बैठने के उपरान्त बुद्ध ने आयुष्मान् भानन्द से पासवाली नदी से अपने पीने के लिये पानी लाने को कहा। उम समय उस छिछली नदी से हीनर पाँच गो गादियाँ गई थी। अतएव उनके चक्का से मयबर पानी गन्दा हो गया था। इसीलिये उनसे भानन्द ने यह कहा कि उस नदी से पानी लाने की अपेक्षा पाम की रमणीय 'कफूत्या' नदी से पानी लाना अधिक उपयुक्त और सुन्दर होगा। पर बुद्ध ने उसी छिछली नदी से ही शीघ्र उन्हें पानी लाने का आदेश दिया। भानन्द ने नदी के पास पहुँचकर देखा कि उस छिछली नदी का जल स्वच्छ तथा विमल हो गया है। ऐसा बुद्ध के परम प्रभाव के ही कारण हुआ था। भानन्द पात्र में पानी भरकर भगवान् के पास ले गये और उन्होंने उसे ग्रहण किया। इसके पश्चात् 'पुक्कुस मल्लपुत्त' भगवान् से मिलने आया। उसने तथागत की उपाहार-स्वरूप एक शूरा वर्ण वाला चमकता दुर्गात्त अर्पित किया। 'पुक्कुस मल्लपुत्त' के जाने के कुछ समय पश्चात् भगवान् का शरीर अत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात सा होने लगा। उनके शरीर से प्राणोत्सर्ग रश्मियाँ निरगत रही थी। भानन्द ने इसका विशेष कारण पूछा। बुद्ध ने कहा कि 'सम्बोधि' साक्षात् करने तथा 'निर्वाण' प्राप्त करने के समय तथागत के शरीर का वर्ण अत्यन्त परिशुद्ध तथा पर्यवदात हो जाता है। उन्होंने भानन्द को यह भी बताया कि आज रात के पिछले पहर 'कुमीनारा' के 'उपवतन' नामक मल्लो के शालवन में यमक गाल-वृक्षों के बीच तथागत का परिनिर्वाण होगा। इसके पश्चात् वे 'क्रुद्ध' नदी के तट पर गये और उसमें स्नानादिकर उमने उसपार स्थित प्राञ्जल में जाकर लेट गये। तब भगवान् ने आयुष्मान् भानन्द से कहा कि सम्भव है कि मेरे परिनिर्वाण के पश्चात् लोग 'चुन्द-कम्मर-पुत्त' से जाकर यह कहें कि यह उसका दुर्गात्त था तथा यह उसने लिये ग्रहणा नहीं की कि उसी के भोजन को ग्रहण करने के पश्चात् तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हुये। अतएव उन्होंने भानन्द ने चुन्द-कम्मर-पुत्त को इस बात के लिये उत्साहित करने को कहा कि उसी के भोजन को स्वीकार करके ही भगवान् की परिनिर्वाण लाभ हुआ। साथ ही उन्होंने चुन्द को यह भी समझाने के लिये कहा कि वे समय के ही भोजन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं—जिस भोजन के पश्चात् 'सम्बोधि' की प्राप्ति होती है तथा जिस भोजन के पश्चात् 'दुःख-कारण-रहित निर्वाण' की प्राप्ति होती है।

* * * * *

इसके पश्चात् बुद्ध हिरण्यवती नदी के उस पार स्थित 'कुमीनारा' के 'उपवतन' नामक मल्लो के शालवन में पहुँचे। वहाँ वे भानन्द से बोले—'भानन्द, यमक शालो के बीच में उत्तर की ओर गिर कर मेरा आसन विद्या दो। मैं था हूँ, बैठूँगा।' तब भगवान् दाहिनी करवट सिंह शय्या से लेटे। उस समय प्रकाल ही में यमक गाल-वृक्ष पुष्पित थे तथा उससे तथागत के शरीर पर पुष्प गिर रहे थे। आषाढ से दिव्य मन्दार पुष्पा तथा दिव्य चन्दन चूर्ण की निरन्तर बृष्टि हो रही थी और उनकी पूजा के लिये गगन में दिव्य वाद्य बज रहे थे।

इन सबके विषय में चर्चा करते हुए तथागत ने भानन्द से कहा कि इन सबने तथागत सत्त्वत, पुष्टत, मानित तथा पूजित नहीं होते; प्रत्युत आस्ता के धर्म-मार्ग पर आरुढ़ होकर जो निधु निधुनी, उपासक-उपासिका अपना आचरण कर रहे हैं, उन्हीं से तथागत सत्त्वत, गुरुत, मानित तथा पूजित होते हैं। अतएव, भानन्द, इति से तुम्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

* * * * *

बुद्ध ने भानन्द से कहा कि तथागत का जन्म-स्थान सुम्बिनी, बोधि प्राप्त करने का स्थान बोधगया,

धर्मचक्र-प्रवर्तन का स्थान सारनाथ तथा 'निर्वाण-धातु' प्राप्त करने का स्थान 'कुसीनारा' शब्दालु वृत्तपुत्रों के लिये दर्शनीय तथा वैराग्यप्रद है ।

उत्त समय आनन्द को अत्यन्त दुःखी चुनकर बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा—“आनन्द, शोक मत करो । मैंने तो पहले ही व्यवस्त कर दिया है कि सभी प्रियों से वियोग अवश्यम्भासी है । इसलिये, आनन्द, वह वहाँ मिलने वाला है । जो मुझ जात, भूत तथा ससृष्ट है, वह सभी नाशजात है । ऐसा सम्भव नहीं कि ऐसा न हो । आनन्द, तूने चिरकाल से अप्रमाण मैत्रीपूर्ण वाचिक, वाचिक तथा मानसिक दर्शनों से तथागत की पूर्ण सेवा की है । आनन्द, तू दृढतपुण्य है और तू निर्वाण-साधना में लगकर शीघ्र ही बन्धन-मुक्त होगा” । इसके पश्चात् भगवान् ने आनन्द के गुणों का वर्णन किया और उससे साथ ही चक्रवर्ती राजा के भी चार गुण बतलाये ।

आयुष्मान् आनन्द ने भगवान् से यह कहा—“भन्ते, इस क्षुद्र जङ्गली तथा शातानगरक में आप परिनिर्वाण को प्राप्त न होवें । चम्पा, राजगृह, थावस्ती, तापेत, कौशाम्बी तथा वाराणसी आदि प्रमुख नगर हैं । उन्हीं स्थानों में भगवान् को परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि वहाँ बहुत से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महात्मा तथागत के भक्त हैं । वे तथागत के शरीर की पूजा करेंगे” ।

बुद्ध ने आनन्द को ऐसा कहने से रोका तथा उन्हें यह बतलाया कि वह विशेष स्थान 'महासुदस्सन' नामक चक्रवर्ती राजा की विख्यात कुशावती नामक राजधानी था । उन्होंने यह भी बतलाया कि 'महासुदस्सन' राजा वे ही थे । इसके पश्चात् आनन्द ने बुद्ध के आदेशानुसार 'कुसीनारा' के मत्सी को तथागत के परिनिर्वाण की सूचना दी । इस सूचना के पाते ही वे भगवान् के पास दलबल सहित उनकी वन्दना करने पहुँचे ।

उत्त समय 'कुसीनारा' में 'सुभद्र' नामक एक परिव्राजक रहता था । जब उसने यह सुना कि आज रात को पिछले प्रहर श्रमण गीतम का परिनिर्वाण होगा तो वह आनन्द के पास गया । उसने आनन्द से तथागत के दर्शन करने की अपनी इच्छा व्यक्त की । भगवान् ने आयुष्मान् आनन्द तथा 'सुभद्र' परिव्राजक के वार्तालाप को सुन लिया और आनन्द से उसे मना करने को न कहकर उसे अपने पास लाने को कहा । बुद्ध ने उसको अपने धर्म का उपदेश किया । इस तरह 'सुभद्र' अन्तिम शिष्य था, जिसे बुद्ध ने स्वयं अपने भिक्षु-सङ्घ में सम्मिलित किया और वह शीघ्र ही ग्रहण-पद को प्राप्त हुआ ।

* * * * *

इसके पश्चात् बुद्ध ने आनन्द को अपना अन्तिम उपदेश दिया—“आनन्द, मेरे परिनिर्वाण के पश्चात् यह न समझना कि अब हमारा शास्ता नहीं है । मैंने जो धर्म और विनय के उपदेश दिये और प्रकृत किये हैं—मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे” । इच्छा होने पर सङ्घ मेरे बाद क्षुद्र तथा अनुक्षुद्र शिक्षापथों को छोड़ दे तथा 'छन्न' भिक्षु को 'ब्रह्मचर्य' दे” । तब आनन्द ने बुद्ध से यह पूछा कि 'ब्रह्मचर्य' क्या है ? बुद्ध ने उत्तर दिया कि 'छन्न' भिक्षुओं को जो चाहे वह कहे, पर भिक्षुओं को उससे न बोलना चाहिये और न उसका अनुशासन करना चाहिये । इसके पश्चात् बुद्ध ने सब भिक्षुओं को आमन्त्रित करके यह पूछा कि यदि उनमें से किसी को भी बुद्ध, धर्म अथवा सङ्घ के सम्बन्ध में कोई शङ्का हो तो वे उनसे जगें । उनकी यह बात सुनकर सभी भिक्षु मौन रहे । इससे बुद्ध को प्रसन्नता हुई कि उनके भिक्षु-सङ्घ में कोई भी ऐसा नहीं है; जिसे उपयुक्त विषयों के सम्बन्ध में शङ्का न हो ।

बुद्ध के अन्तिम वचन थे ये—“सभी संस्कार अनिरय हैं; धारम-सयम कर जीवन के परम लक्ष्य का सम्पादन करो” ।

* * * * *

भगवान् के परिनिर्वाण होने के समय भीषण लोमहर्षक महाभूचाल हुआ तथा देव-दुन्दुभियाँ बजी । उस समय जो भिक्षु प्रवीतराग थे, उनमें से कोई वाई पकड़कर चन्दन कर रहा था, कुछ कटे सूदा की भाँति पृथगी पर गिरते और लोटते थे तथा वे सब यह कहते थे—“भगवान् बहुत ही परिनिर्वाण हुए हैं, सुगत बहुत शीघ्र परिनिर्वाण हुए हैं” ।

गये, लोकरुचकु शीघ्र ही मन्तव्यमान हो गये" । परन्तु उनमें से जो वीतराग अर्हत् भिक्षु थे वे अपने दुःख को सहन करके कट रहे थे—“सत्कार अनित्य है । इसलिये वह वहां मिलेगा” ? आयुष्मान् अनिरुद्ध तथा आनन्द ने शेष रात्रि धर्मव्यास में व्यतीत की ।

‘कुसीनारा’ के मल्लो को भगवान् के परिनिर्वाण हो जाने की सूचना आयुष्मान् आनन्द से प्राप्त हुई । वे गन्ध, माला, वाद्य तथा पाँच सहस्र जोड़े वस्त्र लोकर कुसीनारा के अपने ‘उपवत्तन’ नामक शालवन में पहुँचे, जहाँ बुद्ध का शरीर रखा था । वहाँ जाकर उन्होंने वह दिन भगवान् के शरीर का नृत्य, गीत, वाद्य, माता तथा गन्ध से सत्कार एवं पूजा आदिकरने में शरीरबण्डे का विधान तथा मण्डपादि बनाने में व्यतीत किया । वे भगवान् के शरीर को नगर के उत्तर से उत्तर तो जाकर उत्तर द्वार से नगर में प्रविष्ट हो उसे नगर के बीच ले आकर पूर्व द्वार से निराल कर नगर के पूर्व की ओर ‘मुकुटवन्धन’ नामक प्रतिष्ठित शैल्य के स्थान पर ले गये और वही भगवान् के शरीर को रखा दिया । तत्पश्चात् उन्होंने भगवान् के शरीर को नवीन वस्त्र में लपेट कर पुनः धुने हुये कपास से उसे लपेटा । इसने बाद उसे पुनः गन्धीन वस्त्र में लपेटा । इसी प्रकार पाँच सौ जोड़ों में उसे लपेटकर लोहे की तैलाचाली कड़ाही में रखकर गन्ध-काण्ड रत्न एवं चित्त निर्मित की और भगवान् के शरीर को चित्ता पर रखा ।

उस समय आयुष्मान् ‘महावस्सप’ पाँच सौ भिक्षुओं के महासङ्घ के साथ ‘कुसीनारा’ से पावा आ रहे थे । वही एक आजीवक ने उन्हें ‘कुसीनारा’ से लाये हुये मन्दारव पुष्प को उन्हें दिखाया तथा बुद्ध की अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी ‘कुसीनारा’ में हो रहे महोत्सवों के विषय में उन्हें सूचना दी । यह सुनकर वहाँ जो अवीतराग भिक्षु थे, उनमें से कोई कोई बाँह फकड़ कर अन्दन करता था और बुद्ध बड़े वृक्ष की भाँति पृथ्वी पर गिरते और मोटते थे तथा वे यह कहते थे कि भगवान् बहुत शीघ्र ही परिनिर्वाण हो गये । उस समय वहाँ ‘सुमह’ नामक एक वृद्ध प्रज्जिा उस परिपद् में विद्यमान था । वह भिक्षुआ से कह रहा था—“आयुसो, शोक मत करा, अब हम उस महाधमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वे बराबर कहते रहते थे—‘यह करना तुम्हें विहित है और यह नहीं’ । अब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे और जो नहीं चाहेंगे वह नहीं करेंगे । अतः आप लोग दुःखी नहीं” ।

आयुष्मान् ‘महाकस्सप’ तथा उनके साथ अनुगमन करने वाले महा नियु-सङ्घ के चित्ता के पास आते ही तथा इनके द्वारा परम वास्ता के चरणों की वन्दना करते ही चित्तागिण प्रज्जलित हो उठी । जब वह मम्भुगन्पेण जन चुकी तो आकाश में मेघ ने प्रादुर्भूत हो चित्ता को शान्त किया । ‘कुसीनारा’ के मल्लो ने भी सर्वनाम्न मिश्रित जन से भगवान् की चित्ता को ठण्डा किया ।

इनके पश्चात् मगध के राजा अजातशत्रु बंसावी के लिच्छिवि, वपिवस्तु के शाक्य, अल्लकप के गुलिय, रामग्राम के कोलिय, वेदु-द्वीप के ब्राह्मण तथा पावा के मल्लाने भगवान् के घातव्ययोग्य भाग को प्राप्त करने के लिये अपने अपने अधिकार प्रस्तुत किये । तब द्रोण नामक एक चतुर ब्राह्मण ने उन अवशेषों को आठ समान भागों में सुविभक्त कर उन सब को एक एक भाग दे दिया । अन्त में उसने स्वयं वह षष्ठा ले लिया जिसमें भगवान् के वे अवशेष सुरक्षित थे । पिप्पली-वन के मौर्य भगवान् के अवशेष लूट जाने के पश्चात् आये । अतः उन्हें चित्ता के अवशेष कोयला इत्यादि ही प्राप्त हुये । इन सब ने भगवान् के अवशेषों को ले जाकर स्तूप बनवाकर उन्हें सुरक्षित किया ।

(४) महासुदस्सन-स्तुत

बुद्ध ‘कुसीनारा’ में मल्लो के ‘उपवत्तन’ नामक शालवन में यमक शाल वृक्षों के नीचे अपनी निर्वाणसंख्या पर लेटे थे । आयुष्मान् आनन्द ने उस समय उनसे कहा—‘भन्ते, इस क्षुद्र तथा शाक्यनगरक में आप परिनिर्वाण को प्राप्त मत होयें । चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाभ्यी तथा वाराणसी आदि प्रमुख नगर हैं, जहाँ बहुत से क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा गृहपति महाशाल तथागत के भक्त हैं । वे तथागत के शरीर की यथाचित पूजा एवं सत्कार करेंगे । अतः भगवान् को ऐसे ही किसी स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिये ।

बुद्ध ने आनन्द को ऐसा कहने से रोका तथा उन्हें यह बतलाया कि अतीतकाल में वह विशेष स्थान 'महा-सुदस्सन' नामक विख्यात चक्रवर्ती राजा की 'कुसावती' नामक राजधानी था। उन्होंने यह भी बतलाया कि 'महा-सुदस्सन' राजा के स्वयं ही थे। बुद्ध ने 'कुसावती' राजधानी के सम्बन्ध में यह बतलाया कि यह सात प्रकार, चार द्वार तथा रत्न-निर्मित सात ताल-नक्षत्रों से घिरी थी।

जब एक 'उपोसव' पूर्णिमा की रात को राजा 'महासुदस्सन' सिर से स्नानकर 'उपोसव' व्रत रख अपने प्रासाद के सर्वोपरि भाग में विराजमान थे, तो उनके सामने सहस्र अरों वाला नाभि नैमि से युक्त सर्वाकार परिपूर्ण दिव्य चक्र-रत्न प्रवट हुआ। इसे देखकर राजा 'महासुदस्सन' ने आसन से उठकर चादर को एक कन्धे पर करके बायें हाथ में स्वर्ण-शारी लेकर दाहिने हाथ से उस चक्र-रत्न का अभिषेक किया। तब वह चक्र-रत्न पूर्वे दिशा की ओर चला। राजा 'महासुदस्सन' ने भी अपनी चतुरङ्गणी सेना के साथ उस चक्ररत्न का अनुगमन किया। पूर्वे दिशा के सभी प्रतिद्वन्द्वी राजाओं ने राजा 'महासुदस्सन' के पास आकर कहा—'हे शक्तिशाली महाराज, आपका स्वागत है। यह सब आपका ही है और हम आपके अधीन हैं। आप हमें आज्ञा दीजिये'।

राजा 'महासुदस्सन' ने उन राजाओं से यह कहा—“तुम्हें जीव-हिंसा नहीं बरनी चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, कामभोग में पकड़ डुराचार नहीं करना चाहिये, मिथ्या-भाषण तथा मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिये”। इस प्रकार पूर्वे दिशा के सभी राजा 'महासुदस्सन' के अनुयुक्त हुए।

इसी प्रकार वह चक्र-रत्न पूर्वे के समुद्र में डुबकी लगाने के पश्चात् निकलकर दक्षिण दिशा की ओर चला पश्चिम दिशा की ओर उत्तर दिशा की ओर उन दिशाओं के सभी राजा 'महासुदस्सन' के अनुयुक्त हुए।

इसके पश्चात् वह चक्र-रत्न समुद्र पर्यन्त पृथ्वी को विजित करके 'कुसावती' राजधानी में लौट आया और 'महासुदस्सन' के अन्त पुर के द्वार के पास आँगन में स्थित हो गया। इससे उनका अन्त पुर अत्यन्त शोभायमान होने लगा।

आगे चलकर 'महासुदस्सन' के सामने श्वेत हस्ति-रत्न प्रकट हुआ श्वेत तथा काले सिर वाला अश्व-रत्न प्रकट हुआ शुभ्र तथा अश्व-जाति का मणि-रत्न प्रकट हुआ अभिरूप दारिणीय तथा परम सौन्दर्य सम्पन्न स्त्री-रत्न प्राप्त हुआ। गृहपति-रत्न एवं परिणायन-रत्न प्रकट हुए। यही उस राजा के सात रत्न थे।

तब देवेन्द्र धारु ने देवपुत्र विश्ववर्मा को राजा 'महासुदस्सन' के लिये एक योजन लम्बा तथा आधा योजन चौड़ा एवं धर्म-प्रासाद निर्मित कराने का आदेश दिया। इससे बाद तथागत ने प्रभु राजा की ध्यान-भावना, ऐश्वर्य तथा मूल्य आदि के विषय में प्रकाश डाला।

इस प्रकार बुद्ध ने सामुदायिक आनन्द को 'महासुदस्सन' के वैभवादि की वष्या के सम्बन्ध में उपदेश देते हुए कहा—“आनन्द, देवों के सभी सस्वार क्षीण हो गये, निम्ब हो गये, विपरिणत हो गये। आनन्द, इगी तरह सभी सस्वार अनिलय हैं, समुद्र हैं, सविश्वगनीय हैं। इनमें राग-रज्जा और धामरा होना व्यर्थ है”।

(५) जन्मसम-मुक्त

बुद्ध 'नारिका' में विहार कर रहे थे। उस समय वे 'कान्ठी', 'कोमल', 'वज्र', 'मन्त्र', 'सोम', 'वष्या', 'सुर', 'पाण्ड्या', 'मन्त्र' और 'सुभेन' में पारी और समुद्र बुद्ध, परम और महत् की गंगा बराने वाले भगीर कान में मुक्त-सोमों की परलोक-नामि का व्याकरण कर रहे थे कि समुद्र यहाँ उल्लास हुआ और समुद्र यहाँ उल्लास हुआ, इत्यादि।

इसके पश्चात् लोगो ने बुद्ध से यह निवेदन किया कि वे मगध के 'परिचारिकों' को परलोक-गति के सम्बन्ध में भी उती प्रचार के अपने विचार व्यक्त करें। इस सम्बन्ध में भगवान् ने अपनी समाधि लगाई और उन्हें मगध के 'परिचारिकों' द्वारा प्राप्त परलोक-गति का पता चल गया। इसवे पश्चात् भगवान् सन्ध्या समय ध्यान से उठकर बाहर धाये और विहार के पीछे छाया में विद्ये आसन पर बैठ गये। उन्होंने आनन्द से बहु पुरा विवरण बहु सुनाया, जिसमें 'जनवसभ' नामक एक भद्रदय यक्ष ने उनसे यह कहा था कि भगवान् भू 'जनवसभ' हैं। यह यक्ष राजा 'विम्बिसार' के अतिरिक्त और कोई नहीं था। उस यक्ष ने यह भी बताया कि वह 'मोतापत्त' हो चुका है तथा 'सकदगामी' पद प्राप्त करने जा रहा है। उस यक्ष ने 'तावतिस-देवलोक' में ब्रह्मा 'सतद्रकुमार' के प्रकट होने की यात बताई और यह भी कहा कि उन्होंने अन्तरिक्ष में जा पलथी मार आसन ग्रहण करके तथागत तथा धर्म की प्रशंसा भी की। इसके पश्चात् उस यक्ष ने मगध के कई लक्ष 'परिचारिकों' की मृत्यु के पश्चात् परलोक-गति के विषय में अपना विवरण उपस्थित करते हुए यह कहा कि उनको उत्पत्ति उच्च लोको में हुई है और उन्होंने उच्चपदों को प्राप्ति भी की है।

आयुष्मान् आनन्द ने बुद्ध से यह सब सुनकर इससे सभी मिथु-मिथुणी, उपासक और उपासिकाओं को श्रद्धा-गत कराया।

(६) महागोविन्द-सुप्त

बुद्ध राजगृह के 'गिज्जकूट' पर्वत पर विहार कर रहे थे। उस समय 'पञ्चसिख' नामक गन्धर्व-पुत्र रात में उनके पास आया और उन्हें प्रणाम करके उनकी आत्मा से 'तावतिस-देवों' की समा का अपना अनुभव सुनाया कि एक समय 'तावतिस-देव' सुधर्मा समा में बैठे थे। नहती देव-परिपद् उनके चारो ओर विद्यमान थी। वहाँ पूर्व के अधिपति 'धतरट्टु' दक्षिण के अधिपति 'विह्वह्वक' पश्चिम के अधिपति 'विष्णवत्त' तथा उत्तर के अधिपति 'विस्तवण' नामक चारो दिशाओं के महाराज विराजमान थे। बुद्ध के शासन में धर्म-लाभ कर जिन देवों ने उस समय 'तावतिस-देवलोक' में जन्म ग्रहण किया था, वे अन्य देवों की अपेक्षा वर्ण और यश में नहीं अधिक श्रेष्ठ थे। उस समय वैवेन्द्र शक्र ने देवताओं से तथागत के आठ अपूर्व गुणों का वर्णन किया। बुद्ध देवों ने यह कहा कि यदि लोक में और भी अधिक तथागत उत्पन्न हुए होते तो यह और भी अच्छा हुआ होता। शक्र ने उन्हें बतलाया कि एक बाल में एक से अधिक बुद्ध नहीं उत्पन्न होते।

उस समय उत्तर दिशा में दिव्यालोक उत्पन्न हुआ। तब शक्र ने देवों को सम्बोधित करते हुए कहा कि जिन प्रकार का निमित्त दिव्यलोक पद रहा। तथा जिस प्रकार का आलोक और आभा प्रकट हो रही है, उससे यही ज्ञात होता है कि यह ब्रह्मा के प्रकट होने के लक्षण है। अतः वे सभी देव क्षान्तिपूर्वक हाथ जोड़ तथा आसन मार कर ब्रह्मा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। शीघ्र ही ब्रह्मा उस रात के पास आये और भद्रदय रहने लगे ही उन्होंने तथागत की प्रशंसा में मायायें सुनाई। इसके पश्चात् आकाश में आसनासीन ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुये और 'महा-गोविन्द' नामक पण्डित ब्राह्मण को यह कहानी सुनाई—“अतीत काल में 'दिसम्पति' नामक एक राजा था। उनका 'गोविन्द' नामक एक ब्राह्मण मन्त्री था। राजा के 'रेणु' नामक एक कुमार तथा मन्त्री के 'जीतिपाल' नामक एक पुत्र था। राजकुमार तथा मन्त्री पुत्र अन्य छ युवक राजकुमारों के धनिष्ठ मित्र थे।

“मन्त्री गोविन्द की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र 'जीतिपाल' उस पद पर नियुक्त किया गया और राजा 'दिसम्पति' की मृत्यु के पश्चात् उसका कुमार 'रेणु' राजसिंहासन पर आसीन हुआ। 'रेणु' ने अपने राज्य को अपने सम्पूर्ण मित्रों में समान भागों में विभाजित कर दिया।

“आगे चलकर 'जीतिपाल' ने राजकीय कार्यों से छुट्टी ले अपने को 'ब्रह्म-धरार' की शायना में लगाया। वह गृह त्यागकर प्रव्रजित हो गया। उसके साथ उसकी एक बहुत बड़ी शायक-मण्डली भी थी। वे सब मृत्यु के पश्चात् अपनी अपनी शायना के अनुसार देवलोक के विभिन्न स्तरों में उत्पन्न हुये। जिन्होंने सबसे हीन शरीर पाया वे मन्धर्व-लोक में उत्पन्न हुये। इस प्रकार उन सभी कुलपुत्रों की प्रव्रज्या सकल, शायक तथा उप्रत हुई।

तब 'पञ्चसिख' ने भगवान् से यह पूछा कि क्या उन्हें इसका स्मरण है ? बुद्ध ने इसका उत्तर दिया कि उन्हें इन सबका पूर्ण स्मरण है; क्योंकि वे स्वयं ही 'महागोविन्द' ब्राह्मण थे ।

(७) महासमय-सुत्त

बुद्ध शाक्य देश के कपिलवस्तु के महावन में पाँच सौ अर्हत् भिक्षुओं के महासङ्घ के साथ विहार कर रहे थे । उस समय दस सहस्र 'लोक-यातुओं' के बहुत से देवता भगवान् और भिक्षु-सङ्घ के दर्शन के निमित्त एकत्रित हुये । 'गुदावास' देवलोक के चार देवता उस स्थान पर उपस्थित हुये और उनमें से प्रत्येक ने उनके सामने एक एक गायी कही ।

बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया तथा उन्हें उन देवताओं का नाम बतलाया, जो उस अवसर पर वहाँ एकत्रित हुये थे । ये देवता 'यमल', 'विस्सामित्त', 'कुम्भेर', राजा 'धतरट्ट', 'गन्धर्व', 'विह्वह', 'कुम्भण्ड', 'विरपयस', 'नाग', 'कुवेर', 'माया', 'कुटेण्डु', 'वेटेण्डु', 'विट्टु', 'विट्टुच्च', 'चन्दन', 'रामसेट्ट', 'विन्नुघण्डु', 'निघण्डु', 'पनाद', 'मातलि' तथा 'चित्तसेन' आदि थे ।

(८) सक्कपञ्च-सुत्त

बुद्ध मगध के राजगृह से पूर्व स्थित 'अग्न्यसण्डा' नामक ब्राह्मण-ग्राम के उत्तर 'वेदियक' पर्वत पर स्थित 'इन्द-साल-गुहा' में विहार कर रहे थे ।

उस समय देवेन्द्र राक्ष 'तावर्त्तम-देवों' से मण्डलित तथा 'पञ्चसिख' गन्धर्व-मुनि द्वारा परिष्कारित होने लगे सम्पूर्ण दिशाओं को देदीप्तमान करते हुए 'वेदियक' पर्वत पर आये । 'पञ्चसिख' ने अपनी 'वैलुवण्डु' नामक कीर्णा उठाकर उन पर बुद्ध, धर्म, सङ्घ, अर्हत् तथा भोग-सम्बन्धी गाने गाये । बुद्ध उसका गान सुनकर प्रत्यन्त प्रसन्न हुये । उत्पन्नान् सभी देवताओं के साथ देवेन्द्र राक्ष ने गुहा में प्रवेश करके बुद्ध की पन्दना की तथा उनकी भाषा से क्षपणा यह प्रश्न पूछा—“मार्य, देव, मनुष्य, असुर, नाग, गन्धर्व तथा अन्य प्राणी किन बन्धन में पड़े हैं ? ये वर, दण्ड, शत्रु, और हिता के भाव को छोड़कर वर-रहित हो विहार करने की इच्छा रखते हुये भी दण्ड-ग्रहित, शत्रुता और हिता-भाव से मुक्त होकर वर-रहित ही रहते हैं” ।

बुद्ध ने राज के दण्ड प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वे सभी देव, मनुष्यादि ईर्ष्या और मात्सर्य के कारण ही उपर्युक्त अज्ञानियों से मुक्त नहीं हो पाते । राक्ष ने भगवान् से दूसरा प्रश्न पूछा—“मार्य, ईर्ष्या और मात्सर्य के निदान, समुदाय, जाति तथा प्रसन्न क्या है ? जिससे होने से ईर्ष्या और मात्सर्य होते हैं और किन्हीं नहीं होने से वे नहीं होते ?” बुद्ध ने उत्तर दिया कि त्रिय और अत्रिय के कारण ही ईर्ष्या और मात्सर्य की स्थिति है, इनके अभाव में वे नहीं होते ।

दूसरे पदवान् राज ने पूछा कि त्रिय-अत्रिय के कारण क्या है ? तब बुद्ध ने बताया कि त्रिय तथा अत्रिय 'दण्ड' के कारण होते हैं । तब राज के यह प्रश्न पर कि 'दण्ड' के कारण क्या है ? बुद्ध ने कहा कि 'दण्ड' 'वितर्क' के कारण होता है । पुन राज ने दण्ड 'वितर्क' का भी कारण पूछा और तब बुद्ध ने उत्तर दिया कि 'वितर्क' 'सांगति-प्रत्यय' के कारण होता है ।

दस प्रकार राक्ष द्वारा पूछे गये अन्य प्रश्नों के भी बुद्ध ने समुचित उत्तर दिये, जिससे दण्ड की मारी वाद्यों का समापन हो गया और दण्ड के साथ ही उल्लाप-समय का भी अन्त हो गया ।

(९) अज्ञातपिण्डान-सुत्त

बुद्ध मुर देश में 'अग्गमदग्ग' नामक गुहा के दिग्ग में विहार कर रहे थे । वहाँ भगवान् ने भिक्षुओं को उपदेशित करते हुए कहा कि धारो 'सति-गुहा' गणों की विपुल, श्रेष्ठ तथा बल के कारण, दुःख तथा

दीर्घनाम्य के प्रतिप्रमाण, सभी बन्धनों से मुक्ति पाने तथा परम ज्ञान एवं निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये प्रीये मार्ग हैं। ये चारों 'सतिपट्टान' 'वायानुत्साना', 'वेदानुत्साना', 'चित्तानुत्साना' तथा 'धम्मानुत्साना' हैं। बुद्ध ने इनकी प्रथम व्याख्या भी की।

'वायानुत्साना' क्या है ? भिक्षु श्रमण्य, बुद्ध के नीचे श्रवण धूम्यागार में जाकर ध्यान तथा शरीर को नीचा कर स्मृति को सामने रख शरीर की सारी श्रवस्थाओं में जागृत रहता है।

यह 'प्रानापान-सति' की साधना करता है। इस प्रकार यह स्मरण रखने हुए मार्ग छोड़ता है और संता है। तन्वी साँस लेते समय यह यह जानता रहता है कि यह लम्बी साँस ले रहा है। छोटी साँस लेते समय यह यह जानता रहता है कि यह छोटी साँस ले रहा है। इसी प्रकार तन्वी साँस छोड़ते समय यह यह जानता रहता है कि यह लम्बी साँस छोड़ रहा है तथा छोटी साँस छोड़ते समय यह जानता रहता है कि यह छोटी साँस छोड़ रहा है।

यह उठते, बैठते, चलते तथा सोते समय इन सभी क्रियाओं से परित्यक्त रहता है। यह प्रत्येक कार्य करते हुये उसे पूर्ण रूप से जानते हुए करता है।

यह पैर के तलवे से ऊपर तथा केश-मस्तक से नीचे इस सम्पूर्ण वाया को नाना प्रकार के मलों में पूर्ण देगा है। यह यह अनुभव करता है कि इस वाया में केश, रोम, नास, दाँत, त्वचा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-मज्जा, वृक्क, हृदय, यकृत, बलोमव, प्लीहा, पुष्पकृत, श्रांत, छोटी श्रांत, उदरस्य वस्तुयें, मल, पित्त, पक्क, पीप, रक्त, स्वेद, मेद, श्नीसू, वसा, सार, नासात्मन, लसीका और मूत्र विद्यमान हैं।

यह इस वाया के विषय में सोचते हुये यह देखा है कि इस वाया में 'वक्की-धातु', 'मासो-धातु', 'तेजो-धातु', तथा 'वायु-धातु' नामक चार धातुयें विद्यमान हैं। यह विचित्र श्रवस्थाओं को प्राप्त श्मशान में फेंके हुये मृत शरीरों को देखकर उतवो अपने शरीर पर घटित करते हुये यह अनुभव करता है कि मेरी यह वाया भी इसी वर्मजानी, ऐसी ही होंगेवासी और इस श्रवस्था से बचकर न निकलनेवासी है।

'वेदानुत्साना' क्या है ? भिक्षु मुग्ग-वेदना को अनुभव करते हुये यह जानता है कि यह 'मुग्ग-वेदना' का अनुभव कर रहा है। इसी प्रकार यह 'दुग्ग-वेदना', 'पदुग्ग-अमुग्ग-वेदना' इत्यादि को भी पूर्ण रूप से जानता है और उन शयते जागरूक रहते हुये ही यह उनका अनुभव करता है।

'चित्तानुत्साना' क्या है ? भिक्षु 'साराग-चित्त', 'विराग-चित्त', 'सद्धेय-चित्त', 'वीतद्धेय चित्त', 'ममोह-चित्त' तथा 'वीतमोहादि-चित्तों' को पूर्ण रूप से समझते हुये ही उनका अनुभव करता है।

'धम्मानुत्साना' क्या है ? भिक्षु 'पञ्च नीवरण', 'पञ्च सन्ध', 'द्वादश आसतव', 'सात बोधग', 'चार आर्य-सत्य' इन सभी के स्वरूप को जानते हुये ही इनका अनुभव करता है।

इस प्रकार ये ही चार 'सतिपट्टान' हैं, जिनका प्रथम अनुभव करते हुये मनुष्य अपने परम तत्त्व तक पहुँच जाता है। इनकी विनोय उपादेयता पर प्रकाश डालते हुये भन्त में बुद्ध ने यह भी कहा कि जो इन चार 'सतिपट्टानों' की भावना सात वर्ष तक करे तो उसे अर्हत्व का साक्षात्कार तथा 'अर्यादि-योग' होने पर 'अनागामित्व', इन दो कर्मों में से एक कर्म की अवश्य प्राप्ति होगी। बुद्ध ने यह भी बताया कि यदि छ वर्ष भी पाँच वर्ष भी चार वर्ष भी एक वर्ष भी एक मास भी एक गण्टाह भी इन चार 'सतिपट्टानों' का अभ्यास करे तो उसे 'अर्हत्व' की प्राप्ति या 'अनागामित्व' लाभ अवश्य हो जायगा।

(१०) पापातिरावच्छा-सुत

आपुप्पान् 'कुमार वस्सप' पाँच को भिक्षुओं के महानुष्ठ के साथ बर्णित करते हुये 'अंगक' देश के 'सितम्बा' नामक नगर में पहुँचे और वहाँ नगर के उत्तर में स्थित 'निवपावन' में ठहरे। उन समय राज्ञ्य

'पायासी' भी उसी नगर में निवास करता था, जिसे इस प्रकार की मिथ्यादृष्टि उत्पन्न हो गई थी कि यह लोक अथवा परलोक दोनों नहीं हैं तथा सुकृत तथा दुष्कृत कर्मों का कोई विपाक नहीं होता ।

'पायासी' आयुष्मान् 'कुमार-कस्तप' के पाप गया और अपने इस मिथ्या मत का प्रतिपादन किया । इस सम्बन्ध में उसने यह भी कहा कि मरणासन्न अपने कई मित्र और सम्बन्धियों को उसने इस लोक के बाद दूसरे लोक में जन्म लेने के पश्चात् अपने अपने सन्देश भेजने के लिये कहा, पर आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया ।

आयुष्मान् 'कुमार-कस्तप' ने उपयुक्त उपमाओं द्वारा उसे यह समझाया कि यदि वे दुष्कर्म करने वाते रहे हा और इससे नरक में पड़े ही, तो नरक के यमो ने उन्हें आपके पास अपने सन्देश कहने के लिये आने न दिया होगा । यदि वे सुकर्मी रहे होंगे तो उनकी उत्पत्ति स्वर्ग में हुई होगी । ऐसी अवस्था में वे वहाँ के सुखों की अवहेलना करके इस अवास्तविक जगत में क्यों आना चाहेंगे ?

इसके पश्चात् 'पायासी' ने यह कहा कि परलोक नहीं है, क्योंकि यदि ध्रमण ब्राह्मणों को ऐसा विश्वास होता कि इस लोक के बाद सुगति विद्यमान है तो उसे शीघ्र ही प्राप्त करने के लिये वे आत्म-हत्या कर लेते ।

आयुष्मान् 'कुमार-कस्तप' ने इसका उत्तर देते हुए यह उपमा दी कि जिस प्रकार गर्भवती स्त्री का गेट चीर कर प्रसव में शीघ्रता करना असम्भव है, उसी प्रकार कोई आत्म-हत्या करके अपने कर्म-फल की प्राप्ति में शीघ्रता नहीं कर सकता ।

तत्पश्चात् 'पायासी' ने अपने द्वारा किये गये उस प्रयोग का विवरण दिया, जिसके द्वारा उसने यह ज्ञानने की चेष्टा की थी कि क्या सचमुच जीव अथवा आत्मा नामक कोई तत्त्व मनुष्य में विद्यमान रहता है, जो मृत्यु के पश्चात् उसे छोड़कर चला जाता है । उसने बतलाया कि उसने एक मनुष्य को एक बड़े घड़े में सम्बन्ध-रूपेण बन्द कर दिया और जब उसने यह जाना कि अन्दर वह मृत हो गया है, तो उसने उस घड़े के ऊपर एक छोटा सा छेद किया और ध्यानपूर्वक यह देखा कि उसमें से कोई तत्त्व बाहर निकलता है, अथवा नहीं । परन्तु उसे कोई भी तत्त्व बाहर निकलते नहीं दिखलाई दिया ।

आयुष्मान् 'कुमार-कस्तप' ने स्वप्न की उपमा देते हुये उससे यह कहा कि स्वप्न में मनुष्य विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है तथा उसकी विभिन्न लोगों से भेंट भी होती है । पर क्या ऐसा करने में कोई जीव को धारी से बाहर निकलते देखता है । जीव इसलिये नहीं दिखलाई पड़ता कि मनुष्य या व्यक्तित्व विज्ञानादि परम्परा में निहित रहता है । अतः उसकी कल्पना भौतिक रूप में नहीं की जा सकती ।

सबसे अन्त में 'पायासी' राजन्य ने यह कहा कि वह अपनी इस धारणा का बहुत दिनों से प्रतिपादक है और उसना इससे इतना अनन्य सम्बन्ध है कि इस अवस्था में उसने लिये इसका छोड़ना नितान्त गठिन है । उसकी इस बात का निराकरण करते हुये 'कुमार-कस्तप' ने यह कहानी सुनाई कि "एक बार कुछ मित्र धनोपार्जन के अभिप्राय से बाहर चले । मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर पडा हुआ सन का ढेर देखा । तब एक मित्र ने दूसरे से कहा कि यहाँ पर बहुत सन पडा है । हम दोनों सन का एक-एक गट्टर बाँध कर से चलें । दूसरे ने इसे स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात् दोनों ने सन के गट्टर बाँध वहाँ से प्रस्थान किया । सन के गट्टर को लिये हुये वे दूसरे ग्राम में पहुँचे । यहाँ पर बहुत सा टाट पडा था । पहले मित्र ने दूसरे से कहा कि सन की अपेक्षा टाट अधिक मूल्यवान् और उपयोगी है । अतः हमें चाहिये कि हम सन के गट्टरों की फेंककर टाट के गट्टर बाँध लें । दूसरे मित्र ने उत्तर दिया कि वह बहुत दूर से सन के गट्टर को ला रहा है, इसके साथ ही वह अच्छी तरह से बाँधा हुआ और उसने लिये पर्याप्त भी है । यदि वह चाहे तो अपने लिये टाट ले ले । उसने इस उत्तर को सुनकर पहले ने सन को छोड़ कर टाट ले लिया ।

इसके पश्चात् उन्हें मार्ग में प्रमत्ता धीम का वक्ता सूत, धीम के वस्त्र, वपाग, ताँबा, रौंदा, गीसा, चाँदी तथा स्वर्णादि मिले और वहाँ भी ऐसा ही हुआ । पहला प्रमत्ता अपने गट्टर को बदलता गया और दूसरा अन्त तक सन के ही गट्टर को लादे रहा ।

आयुष्मान् 'कुमार-वस्त्र' ने 'पायासी' राजन्य के वचन की उपमा उसी मूर्ख के वचन से देते हुये कहा कि वह प्रपनी उस प्रकार की मिय्यादृष्टियों को परित्यक्त कर दे और उन्हें अपने भावी दुःखों का कारण बनने दे ।

राजन्य 'पायासी' ने अन्त में अपनी भूल को स्वीकार किया और आयुष्मान् 'कुमार-वस्त्र' का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया ।

४ प्रस्तुत ग्रन्थ: इसका महत्त्व

इस ग्रन्थ के दसों 'सुतो' पर दृष्टिपात करनेमात्र से ही यह ज्ञात हो जाता है कि इसका महत्त्व इसके पूर्व-खण्ड से भिन्न है ।

इस ग्रन्थ का अधिकांश देवता, यज्ञ तथा पौराणिक आख्याना के वर्णन में सम्बन्धित है । तत्कालीन ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन में यह निश्चय ही कुछ अंशों तक सहायक है ।

'महापदान-सुत' नामक प्रथम सुत ऐतिहासिक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले के छ बुद्धों का विस्तृत जीवन-वृत्त उपस्थित करता है । बौद्ध-साहित्य के विशेषज्ञ श्री रीज डेविड्स ने ठीक ही कहा है—“इन आख्यानों में इतनी समानरूपता है कि इनमें के किसी भी विवरण को न छोड़ने पर इन्हें समानान्तर तालिकाओं में रखा जा सकता है” । ये विवरण बौद्धधर्म के इस आधारभूत सिद्धान्त को कि सामारिक क्रम में 'धम्म' का कार्य-व्यापार अनादि बाल से चला आ रहा है—प्रतिपादित करने में सहायक हैं । साथ ही यह उस सामान्य भारतीय धारणा की और भी सचेत करता है जिससे किसी वस्तु को अत्यधिक महत्त्व प्रदान करने के लिये उसे अत्यन्त प्राचीन सिद्ध किया जाता है ।

'महामुद्रस्तन' नामक चौथा 'सुत' बौद्ध-पौराणिक-कल्पना का विवरण उपस्थित करने के ही कारण महत्त्वपूर्ण नहीं है, प्रत्युत यह इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है कि इस 'सुत' की उत्पत्ति सम्भवतः अत्यधिक प्राचीन है । वास्तव में पहले आये हुये 'महापरिनिव्यान-सुत' के इस सम्बन्ध में संकेत का ही यह विस्तार है । यही कथा 'महामुद्रस्तन जातक' [फुमबोल सस्वरण, जातक सख्या ६५] में भी आई है । यद्यपि उनमें कुछ प्रमाण विवरण इससे भिन्न है । इससे कुछ विद्वान् इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि सम्भवतः ये दोनों रूप किसी एक ही प्राचीन रूप से निस्सृत हुये हैं । 'महामुद्रस्तन' के ऐश्वर्य एतदभ्र का लम्बा वर्णन सूर्य-कथा में आये वर्णनों से काफी साम्य रखता है । जिसके आधार पर श्री रीज डेविड्स ने कहा है—“चाहे यह सम्पूर्ण कथा सूर्य-कथा पर प्राप्त हो या नहीं, अथवा इसके कुछ भाग या विवरण उन वस्तुओं से लिये गये हों, जिनकी पच्चा पहलें सूर्य में ही सम्बन्धित हैं, अथवा नहीं, पर इतने पर भी यह तथ्य शीघ्र ही स्वीकार करना चाहिये कि यह कथा निश्चित रूप से बौद्ध है । इस कहानी के विषय के प्रतिपादक के अधिवास का सूर्य पूजा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और जो कुछ भी सम्बन्ध परिलक्षित होता है वह इस पुस्तक को एक स्वरूप प्रदान करने समय सम्पादकों के मस्तिष्क में विद्यमान नहीं था । यह कहानी सूर्य कथा की ऋणी ही अथवा नहीं, पर निश्चय ही यह उन लोगों के साधारण धार्मिक विद्वानों तथा गान्यताओं की प्रतीक है, जिनमें यह प्रचलित थी ” ।

यह विचारणीय है कि आजकल समग्र, गया तथा पटना, जो बौद्धधर्म के मूल-केन्द्र थे और जहाँ के लोगों ने यद्यपि बौद्ध-धर्म छोड़ दिया है, फिर भी उनके धार्मिक जीवन में सूर्य-पूजा का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । इस

प्रकार यह मत इस तथ्य से भी भ्रम खाता है। किन्तु इसका महत्त्व तब और भी प्रकट हो जाता है, जब हम इस प्रान्त की सीमाओं को पार कर यह देखते हैं कि सूर्य-पूजा वहाँ अज्ञात-सी प्रतीत होती है।

यद्यपि इस 'सुत्त' में दिये गये विवरण आख्यानात्मक हैं तथापि ये यत् निर्णय करने में सहायक होते हैं कि उस समय क्षत्रिशाही तथा धार्मिक राजाओं के वैभव-विलास की क्या कल्पना थी।

पाँचवाँ, छठा, सातवाँ तथा आठवाँ सुत्त — 'महागोविन्द', 'महासमय', 'सन्नकपण्ड', तथा 'जनवसभ' — हृद्, प्रह्ला तथा अन्य दूसरे देवता, अस्तरायें तथा यक्षादि विभिन्न प्रकार के शक्ति के देवों की वीर्य-कल्पना के अध्ययन में प्रमुख रूप से सहायक हैं।

'महापरिनिवृत्तान-सुत्त' वा प्रारम्भ सैद्धान्तिक मतभेद रखनेवाले मगध तथा वैशाली राज्यों के बीच चलने वाले सङ्घर्ष की ओर संकेत करते हुये होता है। यह उन परिस्थितियों का सजीव चित्र उपस्थित करता है, जिनके कारण गङ्गा के तट पर 'पाटलिपुत्र' नामक नगर का निर्माण हुआ था। यह यद्यपि 'सुत्त' उस समय की संस्कृति तथा इतिहास के अध्ययन के लिये अपेक्षित तत्वों और तथ्यों की अमूल्य तिथि है।

'महानिदान' नामक दूसरा 'सुत्त' बौद्धदर्शन की धुरी 'पटिच्चसमुत्पाद' की व्याख्या करता है।

'महासतिपट्टान-सुत्त' का यह महत्व है कि यह त्रायं 'अष्टाङ्गिक मार्ग' के सातवें अङ्ग 'सम्मा सति' के अन्यासायं है। पीढियों से यह 'सुत्त' उन स्त्री, पुरुष, भिक्षु तथा उपासकों के लिये, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को हृदयङ्गम करके अपने को परम लक्ष्य की प्राप्ति में लागू किया है — प्रेरणादायक तथा विन्दशंक रहा है।

५. प्रस्तुत संस्करण

यह ग्रन्थ 'दीधनिपाय' के द्वितीय खण्ड 'महावग्ग' का निम्नलिखित ग्रन्थों के पाठों के आधार पर निर्मित श्रीर देवनागरी लिपि में मुद्रित नया संस्करण है — वर्णों संस्करण, छद्म-सङ्गायन प्रकाशन (१९५६), सिंहली-संस्करण, ज्ञानवास घेर द्वारा सम्पादित (१९२९), त्यामो-संस्करण, महामकुट राजकीय प्रकाशन (१९२६) तथा रोमन-संस्करण, श्री जे० ई० कार्पोन्टर द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट सोसायटी, १९४७)।

स्वविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय सङ्घ के सोत्साह सम्मित प्रयत्न से तैयार किये गये 'छद्म-सङ्गायन' संस्करण को हमने अपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये आधार-स्वरूप ग्रहण किया है। उसके पाठ और धर्मसम्बन्ध नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहे हैं। किन्तु प्रागुक्त दृष्टि से अपने संस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये हैं। इन प्रयत्नों में से पहला प्रयत्न सम्पूर्ण ग्रन्थ में एक व्यवस्थित क्रम से विराम चिह्नों का प्रयोग और दूसरा शीर्षक एवं अनुशीर्षक से सुसज्जित पाठ वा एक साङ्गोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना है।

(क) शीर्षक

पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थों में किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीर्षक देने की प्रथा नहीं थी। इससे स्थान पर हमें प्रकरण के अन्त में 'निट्ठिव' जैसे शब्द उपलब्ध होते हैं; किन्तु इससे आधुनिक पाठकों को सारे प्रकरण वा सार-सर्व ग्रहण कर अपने समस्त वर्ण-विषय वा एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में जटिलता वा अनुभव करना पड़ता है। अतः उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह ध्यावचन समझा कि शीर्षक एवं अनुशीर्षक के क्रम में सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा। यथागम्भव इन शीर्षकों का निर्माण मूल-ग्रन्थ से चुने गये शब्दों से ही किया गया है। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अपने इस प्रयत्न में हम यहाँ तक सफल हुये हैं। स्मरण रहे कि ये शीर्षक हमारे अपने दिये हुये हैं जो मूल-पाठ में प्राप्त नहीं होते।

प्रधान शीर्षक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित हैं और प्रकरण-चिह्न (§) के साथ उनकी क्रम-सख्या दे दी गई है तथा उसके अन्तर्गत आने वाले द्रष्टव्य शीर्षक भी बिना क्रम-सख्या के उसी टाइप में मुद्रित किये गये हैं। अनुशीर्षक क्रम सख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में और उसके अन्तर्गत आनेवाले छोटे शीर्षक क्रम-सख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप में मुद्रित किये गये हैं। पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीर्षको का ही उल्लेख किया गया है।

(ख) पाठभेद-निर्धारण

पाठभेद-निर्धारण में शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से किन रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा है। दोनों दृष्टियों से सिद्ध यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हैं तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ और दूसरे को पृष्ठ के नीचे दी गई टिप्पणी में दे दिया है। यहाँ एक के ग्रहण करने का यह अर्थ नहीं है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है।

(ग) विराम-चिह्न

पालि की पुरानी पद्धति में पूर्ण विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्नों के प्रयोग करने की प्रथा नहीं थी। स्वामी-संस्करण में इसी प्राचीन पद्धति का अनुसरण किया गया है। लेकिन वही कही पालि की वाक्य-योजना इतनी उलझी हुई मिलती है कि उसके अर्थों के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्नों के अभाव में समझना अत्यन्त कठिन हो जाता है। अतः प्रस्तुत संस्करण में हमने अन्य आवश्यक विराम चिह्नों का निस्संकोच प्रयोग किया है। इन विराम-चिह्नों का प्रयोग करने में हमारा यही उद्देश्य रहा है कि वाक्य या अर्थ अधिक से अधिक स्पष्ट हो जाय। जहाँ विराम-चिह्नों के प्रयोग की अनिवार्यता नहीं समझी गई, वहाँ पर हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समझा। फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम चिह्नों के प्रयोग में यथासम्भव एकरूपता और सङ्गति बनी रहे।

इस संस्करण में निम्नलिखित विराम-चिह्न व्यवहृत हुए हैं — पूर्णविराम (।), अर्धविराम (,), उपविराम (), स्वल्प-विराम (), प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (!), युष्मत् (-), रेखिका (-), मुख्य-उद्धरण (" "), उद्धरण (" ")

अन्यमाला के प्रथम पुष्प 'महावग्ग' में हमने उद्धरण चिह्न का प्रयोग वही किया है, जहाँ उसकी उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त है। परन्तु अब यह निश्चय हुआ है कि जहाँ उद्धरण-बोधक क्रिया उक्त नहीं है वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाय। प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण चिह्न और उसके अन्तर्गत आनेवाले उद्धरणों का बोध उद्धरण चिह्नों से कराया गया है और यदि कहीं उसके अन्तर्गत कोई उद्धरण था गया है तो उसका बोध क्रिया के आगे रेखिका चिह्न के प्रयोग से कराया गया है।

प्रधान उद्धरणों के सभी पैराग्राफ तद्बोधक मुख्य चिह्नों से और अन्तर्गत उद्धरणों के उद्धरण चिह्नों से प्रारम्भ किये गये हैं।

(घ) सांस्कृतिक

अथ टिप्पणी में प्रयुक्त रो०, सी०, स्पा० तथा म० सङ्केत क्रमशः रोमन, सिंहली, स्वामी तथा मरम्म (वर्मी) संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये हैं।

पृष्ठ के पार्श्व में प्रयुक्त R और B सङ्केत क्रम से रोमन और वर्मी संस्करणों का बोध कराते हैं। इन सङ्केतों के साथ दी हुई सख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पद्धति में से होता है।

रोमन-संस्करण की दी हुई पृष्ठ-संख्या के सङ्केतों से 'पालि टेक्स्ट सोसायटी' द्वारा प्रकाशित पालि के कोप तथा रोमन-संस्करण के आधार पर बने हुये कोपों तथा लिखे गये शोध-ग्रन्थों में उद्धरणविशेष को खोज लेना सरल हो जायगा। अतएव उसके इस महत्त्व को समझकर प्रस्तुत संस्करण में रोमन-संस्करण की पृष्ठ-संख्या दे दी गई है। इसके साथ ही बर्मी लिपि में बर्मा से प्रकाशित प्राचीन स्वधिरवाद-परम्परा के प्रतिनिधि 'छट्ट-सङ्गायन' का भी विशेष महत्त्व और स्थान है। अतः उसकी इस विशेषता को ध्यान में रखकर उसकी भी पृष्ठ-संख्या प्रस्तुत ग्रन्थ में दी गई है।

(च) पृष्ठोपरि-कोप में प्रयुक्त सङ्केत

युग्म-संख्यक पृष्ठों में प्रयुक्त सङ्केत चुत्त, दीपक तथा पंचाश्राफ के प्रारम्भ का और अयुग्म-संख्यक पृष्ठों में अन्त का चोतन करते हैं।

(छ) वर्तिनी

पालि में एय, अवि और इति इन ग्रन्थियों के आदि अक्षर का प्रायः लोप हो जाता है और उनके रूप व, पि, तथा ति रह जाते हैं। कुछ विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शब्द मान लेना अधिक सङ्गत है। हमने भी प्रस्तुत संस्करण में ऐसा ही किया है।

हमने एक ही शब्द में घाने वाली परसवर्ण-सन्धि का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया है और उन्हें इस प्रकार व्यवहृत किया है—सञ्ज, किञ्चि, पञ्च इत्यादि। पर जहाँ उपर्युक्त बात नहीं है वहाँ ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा गया है। उदाहरणार्थ—एवं पि, कम्मं ति इत्यादि। परन्तु ऐसे प्रयोगों में यह दिग्दर्शित करने के लिये कि इनके सन्धियुक्त रूप भी व्याकरण सिद्ध है तथा भाषा में इनका प्रयोग भी अनेक स्थलों पर हुआ है, हमने उनका व्यवहार किया है। उदाहरणार्थ—एयम्पि, कम्मन्ति, क्कित्ति इत्यादि।

कुछ पाश्चात्य सम्पादकों ने वर्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है। लेकिन उन स्थानों पर जहाँ 'ति' और 'पि', 'इ' तथा 'घ' से परे आये हैं, वहाँ उन्होंने सस्तर के सन्धि-नियम "अकः शवर्णं दीर्घः" का आश्रय लेकर इन स्वतन्त्र गान्य ग्रन्थियों को उनके पहले घानेवाले शब्दों में सन्धियुक्त करने के व्यवहृत किया है। उदाहरणार्थ—वेसेसीति, तस्सापि इत्यादि। वस्तु ऐसे स्थलों पर भी हमने उन्हें अलग ही रखा है। उदाहरणार्थ—वेसेसी ति, तस्सा पि। 'ति' तथा 'पि' के पूर्व आये हुये स्वरो का दीर्घ होना पालि के 'मोग्गल्लान-व्यावरण' से सिद्ध है। इसके विधान के लिये उत्तम 'व्यञ्जने दीर्घरता' (१।३३) सूत्र दिया हुआ है, जिसके अनुसार यदि पूर्व स्थित स्वर के बाद में व्यञ्जन हो तो यह प्रायः दीर्घ हो जाता है। यथा—एतित्ति + परमं = एतत्ती परमं; मोत्तम + ति = मोत्तमा ति; होत्ति + ति = होत्ती ति इत्यादि।

इस ग्रन्थमाला में पहले दो खण्ड 'महावग्ग' और 'सुल्लवग्ग' समाप्त मुद्रित हो चुके हैं और यह प्रसन्न किया जा रहा है कि ये पाठकों को यथा दीर्घ प्रायः ही जाय। इन दोनों खण्डों के मुद्रण के परन्तु हमारे लिये यही उपयुक्त और उचित था कि हम विनयपत्रक के परिचित, पाठ्य और परिवार नामक दोष तीन खण्डों का प्रकाशन करते, जिनकी सम्पुल्लिखिता बहुत दिनों से पूर्ण होकर पड़ी हैं। परन्तु हमने दीर्घनिर्वाय के तीन खण्डों को ही प्राथमिकता देना अधिक उचित समझा है।

प्रकाशनार्थ कामन के प्राण होने में विग्रह होने के मुद्रण-कार्य फरवरी १९२८ ई० के उत्तरार्ध में प्रारम्भ हो गया। फिर भी इस दो मास की अवधि में ही दीर्घनिर्वाय के इन तीन खण्डों का मुद्रण कराने में हम सफल हो गये हैं।

काशी में मुद्रण के संतोषन कार्य के लिये विनय हमारे विभाग के सम्पादक श्री तन्मीताचार्य विवरी एम० ए० तथा महानन्द सम्पादक श्री बीरबन शर्मा एम० ए० और श्री रामदेव शिबरी एम० ए० के इन तीन खण्डों को इनके काम समय में मुद्रण और प्रकाशन कराने के लिये रात दिन व्यक्त परिश्रम किया है।

वाराणसी हिन्दू विश्वविद्यालय के भारती महाविद्यालय के रीडर डा० अबधकिशोर नारायण एम० ए०, पी-एच० डी० इस आयुष्य की पाण्डुलिपि तैयार करने में अत्यधिक सहायक रहे हैं। अतः वे हमारे धन्यवाद के पात्र हैं।

विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड, वाराणसी के अध्यक्ष तथा कर्मचारीगण हमारे धन्यवाद के पात्र हैं, जिनकी सहयोग भावना और तत्परता से हम इन खण्डों को अबधि के भीतर मुद्रित कराने में समर्थ हो सके हैं।

शिवसु जगदीश कारपप

—:०:—

THE PĀLI ALPHABET IN DEVANĀGARĪ AND ROMAN CHARACTERS

VOWELS

अ a आ ā इ i ई ī उ u ऊ ū ए e ओ o

CONSONANTS WITH VOWEL "A"

क ka	ख kha	ग ga	घ gha	ङ ṅa
च ca	छ cha	ज ja	झ jha	ञ ña
ट ṭa	ठ ṭha	ड ḍa	ढ ḍha	ण ṇa
त ta	थ tha	द da	ध dha	न na
प pa	फ pha	ब ba	भ bha	म ma
य ya	र ra	ल la	व va	श sa
		ह ha	ळ ḷa	ष ṣa

VOWELS IN COMBINATION

क ka	का kā	कि ki	की kī	कु ku	कू kū	के ke	को ko
ख kha	खा khā	खि khi	खी khī	खु khu	खू khū	खे khe	खो kho

CONJUNCT-CONSONANTS

क kka	क्व ñca	द dva	म्ब mba
क्ख kkha	क्ख ñcha	ध dhya	म्भ mbha
क्य kya	ञ्ज ñja	ध्व dhva	म्म mma
क्रि kri	ञ्ज, ञ्ज ñjha	न्त nta	म्य mya
क्ल kla	ट्ट, ट्ट ṭṭa	न्त्व ntva	म्ह mha
क्व kva	ट्ट, ट्ट ṭṭha	न्थ ntha	म्य yya
क्य khya	ड्ड, ड्ड ḍḍa	न्द nda	य्ह yha
क्ख khva	ड्ड, ड्ड ḍḍha	न्द्र ndra	ल्ल lla
ग्ग gga	ण्ट ṇṭa	न्ध ndha	ल्य lya
ग्घ gggha	ण्ट ṇṭha	न्न nna	ल्ह lha
ग्य gya	ण्ड ṇḍa	न्य nya	व्ह vha
ग्र gra	ण्ण ṇṇa	न्ह nha	स्त sta
ङ्क ṅka	ण्ह ṇha	प्प ppa	स्त्र stra
ङ्क ṅkha	त्त tta	प्फ ppha	सु सुa
ङ्ग, ङ्ग ṅga	त्थ ttha	प्य pya	स्य sya
ङ्घ ṅgha	त्व tva	प्फ pfa	स्य ssa
ञ्च cca	त्य tya	ब्ब bba	स्म sma
ञ्च ccha	त्र tra	ब्भ bbha	स्व sva
ञ्ज jja	द्द, द्द dda	ब्भ bya	ह्य hma
ञ्ज, ञ्ज jjha	द्ध ddha	ब्र bra	ह्य hva
ञ्ण ñña	द्य dya	म्प mpa	ह्य lha
ञ्ह ñha	द्र dra	म्फ mpha	

१ = ā; २ = i; ३ = ī; ४ = u; ५ = ū; ६ = e; ७ = o

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०

दीघनिकायपालि

(२. महावग्गो)

सुत्तसूची

	पिट्ठङ्का		पिट्ठङ्का
१. महापदानसुत्तं			
§ १. पुब्बेनिवासपटिसंमुत्तकथा	१	अग्गसावकयुगं	३२
§ २. पुब्बा भगवन्तो	४	महाजनकायपव्वज्जा	३४
जातिया	४	पुरिमपव्वजितानं धम्माभि-	
गोत्तेन	४	समयो	३५
आयुप्पमाणं	५	चारिकाअनुजानता	३६
वोधिक्खवा	५	देवतारोचना	३६
सावकयुगं	५	२. महानिदानसुत्तं	
सावकसन्निपाता	६	§ १. गम्भीरो पटिच्चसमुप्यादो	४४
अग्गुपट्टाको	७	इदपच्चया	४४
मातापिता	७	इमस्मि असति इदं न होति	४५
§ ३. तथागतस्स धम्मता	८	§ २. अत्तपञ्जात्ति नअत्तपञ्जात्ति	५१
विपस्ती भगवा	११	अत्तसमनुपस्सना	५३
§ ४. द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणा	१४	§ ३. सत्तविञ्जाणद्वितियो	५५
§ ५. विपस्सो वोधिसत्तो	१६	§ ४. अट्ट विमोक्खा	५६
चत्तारि निमित्तानि	१८	३. महापरिनिब्बानसुत्तं	
कालङ्कतो	२१	§ १. वज्जीनं सत्त अपरिहानिया	
पव्वजितो	२३	धम्मा	५८
महाजनकायो विपस्सि अनु-		§ २. भिक्खूनं सत्त अपरिहानिया	
पव्वजि	२५	धम्मा	६१
विपस्सिस्स जाणपटिवेधो	२५	अपरे पि सत्त	६२
§ ६. विपस्सो भगवा सम्मासम्बुद्धो	२६	अपरे पि सत्त	६३
ब्रह्मयाचनकथा	२६	अपरे पि सत्त	६३

पिढ्ङ्का

अपरे पिं सत्त	६४
§ ३. भिक्खूनं छ अपरिहानिया धम्मा	६४
§ ४. सारिपुत्तस्स सीहनादो	६६
§ ५. पाटलिगामिकानं भगवतो	
ओवादो	६८
§ ६. पाटलिपुत्तनगरमापनं	७०
§ ७. धम्मादासो धम्मपरियायो	७२
§ ८. अम्बपालीगणिका	७६
§ ९. वेळुवगामवस्तूपगमनं	७९
§ १०. चापालचेतिये आयुसह्वारं	
ओस्सजि	८०
§ ११. महतो भूमिचालस्स अट्ट	
पच्चया	८४
§ १२. अट्ट परिसा	८६
§ १३. अट्ट अभिभायतनानि	८६
§ १४. अट्ट विमोक्खा	८८
§ १५. मारयाचनकथा	८८
§ १६. आनन्दयाचनकथा	९०
§ १७. महावने धम्मदेसना	९३
पच्छिमकं वेसालीदस्सनं	९५
§ १८. चत्तारो महापदेसा	९६
§ १९. कम्मारपुत्तचुन्दवत्थु	९८
§ २०. तथागतस्स महिद्धिकता-चक्क-	
च्छिन्ना नदिका अनाविला	
सन्दति	९९
§ २१. पुक्कुसमल्लपुत्तवत्थु	१००
§ २२. द्वे पिण्डपाता समसमफला	१०५
§ २३. परिनिब्बानमञ्चनिपत्रो	
भगवा	१०६
उपवाणत्थेरं अपसारोस्ति	१०७

पिढ्ङ्का

चत्तारि संवेजनीयद्वानानि	१०८
आनन्दपुच्छा	१०९
थूपारहपुग्गला	११०
आनन्दे अच्छरियधम्मा	१११
महासुदस्सनकथा	११३
मल्लानं वन्दना	११४
सुभट्टपरिव्वाजकवत्थु	११५
तथागतपच्छिमवाचा	११९
परिनिव्वुतकथा	११९
§ २४. बुद्धसरीरपूजा	१२२
§ २५. महाकस्सापत्थेरवत्थु	१२४
§ २६. सरीरधातुविभजनं	१२६
धातुथूपूजा	१२८
४. महासुदस्सनसुत्तं	
§ १. कुसावती राजधानी	१३०
§ २. चक्करतनं	१३२
§ ३. हत्थिरतनं	१३३
§ ४. अस्सरतनं	१३३
§ ५. मणिरतनं	१३४
§ ६. इत्थिरतनं	१३४
§ ७. गहपतिरतनं	१३४
§ ८. परिणायकरतनं	१३५
§ ९. चतुइद्विसमन्नागतो महा-	
सुदस्सनो	१३५
§ १०. धम्मपासादपोक्खरणी	१३६
§ ११. ज्ञानसम्पत्ति	१४१
§ १२. चतुरासीतिनगरसहस्सादि	१४३
§ १३. सुभदादेविउपसङ्कमनं	१४४
§ १४. सङ्घारानं अनिच्चभावो	१४८

५. जनवसभसुतं

- § १. मागधके आरब्ध आनन्दस्स
परिकथा १५१
- § २. जनवसभयसस्स पातुभावो १५४
- § ३. सुघम्माय सभाय वण्णना,
ब्रह्मणो पातुभावो १५६
- § ४. देवसभायं ब्रह्मणो सनद्धकु-
मारस्स देसना १५६
चत्तारो इद्धिपादा १५६
तयो ओकासाधिगमा १६०
चत्तारो सत्तिपट्टाना १६२
सत्त समाधिपरिकलारा १६२

६. महागोविन्दसुतं

- § १. सुघम्मा देवसभा १६५
- § २. भगवतो अट्ट यथाभुञ्चा
वण्णा १६६
- § ३. ब्रह्मणो सनद्धकुमारस्स पातु-
भावो १६८
- § ४. गोविन्दब्राह्मणवत्तु १७२
महागोविन्दो १७३
रज्जसविभजनं १७४
- § ५. महागोविन्दस्स पटिसत्तलानं १७६
- § ६. ब्रह्मणा सनद्धकुमारणे साकच्छा १७८
- § ७. महागोविन्दस्स पव्वज्जा १८१
छ सत्तिपआमन्तना १८२
ब्राह्मणमहासालादीनं
आमन्तनं १८४
भरियानं आमन्तना १८५
महागोविन्दो पव्वजि १८६

७. महासमयसुतं

- § १. चतुस्रं सुद्धावासकायिकानं
देवानं गाया १८६
- § २. भगवता सन्निपतितानं
देवतानं नामकित्तानं १९०

८. सक्कपञ्चसुतं

- § १. पञ्चसित्तो भगवन्तं वीणं
अस्सावेसि १९७
- § २. सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं
उपसङ्गमि २००
गोपकवत्तु २०२
- § ३. सक्कपञ्चविस्मज्जनं २०६
इस्सामच्छरियसंयोजना
सत्ता २०६
इस्सामच्छरियं पियाप्पिय-
पभवं २०७
पियाप्पिय छन्दपभवं २०७
छन्दो वितक्कपभवो २०७
वितक्को पपञ्चसज्जानह्वा-
पभवो २०७
पपञ्चसज्जासह्वा निरोध-
गामिनी पटिपदा २०८
पातिमोमखसंवरपटिपदा २०९
इन्द्रियसंवरपटिपदा २१०
नानापातु लोको २११
अज्जे ममपब्राह्मणा २१२
सक्कत्तं सोमनस्सपटि-
तानत्तं छ अत्यवमा २१३

६. महासतिपट्टानसुत्तं

§ १. उद्देशो	२१७
§ २. कायानुपस्सना	२१७
(क) आनापानपब्बं	२१७
(ख) इरियापथपब्बं	२१८
(ग) सम्पजानपब्बं	२१८
(घ) पटिकूलमनसिकारपब्बं	२१९
(ङ) धातुमनसिकारपब्बं	२१९
(च) नवसिबधिकपब्बं	२२०
§ ३. वेदनानुपस्सना	२२१
§ ४. चित्तानुपस्सना	२२२
§ ५. धम्मानुपस्सना	२२२
(क) नीवरणपब्बं	२२२
(ख) खन्दपब्बं	२२४
(ग) आयतनपब्बं	२२४
(घ) बोञ्जङ्गपब्बं	२२६
(ङ) चतुसच्चपब्बं	२२७
दुक्खसच्चं	२२७
समुदयसच्चं	२३०
निरोधसच्चं	२३१
मगगसच्चं	२३३
§ ६. सतिपट्टानभावनासंसो	२३४

१०. पायासिराजञ्जसुत्तं

§ १. पायासि आयस्मन्तं कुमार- कस्सपं उपसङ्कमि	२३६
§ २. कुमारकस्सपो उपमाहि नत्थिकवादं पटिभिन्दि	२३७
चन्दिमसुरियउपमा	२३८
चोरउपमा	२३९
गूथकूपपुरिसउपमा	२४१
तावतिसदेवउपमा	२४४
जच्चन्धउपमा	२४४
गब्भिनीउपमा	२४६
सुपिनकउपमा	२४८
सन्तत्तअयोगुळउपमा	२४९
सङ्घमउपमा	२५१
अग्गिकजटिलउपमा	२५२
द्वेसत्थवाहउपमा	२५५
गूथभारिकउपमा	२५८
अक्खधुत्तकउपमा	२५८
साणभारिकउपमा	२५९
§ ३. पायासि उपासकत्तं पटिवेदेसि	२६१
§ ४. महप्फलो महानिसंसो यञ्चो	२६२
§ ५. सक्कच्चासक्कच्चदानफलानि	२६३
तस्सुद्धानं	२६५

सुत्तपिटके
दीघनिकायो
(महावग्गो)

दीघनिकायपालि

महावग्गो

१. महापदानसुत्तं

१. पुब्बेनिवासपटिसंयुत्तकथा

१. एवं मे सुत्तं । एकं समयं भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे करेरिकुटिकायं । अथ खो सम्बहुलानं भिक्खून् पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिकन्तानं करेरिमण्डलमाळे सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं पुब्बेनिवासपटिसंयुत्ता^१ धम्मी कथा उदपादि - "इति पि^१ पुब्बेनिवासो, इति पि^१ पुब्बेनिवासो" ति ।

B 1,
R. 1

२. अस्सोसि खो भगवा दिव्वाय सोतधातुया विसुद्धाय अतिक्कन्त-मानुसिकाय तेसं भिक्खून् इमं कथासल्लापं । अथ खो भगवा उट्ठायासना येन करेरिमण्डलमाळो तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा पञ्जात्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "काय नुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना; का च पन वो अन्तराकथा विप्पकता" ति ?

5

एवं वुत्ते, ते भिक्खू भगवन्तं एतदवोचुं - "इध, भन्ते, अम्हाकं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिकन्तानं करेरिमण्डलमाळे सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं पुब्बेनिवासपटिसंयुत्ता धम्मी कथा उदपादि - "इति पि पुब्बेनिवासो, इति पि पुब्बेनिवासो" ति । अयं खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता; अथ भगवा अनुप्पत्तो" ति ।

10

R. 2

३. "इच्छेय्याय नो तुम्हे, भिक्खवे, पुब्बेनिवासपटिसंयुत्तं धम्मि कथं सोत्तुं" ति ?

13

B 2

१. करेरीकुटिकायं - सी० । २. पुब्बेनिवासपटिसंयुत्ता - सी० । ३. रो० पोत्थे नत्थि ।

“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, मुगत, कालो, यं भगवा पुव्वेनिवास-
पटिसंयुत्तं धम्मि कयं करेय्य । भगवतो मुत्वा भिक्खू धारेत्सन्ती” ति ।

“तेन हि, भिक्खवे, सुणाय, साधुकं मनसि करोय, भासिस्सामी” ति ।

“एवं, भन्ते” ति सो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोत्तुं । भगवा एतदवोच-

§ २. पुब्बा भगवन्तो

- ५ ४. “इतो सो, भिक्खवे, एकनवुत्तिकप्पे^१ यं विपस्सी भगवा अरहं
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इतो सो, भिक्खवे, एकत्तिसे^१ कप्पे^१ यं सिराी
भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । तस्मिञ्चैव सो, भिक्खवे, एकत्तिसे
कप्पे वेस्सभू भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इमस्मिञ्चैव सो,
भिक्खवे, भद्दकप्पे ककुसन्धो भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि ।
१० इमस्मिञ्चैव सो, भिक्खवे, भद्दकप्पे कोणागमनो^१ भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो
लोके उदपादि । इमस्मिञ्चैव सो, भिक्खवे, भद्दकप्पे कस्सपो भगवा अरहं
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । इमस्मिञ्चैव सो, भिक्खवे, भद्दकप्पे अहं
एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उप्पन्नो ।

जातिया

- ५ ५. “विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो रात्तियो जातिया
१५ अहोमि, रात्तियणुले उदपादि । सिग्गी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो
रात्तियो जातिया अहोमि, रात्तियणुले उदपादि । वेस्सभू, भिक्खवे, भगवा
अरहं सम्मासम्बुद्धो रात्तियो जातिया अहोमि, रात्तियणुले उदपादि । पणुगन्धो,
भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो जातिया अहोमि, ब्राह्मणणुले
उदपादि । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणे
२० जातिया अहोमि, ब्राह्मणणुले उदपादि । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा अरहं
सम्मासम्बुद्धो ब्राह्मणो जातिया अहोमि, ब्राह्मणणुले उदपादि । अहं, भिक्खवे
एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो रात्तियो जातिया अहोमि, रात्तियणुले उप्पन्नो ।

गोत्तेन

- ५ ६. “विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो गोत्तेन
गोत्तेन अहोमि । सिग्गी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो गोत्तेन
२५ गोत्तेन अहोमि । वेस्सभू, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो गोत्तेन

गोत्तेन ग्रहोसि । ककुसन्धो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो गोत्तेन ग्रहोसि । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो गोत्तेन ग्रहोसि । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो कस्सपो गोत्तेन ग्रहोसि । अहं, भिक्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो गोतमो गोत्तेन ग्रहोसि ।

आयुप्पमाणं

७. "विपस्सिस्त, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अतीति-
वत्ससहस्सानि^१ आयुप्पमाणं ग्रहोसि । सिस्सिस्त, भिक्खवे, भगवतो अरहतो
सम्मासम्बुद्धस्स सत्ततिवत्ससहस्सानि आयुप्पमाणं ग्रहोसि । वेस्सभुस्स,
भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सट्ठिवत्ससहस्सानि आयुप्पमाणं
ग्रहोसि । ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स चत्तालीस-
वत्ससहस्सानि^१ आयुप्पमाणं ग्रहोसि । कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तिसवत्ससहस्सानि आयुप्पमाणं ग्रहोसि ।
कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स वीसतिवत्ससहस्सानि^१
आयुप्पमाणं ग्रहोसि । मय्हं, भिक्खवे, एतरहि अप्पकं आयुप्पमाणं परित्तं
लहुकं; यो चिरं जीवति सो वस्ससत्तं अप्पं वा मिथ्यो^१ ।

बोधिक्खला

८. "विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले
अभिसम्बुद्धो । सिखी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पुण्डरीकस्स मूले
अभिसम्बुद्धो । वेस्सभू, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो सालस्स मूले
अभिसम्बुद्धो । ककुसन्धो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो सिरीसस्स
मूले अभिसम्बुद्धो । कोणागमनो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो
उडुम्बरस्स मूले अभिसम्बुद्धो । कस्सपो, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो
निग्रोधस्स मूले अभिसम्बुद्धो । अहं, भिक्खवे, एतरहि अरहं सम्मासम्बुद्धो
अस्सत्थस्स मूले अभिसम्बुद्धो ।

सावकयुगं

९. "विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स
खण्डतिसं नाम सावकयुगं ग्रहोसि अग्गं भद्दयुगं । सिस्सिस्त, भिक्खवे,
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अभिभूस्सम्भवं^१ नाम सावकयुगं ग्रहोसि अग्गं
भद्दयुगं । वेस्सभुस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सोणुत्तरं नाम

१. रो० गोत्तेके नत्थि । २. अतीति० - रो० । ३. चत्तारीय० - रो०; चत्तारीय-
वत्ससहस्सानि - ती०; चत्ताळीत० - स्था० । ४. वीमतिं धम्मसहस्सानि - रो० । ५. नीयो - की० ।

६. अभिभूस्सम्भवं - सी०, रो०, प्रट्टकथा ।

नाम राजा पिता अहोसि, वस्सवती' नाम देवी माता अहोसि जनेत्ति ।
सुप्पतितस्स रञ्जो अनोमं' नाम नगरं राजधानी अहोसि ।

“ककुसन्धस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अग्गिदत्तो
नाम ब्राह्मणो पिता अहोसि, विसाखा नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ति ।
5 तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन खेमो नाम राजा अहोसि । खेमस्स रञ्जो
खेमवती नाम नगरं राजधानी अहोसि ।

“कोणागमनस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स
यञ्जदत्तो नाम ब्राह्मणो पिता अहोसि, उत्तरा नाम ब्राह्मणी माता अहोसि
जनेत्ति । तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन सोभो नाम राजा अहोसि । सोभस्स
10 रञ्जो सोभवती नाम नगरं राजधानी अहोसि ।

“कस्सपस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स ब्रह्मदत्तो
नाम ब्राह्मणो पिता अहोसि, धनवती नाम ब्राह्मणी माता अहोसि जनेत्ति ।
D. 7 तेन खो पन, भिक्खवे, समयेन किकी' नाम राजा अहोसि । किकिस्स
रञ्जो वाराणसी नाम नगरं राजधानी अहोसि ।

15 “मय्हं, भिक्खवे, एतरहि सुद्धोदनो नाम राजा पिता अहोसि, माया
नाम देवी माता अहोसि, जनेत्ति । कपिलवत्यु नाम नगरं राजधानी” ति ।
इदमवोच भगवा । इदं वत्थान' सुगतो उट्ठायासना विहारं पाविसि ।

१३. तयागतस्स धम्मता

१३. अय सो तेसं भिक्खुणं अचिरपक्कन्तस्स भगवतो अयमन्तरा-
कया उदपादि — “अच्छरियं, आयुसो, अचमुत', आयुसो, तयागतस्स
20 महिद्धिवत्ता महानुभावता, यय हि नाम तयागतो अतीते बुद्धे परिनिच्युते
छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्टुमे परिव्यादिन्नवट्टे सव्वदुक्खसवीतिवत्ते जातितो पि
अनुस्सरिस्सति, नामतो पि अनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अनुस्सरिस्सति,
आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सति, नावकमुगतो पि अनुस्सरिस्सति, नायक-
सन्निपाततो पि अनुस्सरिस्सति — ‘एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेमुं इति पि,
25 एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंगीना, एवंधम्मा, एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता
ते भगवन्तो अहेसुं इति पी' ति ।

“कि नु गो, आयुसो, तयागतग्गेय नु गो एणा धम्मघानु गुण्णटिविद्धा,
गरत्ता धम्मघानुणा गुण्णटिविद्धता तयागतो अतीते बुद्धे परिनिच्युते छिन्न-
पपञ्चे छिन्नवट्टुमे परिव्यादिन्नवट्टे सव्वदुक्खसवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरिस्सति,

१. आयुसो - पी०, ए०, रो० । २. अतीते - रो० । ३. इति - इति । ४. एणा -
पी०, रो० । ५. एणा - एणा ।

नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति - 'एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु इति पी' ति, उदाहू देवता तथागतस्स एतमत्थं' आरोचेसु येन तथागतो अतीते बुद्धे परिनिव्वुते 5
 छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्टमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि R.9
 अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति - 'एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा, एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु इति 10 B. 8
 पी' ति ।

१४ अयं च हिं दस भिक्खून् अन्तराकथा विप्पकता होति । अथ खो भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लानां वुट्ठितो येन करेरिमण्डलमाळो तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । निसज्ज सो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "कायनुत्थ, भिक्खवे, एतरहि कथाय सन्निसिन्ना, का च 15
 पन् चो अन्तराकथा विप्पकता" ति ?

एव वुत्ते, ते भिक्खू भगवन्त एतदवोचु - "इध, भन्ते, अम्हाक अचिर- पवकन्तस्स भगवतो अयं अन्तराकथा उदपादि - 'अच्छरिय, आवुसो ! अब्भुत, आवुसो, तथागतस्स महिद्विकता महानुभावता, यन् हि नाम तथागतो अतीते बुद्धे परिनिव्वुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्टमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते 20
 जातितो पि अनुस्सरिस्सति", नामतो पि अनुस्सरिस्सति, गोत्ततो पि अनुस्सरिस्सति, आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकयुगतो पि अनुस्सरिस्सति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरिस्सति - एवजच्चा ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा, एवविहारी, एव- विमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु इति पी' ति । किं नु खो, आवुसो, तथागतस्सेव 25
 नु खो एसा धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्सा धम्मधातुया सुप्पटिविद्धता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिव्वुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्टमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति,

१. तमत्थ - इति पि । २. सायण्हसमय - ग० । ३. पटिसल्लाना - भी० । ४. अनुस्सरति - रो० ।

आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो
 पि अनुस्सरति - एवजच्चा ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता,
 एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा, एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु
 इति पी ति, उदाहु देवता तथागतस्स एतमत्थ आरोचेसु येन तथागतो अतीते
 बुद्धे परिनिव्वुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्टमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते
 जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति
 आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो
 पि अनुस्सरति - एवजच्चा ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवनामा,
 एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा, एवविहारी, एवविमुत्ता ते
 भगवन्तो अहेसु इति पी ति ? अय खो नो, भन्ते, अन्तराकथा विप्पकता
 अथ भगवा अनुप्पत्तो” ति ।

१५ “तथागतस्सेवेसा, भिक्खवे, धम्मधातु सुप्पटिविद्धा यस्ता
 धम्मधातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिव्वुते छिन्नपपञ्चे
 छिन्नवट्टमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो
 पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावक-
 युगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति - एवजच्चा ते
 भगवन्तो अहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा, एवपञ्जा,
 एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु इति पी ति । देवता पि
 तथागतस्स एतमत्थ आरोचेसु येन तथागतो अतीते बुद्धे परिनिव्वुते छिन्न-
 पपञ्चे छिन्नवट्टमे परियादिन्नवट्टे सब्बदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति,
 नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुष्पमाणतो पि अनुस्सरति,
 सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति - एवजच्चा
 ते भगवन्तो अहेसु इति पि, एवनामा, एवगोत्ता, एवसीला, एवधम्मा,
 एवपञ्जा, एवविहारी, एवविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसु इति पी ति ।

“इच्छेय्याथ नो तुम्हे, भिक्खवे, भिय्योसोमत्ताय’ पुब्बेनिवास-
 पटिसयुत्त धम्मि कथ सोतु” ति ।

“एतस्स, भगवा, कालो, एतस्स, सुगत, कालो, य भगवा भिय्योसो
 मत्ताय पुब्बेनिवासपटिसयुत्त धम्मि कथ करेय्य । भगवतो सुत्वा भिक्खू
 धारेस्सन्ती” ति ।

“तेन हि, भिक्खवे, मुणाय, सायुक्क मनसि परोथ, भासिस्सामी” ति ।

“एवं, भन्ते” ति सो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतद-
वोच -

विपस्सी भगवा

१६. “इतो सो, भिक्खवे, एकनवुतिकप्पे” यं विपस्सी भगवा अरह
सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो
सत्तियो जात्तिया अहोसि, सत्तियकुले उदपादि । विपस्सी, भिक्खवे, भगवा 5
अरह सम्मासम्बुद्धो कोण्डञ्चो गोत्तेन अहोसि । विपस्सिस्स, भिक्खवे,
भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि आयुप्पमाणं अहोसि ।
विपस्सी, भिक्खवे, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धो । B 10
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स राण्डत्तिस्सं नाम
सावकयुगं अहोसि अगं भद्दयुगं । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो 10
सम्मासम्बुद्धस्स तयो सावकानं सन्निपाता अहेसु । एको सावकानं सन्निपातो
अहोसि अट्टसट्ठिभिक्खुसत्तसहस्स, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि भिक्खु-
सत्तसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि असीतिभिक्खुसहस्सानि^१ -
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं
सन्निपाता अहेसु, सव्वेसंयेव खीणासवानं । विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो 15
अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको नाम भिक्खु उपट्ठाको अहोसि अग्गुपट्ठाको ।
विपस्सिस्स, भिक्खवे, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स वन्धुमा नाम राजा
पिता अहोसि, वन्धुमती नाम देवी माता अहोसि जनेत्ति । वन्धुमत्स
रञ्जे वन्धुमती नाम नगर राजधानी अहोसि । R 12

१७. “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो नुसिता काया चवित्वा 20
सतो सम्पजानो मातुकुच्छि ओक्कमि । अथमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता, एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो नुसिता काया चवित्वा
मातुकुच्छि ओक्कमति, अथ सदेवके लोके समारके सत्तमणत्राह्यणिया
पजाय सदेवमनुस्साय अप्पमाणो उळारो ओभासो पातु भवति, अतिक्कम्मेव
देवानं देवानुभाव । या पि ता लोकन्तरिका अघा असवुता अन्वकारा 25
अन्वकारतिमिसा, यत्थ पिमे चन्दिमनुरिया^२ एवंमहिद्धिका एवंमहानुभावा
आभाय नानुभोन्ति तत्थ पि अप्पमाणो उळारो ओभासो पातु भवति,
अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । ये पि तत्थ सत्ता उपपत्ता ते पि तेनोनामेन
अञ्जमञ्जं सञ्जानन्ति - अञ्जे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इष्पपत्ता ति ।

१. एकनवुतो कप्पो - गी०, स्वा०, रो० । २. धनीतिभिक्खुसत्तमत्थानि - इति ति । ३.
चन्दिमनुरिया - य० ।

अयं च दससहस्री लोकधानु सङ्घम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति' । अप्पमाणो च उच्चारो ओभासो लोके पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवान् देवानुभाव । अयमेत्थ धम्मता ।

B 11

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, चत्तारो न देवपुत्ता चानुद्दिस्^१ रक्खाय उपगच्छन्ति - मा न बोधिसत्त वा बोधिसत्तमातर वा मनुस्सो वा अमनुस्सो वा कोचि वा विहेठेसी ति । अयमेत्थ धम्मता ।

R 13 10

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, पकतिया सीलवती बोधिसत्तमाता होति, विरता पाणातिपाता, विरता अदिन्नादाना, विरता कामेसुमिच्छाचारा, विरता मुसावादा, विरता सुरा-मेरयमज्जप्पमादट्टाना । अयमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु पुरिसेसु मानस उप्पज्जति कामगुणूपसहित । अनति क्कमनीया च बोधिसत्तमाता होति केनचि पुरिसेन रत्तचित्तेन । अयमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, लाभिनी बोधिसत्तमाता होति पञ्चन्न कामगुणान । सा पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता^३ परिचारेति^४ । अयमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छि ओक्कन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव आवाधो उप्पज्जति । सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया, बोधिसत्त च बोधिसत्तमाता तिरोकुच्छिगत पस्सति सव्वङ्गपच्चङ्गि^५ अहीनिन्द्रिय^६ । सेय्यथापि, भिक्खवे, मणि वेळुरियो^७ सुभो जातिमा अट्टसो सुपरिकम्मकतो अच्चो विप्पसन्नो अनाविलो^८ सव्वाकारसम्पन्नो । तत्रस्स^९ सुत्त आवुत्त नील वा पीत वा लोहित^{१०} वा ओदात्त वा पण्डुसुत्त वा । तमेन चक्खुमा पुरिसो हत्ये^{११} करित्वा पच्चवेक्खेय्य - ‘अय खो मणि वेळुरियो सुभो जातिमा अट्टसो सुपरिकम्मकतो अच्चो विप्पसन्नो अनाविलो सव्वाकारसम्पन्नो, तत्रिद्द सुत्त आवुत्त नील वा पीत वा लोहित वा ओदात्त वा पण्डुसुत्त वा’ ति । एवमेव खो, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो

B 12

१ सम्पवेधति - स्या० । २ चानुद्दिस् - म०, सी०, रो० । ३ ममङ्गिभूता - सी०, स्या०, रो० । ४ परिवारेति - रो० । ५ सव्वङ्गपच्चङ्ग - सी०, स्या० । ६ अभिमिद्रिय - रो० । ७ वेनुरियो - सी०, रो० । ८ सी०, स्या०, रो० पीत्येसु नत्थि । ९ तत्रास्स - म०, तत्रय - सी० । १० लोहितक - स्या० । ११ हत्येणु - स्या० ।

मातुकुच्छि अयकन्तो होति, न बोधिसत्तमातु कोचिदेव गावाधो उप्पज्जति ।
सुखिनी बोधिसत्तमाता होति अकिलन्तकाया, बोधिसत्त च बोधिसत्तमाता
तिरोकुच्छिगत पस्सति सब्वङ्गपच्चरिङ्ग अहीनिन्द्रिय । अयमेत्थ धम्मता ।

R 14

“धम्मता एसा, भिक्खवे । सत्ताहजाते बोधिसत्ते बोधिसत्तमाता
काल करोति, तुसित काय उपपज्जति” । अयमेत्थ धम्मता । 5

“धम्मता, एसा, भिक्खवे । यथा अज्जा इत्थिका नव वा दस वा
मासे गव्व कुच्छिना परिहरित्वा विजायन्ति न हेव बोधिसत्त बोधिसत्तमाता
विजायति । दसेव मासानि बोधिसत्त बोधिसत्तमाता कुच्छिना परिहरित्वा
विजायति । अयमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यथा अज्जा इत्थिका निसिन्ना वा
निपन्ना वा विजायन्ति, न हेव बोधिसत्त बोधिसत्तमाता विजायति । ठिता
व बोधिसत्त बोधिसत्तमाता विजायति । अयमेत्थ धम्मता । 10

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा^१
निक्खमति, देवा पठम पटिग्गण्हन्ति, पच्छा मनुस्ता । अयमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा^१
निक्खमति, अप्पत्तो व बोधिसत्तो पठवि^२ होति, चत्तारो न देवपुत्ता
पटिग्गहेत्वा मातु पुरतो ठपेन्ति - ‘अत्तमना, देवि, होहि, महेसखो ते पुत्तो
उप्पत्तो’ ति । अयमेत्थ धम्मता । 15

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति,
विसदो व निक्खमति, अमक्खितो उद्देन^३, अमक्खितो सेम्हेन, अमक्खितो
रुहिरेन, अमक्खितो केनचि असुचिना, सुद्धो^४, विसदो । सेय्यथापि, भिक्खवे,
मणिरतन कासिके बत्थे निक्खत्त नेव मणिरतन कासिक बत्थे मक्खेति. न्ना^५
पि^६ कासिक बत्थे मणिरतन मक्खेति । त किस्स हेतु ? उभिन्न सुद्धत्ता ।
एवमेव खो, भिक्खवे, यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति, विसदो व
निक्खमति, अमक्खितो उद्देन, अमक्खितो सेम्हेन, अमक्खितो रुहिरेन,
अमक्खितो केनचि असुचिना, सुद्धो, विसदो । अयमेत्थ धम्मता । 25

B 13,
R. 15

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति,
द्वे उदकस्स धारा अन्तलिक्खा^७ पानु भवन्ति - एका सीतस्स, एका उप्पहस्स,
येन बोधिसत्तस्स उदककिच्च करोन्ति मातु च^८ । अयमेत्थ धम्मता ।

१ उप्पज्जति - रो० । २ मातुकुच्छिमा - स्या० रो० । ३ पयवि - ग० । ४ उद्देन -
म० उद्देन - इति पि । ५ विमुद्धो - स्या० । ६ - ६ न वि - रो० । ७ अन्तलिक्खा -
सी० । ८ मातुक्ख - रो० ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । सम्पतिजातो बोधिसत्तो समेहि पादेहि ।
पतिट्टुहित्वा उत्तराभिमुखो’ सत्तपदवीतिहारेण गच्छति सेतम्हि छत्ते अनु-
धारियमाने’; सव्वा च दिसा अनुविलोकेति’; आसभि वाचं भासति -
‘अग्गोहमस्मि लोकस्स, जेट्ठोहमस्मि लोकस्स, सेट्ठोहमस्मि लोकस्स ।
5 अयमन्तिमा जाति । नत्थिदानि पुनव्भवो’ ति । अयमेत्थ धम्मता ।

“धम्मता एसा, भिक्खवे । यदा बोधिसत्तो मातुकुच्छिम्हा निक्खमति,
अथ सदेवके लोके समारके सत्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय
अप्पमाणो उळारो ओभासो पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं ।
या पि ता लोकन्तरिका अघा असंवुता अन्धकारा अन्धकारतिमिसा,
10 यत्थ पिमे चन्दिमसुरिया’ एवंमहिद्धका एवंमहानुभावा आभाय नानुभोन्ति,
तत्थ पि अप्पमाणो उळारो ओभासो पातु भवति अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं ।
ये पि तत्थ सत्ता उपपन्ना ते पि तेनोभासेन अञ्जमञ्जं सञ्जानन्ति -
‘अञ्जे पि किर, भो, सन्ति सत्ता इधूपपन्ना’ ति । अयं च दससहस्सी
लोकधातु सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति’, अप्पमाणो च उळारो ओभासो
15 लोके पातु भवति, अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । अयमेत्थ धम्मता ।

§ ४. द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणा

१८. “जाते खो पन, भिक्खवे, विपस्सिम्हि कुमारे बन्धुमतो रञ्जो
पटिवेदेसुं - ‘पुत्तो ते, देव, जातो । तं देवो पस्सतू’ ति । अद्दसा खो, भिक्खवे,
बन्धुमा राजा विपस्सि कुमारं’ । दिस्वा नेमित्ते ब्राह्मणे आमन्तापेत्वा
एतदवोच - ‘पस्सन्तु भोन्तो नेमित्ता ब्राह्मणा कुमारं’ ति । ‘अद्दसंसु’ खो,
20 भिक्खवे, नेमिता ब्राह्मणा विपस्सि कुमारं । दिस्वा बन्धुमन्तं राजानं
एतदवोचुं - ‘अत्तमनो, देव, होहि । महेसक्खो’ते पुत्तो उप्पन्नो । लाभा ते,
महाराज, सुलद्धं ते, महाराज, यस्स ते कुले एवरूपो पुत्तो उप्पन्नो । अयं
हि, देव, कुमारो द्वत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स
महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ति अनञ्जा—

25 सत्ते अगारं अज्झावसति, राजा होति चक्कवत्ती’ धम्मिको धम्मराजा
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो’ सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सि-
मानि सत्तरतनानि भवन्ति, सेय्ययिदं - चक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतनं

१. उत्तरेनाभिमुखो - स्या०; उत्तरेनमुखो - इति पि । २. अनुहीरयाने - सी०, रो० । ३. विलोकेति - रो० । ४. चन्दिमसुरिया - म० । ५. सम्पवेधति - स्या० । ६. विपम्मीकुमार - रो० । ७. अद्दगामु - रो० । ८. बन्धुमं - सी०, रो० । ९. पक्कवत्ति - स्या०, रो० । १०. जनपद्दा - वरियप्पतो - स्या० ।

मणिरतन इत्थिरतन गृहपतिरतन परिणायकरतनमेव सत्तम । परोसहस्स
खो पनस्स पुत्ता भवन्ति सूरा वीरङ्गरूपा परसेनप्पमह्ना । सो इम पथवि
सागरपरियन्त अदण्डेन असत्थेन धम्मेन अभिविजिय अज्झावसति ।

सचे खो पन अगारस्मा अनगारिय पव्वजति, अरह होति सम्मासम्बुद्धो
लोके विवटच्छदो^१ ।

5

१६ कतमेहि चाय, देव, कुमारो दत्तिसमहापुरिसलक्षणोहि समन्ना-
गतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवति अनञ्जा पे०
अरह होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवटच्छदो ?

R 17

२० अयञ्चिह, देव, कुमारो सुप्पतिट्ठितपादो । य पाय, देव, कुमारो
सुप्पतिट्ठितपादो, इदम्पिमस्स^१ महापुरिसस्स महापुरिसलक्षण भवति ।

10

इमस्स, देव, कुमारस्स हेट्ठा^१ पादतलेसु चक्कानि जातानि सहस्सारानि
सनेमिकानि सनाभिकानि सव्वाकारपरिपूरानि । य पि, देव, इमस्स कुमारस्स
हेट्ठा पादतलेसु चक्कानि जातानि सहस्सारानि सनेमिकानि सनाभिकानि
सव्वाकारपरिपूरानि, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्षण भवति ।

B 15

अयञ्चिह, देव, कुमारो आयतपण्ही पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो दीघञ्जूली
पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो मुदुतलुनहत्यपादो^१ पे० अयञ्चिह, देव

15

कुमारो जालहत्यपादो पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो उस्सह्णपादो पे०
अयञ्चिह, देव, कुमारो एणिजद्धो पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो ठितको व
अनोनमन्तो उभोहि पाणितलेहि जण्णुकानि^१ परामसति^१ परिमज्जति पे०

अयञ्चिह, देव, कुमारो कोसोहितवत्यगुहो पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो
सुवण्णवण्णो कञ्चनसन्निभत्तचो^१ पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो सुसुमच्छवी ।

सुसुमत्ता छविया रजोजल्ल काये न उपलिप्पति^१ पे० अयञ्चिह, देव,
कुमारो एकेकलोमो, एकेकानि लोमानि लोमकुपेसु जातानि पे० अयञ्चिह,

R 18

देव, कुमारो उद्धग्गलोमो, उद्धग्गानि लोमानि जातानि नीलानि अञ्जन-
वण्णानि कुण्डलावट्टानि^१ दक्खिणावट्टकजातानि पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो

अह्मजुगत्तो पे अयञ्चिह, देव, कुमारो सत्तुस्सदो पे० अयञ्चिह, देव,
कुमारो सौहपुव्वद्धकायो पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो चितन्तरसो^१

पे० अयञ्चिह, देव, कुमारो निप्रोधपरिमण्डलो । यावतववस्स कायो

१ विवटच्छदो - मी० रो० । २ इदम्पिमस्स - स्या० रो० । ३ हेत्या - रो० । ४
मुदुतलुनहत्यपादो - सी० रो० । ५ जण्णुकानि - रो० । ६ परिमज्जति - रो० मी० स्या० ।
७ कञ्चनसन्निभत्तचो - स्या० । ८ उपलिप्पति - म० सी० रो० । ९ कुण्डलावट्टानि - रो०,
कुण्डलावट्टानि - स्या० । १० चितन्तरसो - स्या० ।

तावतक्वस्स व्यामो^१, यावतक्वस्स व्यामो तावतक्वस्स कायो ...पे०...
 B 16 अयञ्चिह, देव, कुमारो समवट्टक्खन्धो...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो रसग्ग-
 सग्गी...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो सीहहनु...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो
 चत्तालीसदन्तो^२...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो समदन्तो...पे०...अयञ्चिह, देव,
 5 कुमारो अविरल्लदन्तो^३...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो सुसुक्कदाठो...पे०...
 अयञ्चिह, देव, कुमारो पहूतजिह्वो...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो ब्रह्मास्तरो
 करवीकभाणी^४...पे०...अयञ्चिह, देव, कुमारो अभिनीलनेत्तो...पे०...अयञ्चिह,
 R. 19 10 देव, कुमारो गोपखुमो...पे०...इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे जाता
 ओदाता मुदुतूलसन्निभा । यं पि इमस्स, देव, कुमारस्स उण्णा भमुकन्तरे
 जाता ओदाता मुदुतूलसन्निभा, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं
 भवति ।

अयञ्चिह, देव, कुमारो उण्हीससीसो । यं पायं, देव, कुमारो उण्हीस-
 सीसो, इदम्पिमस्स महापुरिसस्स महापुरिसलक्खणं भवति ।

२१. इमेहि खो अयं, देव, कुमारो द्वात्तिसमहापुरिसलक्खणेहि
 15 समन्नागतो, येहि समन्नागतस्स महापुरिसस्स द्वेव गतियो भवन्ति अनञ्जा -
 सचे अगारं अज्झभावसत्ति, राजा होति चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो
 विजितावी जनपदत्यावरियप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । तस्सिमानि सत्त-
 रतनानि भवन्ति, सेय्यथिदं - चक्करतनं हत्थिरतनं अस्सरतनं मणिरतनं
 इत्थिरतनं गहपत्तिरतनं परिणायकरतनमेव सत्तमं । परोसहस्सं खो पनस्स
 20 पुत्ता भवन्ति सूरा वीरञ्जत्त्वा परसेनप्पमद्दना । सो इमं पर्यावि सागरपरियन्तं
 अदण्डेन अस्सत्येन धम्मेन^१ अभिविजिय अज्झभावसत्ति । सचे खो पन अगारस्सा
 B 17 अनगारियं पव्वजति, अरहं होति सम्मासम्बुद्धो लोके विवट्छदो^२ ति ।

३५. विपस्सी बोधिसत्तो

२२. "अथ खो, भिकखाये, वन्धुमा राजा नेमित्ते ब्राह्मणे अहतेहि
 वत्येहि अच्छादापेत्वा^१ मव्वकामेहि सन्तप्पेत्ति । अथ गो, भिखाये, वन्धुमा
 25 राजा विपस्मिन्स कुमारस्स धातियो उपट्ठापेमि । अञ्जा तीरं पावेन्ति,
 अञ्जा न्हापेन्ति^२, अञ्जा धारेन्ति, अञ्जा अञ्जेन पण्हिरन्ति । जातरग
 खो पन, भिगगवे, विपस्मिन्स कुमारस्स मेतच्छत्तं धारयित्थ, दिवा पेय रत्ति

१. ध्यामो - रो० । २. चत्त-गिदन्तो - एवा०, गी० । ३. चत्तिरतनो - एवा०;
 धक्कवत्तो - रो० । ४. करवीकभाणी - एवा० । ५. धम्मन गेमा - एवा० । ६. चण्ण-एवा० -
 एवा० । ७. महापेत्ति - गी०, रो० ।

च - 'मा न सीत वा उण्ह वा तिण वा रजो वा उस्सावो वा वाधयित्था' ति ।
जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनो जनस्स पियो अहोसि मनापो ।
सेय्यथापि, भिक्खवे, उप्पल वा पट्टम वा पुण्डरीक वा बहूनो जनस्स पिय
मनाप, एवमेव खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहूनो जनस्स पियो अहोसि
मनापो । स्वास्सुद अद्धेनेव अद्ध परिहरियति ।

5

"जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च अहोसि
वग्गुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो^१ च । सेय्यथापि, भिक्खवे, हिमवन्ते
पव्वते करवीका^२ नाम सकुणजाति मञ्जुस्सरा च वग्गुस्सरा च मधुरस्सरा
च पेमनियस्सरा च, एवमेव खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो मञ्जुस्सरो च
अहोसि वग्गुस्सरो च मधुरस्सरो च पेमनियस्सरो च ।

10

"जातस्स खो पन, भिक्खवे, विपस्सिस्स कुमारस्स कम्मविपाकज
दिब्बचक्खु^३ पातुरहोसि, येन सुद^४ समन्ता योजन पस्सति दिवा चैव
रत्ति च ।

"जातो खो पन, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अनिमिसन्तो^५ पेक्खति
सय्यथापि देवा तावत्तिसा । 'अनिमिसन्तो कुमारो पेक्खती' ति खो, भिक्खवे,
विपस्सिस्स कुमारस्स 'विपस्सी विपस्सी' त्वेव समञ्जा उदपादि ।

15

२३ "अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा अत्थकरणे^६ निसिन्नो
विपस्सि कुमार अद्धे निसीदापेत्वा अत्थे अनुमासति । तत्र सुद, भिक्खवे,
विपस्सी कुमारो पित्तुअद्धे निसिन्नो विचेय्य विचेय्य अत्थे पनायति जायेन^७ ।
विचेय्य विचेय्य कुमारो अत्थे पनायति जायेना ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स
कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय 'विपस्सी विपस्सी' त्वेव समञ्जा उदपादि ।

E 18

R 21

२४ "अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स तयो
पासादे कारापेसि - एक वस्सिक, एक हेमन्तिक, एक गिम्हिक, पञ्च
कामगुणानि उपट्ठापेसि । तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो वस्सिके
पासादे चत्तारो^८ मासे निप्पुरिसेहि तुरियेहि परिचारियमानो^९ न हेट्ठापासाद
ओरोहती ति ।

25

पठमभाणवार ।

१ वाधति - रो० रथा० पोत्थके नत्थि । २ पेमनीयस्सरो - सी०, स्या० । ३ करवीका -
स्या० । ४ दिब्ब चक्खु - सी०, रो०, दिब्बचक्खु - स्या० । ५ इर - स्या० । ६
अनिमिसन्तो - स्या० । ७ यट्ठरणे - स्या० । ८ ज्ञाणन - स्या० । ९ - ९ वस्सिके चत्तारो
मासे - सी०, रो० । १० परिचारियमानो - म०, स्या० ।

चत्तारि निमित्तानि

२५ "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो बहून^१ वस्सान बहून वस्ससतान बहून वस्ससहस्सान अच्चयेन सारथि आमन्तेसि - 'योजेहि, सम्म सारथि, भद्धानि भद्धानि यानानि, उय्यानभूमिं गच्छाम सुभूमिदस्सनाया'^२ ति । 'एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा भद्धानि भद्धानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि - 'युत्तानि खो ते, देव, भद्धानि भद्धानि यानानि । यस्स दानि काल मञ्जसी' ति । अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो भद्द^३ भद्द यान^४ अभिरुहित्वा भद्देहि भद्देहि यानेहि उय्यानभूमि निय्यासि ।

R 22 २६ "अद्दसा खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो
B 19 10 पुरिस जिण्ण गोपानसिक्ख भोग्ग^५ दण्डपरायन पवेधमान गच्छन्त आतुर गतयोव्वन । दिस्वा सारथि आमन्तेसि - 'अथ पन, सम्म सारथि, पुरिसो किंकतो ? केसा पिस्स न यथा अञ्जेस । कायो पिस्स न यथा अञ्जेस' ति ।

'एसो खो, देव, जिण्णो नामा' ति ।

15 'किं पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा' ति ?

'एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिर जीवितव्व भविस्सती' ति ।

'किं पन, सम्म सारथि, अहं पि जराधम्मो जर अनतीतो' ति ?

'त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह^६ सव्वे जराधम्मा जर अनतीता' ति ।

20 'तेन हि, सम्म सारथि, अल्ल दानज्ज उय्यानभूमिया ! इतो व मन्तेपुर पच्चनिय्याही' ति ।

"एव, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो व^७ अन्तेपुर पच्चनिय्यासि । तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुर गतो दुक्खी दुम्मनो पज्जायति - 'धिग्त्थु किर, भो, जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जापिस्सती' ति ।

25 २७ "अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथि आमन्तापेत्वा एतव्वोच - 'कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ? कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी' ति ?

१ बहुन - नी०, स्या० रो० । २ भूमि दस्सनाय - रो०, सुभूमि दस्सनाय - स्या० ।
३ - ३ भद्द याव - स्या०, भद्द यान - रो० । ४ मण - स्या० । ५ मयञ्चपरा - नी० स्या०, रो० । ६ च - स्या० ।

'न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ । न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो ग्रहोसी' ति ।

'किं पन, सम्म सारथि, अद्दस कुमारो उय्यानभूमिं नियन्तो' ति ?

'अद्दसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिं नियन्तो पुरिस जिण्ण गोपान-
सिक्खि भोग्ग दण्डपरायन पवेधमान गच्छन्त आतुर गतयोच्चन । दिस्वा म
एतदवोच - अय पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकत्तो, केसा पिस्स न यथा
अञ्जेस, कायो पिस्स न यथा अञ्जेस ति ?

एसो खो, देव, जिण्णो नामा ति ।

किं पनेसो, सम्म सारथि, जिण्णो नामा ति ?

एसो खो, देव, जिण्णो नाम । न दानि तेन चिर जीवित्त्व भविस्सती
ति ।

किं पन, सम्म सारथि, अहं पि जराधम्मो जर अनतीतो ति ?

त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे जराधम्मा जर अनतीता ति । तेन हि,

सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो न अन्तेपुर पच्चनिय्याही ति ।

एव, देवा ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो
व अन्तेपुर पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुर गतो दुक्खी दुम्भनो
पज्जायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जा-
यिस्सती' ति ।

२८ "अथ खो, भिक्खवे, वन्धुमस्स रञ्जो एतद्दहोसि - 'मा हेव

खो विपस्ती कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव विपस्ती कुमारो अगारस्मा

अनगारिय पव्वजि, मा हेव नेमित्तान ब्राह्मणान सच्च अस्स वचन' ति ।

अथ खो, भिक्खवे, वन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय
पञ्च कामगुणानि उपट्ठापेसि - 'यथा विपस्ती कुमारो रज्ज करेय्य', यथा
विपस्ती कुमारो न अगारस्मा अनगारिय पव्वजेय्य, यथा नेमित्तान ब्राह्मणान
मिच्छा अस्स वचन' ति ।

"तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो
समङ्गीभूतो परिवारेति । अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो वहून वस्सान
.. पे० ।

२९ "अद्दसा खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो उय्यानभूमिं नियन्तो
पुरिस आवाधिक दुक्खित वाब्हुगिलान, सके मुत्तकरीसे पलिपत्र' सेमान'
अञ्जेहि बुद्धापियमान अञ्जेहि सवेसियमान । दिस्वा सारथि आमन्तेसि -

'अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किंकतो ? अक्खीनि पिस्स न यथा अञ्जेसं, सिर्रो पिस्स' न यथा अञ्जेसं' ति ?

'एसो खो, देव, व्याधितो नामा' ति ।

'किं पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा' ति ?

5 'एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्पेव नाम तम्हा आवाधा वुट्टहेय्या' ति ।

'किं पन, सम्म सारथि, अहं पि व्याधिघम्मो व्याधिं अनतीतो' ति ?

'त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे व्याधिघम्मा व्याधिं अनतीता' ति ।

'तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं

10 पच्चनिय्याही' ति ।

" 'एवं देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पाटिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्जायति - 'धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पज्जायिस्सति, व्याधि पज्जायिस्सती' ति !

15 ३०. "अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथि आमन्तापेत्वा एतद्वोच - 'कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ? कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी' ति ?

'न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ । न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी' ति ।

20 'किं पन, सम्म सारथि, अद्दस कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो' ति ?

'अद्दसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो पुरिसं आवाधिकं दुक्खितं बाह्गिलानं, सके मुत्तकरीसे पलिपन्नं सेमानं अञ्जेहि वुट्टापियमानं अञ्जेहि संवेसियमानं । दिस्वा मं एतद्वोच - अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किंकतो, अक्खीनि पिस्स न यथा अञ्जेसं, सिर्रो पिस्स न यथा

25 अञ्जेसं' ति ?

एसो खो, देव, व्याधितो नामा ति ।

किं पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा ति ?

एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्पेव नाम तम्हा आवाधा वुट्टहेय्या

ति ।

30 किं पन, सम्म सारथि, अहं पि व्याधिघम्मो व्याधिं अनतीतो ति ?

त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे व्याधिघम्मा व्याधिं अनतीता ति ।

तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुर पच्चनिय्याही ति ।

‘एव, देवा ति खो अह, देव, विपस्तिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुर पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुर गतो दुक्खी दुम्मनो पज्जायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जा- 5 यिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती’ ति ।

३१ “अथ खो, भिक्खवे, वन्धुमस्स रज्जो एतदहोसि - ‘मा हेव खो विपस्ती कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव यो विपस्ती कुमारो अगारस्सा अनगारिय पव्वजि, मा हेव नेमित्तान ब्राह्मणान सच्च अस्स वचन’ ति । अथ खो, भिक्खवे, वन्धुमा राजा विपस्तिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च 10 कामगुणानि उपट्ठापेसि - ‘यथा विपस्ती कुमारो रज्ज करेय्य, यथा विपस्ती कुमारो न अगारस्सा अनगारिय पव्वजेय्य, यथा नेमित्तान ब्राह्मणान मिच्छा अस्स वचन’ ति ।

“तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो पच्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति । अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो बहून् वस्सान 15 ...पे० ।

कालङ्कतो

३२ “अहसा खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो उय्यानभूमि निय्यन्तो महाजनकाय सन्निपतित नानारत्तान च दुस्सान विलात कथिरमान । दिस्वा सारथि आमन्तेसि - ‘किं नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकायो सन्निपतितो नानारत्तान च दुस्सान विलात कथिरती’ ति ? 20

‘एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा’ ति ।

‘तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कतो तेन रथ पेसेही’ ति ।

“‘एव, देवा’ ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्तिस्सा कुमारस्स पटिस्सुत्वा येन सो कालङ्कतो तेन रथ पेसेसि । अहसा खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो पेत कालङ्कत । दिस्वा सारथि आमन्तेसि - ‘किं पनाय, सम्म 25 सारथि, कालङ्कतो नामा’ ति ?

‘एसो खो, देव, कालङ्कतो नाम । न दानि त दक्खन्ति माता वा पिता वा अञ्जे वा आतिसालोहिता । सो पि न दक्खिस्सति मातर वा पितर वा अञ्जे वा आतिसालोहिते’ ति ।

‘अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो ? अक्खीनि पिस्स न यथा अञ्जेसं, सिरो पिस्स’ न यथा अञ्जेसं’ ति ?

‘एसो खो, देव, व्याधितो नामा’ ति ।

‘कि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा’ ति ?

5 ‘एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्पेव नाम तम्हा आवाधा वुट्टहेय्या’ ति ।

‘कि पन, सम्म सारथि, अहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं अनतीतो’ ति ?

‘त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे व्याधिधम्मा व्याधिं अनतीता’ ति ।

‘तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं

10 पच्चनिय्याही’ ति ।

“एवं देवा’ ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सो कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्जायति — ‘धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती’ ति !

15 ३०. “अथ सो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा सारथि आमन्तापेत्वा एतदवोच — ‘कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ?

B. 21

कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी’ ति ?

‘न सो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ । न सो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी’ ति ।

20 ‘कि पन, सम्म सारथि, अद्दस कुमारो उय्यानभूमि निव्यन्तो’ ति ?

R. 25

‘अद्दसा सो, देव, कुमारो उय्यानभूमि निव्यन्तो पुरिसं आवाधिकं दुक्खितं बान्हगिलानं, सके मुत्तकरीसे पत्तिपट्टं सेमानं अञ्जेहि वुट्टापिपमानं अञ्जेहि नवेसियमानं । विस्वा मं एतदवोच — अयं पन, सम्म सारथि, पुरिसो किकतो, अक्खीनि पिस्स न यथा अञ्जेम, सिरो पिस्स न यथा अञ्जेमं’ ति ?

25

एसो खो, देव, व्याधितो नामा ति ।

कि पनेसो, सम्म सारथि, व्याधितो नामा ति ?

एसो खो, देव, व्याधितो नाम । अप्पेव नाम तम्हा आवाधा वुट्टहेय्या

ति ।

30

कि पन, सम्म सारथि, अहं पि व्याधिधम्मो व्याधिं अनतीतो ति ?

त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे व्याधिधम्मा व्याधिं अनतीता ति ।

तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । उतो व ग्रन्तेपुर पञ्चनिव्याही ति ।

‘एवं, देवा ति सो अह, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिम्मुत्वा ततो व ग्रन्तेपुर पञ्चनिव्यासि । सो खो, देव, कुमारो ग्रन्तेपुर गतो दुवगी दुम्मनो पज्जायति — धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जा- 5 यिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सती’ ति !

३१. “अथ सो, भिक्खवे, वन्धुमस्त रज्जो एतदहोसि — ‘मा हेव खो विपस्ती कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव सो विपस्ती कुमारो अगारस्सा अनगारिय पव्वजि, मा हेव नेमित्तान ब्राह्मणान सच्च अस्स वचन’ ति । अथ खो, भिक्खवे, वन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च 10 कामगुणानि उपट्ठापेसि — ‘यथा विपस्ती कुमारो रज्ज करेय्य, यथा विपस्ती कुमारो न अगारस्सा अनगारिय पव्वजेय्य, यथा नेमित्तान ब्राह्मणान भिच्छा अस्स वचन’ ति ।

“तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो पञ्चहि कामगुणेहि सम्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति । अथ सो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो बहन वस्सान 15 ...पे०... ।

कालङ्कतो

३२ “अहसा खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो उय्यानभूमि निव्यन्तो महाजनकाय सन्निपतित नानारत्तान च दुस्सान विलात कयिरमान । दिस्वा सारथि आमन्तेसि — ‘किं नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकायो सन्निपतितो नानारत्तान च दुस्सान विलात कयिरती” ति ? 20

‘एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा’ ति ।

‘तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कतो तेन रथ पेसेही’ ति ।

“‘एव, देवा’ ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा येन सो कालङ्कतो तेन रथ पेसेसि । अहसा खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो पेट कालङ्कत । दिस्वा सारथि आमन्तेसि — ‘किं पनाय, सम्म 25 सारथि, कालङ्कतो नामा’ ति ?

‘एसो खो, देव, कालङ्कतो नाम । न दानि त दक्खन्ति माता वा पिता वा अञ्जे वा जातिसालोहिता । सो पि न दक्खन्ति मातर वा पितर वा अञ्जे वा जातिसालोहिते’ ति ।

‘किं पन, सम्म सारथि, अहं पि मरणधम्मो मरणं अनतीतो; मं
पि न दक्खन्ति देवो वा देवी वा अञ्जे वा जातिसालोहिता; अहं पि न
दक्खिस्सामि देवं वा देविं वा अञ्जे वा जातिसालोहिते’ ति ?

‘त्वञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे मरणधम्मा मरणं अनतीता; तं पि न
5 दक्खन्ति देवो वा देवी वा अञ्जे वा जातिसालोहिता; त्वं पि न दक्खिस्ससि
देवं वा देविं वा अञ्जे वा जातिसालोहिते’ ति ।

‘तेन हि, सम्म सारथि, अलं दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुरं
पच्चनिय्याही’ ति ।

“एवं, देवा’ ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स
10 पटिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुरं पच्चनिय्यासि । तत्र सुदं, भिक्खवे, विपस्सी
कुमारो अन्तेपुरं गतो दुक्खी दुम्मनो पज्जायति – ‘धिरत्थु किर, भो, जाति
नाम, यत्र हि नाम जातस्स जरा पञ्जायिस्सति, व्याधि पञ्जायिस्सति,
मरणं पञ्जायिस्सती’ ति !

३३. “अथ खो, भिक्खवे, वन्धुमा राजा सारथि आमन्तापेत्वा
15 एतदवोच – ‘कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ ?
कच्चि, सम्म सारथि, कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी’ ति ?

‘न खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिया अभिरमित्थ । न खो, देव,
कुमारो उय्यानभूमिया अत्तमनो अहोसी’ ति ।

‘किं पन, सम्म सारथि, अद्दस कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो’ ति ?

20 ‘अद्दसा खो, देव, कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो महाजनकायं सन्नि-
पतितं नानारत्तानं च दुस्सानं विलातं कयिरमानं । दिस्वा मं एतदवोच – किं
नु खो सो, सम्म सारथि, महाजनकाया सौन्नपतितो नानारत्तानं च दुस्सानं
विलातं कयिरती’ ति ?

एसो खो, देव, कालङ्कतो नामा ति ।

25 तेन हि, सम्म सारथि, येन सो कालङ्कतो तेन रथं पेसेही ति ।

‘एवं देवा’ ति खो अहं, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा येन
सो कालङ्कतो तेन रथं पेसेसि । अद्दसा खो, देव, कुमारो पेतं कालङ्कतं ।
दिस्वा मं एतदवोच – किं पनायं, सम्म सारथि, कालङ्कतो नामा ति ?

‘एसो खो, देव, कालङ्कतो नाम । न दानि तं दक्खन्ति माता वा
30 पिता वा अञ्जे वा जातिसालोहिता । सो पि न दक्खिस्सति मातरं वा
पितरं वा अञ्जे वा जातिसालोहिते’ ति ।

किं पन, सम्म सारथि, अह् पि मरणधम्मो मरण अनतीतो, म पि न दक्खन्ति देवो वा देवी वा अञ्जे वा ज्ञातिसालोहिता, अह् पि न दक्खिस्सामि देव वा देवि वा अञ्जे वा ज्ञातिसालोहिते ति ?

त्वंञ्च, देव, मयञ्चम्ह सव्वे मरणधम्मा मरण अनतीता, त पि न दक्खन्ति देवो वा देवी वा अञ्जे वा ज्ञातिसालोहिता, त्व पि न दक्खिस्ससि 5 देव वा देवि वा अञ्जे वा ज्ञातिसालोहिते ति ।

तेन हि, सम्म सारथि, अल दानज्ज उय्यानभूमिया । इतो व अन्तेपुर पच्चनिय्याही ति ।

‘एव, देवा ति खो अह्, देव, विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा ततो व अन्तेपुर पच्चनिय्यासि । सो खो, देव, कुमारो अन्तेपुर गतो दुक्खी दुम्मनो 10 पज्जायति - धिरत्थु किर भो जाति नाम, यन हि नाम जातस्स जरा पज्जायिस्सति, व्याधि पज्जायिस्सति, मरण पज्जायिस्सती’ ति ।

३४ “अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमस्स रञ्जो एतदहोसि - ‘मा हेव खो विपस्सी कुमारो न रज्ज कारेसि, मा हेव खो विपस्सी कुमारो अगारस्सा अनगारिय पव्वजि, मा हेव खो नेमित्तान ब्राह्मणान सच्च अस्स वचन’ ति । 15 अथ खो, भिक्खवे, बन्धुमा राजा विपस्सिस्स कुमारस्स भिय्योसोमत्ताय पञ्च कामगुणानि उपट्ठापेसि - ‘यथा विपस्सी कुमारो रज्ज करेय्य’, यथा विपस्सी कुमारो न अगारस्सा अनगारिय पव्वजेय्य, यथा नेमित्तान ब्राह्मणान मिच्छा अस्स वचन’ ति ।

पव्वजितो

“तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो पञ्चहि कामगुणोहि समप्पितो 20 समेद्धीभूतो परिचारेति । अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो बहून वस्सान बहून वस्ससतान बहून वस्ससहस्सान अच्चयेन सारथि आमन्तेसि - ‘योजेहि, सम्म सारथि, भद्धानि भद्धानि यानानि, उय्यानभूमिं गच्छाम सुभूमिदस्सनाया’ ति । ‘एव, देवा’ ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा भद्धानि भद्धानि यानानि योजेत्वा विपस्सिस्स कुमारस्स पटिवेदेसि - ‘युत्तानि 25 खो ते, देव, भद्धानि भद्धानि यानानि, यस्स दानि काल मञ्जसी’ ति । अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो भद् भद् यान अभिरुहित्वा भद्देहि भद्देहि यानेहि उय्यानभूमिं निय्यासि ।

३५ “अहसो खो, भिक्खवे, विपस्ती कुमारो उय्यानभूमिं निय्यन्तो पुरिस भण्डु पव्वजित कासायवसान । दिस्वा सारथि आमन्तेमि - ‘अथ पन, 30

सम्म सारथि, पुरिसो किंकतो ? सीसं पिस्स' न यथा अञ्जेसं, वत्थानि पिस्स न यथा अञ्जेसं' ति ?

'एसो खो, देव, पव्वजितो नामा' ति ।

'किं पनेसो, सम्म सारथि, पव्वजितो नामा' ति ?

5 'एसो खो, देव, पव्वजितो नाम साधु धम्मचरिया साधु समचरिया' साधु कुसलचरिया' साधु पुञ्जाकिरिया साधु अविहिंसा साधु भूतानुकम्पा' ति ।

R. 29

10 'साधु खो सो, सम्म सारथि, पव्वजितो नाम; साधु, सम्म सारथि, धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्जाकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा ति । तेन हि, सम्म सारथि, येन सो पव्वजितो तेन रथं पेसेही' ति ।

15 "एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा येन सो पव्वजितो तेन रथं पेसेसि । अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो तं पव्वजितं एतदवोच - 'त्वं पन, सम्म, किंकतो ? सीसं पिस्स ते न यथा अञ्जेसं, वत्थानि पि ते न यथा अञ्जेसं' ति ?

'अहं खो, देव, पव्वजितो नामा' ति ।

'किं पन त्वं, सम्म, पव्वजितो नामा' ति ?

20 'अहं खो, देव, पव्वजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्जाकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा' ति ।

'साधु खो त्वं, सम्म, पव्वजितो नाम; साधु धम्मचरिया, साधु समचरिया, साधु कुसलचरिया, साधु पुञ्जाकिरिया, साधु अविहिंसा, साधु भूतानुकम्पा' ति ।

D. 25 "

25 ३६. "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी कुमारो सारथि आमन्तेसि - 'तेन हि, सम्म सारथि, रयं आदाय इतो व अन्तेपुरं पच्चनिव्याहि । अहं पन इधेव केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजिस्सामी' ति । 'एवं, देवा' ति खो, भिक्खवे, सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पटिस्सुत्वा रथं आदाय ततो व' अन्तेपुरं पच्चनिव्यासि । विपस्सी पन कुमारो तत्थेव केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पव्वजि ।

30

महाजनकायो विपस्तिं अनुपव्वज्जि

३७ “अस्सोसि खो, भिक्खवे, वन्धुमतिया राजधानिया महाजनकायो चतुरासीति पाणसहस्सानि — ‘विपस्ती किर कुमारो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारिय पव्वजितो’ ति । सुत्वान तेस एतदहोसि — ‘न हि नून सो ओरको धम्मविनयो, न सा ओरका’ पव्वज्जा, यत्थ विपस्ती कुमारो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारिय पव्वजितो । विपस्ती पि नाम कुमारो केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्सा अनगारिय पव्वजिस्सति, किमङ्ग^१ पन^२ मय’ ति ।

“अथ खो, सो भिक्खवे, महाजनकायो” चतुरासीति पाणसहस्सानि केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा विपस्तिं बोधिसत्त अगारस्सा अनगारिय पव्वजित अनुपव्वज्जिमु । ताय सुद, भिक्खवे, परिसाय परिवुतो विपस्ती बोधिसत्तो गामनिगमजनपदराजधानीसु चारिक चरति ।

३८ “अथ खो, भिक्खवे, विपस्तिस्स बोधिसत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि — ‘न खो पनेत्^३ पतिरूप योह आकिण्णो विहरामि । यन्नूनाह एको गणम्हा वूपकट्टो विहरेय्य’ ति । अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती बोधिसत्तो अपरेण समयेण एको गणम्हा वूपकट्टो विहासि । अञ्चेनेव तानि चतुरासीति पव्वजितसहस्सानि अगमसु, अञ्चेन मग्गेण विपस्ती बोधिसत्तो ।

विपस्तिस्स जाणपटिवेधो

३९ “अथ खो, भिक्खवे, विपस्तिस्स बोधिसत्तस्स वासूपगतस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि — ‘किच्छ वताय लोको आपन्नो, जायति च जोयति च मीयति च चवति च उपपज्जति च । अथ च पनिमस्स दुक्खस्स निस्सरण नप्पजानाति जरामरणस्स । कुदास्सु^४ नाम इमस्स दुक्खस्स निस्सरण पञ्जायिस्सति जरामरणस्सा’ ति ?

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्तिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि — ‘किम्हि नु खो सति जरामरण होति, किं पच्चया जरामरण’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्तिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो — ‘जातिया खो सति जरामरण होति, जातिपच्चया जरामरण’ ति ।

१ ओरिका — सी० रया० । २ किमङ्ग — सी० । ३ पन न — स्या० रो० । ४ महाजनकाया — स्या० । ५ नेत — सी०, रो० । ६ कुदस्सु — स्या० ।

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति जाति होति, किंपच्चया जाती’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘भवे खो सति जाति होति, भवपच्चया जाती’ ति ।

5 “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति भवो होति, किंपच्चया भवो’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘उपादाने खो सति भवो होति, उपादानपच्चया भवो’ ति ।

10 “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति उपादान होति, किंपच्चया उपदान’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘तण्हाय खो सति उपादान होति, तण्हापच्चया उपादान’ ति ।

B 27 15 “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति तण्हा होति, किंपच्चया तण्हा’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘वेदनाय खो सति तण्हा होति, वेदनापच्चया तण्हा’ ति ।

R 32 20 “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति वेदना होति, किंपच्चया वेदना’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘फस्से खो सति वेदना होति, फस्सपच्चया वेदना’ ति ।

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति फस्सो होति, किंपच्चया फस्सो’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘सळायतने खो सति फस्सो होति, सळायतनपच्चया फस्सो’ ति ।

25 “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति सळायतन होति, किंपच्चया सळायतन’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘नामरूपे खो सति सळायतन होति, नामरूपपच्चया सळायतन’ ति ।

30 “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति नामरूप होति, किंपच्चया नामरूप’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिस्सो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘विञ्जाणे खो सति नामरूप होति, विञ्जाणपच्चया नामरूप’ ति ।

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो सति विञ्जाणं होति, किंपच्चया विञ्जाणं’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘नामरूपे खो सति विञ्जाणं होति, नामरूपपच्चया विञ्जाणं’ ति ।

४०. “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि – 9
‘पच्चुदावत्तति खो इदं विञ्जाणं नामरूपम्हा, नापरं गच्छति । एत्तावत्ता जायेय वा जिय्येय वा मिय्येय वा चवेय वा उपपज्जेय वा, यदिदं नाम-
रूपपच्चया विञ्जाणं, विञ्जाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सल्लायतनं,
सल्लायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदनापच्चया तण्हा, तण्हा-
पच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया जाति, जातिपच्चया 10
जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो होति’ ।

४१. “समुदयो समुदयो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स पुब्बे अननुस्सुत्तेसु धम्मसेसु चक्खुं उदपादि, ज्ञाण उदपादि, पञ्जा उदपादि, विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि । 15

४२. “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो असति जरामरण न होति, किस्स निरोधा जरामरणनिरोधो’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘जातिया खो असति जरामरण न होति, जातिनिरोधा जरामरणनिरोधो’ ति । 20

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि नु खो असति जाति न होति, किस्स निरोधा जातिनिरोधो’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘भवे खो असति जाति न होति, भवनिरोधा जातिनिरोधो’ ति ।

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि 25
नु खो असति भवो न होति, किस्स निरोधा भवनिरोधो’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभिसमयो – ‘उपादाने खो असति भवो न होति, उपादाननिरोधा भवनिरोधो’ ति ।

“अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स एतदहोसि – ‘किम्हि 30
नु खो असति उपादान न होति, किस्स निरोधा उपादाननिरोधो’ ति ? अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स वोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय

अभिसमयो - 'तण्हाय खो असति उपादानं न होति, तण्हानिरोधा उपादान-
निरोधो' ति ।

R. 34 5 "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि
नु खो असति तण्हा न होति, किस्स निरोधा तण्हानिरोधो' ति ? अथ खो,
भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभि-
समयो - 'वेदनाय खो असति तण्हा न होति, वेदानानिरोधा तण्हानिरोधो' ति ।

10 "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि
नु खो असति वेदना न होति, किस्स निरोधा वेदानानिरोधो' ति ? अथ खो,
भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभि-
समयो - 'फस्से खो असति वेदना न होति, फस्सनिरोधा वेदानानिरोधो' ति ।

15 "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि
नु खो असति फस्सो न होती, किस्स निरोधा फस्सनिरोधो' ति ? अथ खो,
भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय अभि-
समयो - 'सळायतने खो असति फस्सो न होति, सळायतननिरोधा फस्स-
निरोधो' ति ।

20 "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि
नु खो असति सळायतनं न होति, किस्स निरोधा सळायतननिरोधो' ति ?
अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय
अभिसमयो - 'नामरूपे खो असति सळायतनं न होति, नामरूपनिरोधा
सळायतननिरोधो' ति ।

25 "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स एतदहोसि - 'किम्हि
नु खो असति नामरूपं न होति, किस्स निरोधा नामरूपनिरोधो' ति ? अथ
खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स योनिसो मनसिकारा अहु पञ्जाय
अभिसमयो - 'विञ्जाणे खो असति नामरूपं न होति, विञ्जाणनिरोधो
नामरूपनिरोधो' ति ।

निरोधो, विञ्जाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, नामरूपनिरोधा सञ्जायतन-
निरोधो, सञ्जायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदनानिरोधो, वेदना-
निरोधा तण्हानिरोधो, तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा
भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरण सोकपरिदेव-
दुक्खदोमनस्सुपायासा निरुञ्भन्ति । एवमेतस्स केवलस्स दुक्खवक्खन्धस्स 5
निरोधो होति' ।

४४ "निरोधो निरोधो ति खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स बोधिसत्तस्स
पुब्बे अननुस्सुतेसु धम्मेषु चक्खु उदपादि, ज्ञाण उदपादि, पञ्जा उदपादि,
विज्जा उदपादि, आलोको उदपादि ।

४५ "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी बोधिसत्तो अपरेण समयेण पञ्चसु 10
उपादानक्खन्धेषु उदयव्वयानुपस्सी विहासि - 'इतिरूप, इति रूपस्स समुदयो,
इति रूपस्स अत्थङ्गमो, इति वेदना, इति वेदनाय समुदयो, इति वेदनाय
अत्थङ्गमो, इति सञ्जा, इति सञ्जाय समुदयो, इति सञ्जाय अत्थङ्गमो,
इति सङ्खारा, इति सङ्खारान समुदयो, इति सङ्खारान अत्थङ्गमो, इति
विञ्जाण, इति विञ्जाणस्स समुदयो, इति विञ्जाणस्स अत्थङ्गमो' ति । 15
नस्स पञ्चसु उपादानक्खन्धेषु उदयव्वयानुपस्सिनो विहरतो न चिरस्सेव
अनुपादाय आसवेहि चित्त विमुच्ची ति ।

दुतियभाणवार' ।

§ ६ विपस्ती भगवा सम्मासम्बुद्धो

ब्रह्मयाचनकथा

४६ "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मा-
सम्बुद्धस्स एतदहोसि - 'यन्नूनाह धम्म- देसेय्य' ति । अथ खो, भिक्खवे,
विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एतदहोसि - 'अधिगतो खो 20
म्याय धम्मो गम्भीरो दुद्दसो दुरनुबोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो
पण्डितवेदनीयो, आलयरामा खो पनाय पजा आलयरता आलयसम्मुदिता ।
आलयरामाय खो पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुद्दस इद ठान
यदिद इदप्पच्चयतापटिच्चसमुप्पादो । इद पि खो ठान दुद्दस यदिद सब्ब-
सङ्खारसमथो सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्कलयो विरागो निरोधो निव्वान' । 25
अहञ्चेव खो पन धम्म देसेय्य, परे च मे न आजानेय्यु, सो ममस्स किलमथो,
सा ममस्स विहेसा' ति ।

१ दुतियभाणवार निष्ठित - गी०, स्या०, दुतियकभाणवार निष्ठित - रो० । २ निव्वान - गी० ।

४७ "अपिस्सु", भिक्खवे, विपस्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध
इमा अनच्छरिया गाथायो पटिभसु पुब्बे अस्सुतपुब्बा -

'किच्छेन मे अधिगत, हल दानि पकासितु ।

रागदोसपरेतेहि, नाय धम्मो सुसम्बुधो ॥

5 'पटिसोतगार्मि निपुण, गम्भीर दुद्दस अणु ।

रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन^१ आवुटा^२' ति ॥

"इति ह, भिक्खवे, विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स
पटिसञ्चिक्खतो अप्पोस्सुकताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाय ।

४८ "अथ खो, भिक्खवे, अञ्जातरस्स महाब्रह्मणो विपस्सिस्स
10 भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा १ चेतोपरिवितक्कमञ्जाय

R 37 एतदहोसि - 'नस्सति वत भो लोको, विनस्सति वत भो लोको, यत्र हि
नाम विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स अप्पोस्सुकताय चित्त

नमति^३, नो धम्मदेसनाया' ति । अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा - सेय्यथापि
नाम वलवा पुरिसो समिञ्जित वा वाह पसारयेय्य, पसारित वा वाह समिञ्जेय्य

15 एवमेव - ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स
पुरतो पातुरहोसि । अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकस्स उत्तरासङ्ग करित्वा

B 32 दक्खिण जाणुमण्डल पथविय निहन्त्वा^४ येन विपस्सी भगवा अरह सम्मा-
सम्बुद्धो तेनञ्जलि पणामेत्वा विपस्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध एतदवोच

- 'देसेतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म । सन्ति^५ सत्ता अप्परजक्ख-
20 जातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जा-
तारो' ति ।

४९ "एव" वृत्ते, भिक्खवे, विपस्सी भगवा, अरह सम्मासम्बुद्धो
त महाब्रह्मान एतदवोच - 'मय्हम्पि खो, ब्रह्मे, एतदहोसि - यद्वूनाह धम्म

देसेय्य ति । तस्स मय्ह, ब्रह्मे, एतदहोसि - अधिगतो खो म्याय धम्मो गम्भीरो
25 दुद्दसो दुरनुवोधो सन्तो पणीतो अतक्कावचरो निपुणो पण्डितवेदनीयो ।

आलयरामा खो पनाय पजा आलयरता आलयसम्मुदिता । आलयरामाय खो
पन पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुद्दस इद ठान यदिद इदप्पच्चयता-

पटिच्चसमुप्पादो । इद पि खो ठान दुद्दस यदिद सब्वसङ्खारसमथो
सब्बूपधिपटिनिस्सग्गो तण्हक्खयो^६ विरागो निरोधो निब्बान । अहञ्चेव खो

१ अपिस्सुद-सी० । २ तमोक्खधेन-स्या० रो० । ३ आवुटा-सी० आवुटा-रो० ।

४ नमि-स्या० । ५ निदहन्ता-स्या० । ६ गत्तीथ-स्या० । ७-७ अथ खो-सी० ।

८ तण्हक्खयो-५० ।

पन धम्म देसेय्य, परे च मे न आजानेय्यु, सो ममस्स किलमथो, सा ममस्स विहेसा ति । अपिस्सु म, ब्रह्मे, इमा अनच्छरिया गायायो पटिभसु पुब्बे अस्सुतपुच्चा—

किञ्छेन मे अधिगत, हल दानि पवासित्तु ।

रागदोसपरेतेहि, नाय धम्मो सुसम्बुद्धो ॥

पटिसोत्तगामि निपुण, गम्भीर दुद्दस अणु ।

रागरत्ता न दक्खन्ति, तमोखन्धेन आवुटा ति ॥

इति ह मे, ब्रह्मे, पटिसञ्चिक्खतो अप्पोस्सुककताय चित्त नमि, नो धम्मदेसनाया' ति ।

१० “द्वितीय पि खो, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा पे० ततिय पि खो, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा विपस्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध एतदवोच — ‘देसेतु, भन्ते, भगवा धम्म, देसेतु सुगतो धम्म । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो’ ति ।

११ “अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो ब्रह्मानो च अज्जेसन विदित्वा सत्तेसु च कास्सञ्जात पटिच्च बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेसि । अद्दसा खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेन्तो सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिविखन्दित्रिये मुदिन्दित्रिये स्वाकारे द्वाकारे’ सुविञ्जापये दुविञ्जापये’ अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो’ विहरन्ते, अप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते । सेय्यथापि नाम उप्पलिनिय वा पटुमिनिय वा पुण्डरीकिनिय वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पटुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सबद्धानि उदकानुग्गतानि अन्तो निमुग्गपोत्तीनि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पटुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सबद्धानि समोदक ठितानि, अप्पेकच्चानि उप्पलानि वा पटुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदके जातानि उदके सबद्धानि उदका अच्चुग्गम्म ठितानि अनुपलित्तानि उदकेन, एवमेव खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो बुद्धचक्खुना लोक वोलोकेन्तो अद्दस सत्ते अप्परजक्खे महारजक्खे तिविखन्दित्रिये मुदिन्दित्रिये स्वाकारे द्वाकारे सुविञ्जापये दुविञ्जापये, अप्पेकच्चे परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते, अप्पेकच्चे न परलोकवज्जभयदस्साविनो विहरन्ते ।

१ सो० पोत्ये नत्थि । २ दुविञ्जापय भव्व धम्मवे—स्या०, सी० पोत्ये नत्थि ।

३ परलोकवज्जभयदस्साविने — य० ।

५२. "अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा विपस्सिस्स भगवतो अरहत्तो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं गाथाहि अज्झभासि-

5 'सेले यथा पव्वतमुद्धनिद्धितो,
यथा पि पस्से जनतं समन्ततो ।
तथूपमं धम्ममयं सुमेध,
पासादमारुह्ह समन्तचक्खु ॥
'सोकावतिष्ण' जनतमपेतसोको,
अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं ।
10 उट्ठेहि वीर विजितसङ्गाम,
सत्यवाह अणण' विचर' लोके ॥
'देसस्सु' भगवा धम्मं,
अञ्जातारो भविस्सन्ती' ति ॥

B 34

५३. "अथ खो, भिक्खवे, विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो तं महाब्रह्मानं गाथाय अज्झभासि'-

'अपारुता तेसं' अमतस्सा द्वारा,
ये सोतवन्तो पमुञ्चन्तु सद्धं ।
विहिंससञ्जी पगुणं न भासि,
धम्मं पणीत मनुजेसु ब्रह्मे' ति ॥

20

R. 40

"अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा, 'कलावकासो खोमिह विपस्सिना भगवता अरहता सम्मासम्बुद्धेन धम्मदेसनाया' ति, विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं अविवादेत्या पदविरुद्धं नत्वा तत्थेव अन्तरधायि ।

अग्गसावफयुगं

तिस्सस्स च पुरोहितपुत्तस्स पठम धम्म देसेय्य, ते इम धम्म खिप्पमेव आजा-
निस्सन्ती' ति ।

५५ “अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो -
सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जित वा वाह पसारेय्य, पसारित वा
वाह समिञ्जेय्य एवमेव - बोधिरुक्खमूले अन्तरहितो बन्धुमतिया राजधानिया 5
खेमे मिगदाये पातुरहोसि । अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती भगवा अरह सम्मा-
सम्बुद्धो दायपाल' आमन्तेसि - 'एहि त्व, सम्म दायपाल, बन्धुमति राजधानि
पविसित्वा खण्ड च राजपुत्त तिस्स च पुरोहितपुत्त एव वदेहि - विपस्ती,
भन्ते', भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो बन्धुमति राजधानि अनुप्पत्तो खेमे मिगदाये
विहरति, सो तुम्हाक दस्सनकामो' ति । 'एव, भन्ते' ति खो, भिक्खवे, 10
दायपालो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स पटिस्सुत्वा बन्धुमति
राजधानि पविसित्वा खण्ड च राजपुत्त तिस्स च पुरोहितपुत्त एतदवोच -
'विपस्ती, भन्ते, भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो बन्धुमति राजधानि अनुप्पत्तो
खेमे मिगदाये विहरति, सो तुम्हाक दस्सनकामो' ति ।

५६ “अथ खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो 15
भट्टानि भट्टानि यानानि योजापेत्वा भद्द' भद्द यान' अभिरुहित्वा' भद्देहि
भद्देहि यानेहि बन्धुमतिया राजधानिया निव्यिसु', येन खेमो मिगदायो तेन
पायिसु' । यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा याना पच्चोरोहित्वा
पत्तिका' व येन विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्गमिसु, उपसङ्ग-
मित्वा विपास्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध अभिवादेत्वा एकमन्त 20
निसीदिसु ।

५७ “तेस विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो अनुपुब्बि कथ'
कथेसि, सेय्यधिद - दानकथ सीलकथ संगकथ, कामान आदीनव ओकार
सङ्किलेस, नेक्खम्मे आनिसस पकासेसि । यदा ते भगवा अञ्जासि कल्लचित्ते
मुद्दुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसत्तचित्ते, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका 25
धम्मदेसना त पकासेसि - दुक्ख, समुदय, निरोध, मग्ग । सेय्यथापि
नाम सुद्ध वत्थ अपगतकाळक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य. एवमेव
खण्डस्स च राजपुत्तस्स तिस्सस्स च पुरोहितपुत्तस्स तस्मि येव आसने
विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि - य किञ्चि समुदयधम्म सच्च त

१ मिगदायपाल - स्या० । २ स्या० पोत्यके नत्थि । ३-३ भद्द यान - रो० । ४
अभिरुहित्वा - सी० । ५ नीयिसु - नी०, रो०, निविसु - स्या० । ६ पायिसु - रो० । ७ पत्तिका -
स्या० । ८ आनुपुब्बिकथ - सी० रो० अनुपुब्बिकथ - स्या० ।

निरोधधम्मं' ति । ते दिट्ठधम्मा पत्तधम्मा विदितधम्मा परियोगाच्च धम्मा
 तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने
 विपस्सि भगवन्तं अरहन्तं सम्मासम्बुद्ध एतदवोचुं - 'अभिव्वन्तं, भन्ते,
 अभिव्वन्तं, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं
 5 वा विवरेय्य, मूब्हुस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं
 धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन
 धम्मो पकासितो । एते मयं, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छाम धम्मं च ।
 लभेय्याम मयं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं, लभेय्याम उपसम्पदं' ति ।

५८. "अलत्थुं खो, भिक्खवे, खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहित-
 10 पुत्तो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्जं, अलत्थुं
 उपसम्पदं । ते विपस्सी भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि
 समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि; सङ्खारानं आदीनवं ओकारं
 सङ्किलेसं, नेक्खम्मे^१ आनिससं पकासेसि । तेसं विपस्सिना भगवता अरहता
 सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानानं समादपियमानानं समुत्ते-
 15 जियमानानं सम्पहंसियमानानं नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि
 विमुच्चिसु ।

महाजनकायपव्वज्जा

५९. "अस्सोस खो, भिक्खवे, बन्धुमत्तिया राजधानिया महाजनकायो
 चतुरासीतिपाणसहस्सानि - 'विपस्सी किर भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो
 बन्धुमत्ति राजधानि अनुप्पत्तो खेमे मिग्गदाये विहरति, खण्डो च किर राजपुत्तो
 20 तिस्सो च पुरोहितपुत्तो विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके
 केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्चादेत्वा अगारस्सा अनगारियं
 पव्वजिता' ति । सुत्वान नेसं एतदहोसि - 'न हि नून सो ओरको धम्म-
 विनयो, न.सा ओरका पव्वज्जा, यत्थ खण्डो च राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहित-
 पुत्तो केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्चादेत्वा अगारस्सा
 25 अनगारियं पव्वजिता, खण्डो च^१ राजपुत्तो तिस्सो च पुरोहितपुत्तो^२ केसमस्सुं
 ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्चादेत्वा अगारस्सा अनगारियं पव्व-
 जिस्सन्ति, किमङ्गं पन मय' ति । अथ सो सो, भिव्वरावे, महाजनकायो
 चतुरासीतिपाणसहस्सानि बन्धुमत्तिया राजधानिया निक्कमित्वा येन रोमो

१. नेत्तपत्तं - १५० । २. तिन्वने - रो०, म०, तिन्वने - गी० । ३. ५ ति
 नाम - गी०, १५०, रो० । ४. 'विगमिग्ग भग्गते चरुत्ते सम्मासम्बुद्धा गमिन्ने' इति प्रथिक्
 पाठो सी०, रो० पाठानेमु दिग्गति । ५. न मय - १५०, रो० ।

मिगदायो येन विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो तेनुपसङ्गमिसु, उपसङ्ग-
मित्वा विपस्तिं भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध अभिवादेत्वा एकमन्त
निसीदिसु ।

६० "तेस विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो अनुपुट्ठिं कथ
कथेसि, सेय्यथिद - दानकथ सीलकथ सग्गकथ, कामान आदीनव ओकार 5
सङ्किलेस, नेक्खम्मे आनिसस पकासेसि । यदा ते भगवा अञ्जासि कल्लचित्ते
मुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका
धम्मदेसना त पकासेसि - दुक्ख, समुदय, निरोध, मग्ग । सेय्यथापि नाम
सुद्ध वत्थ अपगतकाळक सम्मदेव रजंन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव तेस चतुरासीति-
पाणसहस्सान तस्मिं येव आसने विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि - य 10
किञ्चि समुदयधम्म सच्च त निरोधधम्म ति । ते दिट्ठममा पत्तधम्मा
विदितधम्मा परियोगाब्धधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसा-
रज्जप्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्तिं भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध
एतदवोचु - 'अभिव्वन्त, भन्ते, अभिव्वन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कु-
ज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मूहस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, 15
अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव
भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण
गच्छाम, धम्म च भिक्खुसङ्घ' च' । लभेय्याम मय, भन्ते, भगवतो सन्तिके
पव्वज्ज, लभेय्याम उपसम्पद' ति ।

६१ "अलत्थु खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपाणसहस्सानि 20
विपस्तिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज, अलत्थु
उपसम्पद । ते विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि
समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि, सङ्खारान आदीनव ओकार सङ्किलेस,
नेक्खम्मे आनिसस पकासेसि । तेस विपस्तिना भगवता अरहता सम्मा-
सम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समुत्तेजिय- 25
मानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि
विमुञ्चिसु ।

पुरिमपव्वजितान धम्माभिसमयो

६२ "अस्सोसु खो, भिक्खवे, तानि पुरिमानि^१ चतुरासीतिपव्व-
जितसहस्सानि - 'विपस्ती किर भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो वच्चुमतिं

B 38

राजधानि अनुपपत्तो खेमे भिगदाये विहरति, धम्म च किर देसेती' ति ।
 अथ खो, भिक्खवे, तानि चतुरासीतिपव्वजितसहस्सानि येन वन्धुमती
 राजधानी, येन खेमो भिगदायो, येन विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो
 तेनुपसङ्गमिसु; उपसङ्गमित्वा विपस्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध
 5 अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिसु ।

10

६३ "तेस विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो अनुपुव्वि कथ
 कथेसि, सेय्यथिद - दानकथ सीलकथ सग्गकथ, कामान आदीनव ओकार
 सङ्किलेस, नेक्खम्मो आनिसस पकासेसि । यदा ते भगवा अञ्जासि कल्लचित्ते
 सुदुचित्ते विनीवरणचित्ते उदग्गचित्ते पसन्नचित्ते, अथ या बुद्धान सामुक्कसिका
 10 धम्मदेसना त पकासेसि - दुक्ख, समुदय, निरोध, मग्ग । सेय्यथापि नाम
 मुद्ध वत्थ अपगतकाळक सम्मदेव रजन पटिग्गण्हेय्य, एवमेव तेस चतुरासीति-
 पव्वजितसहस्सान तस्मिं येव आसने विरज वीतमल धम्मचक्खु उदपादि -
 'य किञ्चि समुदयधम्म सव्व त निरोधधम्म' ति । ते दिट्ठधम्मा पत्तधम्मा
 विदितधम्मा परियोगब्धधम्मा तिण्णविचिकिच्छा विगतकथङ्कथा वेसारज्ज-
 15 प्पत्ता अपरप्पच्चया सत्थुसासने विपस्सि भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध
 एतदवोचु - 'अभिककन्त, भन्ते, अभिककन्त, भन्ते । सेय्यथापि', भन्ते, निककु-
 ज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मूहस्स वा मग्ग आचिवखेय्य,
 अन्धकारे वा तेलपज्जोत धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति, एवमेव
 भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एते मय, भन्ते, भगवन्त सरण
 20 गच्छाम, धम्म च भिक्खुसङ्घं च । लभेय्याम मय, भन्ते, भगवतो सन्तिके
 पव्वज, लभेय्याम उपसम्पद' ति ।

R 45

६४ "अलत्थु खो, भिक्खव, तानि चतुरासीतिपव्वजितसहस्सानि
 विपस्सिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सन्तिके पव्वज्ज, अलत्थु
 उपसम्पद । ते विपस्सी भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो धम्मिया कथाय
 25 सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि, सङ्खारान आदीनव ओकार
 सङ्किलेस, नेक्खम्मो आनिसस पकासेसि । तेस विपस्सिना भगवता अरहता
 सम्मासम्बुद्धेन धम्मिया कथाय सन्दस्सियमानान समादपियमानान समुत्तेजिय-
 मानान सम्पहसियमानान नचिरस्सेव अनुपादाय आसवेहि चित्तानि विमुच्चिसु ।

B 39

चारिकाअनुजानना

६५ "तेन सो पन, भिक्खवे, समयेन वन्धुमतिया राजधानिया
 महाभिक्खुसङ्घो पटिवसति अट्टसट्ठिभिक्खुसतसहस्स । अथ खो, भिक्खवे,

30

विपस्तिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स रहोगतस्स पटिसत्तीनरस्स एव
 चेतसो परिवितक्को उदपादि - 'महा खो एतरहि भिक्खुसङ्घो बन्धुमतिया
 राजधानिया पटिवसति अट्टसट्ठिभिक्खुसतसहस्स, यन्नूनाह भिक्खू अनुजानेय्य
 - चरथ, भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय
 हिताय सुखाय देवमनुस्सान, मा एकेन द्वे अगमित्थ, देसेथ, भिक्खवे, 5 R
 धम्म आदिकल्याण मज्जेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन, केवल-
 परिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिथा,
 अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो । अपि
 च छन्न छन्न वस्सान अच्चयेन बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमित्त्वा
 पातिमोक्खुद्देसाया' ति । 10

६६ "अथ खो, भिक्खवे, अञ्जातारो महाब्रह्मा विपस्तिस्स भगवतो
 अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय - सेय्यथापि नाम
 बलवा पुरिसो समिञ्जित' वा वाह पसारेय्य, पसारित वा वाह समिञ्जेय्य'
 एवमेव - ब्रह्मलोके अन्तरहितो विपस्तिस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स
 पुरतो पातुरहोसि । अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकस उत्तरासङ्ग 15
 करित्वा येन विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो तेनञ्जलि पणामेत्वा विपस्ति
 भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध एतदवोच - 'एवमेत, भगवा, एवमेत, सुगत ।
 महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खुसङ्घो बन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति
 अट्टसट्ठिभिक्खुसतसहस्स । अनुजानातु, भन्ते, भगवा भिक्खू - चरथ भिक्खवे
 चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय 20
 देवमनुस्सान, मा एकेन द्वे अगमित्थ, देसेथ, भिक्खवे, धम्म आदिकल्याण
 मज्जेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सव्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध
 ब्रह्मचरिय पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स
 परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो' । अपि च, भन्ते, मय
 तथा करिस्साम यथा भिक्खू छन्न छन्न वस्सान अच्चयेन बन्धुमति राजधानि 25
 उपसङ्कमित्त्वा पातिमोक्खुद्देसाया' ति । इदमवोच, भिक्खवे, सो
 महाब्रह्मा । इद वत्वा विपस्ति भगवन्त अरहन्त सम्मासम्बुद्ध अभिवादेत्वा
 पदक्खिण कत्वा तत्थेव अन्तरधायि । R

६७ "अथ खो, भिक्खवे, विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो
 सायण्हसमय' पटिसल्लाना' वुट्ठितो भिक्खू आमन्तेसि - 'इध मय्ह, भिक्खवे, 30

१ मन्तीथ - स्या० । २ समिञ्जित - स्या०, रो० । ३ समिञ्जेय्य - स्या०, रा० ।

४ अञ्जातारो ति - म० । ५ सायण्हसमये - स्या० रो०, सायण्हसमये - म० । ६ पटिसल्लाना - मी० ।

रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो परिवितक्को उदपादि -- महा खो एतरहि भिक्खुसङ्घो वन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति अट्टसट्ठिभिक्खुसत-सहस्स । यन्नूनाह भिक्खू अनुजानेय्य -- चरथ, भिक्खवे, चारिक बहुजन-हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान;
 5 मा एकेन द्वे अगमित्थ, देसेथ, भिक्खवे, धम्म आदिकल्याण मज्जेकल्याण परियोसानकल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ, सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो, अपि च, छन्न छन्न वस्सान अच्चयेन वन्धुमती राजधानी उपसङ्कमित्त्वा पात्तिमोक्खुद्देसाया' ति ।

10 ६८ "अथ खो, भिक्खवे, अञ्जातरो महाब्रह्मा मम चेतसा चेतो-परिवितक्कमञ्जाय -- सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जित वा बाह पसारयेय, पसारित वा वाह समिञ्जेय्य एवमेव -- ब्रह्मलोके अन्तरहितो मम पुरतो पातुरहोसि । अथ खो सो, भिक्खवे, महाब्रह्मा एकस उत्तरासङ्ग करित्वा येनाह तेनञ्जलि पणामेत्वा म एतदवोच -- 'एवमेत, भगवा, एवमेत,
 15 सुगत । महा खो, भन्ते, एतरहि भिक्खुसङ्घो वन्धुमतिया राजधानिया पटिवसति अट्टसट्ठिभिक्खुसतसहस्स । अनुजानानु, भन्ते, भगवा भिक्खू -- चरथ, भिक्खवे, चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान, मा एकेन द्वे अगमित्थ, देसेथ, भिक्खवे, धम्म
 B 41 . पे० सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति;
 R 48 20 भविस्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो ति । अपि च, भन्ते, मय तथा करिस्सान यथा भिक्खू छन्न छन्न वस्सान अच्चयेन वन्धुमति राजधानि उपसङ्कमिस्सन्ति पात्तिमोक्खुद्देसाया' ति । इदमवोच, भिक्खवे, सो महाब्रह्मा । इद वत्वा म अग्निवादेत्वा पदक्खिण कत्वा तत्थेव अन्तरघायि ।

25 ६९ 'अनुजानामि, भिक्खवे, चरथ चारिक बहुजनहिताय बहुजन-सुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान । मा एवेन द्वे अगमित्थ । देसेथ, भिक्खवे, धम्म आदिकल्याण मज्जेकल्याण परियोसान-कल्याण सात्थ सब्यञ्जन, केवलपरिपुण्ण परिसुद्ध ब्रह्मचरिय पकासेथ । सन्ति सत्ता अप्परजक्खजातिका, अस्सवनता धम्मस्स परिहायन्ति । भवि-
 30 स्सन्ति धम्मस्स अञ्जातारो । अपि च, भिक्खवे', छन्न छन्न वस्सान अच्च-येन वन्धुमती राजधानी उपसङ्कमित्त्वा पात्तिमोक्खुद्देसाया' ति । अथ खो, भिक्खवे', भिक्खू येभुय्येन एकाहेनेव जनपदचारिक पक्कमिसु ।

७० "तेन खो पन समयेन जम्बुदीपे' चतुरासीति आवाससहस्सानि
होन्ति । एकमिह हि वस्से निकखन्ते देवता सदमनुस्सावेसु - 'निकखन्त खो,
मारिसा, एक वस्स, पञ्च दानि वस्सानि सेसानि, पञ्चन्न वस्सान अच्चयेन
बन्धुमती राजधानी उपसङ्कमितव्वा पातिमोक्खुद्देसाया' ति । द्वीसु वस्सेसु
निकखन्तेसु तीसु वस्सेसु निकखन्तेसु चतूसु वस्सेसु निकखन्तेसु पञ्चरु
वस्सेसु निकखन्तेसु देवता सदमनुस्सावेसु - 'निकखन्तानि खो, मारिसा, पञ्च
वस्सानि, एक दानि वस्स सेस, एकस्स वस्सस्स अच्चयेन बन्धुमती राजधानी
उपसङ्कमितव्वा पातिमोक्खुद्देसाया' ति । छसु वस्सेसु निकखन्तेसु देवता
सदमनुस्सावेसु - 'निकखन्तानि खो, मारिसा, छव्वस्सानि' । समयो दानि
बन्धुमति राजधानि उपसङ्कमितु पातिमोक्खुद्देसाया' ति । अथ खो ते,
भिकखवे, भिक्खू अप्पेकच्चे सकेन इद्धानुभावेन, अप्पेकच्चे देवतान इद्धानु-
भावेन एकाहेनेव बन्धुमति राजधानि उपसङ्कमितु पातिमोक्खुद्देसाया ति ।

७१ "तत्र सुद, भिक्खवे, विपस्ती भगवा अरह सम्मासम्बुद्धो
भिक्खुसङ्घे एव पातिमोक्ख उद्दिसति -

'खन्ती परम तपो तित्तिक्खा,
निब्बान परम वदन्ति बुद्धा ।
न हि पब्वजितो परूपघाती',
समणो होति पर विहेठयन्तो ॥

सव्वपापस्स अकरण, कुसलस्स उपसम्पदा ।

सच्चित्तपरियोदपन, एत बुद्धानसासन ॥

अनूपवादो अनूपघातो,' पातिमोक्खे च सवरो ।

मत्तञ्जुता च भत्तस्मि, पन्तञ्च सयनासन ॥

अधिचित्ते च आयोगो, एत बुद्धानसासन' ति ॥

देवतारोचना

७२ "एकमिदाह, भिक्खवे, समय उक्कट्टाय विहरामि सुभगवने
सालराजमूले । तस्स मय्ह, भिक्खवे, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एव चेतसो
परिवितक्को उदपादि - 'न खो सो सत्तावासो' सुलभरूपो, यो मया अनज्जा-
बुट्टपुब्बो' इमिना दीघेन अन्धुना अञ्जत्र सुद्धावासेहि देवेहि । यन्नूनाह
येन सुद्धावासा देवा तेनुपसङ्कमेय्य' ति । अथ ख्वाह, भिक्खवे - सेय्यथापि

१ जम्बुदीपे - स्या० । २ छ वस्सानि - रो० । ३ परूपघाति - रो० । ४ अनूपवादो
अनुपघातो - रो० । ५ सुद्धावासो - स्या० । ६ अनाकुत्थपुब्बो - स्या०, म० रो०, अनज्जाकुत्थपुब्बो
- सी० ।

लोके उष्णो । भगवा, मारिसा, रत्तियो जातिया, रत्तियकुले उष्णो । भगवा, मारिसा, गोतमो गोत्तेन । भगवतो, मारिसा, अप्पकं प्रायुष्माणं परित्तं लहुकं । यो चिरं जीवति सो वस्सासतं अप्पं वा भिय्यो । भगवा, मारिसा, अस्सत्थस्स मूले अभिसम्बुद्धो । भगवतो, मारिसा, शारिपुत्त-मोग्गल्लानं नाम सावकयुगं अहोसि अग्गं भद्दयुगं । भगवतो, मारिसा, 5 एको सावकानं सन्निपातो अहोसि । अद्भुतेळसानि भिक्खुसतानि - भगवतो, मारिसा, अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सच्चयं येव सीणासवानं । भगवतो, मारिसा, आनन्दो नाम भिक्खु उपट्ठाको अहोसि अग्गुपट्ठाको । भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता अहोमि, माया नाम देवी माता अहोसि जनेत्ती, कपिलवत्यु नाम नगरं राजधानी अहोसि । भगवतो, मारिगा, 10 एवं अभिनिक्खमनं अहोसि, एवं पच्चज्जा, एव पधान, एव अभिसम्बोधि, एवं धम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिगा, भगवति ब्रह्मचरिय चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना" ति ।

७३. "अथ स्वाहं, भिक्खवे, अविहेहि देवेहि सद्धि येन अतप्पा देवा तेनुपसङ्गमि . पे०...अथ स्वाहं, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च 15 देवेहि सद्धि येन सुदस्सा देवा तेनुपसङ्गमि, अथ स्वाहं, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि सद्धि येन सुदग्गो देवा तेनुपसङ्गमि; अथ स्वाहं, भिक्खवे, अविहेहि च देवेहि अतप्पेहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि सुदस्सेहि च देवेहि सद्धि येन अकनिट्ठा देवा तेनुपसङ्गमि, तम्मि, भिक्खवे, देवनिकाये अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासतसहस्मानि 20 येनाहं तेनुपसङ्गमिसु; उपसङ्गमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त अट्टमु । एकमन्तं ठिता सो, भिक्खवे, ता देवता मं एतदवोचु - 'इतो गो, मारिगा, एकनवुत्तिकप्पे यं विपस्ती भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो लोके उदपादि । विपस्ती, मारिसा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो रत्तियो जातिया अहोमि, रत्तियकुले उदपादि । विपस्ती, मारिगा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो 25 कोण्डञ्चो गोत्तेन अहोसि । विपस्तिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असीतिवस्ससहस्सानि प्रायुष्माणं अहोमि । विपस्मी, मारिगा, भगवा अरहं सम्मासम्बुद्धो पाटलिया मूले अभिसम्बुद्धो । विपस्मिन्, मारिगा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तण्डतिस्सं नाम मावत्तयुगं अहोमि अग्गं भद्दयुगं । विपस्तिस्स, मारिसा, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स तयो 20

१. तद्गमं - रो० । २. मारिणुनवोग्गल्लाना - रो० । ३. रो० देवते मरिय । ४. इधुक्का ति - रो० ।

सावकानं सन्निपाता अहेसुं । एको सावकानं सन्निपातो अहोसि अट्टुसट्टिभिक्षु-
 सतसहस्सं, एको सावकानं सन्निपातो अहोसि भिक्षुसतसहस्सं, एको सावकान
 सन्निपातो अहोसि असीतिभिक्षुसहस्सानि - विपस्सिस्स, मारिस्ता, भगवतो
 अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स इमे तयो सावकानं सन्निपाता अहेसुं सब्वेसं येव सीणा-
 5 सवानं । विपस्सिस्स, मारिस्ता, भगवतो, अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स असोको
 नाम भिक्षु उपट्टाको अहोसि अग्गुपट्टाको । विपस्सिस्स, मारिस्ता, भगवतो
 अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स वन्धुमा नाम राजा पिता अहोसि, वन्धुमती नाम
 देवी माता अहोसि जनेत्ती । वन्धुमस्स रञ्जो वन्धुमती नाम नगरं राजधानी
 अहोसि । विपस्सिस्स, मारिस्ता, भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स एवं अभि-
 10 निक्खमनं अहोसि, एवं पव्वज्जा, एवं पधानं, एवं अभिसम्बोधि, एवं धम्म-
 चक्कप्पवत्तनं । ते मय, मारिस्ता, विपस्सिम्हि भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा
 कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपन्ना' ति । तस्मिं येव सो, भिक्षवे,
 देवनिकामे अनेकानि देवतासहस्सानि अनेकानि देवतासतसहस्सानि येनाहं
 तेनुपसद्धमिसु; उपसद्धमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टंमु । एकमन्त
 15 ङ्गिता री, भिक्षवे, ता देवता मं एतदवीचु - 'इतो सी, मारिस्ता, एकत्तिसे
 कप्पे यं सिखी भगवा...पे०...ते मयं, मारिस्ता, सिस्सिम्हि भगवति तस्मिं येव
 सो, मारिस्ता, एकत्तिसे' कप्पे यं वेस्सभू भगवा ...पे०... ते मयं, मारिस्ता,
 वेस्सभूम्हि भगवति...पे०...इमस्मिं येव सो, मारिस्ता, मद्दकप्पे ककुसन्धो, कोणा-
 गमनो, कस्सपो भगवा...पे०...ते मयं, मारिस्ता, ककुसन्धम्हि कोणागमनम्हि
 20 कस्सपम्हि भगवति ब्रह्मचारिय चरित्वा कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा
 इधूपपन्ना' ति ।

भगवतो, मारिसा, अयं एको सावकानं सन्निपातो अहोसि सव्वेसं येव सीणा-
सवानं । भगवतो, मारिसा, आनन्दो नाम भिक्षु उपट्ठाको अग्गुपट्ठाको ।
भगवतो, मारिसा, सुद्धोदनो नाम राजा पिता अहोसि, माया नाम देवी माता
अहोसि जनेत्ती, कपिलवत्यु नाम नगरं राजधानी अहोसि । भगवतो, मारिसा,
एवं अभिनिक्खमनं अहोसि, एवं पव्वज्जा, एवं पधानं, एवं अभिसम्बोधि, 5
एवं घम्मचक्कप्पवत्तनं । ते मयं, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा
कामेसु कामच्छन्दं विराजेत्वा इधूपपत्ता' ति ।

७५. "इति खो, भिक्षव, तथागतस्सेव सा घम्मघातु सुप्पटिविद्धा,
यस्सा घम्मघातुया सुप्पटिविद्धत्ता तथागतो अतीते बुद्धे परिनिव्वुते छिन्नपपञ्चे
छिन्नवट्टमे परिमादिन्नवट्टे' सव्वदुक्खवीतिवत्ते जातितो पि अनुस्सरति, नामतो 10
पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयुप्पमाणतो पि अनुस्सरति,
सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो पि अनुस्सरति; एवंजच्चा
ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता, एवंसीला, एवंघम्मा, एवंपञ्जा,
एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी ति ।

"देवता पि तथागतस्स एतमत्थं आरोचेसुं - येन तथागतो अतीते
बुद्धे परिनिव्वुते छिन्नपपञ्चे छिन्नवट्टमे परिमादिन्नवट्टे सव्वदुक्खवीतिवत्ते
जातितो पि अनुस्सरति, नामतो पि अनुस्सरति, गोत्ततो पि अनुस्सरति, आयु-
प्पमाणतो पि अनुस्सरति, सावकयुगतो पि अनुस्सरति, सावकसन्निपाततो
पि अनुस्सरति; एवंजच्चा ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंनामा, एवंगोत्ता,
एवंसीला, एवंघम्मा, एवंपञ्जा, एवंविहारी, एवंविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं 20
इति पी" ति ।

इदमब्रुञ्च भगवा । अत्तमना ते भिक्षू भगवतो भासितं अभिनन्दुं
ति ।

महापदाननुत्तं निद्वितं ।

२. महानिदानसुत्तं

§ १. गम्भीरो पटिच्चसमुप्पादो

B 47,
R 55

१ एव मे सुत । एक समय भगवा कुरुसु विहरति कम्मासधम्मं नाम कुरुन निगमो । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्तो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच — “अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत्^१, भन्ते । याव गम्भीरो चाय, भन्ते, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । अथ च पन मे उत्तानकुत्तानको विय खायती” ति ।

“मा हेव, आनन्द, अब्बच, मा हेव, आनन्द, अब्बच । गम्भीरो चाय, आनन्द, पटिच्चसमुप्पादो गम्भीरावभासो च । एतस्स, आनन्द, धम्मस्स अननुवोधा अप्पटिवेधा एवमय पजा तन्ताकुलकजाता कुलगण्ठिकजाता^२ मुञ्जवब्बजभूता^३ अप्पाय दुग्गातिं विनिपात्तं ससारं नातिवत्तति ।

इदपच्चया

२ “अत्थि इदपच्चया जरामरण’ ति इति पुट्ठेन सता, आनन्द, अत्थीतिस्स वचनीय । ‘किंपच्चया जरामरण’ ति इति चे वदेय्य, ‘जातिपच्चया जरामरण’ ति इच्चस्स वचनीय ।

R. 56

“अत्थि इदपच्चया जाती’ ति इति पुट्ठेन सता, आनन्द, अत्थी-
तिस्स वचनीय । ‘किंपच्चया जाती’ ति इति चे वदेय्य, ‘भवपच्चया जाती’ ति इच्चस्स वचनीय ।

“अत्थि इदपच्चया भवो’ ति इति पुट्ठेन सता, आनन्द, अत्थी-
तिस्स वचनीय । ‘किंपच्चया भवो’ ति इति चे वदेय्य, ‘उपादानपच्चया भवो’ ति इच्चस्स वचनीय ।

२० “अत्थि इदपच्चया उपादान’ ति इति पुट्ठेन सता, आनन्द, अत्थी-
तिस्स वचनीय । ‘किंपच्चया उपादान’ ति इति चे वदेय्य, ‘तण्हापच्चया उपादान’ ति इच्चस्स वचनीय ।

B 48

“अत्थि इदपच्चया तण्हा’ ति इति पुट्ठेन सता, आनन्द, अत्थी-
तिस्स वचनीय । ‘किंपच्चया तण्हा’ ति इति चे वदेय्य, ‘वेदनापच्चया तण्हा’
ति इच्चस्स वचनीय ।

१. कम्मासधम्म — स्या० । २ अब्भुत् — स्या० । ३ गुत्तागुष्ठिकजाता — रो०, गुत्तागुष्ठिकजाता — स्या०, गुत्तागुष्ठिकजाता — सी० । ४ मुञ्जवब्बजभूता — म०, स्या० ।

“‘अत्यि इदण्चनया वेदना’ ति इति पुट्टेन मता, आनन्द, अत्योतिस्म वचनीयं । ‘किपच्चनया वेदना’ ति इति च वेदेय्य, ‘फग्गपच्चनया वेदना’ ति इच्चस्स वचनीयं ।

“‘अत्यि इदण्चनया फग्गो’ ति इति पुट्टेन मता, आनन्द, अत्यो-
तिस्म वचनीयं । ‘किपच्चनया फग्गो’ ति इति च वेदेय्य, ‘नामरूपपच्चनया
फग्गो’ ति इच्चस्स वचनीयं । 5

“‘अत्यि इदण्चनया नामरूपं’ ति इति पुट्टेन मता, आनन्द, अत्यो-
तिस्स वचनीयं । ‘किपच्चनया नामरूपं’ ति इति च वेदेय्य, ‘विज्जाणपच्चनया
नामरूपं’ ति इच्चस्स वचनीयं ।

“‘अत्यि इदण्चनया विज्जाणं’ ति इति पुट्टेन मता, आनन्द, 10
अत्योतिस्स वचनीयं । ‘किपच्चनया विज्जाणं’ ति इति च वेदेय्य, ‘नामरूप-
पच्चनया विज्जाणं’ ति इच्चस्स वचनीयं ।

३. “इति राते, आनन्द, नामरूपपच्चनया विज्जाण, विज्जाणपच्चनया
नामरूपं, नामरूपपच्चनया फग्गो, फग्गपच्चनया वेदना, वेदनापच्चनया तण्हा,
तण्हापच्चनया उपादानं, उपादानपच्चनया भयो, भयापच्चनया जाति, जातिपच्चनया 15
जरामरणं सोऽपरिदेवदुग्गादोमनस्सुपायाणा मम्महान्नि । एवमेवम्
मेवलस्स दुक्खरत्तान्धस्स समुदयो होति ।

५. “भवपच्चया जाती” ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिना-
पेतं परियायेन वेदितव्वं यथा - भवपच्चया जाति । भवो च हि, आनन्द,
नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं - कामभवो
वा रूपभवो वा अरूपभवो वा, सब्बसो भवे असति भवनिरोधा अपि नु खो जाति
5 पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो
जातिया यदिदं भवो ।

६. “उपादानपच्चया भवो” ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द,
10 इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा - उपादानपच्चया भवो । उपादानं च
R. 58 हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य-
थिदं - कामुपादानं वा दिट्ठुपादानं वा सीलव्वतुपादानं वा अत्तवादुपादानं
वा, सब्बसो उपादाने असति उपादाननिरोधा अपि नु खो भवो पञ्जायेथा”
ति ?

15 “नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो
भवस्स यदिदं उपादानं ।

७. “तण्हापच्चया उपादानं” ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द,
इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा-तण्हापच्चया उपादानं । तण्हा च हि,
20 आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं -
एतण्हा सद्वत्तण्हा गन्धतण्हा रसतण्हा फोट्टव्वतण्हा घम्मतण्हा, सब्बसो
तण्हाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो उपादानं पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

25 “तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो
उपादानस्स यदिदं तण्हा ।

८. “वेदनापच्चया तण्हा” ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिना-
पेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा - वेदनापच्चया तण्हा । वेदना च हि, आनन्द,
नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्यथिदं -
चक्कुसम्फस्सजा वेदना सोतसम्फस्सजा वेदना घानसम्फस्सजा वेदना जिब्हा-
30 सम्फस्सजा वेदना कायसम्फस्सजा वेदना मनोसम्फस्सजा वेदना, सब्बसो
वेदनाय असति वेदानिरोधा अपि नु खो तण्हा पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

• “तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयो तण्हाय यदिद वेदना ।

६ “इति खो पनेत, आनन्द, वेदन पटिच्च तण्हा, तण्ह पटिच्च परियेसना, परियेसन पटिच्च लाभो, लाभ पटिच्च विनिच्छयो, विनिच्छय पटिच्च छन्दरागो, छन्दराग पटिच्च अज्झोसान, अज्झोसान पटिच्च परिग्गहो, परिग्गह पटिच्च मच्छरिय, मच्छरिय पटिच्च आरक्खो, आरक्खाधिकरण’ दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति ।

१० “‘आरक्ख’ पटिच्च’ आरक्खाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ती’ ति इति खो पनेत वुत्त, तदानन्द, इमिनापेत परियायेन वेदितव्व, यथा - आरक्खाधिकरण दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवन्ति । आरक्खो च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्व सव्वथा सव्व कस्सचि किम्हिचि, सव्वसो आरक्खे असति आरक्खनिरोधा अपि नु खो दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादा अनेके पापका अकुसला धम्मा सम्भवेय्यु” ति ?

“नो हेत, भन्ते” ।

“तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयो दण्डादान-सत्थादान-कलह-विग्गह-विवाद-तुवतुव-पेसुञ्ज-मुसावादान अनेकेस पापकान अकुसलान धम्मान सम्भवाय यदिद आरक्खो ।

११ “‘मच्छरिय पटिच्च आरक्खो’ ति इति खो पनेत वुत्त, तदानन्द, इमिनापेत परियायेन वेदितव्व, यथा - मच्छरिय पटिच्च आरक्खो । मच्छरिय च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्व सव्वथा सव्व कस्सचि किम्हिचि, सव्वसो मच्छरिये असति मच्छरियनिरोधा अपि नु खो आरक्खो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेत, भन्ते” ६ ।

“तस्मात्तिहानन्द, एसेव हेतु एत निदान एस समुदयो एस पच्चयो आरक्खस्स यदिद मच्छरिय ।

१२ “‘परिग्गह पटिच्च मच्छरिय’ ति इति खो पनेत वुत्त, तदानन्द, इमिनापेत परियायेन वेदितव्व, यथा - परिग्गह पटिच्च मच्छरिय ।

१ आरक्ख पटिच्च आरक्खाधिकरण - स्या० । २ - २ म०, सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि ।

R. 60

परिग्गहो च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सच्चि किम्हिच्चि, सव्वसो परिग्गहे असति परिग्गहनिरोधा अपि नु खो मच्छरियं पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

5 “तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो मच्छरियस्स यदिदं परिग्गहो ।

१३. “अज्झोसानं पटिच्च परिग्गहो’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा – अज्झोसानं पटिच्च परिग्गहो । अज्झोसानं च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सच्चि किम्हिच्चि, सव्वसो अज्झोसाने असति अज्झोसाननिरोधा अपि नु खो परिग्गहो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो परिग्गहस्स – यदिदं अज्झोसानं ।

15 १४. “छन्दरागं पटिच्च अज्झोसानं’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा – छन्दरागं पटिच्च अज्झोसानं । छन्दरागो च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सच्चि किम्हिच्चि, सव्वसो छन्दरागे असति छन्दरागनिरोधा अपि नु खो अज्झोसानं पञ्जायेथा” ति ?

20 “नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो अज्झोसानस्स यदिदं छन्दरागो ।

१५. “विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा – विनिच्छयं पटिच्च छन्दरागो । विनिच्छयो च हि, आनन्द, नाभविस्स सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं कस्सच्चि किम्हिच्चि, सव्वसो विनिच्छये असति विनिच्छयनिरोधा अपि नु खो छन्दरागो पञ्जायेथा” ति ?

R. 61

“नो हेतं, भन्ते” ।

30 “तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो छन्दरागस्स यदिदं विनिच्छयो ।

B. 52

१६. “लाभं पटिच्च विनिच्छयो’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा – लाभं पटिच्च विनिच्छयो ।

लाभो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सब्बसो लाभे असति लाभनिरोधा अपि नु खो विनिच्छयो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो विनिच्छयस्स यदिदं लाभो ।

१७. “ ‘परियेसनं पटिच्च लाभो’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा – परियेसनं पटिच्च लाभो । परियेसना च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सब्बसो. परियेसनाय असति परियेसनानिरोधा अपि नु खो लाभो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो लाभस्स यदिदं परियेसना ।

१८ “ ‘तण्हं पटिच्च परियेसना’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा – तण्हं पटिच्च परियेसना । तण्हा च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य-थिदं – कामतण्हा भवतण्हा विभवतण्हा, सब्बसो तण्हाय असति तण्हानिरोधा अपि नु खो परियेसना पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो परियेसनाय यदिदं तण्हा । इति खो, आनन्द, इमे द्वे धम्मा द्वयेन वेदनाय एकस्समोसरणा भवन्ति ।

१९. “ ‘फस्सपच्चया वेदना’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितब्बं, यथा – फस्सपच्चया वेदना ति । फस्सो च हि, आनन्द, नाभविस्स सब्बेन सब्बं सब्बथा सब्बं कस्सचि किम्हिचि, सेय्य-थिदं – चक्खुसम्फस्सो सोतसम्फस्सो घानसम्फस्सो जिब्हासम्फस्सो काय-सम्फस्सो मनोसम्फस्सो, सब्बसो फस्से असति फस्सनिरोधा अपि नु खो वेदना पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पच्चयो वेदनाय यदिदं फस्सो ।

२०. “‘नामरूपपञ्चया फस्सो’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा – नामरूपपञ्चया फस्सो । येहि, आनन्द, आकारेहि येहि लिङ्गेहि येहि निमित्तेहि येहि उद्देशेहि नामकायस्स पञ्जात्ति होति, तेसु आकारेसु तेसु लिङ्गेषु तेसु निमित्तेसु तेसु उद्देशेसु असति अपि नु खो रूपकाये अधिवचनसम्फस्सो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“येहि, आनन्द, आकारेहि येहि लिङ्गेहि येहि निमित्तेहि येहि उद्देशेहि रूपकायस्स पञ्जात्ति होति, तेसु आकारेसु...पे०...तेसु उद्देशेसु असति अपि नु खो नामकाये पटिघसम्फस्सो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“येहि, आनन्द, आकारेहि...पे०...येहि उद्देशेहि नामकायस्स च रूपकायस्स च पञ्जात्ति होति, तेसु आकारेसु...पे०...तेसु उद्देशेसु असति अपि नु खो अधिवचनसम्फस्सो वा पटिघसम्फस्सो वा पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“येहि, आनन्द, आकारेहि...पे०...येहि उद्देशेहि नामरूपस्स पञ्जात्ति होति, तेसु आकारेसु...पे०...तेसु उद्देशेसु असति अपि नु खो फस्सो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पञ्चयो फस्सस्स यदिदं नामरूपं ।

२१. “‘विञ्जाणपञ्चया नामरूपं’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा – विञ्जाणपञ्चया नामरूपं । विञ्जाणं च हि, आनन्द, मातुकुच्छिस्मिं न श्रोक्कमित्साय अपि नु खो नामरूपं मातुकुच्छिस्मिं समुच्चिस्सया” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“विञ्जाणं च हि, आनन्द, मातुकुच्छिस्मिं श्रोक्कमित्वा शोक्कमित्साय अपि नु खो नामरूपं इत्यत्ताय अभिनिव्वत्तिस्सया” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“विञ्जाणं च हि, आनन्द, दहरस्सेय गतो वोच्छिज्जिस्सया गुमारफस्स वा गुमारिकाय या अपि नु खो नामरूपं वुद्धि विरुद्धि वेपुल्लं आपज्जिस्सया” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पञ्चयां नामरूपस्स - यदिदं विञ्जाणं ।

२२. “‘नामरूपपञ्चया विञ्जाणं’ ति इति खो पनेतं वुत्तं; तदानन्द, इमिनापेतं परियायेन वेदितव्वं, यथा - नामरूपपञ्चया विञ्जाणं । 5
विञ्जाणं च हि, आनन्द, नामरूपे पतिट्ठं न लभिस्सथ अपि नु खो आर्याति जातिजरामरणदुक्खसमुदयसम्भवो पञ्जायेथा” ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, एसेव हेतु एतं निदानं एस समुदयो एस पञ्चयो विञ्जाणस्स यदिदं नामरूपं । एत्तावता खो, आनन्द, जायेथ वा जीयेथ 10
वा मीयेथ वा चवेथ वा उपपज्जेथ वा । एत्तावता अधिवचनपथो, एत्तावता निरुत्तिपथो, एत्तावता पञ्जात्तिपथो, एत्तावता पञ्जावचरं, एत्तावता वट्टं वत्तति इत्थत्तं पञ्जापनाय यदिदं नामरूपं सह विञ्जाणेन अञ्जामञ्ज-
पञ्चयता पवत्तति ।

§ २. अतपञ्जाति नअतपञ्जाति

२३. “कित्तावता च, आनन्द, अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति ? 15
रूपि वा हि, आनन्द, परित्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति - ‘रूपी मे परित्तो अत्ता’ ति । रूपि वा हि, आनन्द, अनन्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति - ‘रूपी मे अनन्तो अत्ता’ ति । अरूपि वा हि, आनन्द, परित्तं अत्तानं पञ्जा-
पेन्तो पञ्जापेति - ‘अरूपी मे परित्तो अत्ता’ ति । अरूपि वा हि, आनन्द, अनन्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति - ‘अरूपी मे अनन्तो अत्ता’ ति । 20

२४. “तत्रानन्द, यो सो रूपि परित्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति, 20
एतरहि वा सो रूपि परित्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति, तत्थं भावि वा सो रूपि परित्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति, अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी” ति इति वा पनस्स होति । एवं सन्तं खो, आनन्द, रूपि परित्तत्तानुदिट्ठि अनुसेती ति इच्चालं वचनाय ।

“तत्रानन्द, यो सो रूपि अनन्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति, 25
एतरहि वा सो रूपि अनन्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति, तत्थं भावि वा सो रूपि अनन्तं अत्तानं पञ्जापेन्तो पञ्जापेति, अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय

१. जातिजरामरण दुक्खसमुदयसम्भवो - म० । २-२ जिय्येय वा पिय्येय वा - इति पि ।
पञ्जापेन्तो - सी०, स्या०, म० । ४. तथा - स्या० । ५. रूपी - इति पि !

भाविं वा सो अरूपिं परित्तं अत्तानं न पञ्जापेत्तो न पञ्जापेति, 'अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं सन्तं खो, आनन्द, अरूपिं परित्तत्तानुदिट्ठि नानुसेती ति इच्चालं वचनाय ।

“तत्रानन्द, यो सो अरूपिं अनन्तं अत्तानं न पञ्जापेत्तो न पञ्जापेति, एतरहि वा सो अरूपिं अनन्तं अत्तानं न पञ्जापेत्तो न पञ्जापेति, तथ भाविं वा सो अरूपिं अनन्तं अत्तानं न पञ्जापेत्तो न पञ्जापेति, 'अतथं वा पन सन्तं तथत्ताय उपकप्पेस्सामी' ति इति वा पनस्स न होति । एवं सन्तं खो, आनन्द, अरूपिं अनन्तत्तानुदिट्ठि नानुसेती ति इच्चालं वचनाय । एत्तावता खो, आनन्द, अत्तानं न पञ्जापेत्तो न पञ्जापेति ।

अत्तसमनुपस्सना

२७. “कित्तावता च, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति? वेदनं वा हि, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति — वेदना मे अत्ता ति । 'न हेव खो मे वेदना अत्ता, अप्पटिसंवेदनो मे अत्ता' ति इति वा हि, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति । 'न हेव खो मे वेदना अत्ता, नो पि अप्पटिसंवेदनो इमे अत्ता, अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता' ति इति वा हि, आनन्द, अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति ।

२८. “तत्रानन्द, यो सो एवमाह — 'वेदना मे अत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो — 'तिस्रो खो इमा, आवुसो, वेदना — सुखा वेदना, दुखा वेदना, अदुक्खमसुखा वेदना । इमाहं खो त्वं तिससन्नं वेदनानं कतमं अत्ततो समनुपस्ससी' ति ? यस्मिं, आनन्द, समये सुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मिं समये दुक्खं वेदनं वेदेति, न अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति; सुखं येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति । यस्मिं, आनन्द, समये दुक्खं वेदनं वेदेति, नेव तस्मिं समये सुखं वेदनं वेदेति, न अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति; दुक्खं येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति । यस्मिं, आनन्द, समये अदुक्खमसुखं वेदनं वेदेति, नेव तस्मिं समये सुखं वेदनं वेदेति, न दुक्खं वेदनं वेदेति; अदुक्खमसुखं येव तस्मिं समये वेदनं वेदेति ।

२९. “सुखा पि खो, आनन्द, वेदना अनिच्चा सङ्गता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । दुक्खा पि खो, आनन्द, वेदना अनिच्चा सङ्गता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । अदुक्खमसुखा पि खो, आनन्द, वेदना अनिच्चा सङ्गता पटिच्चसमुप्पन्ना खयधम्मा वयधम्मा विरागधम्मा निरोधधम्मा । तस्स सुखं वेदनं वेदियमानस्स 'एसो मे अत्ता' ति होति । तस्सा येव सुखाय

वेदनाय निरोधा 'व्यगा' मे अत्ता' ति होति । दुक्खं वेदनं वेदियमानस्स 'एसो मे अत्ता' ति होति । तस्सा येव दुक्खाय वेदनाय निरोधा 'व्यगा मे अत्ता' ति होति । अद्रुक्खमसुखं वेदनं वेदियमानस्स 'एसो मे अत्ता' ति होति । तस्सा येव अद्रुक्खमसुखाय वेदनाय निरोधा 'व्यगा मे अत्ता' ति होति । इति
 5 सो दिट्ठेव धम्मो अनिच्चसुखदुक्खवोकिण्णं उप्पादधयधम्मं अत्तानं समनुपस्समानो समनुपस्सति, यो सो एवमाह - 'वेदना मे अत्ता' ति । तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - 'वेदना मे अत्ता' ति समनुपस्सितुं

३०. "तत्रानन्द, यो सो एवमाह - 'न हेव खो मे वेदना अत्ता, अप्पटिसंवेदनो मे अत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो - 'यत्थ पनावुसो, सव्वसो वेदयितं नत्थि अपि नु खो, तत्थ अयमहमस्मी' ति सिया' " ति ?
 "नो हेतं, भन्ते" ।

"तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - 'न हेव खो मे वेदना अत्ता, अप्पटिसंवेदनो मे अत्ता' ति समनुपस्सितुं ।

B. 50

३१. "तत्रानन्द, यो सो एवमाह - 'न हेव खो मे वेदना अत्ता, नो पि अप्पटिसंवेदनो मे अत्ता, अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता' ति, सो एवमस्स वचनीयो - 'वेदना च हि, आवुसो, सव्वेन सव्वं सव्वथा सव्वं अपरिसेसा निरुज्जेय्युं, सव्वसो वेदनाय असति वेदानानिरोधा अपि नु सो तत्थ अयमहमस्मी ति सिया' " ति ?

"नो हेतं, भन्ते" ।

R. 68 20

"तस्मातिहानन्द, एतेन पेतं नक्खमति - 'न हेव खो मे वेदना अत्ता, नो पि अप्पटिसंवेदनो मे अत्ता, अत्ता मे वेदियति, वेदनाधम्मो हि मे अत्ता' ति समनुपस्सितुं ।

३२. "यत्तो खो, आनन्द, भिग्गु नेव वेदनं अत्तानं समनुपस्सति, नो पि अप्पटिसंवेदनं अत्तानं समनुपस्सति, नो पि 'अत्ता मे वेदियति, वेदना धम्मो हि मे अत्ता' ति समनुपस्सति, सो एव न समनुपस्सन्तो न च विट्ठि लोके उपादियति । अनुपादियं न परित्तस्सति । अपरित्तसं पत्तत्ताअन्नेय परिनिच्चायति । 'ग्गीणा जाति, वुसितं अत्तनरियं, यत्तं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया' ति पजानाति । एवं विमुत्तचित्तं खो, आनन्द, भिग्गु यो एयं यदेव - 'होति तथागतो परं मरणा इत्थिम्हं इट्ठी' ति, मरणात्तं; 'न होति तथागतो परं मरणा इत्थिम्हं इट्ठी' ति, मरणात्तं; 'होति च न च होति तथागतो

१. अत्ता - सी० । २. अत्तन्ति - सी०. इत्थि - इत्थि०, यो० । ३. इत्थि - इत्थि० ।

पर मरणा' इतिस्स दिट्ठी ति, तदकल्ल, 'नेव होति न न होति तथागतो पर मरणा' इतिस्स दिट्ठी ति, तदकल्ल । त किस्स हेतु ? यावतो, आनन्द, अधिवचन यावता अधिवचनपथो, यावता निरुत्ति, यावता निरुत्तिपथो, यावता पञ्जात्ति, यावता पञ्जात्तिपथो, यावता पञ्जा, यावता पञ्जावचर, यावता' वट्ट, यावता वट्टति', तदभिञ्जाविमुत्तो भिक्खु । तदभिञ्जा- 5
विमुत्त भिक्खु 'न जानाति न पस्सति इतिस्स दिट्ठी' ति, तदकल्ल ।

§ ३ सत्त विञ्जाणट्टितियो

३३ "सत्त खो,^१ आनन्द, विञ्जाणट्टितियो, द्वे आयतनानि । कतमा सत्त ? सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका । अय पठमा विञ्जाण-
ट्टिति । सन्तानन्द, सत्ता नानत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि देवा 10
ब्रह्मकायिका पठमाभिनिव्वत्ता । अय दुतिया विञ्जाणट्टिति । सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया नानत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि देवा आभस्सरा । अय ततिया विञ्जाणट्टिति । सन्तानन्द, सत्ता एकत्तकाया एकत्तसञ्जिनो, सेय्यथापि देवा सुभकिण्हा । अय चतुत्थी विञ्जाणट्टिति । सन्तानन्द, सत्ता सब्वसो रूपसञ्जान समतिक्कमा पटिघसञ्जान अत्थङ्गमा नानत्त- 15
सञ्जान अमनसिकारा 'अनन्तो आकासो' ति आकासानञ्चायतनूपगा^१ । अय पञ्चमी^२ विञ्जाणट्टिति । सन्तानन्द, सत्ता सब्वसो आकासानञ्चायतन समतिक्कम्म 'अनन्त विञ्जाण' ति विञ्जाणञ्चायतनूपगा । अय छट्ठी^३ विञ्जाणट्टिति । सन्तानन्द, सत्ता सब्वसो विञ्जाणञ्चायतन समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनूपगा । अय सत्तमी^४ विञ्जाणट्टिति । 20
असञ्जसत्तायतन नेवसञ्जानासञ्जायतनमेव दुतिय ।

३४ "तत्रानन्द, याय पठमा विञ्जाणट्टिति नानत्तकाया नानत्त-
सञ्जिनो, सेय्यथापि मनुस्सा, एकच्चे च देवा, एकच्चे च विनिपातिका,
यो नु खो, आनन्द, त च पजानाति तस्सा च समुदय पजानाति तस्सा च
अत्थङ्गम पजानाति तस्सा च अस्साद पजानाति तस्सा च आदीनव पजानाति 25
तस्सा च निस्सरण पजानाति, कल्ल नु तेन तदभिनन्दितु" ति ?

"नो हेत, भन्ते" ।

"तत्रानन्द, यमिद असञ्जसत्तायतन, यो नु खो, आनन्द, त च पजानाति

१ - १ यावता वट्ट वट्टति - गी० । २ खो इमा - सी० स्या० । ३ ० यतनुपगा -
स्या० । ४ पञ्चमा - स्या० । ५ छट्ठा - स्या०, रो० । ६ सत्तमा - स्या० ।

तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च अत्थङ्गमं पजानाति तस्स च अस्सादं पजानाति तस्स च आदीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कल्लं नु तेन तदभिनन्दितुं" ति ? .

“नो हेतं, भन्ते” ।

5 “तत्रानन्द, यमिदं नेवसञ्जानासञ्जायतनं, यो नु खो, आनन्द, तं च पजानाति तस्स च समुदयं पजानाति तस्स च अत्थङ्गमं पजानाति तस्स च अस्सादं पजानाति तस्स च आदीनवं पजानाति तस्स च निस्सरणं पजानाति, कल्लं नु तेन तदभिनन्दितुं" ति ?

“नो हेतं, भन्ते” ।

10 “यतो खो, आनन्द, भिक्खु इमास च सत्तन्न विञ्जाणट्ठितीन इमेसं च द्वित्रं आयतनानं समुदयं च अत्थङ्गमं च अस्सादं च आदीनवं च निस्सरणं च यथाभूतं विदित्वा अनुपादा विमुत्तो होति, अयं वुच्चतानन्द, भिक्खु पञ्जाविमुत्तो ।

§ ४. अट्ट विमोक्खा

३५. “अट्ट खो इमे, आनन्द, विमोक्खा । कतमे अट्ट ? रूपी

15 रूपानि पस्सति, अयं पठमो विमोक्खो । अञ्जक्त अरूपसञ्ची वहिद्धा रूपानि पस्सति, अयं दुतियो विमोक्खो । सुभन्तेव अधिमुत्तो होति, अयं ततियो विमोक्खो । सब्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा पटिघसञ्जानं अत्थङ्गमा

नानत्तसञ्जानं अमनसिकारा ‘अनन्तो आकासो’ ति आकासानञ्चायतनं

उपसम्पज्ज विहरति, अयं चतुत्थो विमोक्खो । सब्बसो आकासानञ्चायतनं

20 समतिक्कम्म ‘अनन्तं विञ्जाणं’ ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं पञ्चमो विमोक्खो । सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म ‘नत्थि

किञ्ची’ ति आकिञ्चञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं छट्ठो विमोक्खो ।

सब्बसो आकिञ्चञ्चायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज

विहरति, अयं सत्तमो विमोक्खो । सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समति-

25 क्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, अयं अट्ठमो विमोक्खो ।

इमे खो, आनन्द, अट्ट विमोक्खा ।

३६. “यतो खो, आनन्द, भिक्खु इमे अट्ट विमोक्खे अनुलोमं पि

समापज्जति, पटिलोमं पि समापज्जति, अनुलोमपटिलोमं पि समापज्जति,

यत्थिच्छकं यदिच्छकं यावत्तिच्छकं समापज्जति पि वुट्ठाति पि, आसवानं

30 च सया अनासवं चेतोविमुत्तिं पञ्जाविमुत्तिं दिट्ठेव धम्मं सयं अभिञ्जा

सच्छिद्यकत्वा उपसम्पज्ज विहरति-। अयं^१ वुच्चतानन्द, भिक्खु उभतोभाग-
विमुत्तो । इमाय च आनन्द उभतोभागविमुत्तिया अञ्जा उभतोभागविमुत्ति
उत्तरितरा वा पणीतरा वा नत्थी” ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमनो आयस्मा आनन्दो भगवतो भासितं
अभिनन्दी ति ।

5

महानिदानमुत्तं निद्धितं दुत्तियं ।

—o:—

३. महापरिनिव्वानसुत्तं

§ १. वज्जीनं सत्त अपरिहानिया धम्मा

१. “एवं मे सुत । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिञ्जकूटे पव्वते । तेन खो पन समयेन राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी अभियातुकामो होति । सो एवमाह — “अहं हिमे वज्जी एवंमहिद्विके एवंमहानुभावे उच्छेच्छामि^१ वज्जी, विनासेस्तामि वज्जी, अनयव्यसनं आपादेस्सामि वज्जी” ति ।

२. अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वस्सकार ब्राह्मणं मगधमहामत्तं आमन्तेसि — “एहि त्वं, ब्राह्मण, येन भगवा तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्दाहि, अप्पावाधं अप्पातङ्कं लहुट्टानं वलं फासुविहारं पुच्छ — ‘राजा, भन्ते, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भगवतो पादे सिरसा वन्दति, अप्पावाधं अप्पातङ्कं लहुट्टानं वलं फासुविहारं पुच्छती’ ति । एवं च वदेहि — ‘राजा, भन्ते, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी अभियातुकामो । सो एवमाह — अहं हिमे वज्जी एवंमहिद्विके एवंमहानुभावे उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्तामि वज्जी, अनयव्यसनं आपादेस्सामि वज्जी’ ति । यथा ते भगवा व्याकरोति तं साधुकं उग्गहेत्वा मम आरोचेय्यासि । न हि तथागता वितथं भणन्ती” ति ।

३. “एवं, भो” ति खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो रञ्जो मागधस्स अजातसत्तुस्स वेदेहिपुत्तस्स पटिस्सुत्वा भद्धानि भद्धानि यानानि योजेत्वा^१ भद्दं भद्दं यानं अभिघ्हित्वा भद्देहि भद्देहि यानेहि राजगहम्हा निव्यासि, येन गिञ्जकूटो पव्वतो तेन पायासि । यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन गत्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिको व येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिद्धो खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवन्तं एतदवोच — “राजा, भो गोतम, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो भोतो गोतमस्स पादे सिरसा वन्दति, अप्पावाधं अप्पातङ्कं लहुट्टानं वलं फासुविहारं पुच्छति । राजा, भो गोतम, मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो वज्जी अभियातुकामो एवमाह — अहं हिमे वज्जी एवंमहिद्विके एवंमहानुभावे

१. वज्जि — स्या० । २ उच्छेज्जामि — स्या०, रो० । ३ योजापेत्वा — रो०, टी० ।

उच्छेच्छामि वज्जी, विनासेस्सामि वज्जी, अनयव्यसन आपादेस्सामि वज्जी' ”
ति ।

४ तेन खो पन समयेन आयस्सा आनन्दो भगवतो पिट्ठितो ठितो
होति, भगवन्त वीजयमानो^१ । अथ खो भगवा आयस्सन्त आनन्द आमन्तेसि
— “किन्ति ते, आनन्द, सुत — ‘वज्जी अभिण्ह सन्निपाता सन्निपातवहुला’ ” ति? 5

“सुत मेत, भन्ते — ‘वज्जी अभिण्ह सन्निपाता सन्निपातवहुला’ ” ति ।

“यावकीव च, आनन्द, वज्जी अभिण्ह सन्निपाता सन्निपातवहुला
भविस्सन्ति, बुद्धियेव^२, आनन्द, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिहानि । किन्ति
ते, आनन्द, सुत — ‘वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा बुट्ठहन्ति समग्गा
वज्जिकरणीयानि करोन्ती’ ” ति ? 10

“सुत मेत, भन्ते — ‘वज्जी समग्गा सन्निपतन्ति समग्गा बुट्ठहन्ति
समग्गा वज्जिकरणीयानि करोन्ती’ ” ति ।

“यावकीव च, आनन्द, वज्जी समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा
बुट्ठिस्सन्ति समग्गा वज्जिकरणीयानि करिस्सन्ति, बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन
पाटिकह्वा, नो परिहानि । किन्ति ते, आनन्द, सुत — ‘वज्जी अपञ्जत्त न
पञ्जापेन्ति, पञ्जत्त न समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जत्ते पोरणे वज्जिधम्मे
समादाय वत्तन्ती’ ” ति ? 15

“सुत मेत, भन्ते — ‘वज्जी अपञ्जत्त न पञ्जापेन्ति, पञ्जत्त न
समुच्छिन्दन्ति, यथापञ्जत्ते पोरणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तन्ती’ ” ति ।

“यावकीव च, आनन्द, वज्जी अपञ्जत्त न पञ्जापेस्सन्ति, पञ्जत्त
न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्जत्ते पोरणे वज्जिधम्मे समादाय वत्तिस्सन्ति,
बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिहानि । किन्ति ते, आनन्द,
सुत — ‘वज्जी ये ते वज्जीन वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति गरु^३ करोन्ति^३
मानेन्ति पूजेन्ति तेस च सोतव्व मञ्जन्ती’ ” ति ? 20

“सुत मेत, भन्ते — ‘वज्जी ये ते वज्जीन वज्जिमहल्लका ते सक्करोन्ति
गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति तेस च सोतव्व मञ्जन्ती’ ” ति । 25

“यावकीव च, आनन्द, वज्जी ये ते वज्जीन वज्जिमहल्लका ते
सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेस च सोतव्व मञ्ज-
स्सन्ति, बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिहानि । किन्ति ते,

१ वीजयमानो — सी० रो० वीजयमानो — स्था० । २ बुद्धियेव — स्था० । ३-३
गरुकरात्ति — सी० स्था० रो० ।

आनन्द, सुत - 'वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओक्कस्स पसय्ह वासेन्ती' " ति ?

"सुत मेत, भन्ते - 'वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओक्कस्स पसय्ह वासेन्ती' " ति ।

"यावकीव च, आनन्द, वज्जी या ता कुलित्थियो कुलकुमारियो ता न ओक्कस्स पसय्ह वासेस्सन्ति, बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिह्वानि । किन्ति ते, आनन्द, सुत - 'वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि अब्भन्तरानि चैव वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तेस च दिन्नपुव्व कतपुव्व धम्मिक बालि नो परिहापेन्ती' " ति ?

R 75

"सुत मेत, भन्ते - 'वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि अब्भन्तरानि चैव वाहिरानि च, तानि सक्करोन्ति गरु करोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति, तेस च दिन्नपुव्व कतपुव्व धम्मिक बालि नो परिहापेन्ती' " ति ।

"यावकीव च, आनन्द, वज्जी यानि तानि वज्जीन वज्जिचेतियानि अब्भन्तरानि चैव वाहिरानि च, तानि सक्करिस्सन्ति गरु करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति, तेस च दिन्नपुव्व कतपुव्व धम्मिक बालि नो परिहापेस्सन्ति, बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिह्वानि । किन्ति ते, आनन्द, सुत - 'वज्जीन अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसविहिता, किन्ति अनागता च अरहन्तो विजित आगच्छेय्यु, आगता च अरहन्तो विजिते फासु' विहरेय्यु' " ति ?

"सुत मेत, भन्ते - 'वज्जीन अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसविहिता, किन्ति अनागता च अरहन्तो विजित आगच्छेय्यु, आगता च अरहन्तो विजिते फासु विहरेय्यु' " ति ।

"यावकीव च, आनन्द, वज्जीन अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसविहिता भविस्सति, किन्ति अनागता च अरहन्तो विजित आगच्छेय्यु, आगता च अरहन्तो विजिते फासु विहरेय्यु ति, बुद्धियेव, आनन्द, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिह्वानी" ति ।

५ अथ स्रो भगवा वस्सकार ब्राह्मण मगधमहामत्त आमन्तेसि - "एमिदाह, ब्राह्मण, समय वेसालिय विहरामि सारन्ददे" चेतिये । तथाह वज्जीन इमे सत्त अपरिह्वानिये धम्मे देमेमि । यावकीव च, ब्राह्मण, इमे

30

सत्त अपरिहानिया धम्मा वज्जीसु ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेषु वज्जी सन्दिस्सिस्सन्ति, बुद्धियेव, ब्राह्मण, वज्जीन पाटिकह्वा, नो परिहानी” ति ।

एव वुत्ते, वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवन्त एतदवोच —
 “एकमेकेन पि, भो गोतम, अपरिहानियेन धम्मेन समन्नागतान वज्जीन 5
 बुद्धियेव पाटिकह्वा, नो परिहानि, को पन वादो सत्तहि अपरिहानियेहि
 धम्मेहि । अकरणीया व’, भो गोतम, वज्जी रञ्जा मागधेन अजातसत्तुना
 वेदेहिपुत्तेन यदिद युद्धस्स, अञ्जात्र उपलापनाय, अञ्जन मिथुभेदाय^१ ।
 हन्द च दानि मय, भो गोतम गच्छाम, बहुकिच्चा मय बहुकरणीया” ति ।

“यस्स दानि त्व, ब्राह्मण, काल मञ्जसी” ति । 10

अथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो भगवतो भासित अभि-
 नन्दित्वा अनुमोदित्वा उट्टायासना पक्कामि^३ ।

३ २ भिक्षूनं सत्त अपरिहानिया धम्मा

६ अथ खो भगवा अचिरपक्वन्ते वस्सकारे ब्राह्मणे मगधमहामत्ते
 आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि — “गच्छ त्व, आनन्द, यावतिका भिक्षू राज-
 गह उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपट्टानसालाय सन्निपातेही” ति । “एव, 15
 भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा यावतिका भिक्षू राजगह
 उपनिस्साय विहरन्ति ते सब्बे उपट्टानसालाय सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनु-
 पसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त अट्ठासि । एकमन्त
 ठितो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच — “सन्निपतितो^४, भन्ते,
 भिक्षुसङ्घो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा काल मञ्जसी^५” ति । 20

अथ खो भगवा उट्टायासना येन उपट्टानसाला तेनुपसङ्कमि,
 उपसङ्कमित्वा पञ्जात्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा भिक्षू आमन्तेसि
 — “सत्त वो, भिक्षव्वे, अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । त सुणाय, साधुक
 मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति । “एव, भन्ते” ति खो ते भिक्षू भगवतो
 पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच — 25

“यावकीव च, भिक्षव्वे, भिक्षू अभिण्ह सन्निपाता सन्निपातवहुला
 भविस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्षव्वे, भिक्षून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

“यावकीव च, भिक्षव्वे, भिक्षू समग्गा सन्निपतिस्सन्ति समग्गा

१ अकरणीया च — स्या० । २ मिथुभेदा — सी०, रो० म० । ३ पक्कामि — सी० । ४
 सन्निपातितो — सी० । ५ मञ्जसी — सी०, स्या०, रो० ।

R 77

वुट्टहिस्सन्ति समग्गा सङ्घकरणीयानि करिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू अपञ्जात्तं न पञ्जापेस्सन्ति’ पञ्जात्तं न समुच्छिन्दिस्सन्ति, यथापञ्जात्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू ये ते भिक्खू थेरा रत्तञ्जू चिर-पव्वजिता सङ्घपितरो सङ्घपरिणायका’ ते सक्करिस्सन्ति गरं’ करिस्सन्ति मानेस्सन्ति पूजेस्सन्ति तेसं च सोतव्वं मञ्जिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

10 “यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू उप्पन्नाय तण्हाय पो नोव्वभविकाय न वसं गच्छिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू आरञ्जकेसु सेनासनेसु सापेक्खा भविस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

15 “यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू पच्चत्तञ्जेव सति उपट्टपेस्सन्ति’ — ‘किन्ति अनागता च पेसला सब्रह्मचारी आगच्छेय्यु, आगता च पेसला सब्रह्मचारी फासु’ विहरेय्यु’ ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

20 “यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु टस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मसेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति’, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

अपरे पि सत्त

B. 66

७. “अपरे पि खो”, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति । “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदबोच —

R. 78

25 “यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न कम्मरामा भविस्सन्ति न कम्मरता न कम्मरामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न भस्सारामा भविस्सन्ति न भस्सरता न भस्सारामतमनुयुत्ता, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकङ्खा, नो परिहानि ।

१. पञ्जापेस्सन्ति - सी०, रो० । २. अपरिणायका - मी०, स्या०, रो० । ३. गरं - सी०, स्या०, रो० । ४. उपट्टापेस्सन्ति - रो० । ५. फासु - मी०, स्या०, रो० । ६. मन्दिस्सन्ति - रो० । ७. बो - म०, सी०, स्या० ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न निद्वारामा भविस्सन्ति न निद्वारता न निद्वारामतमनुयुत्ता, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न सङ्गणिकारामा भविस्सन्ति न सङ्गणिकारता^१ न सङ्गणिकारामतमनुयुत्ता, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न पापिच्छा भविस्सन्ति न पापिकानं इच्छानं वसं गता, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न पापभित्ता भविस्सन्ति न पाप-सहाया न पापसम्पवद्धा^२, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू न श्रोरमत्तकेन विसेसाधिगमेन अन्तरावोसानं आपज्जिस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्ति, इमेषु च सत्तसु अपरिहानियेषु धम्मेषु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

अपरे पि सत्त

८. अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि... पे०...यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू सद्धा भविस्सन्ति...पे०...हिरिमना भविस्सन्ति. श्रोत्तप्पी भविस्सन्ति..वहुस्सुता भविस्सन्ति...आरद्धविरिया^३ भविस्सन्ति...उपट्ठितस्सती^४ भविस्सन्ति...पञ्चावन्तो^५ भविस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि । यावकीवं च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु ठस्सन्ति, इमेषु च सत्तसु अपरिहानियेषु धम्मेषु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, बुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकह्वा, नो परिहानि ।

अपरे पि सत्त

९. “अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । तं सुणाय, साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी” ति । “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच —

१. सङ्गणिकारता - म० । २. पापसम्पवद्धा - स्या० । ३. आरद्धकीरिया - म० । ४. उपट्ठितसती - री० । ५. पञ्चावन्तो - री० ।

“यावकीव च, भिक्खवे, भिक्खू सतिसम्बोज्झं भावेस्सन्ति पे०
 धम्मविचयसम्बोज्झं भावेस्सन्ति विरियसम्बोज्झं भावेस्सन्ति पीति-
 सम्बोज्झं भावेस्सन्ति पस्सद्विसम्बोज्झं भावेस्सन्ति समाधिसम्बोज्झं
 भावेस्सन्ति उपेक्खासम्बोज्झं भावेस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूत
 5 पाटिकद्दहा, नो परिहानि ।

“यावकीव च, भिक्खवे, भिक्खू अनिच्चसञ्ज भावेस्सन्ति पे० ।

“यावकीव च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु
 ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेषु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति,
 वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकद्दहा, नो परिहानि ।

अपरे पि सत्त

10 १० “अपरे पि खो, भिक्खवे, सत्त अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि ।
 त सुणाय, साधुक मनसिक्खरोय, भासिस्सामी” ति । “एव, भन्ते” ति खो
 ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच -

“यावकीव च, भिक्खवे, भिक्खू अनिच्चसञ्ज भावेस्सन्ति पे०
 अनत्तसञ्ज भावेस्सन्ति असुभसञ्ज भावेस्सन्ति आदीनवसञ्ज
 15 भावेस्सन्ति पहानसञ्ज भावेस्सन्ति विरागसञ्ज भावेस्सन्ति
 निरोधसञ्ज भावेस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकद्दहा, नो परिहानि ।

R 80

“यावकीव च, भिक्खवे, इमे सत्त अपरिहानिया धम्मा भिक्खूसु
 ठस्सन्ति, इमेसु च सत्तसु अपरिहानियेसु धम्मेषु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति,
 वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खून पाटिकद्दहा, नो परिहानि ।

१३ भिक्खून छ अपरिहानिया धम्मा

20 ११ “छ, भिक्खवे, अपरिहानिये धम्मे देसेस्सामि । त सुणा-
 साधु मनसिक्खरोय, भासिस्सामी” ति । “एव, भन्ते” ति खो ते भिक्खू
 भगवतो पच्चस्सोसु । भगवा एतदवोच -

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू, ये ते लाभा धम्मिका धम्मलद्धा अन्तमसो पत्तपरियापन्नमत्तं पि तथारूपेहि लाभेहि अप्पटिविभत्तभोगी’ भविस्सन्ति सीलवन्तेहि सन्नह्यचारीहि साधारणभोगी, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकह्हा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू यानि कानि’ सीलानि अत्तण्डानि 5 अच्छिद्धानि असवलानि अकम्मासानि भुजिस्सानि विञ्जूपसत्थानि’ अपरामट्टानि समाधिसंवत्तनिकानि तथारूपेषु सीलेसु सीलसामञ्जगता विहरिस्सन्ति सन्नह्यचारीहि आवि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकह्हा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, भिक्खू यायं दिट्ठि अरिया निय्यानिका, 10 निय्याति तक्करस्स सम्मा दुक्खक्खयाय, तथारूपाय दिट्ठिया दिट्ठिसामञ्जगता विहरिस्सन्ति सन्नह्यचारीहि आवि चेव रहो च, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकह्हा, नो परिहानि ।

“यावकीवं च, भिक्खवे, इमे छ अपरिहानिया घम्मा भिक्खूसु 15 ठस्सन्ति, इयेसु च छसु अपरिहानियेसु धम्मेसु भिक्खू सन्दिस्सिस्सन्ति, वुद्धियेव, भिक्खवे, भिक्खूनं पाटिकह्हा, नो परिहानी” ति ।

१२. तत्र सुदं भगवा राजगहे विहरन्तो गिञ्जकूटे पव्वते एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि कयं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव 20 आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं” - कामासवा भवासवा, अविज्जासवा” ति ।

१३. अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - “आयामानन्द, येन अम्बलट्टिका तेनुपसङ्गमिस्सामा” ति । “एवं, भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि येन अम्बलट्टिका तदवसरि । तय सुदं 25 भगवा अम्बलट्टिकायं विहरति राजागारके । तत्रा पि’ सुदं भगवा अम्बलट्टिकायं विहरन्तो राजागारके एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि कयं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा,

१. न अप्पटिविभत्तभोगी - स्या० । २. तानि - सी०, स्या०, रो० । ३. विञ्जूपसत्थानि - सी० । ४. सेय्यथीद - स्या०, रो० । ५. दिट्ठित्थवा अविज्जामवा - सी०, रो० । ६. तत्र पि - सी०, स्या०, रो० ।

पञ्चापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा” ति ।

१४. अथ खो भगवा अम्बलट्टिकायं यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - “आयामानन्द, येन नाळन्दा तेनुपसङ्कमिस्सामा” ति ।
 5 “एवं, भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं येन नाळन्दा तदवसरि । तत्र सुदं भगवा नाळन्दायं विहरति पावारिकम्बवने ।

§ ४. सारिपुत्तस्स सोहनादो

R. 82 १५. अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमिन्त्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो
 10 आयस्मा सारिपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - “एवं पसन्नो अहं, भन्ते, भगवति ! न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता भिय्योभिञ्जत्तरो, यदिदं सम्बोधियं” ति ।

“उळारा खो ते अयं, सारिपुत्त, आसभी वाचा भासिता । एकंसो गहितो । सीहनादो नदितो - ‘एवंपसन्नो अहं, भन्ते, भगवति !
 15 न चाहु न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अञ्जो समणो वा ब्राह्मणो वा वा भगवता भिय्योभिञ्जत्तरो यदिदं सम्बोधियं” ति । किं ते”, सारिपुत्त, ये ते अहेसुं अतीतमद्दानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्ये ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता - ‘एवंसीला ते भगवन्तो अहेसुं इति पि, एवंघम्मा एवंपञ्जा एवंविहारी एवविमुत्ता ते भगवन्तो अहेसुं इति पी’ ” ति ?

20 “नो हेतं, भन्ते” ।

“किं पन, सारिपुत्त, ये ते भविस्सन्ति अनागतमद्दानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्ये ते भगवन्तो चेतसा चेतो परिच्च विदिता - ‘एवंसीला ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पि, एवंघम्मा एवंपञ्जा एवंविहारी एवविमुत्ता ते भगवन्तो भविस्सन्ति इति पी’ ” ति ?

25 “नो हेतं, भन्ते” ।

“किं पन ते, सारिपुत्त, अहं एतरहि अहं मग्गागम्बुद्धो चेतसा चेतो परिच्च विदितो - ‘एवंसीलो भगवा इति पि, एवंघम्मो एवंपञ्जो एवंविहारी एवविमुत्तो भगवा इति पी’ ” ति ?

“एत्य च हि ते, सारिपुत्त, अतीतानागतपञ्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मा-
सम्बुद्धेसु चेतोपरियञ्जाण’ नत्थि । अथ किञ्चरहि ते अय, सारिपुत्त, उळारा
आसभी वाचा भासिता, एकसो गहितो, सीहनादो नदितो - ‘एवपसन्नो अहं,
भन्ते, भगवति ! न चाहू न च भविस्सति न चेतरहि विज्जति अज्जो
समणो वा ब्राह्मणो वा भगवता’ भिय्योभिज्जतरो, यदिद सम्बोधिय’ ” ति ? 5

१६ “न खो मे, भन्ते, अतीतानागतपञ्चुप्पन्नेसु अरहन्तेसु सम्मा-
सम्बुद्धेसु चेतोपरियञ्जाण अत्थि । अपि च मे धम्मन्वयो विदितो । सेय्यथापि,
भन्ते, रज्जो पच्चन्तिम नगर दब्हुद्धाप’ दब्हुपाकारतोरण एवद्वार ।
तत्रस्स दोवारिको पण्डितो वियत्तो मेधावी, अज्जातान’ निवारेता ज्ञातान
पवेसेता । सो तस्स नगरस्स सामन्ता’ अनुपरियायपथ’ अनुक्कममानो न 10
पस्सेय्य पाकारस्सन्धि वा पाकारविवर वा, अन्तमसो विळारनिकलमनमत्त’
पि’ । तस्स एवमस्स - ‘ये खो केचि ओळारिका पाणा इम नगर पविसन्ति
वा निकलमन्ति वा सव्वेते इमिना च द्वारेण पविसन्ति वा निकलमन्ति वा’ ति ।
एवमेव खो मे, भन्ते, धम्मन्वयो विदितो - ‘ये ते, भन्ते, अहेसु अतीतमद्धान
अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्वे ते भगवन्तो पच्च नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे 15 B
पञ्जाय दुव्वलीकरणे, चतूसु’ सतिपट्टानेसु सुपत्तिट्ठित्तित्ता, “सत्तबोज्झङ्गे”
यथाभूत भावेत्वा अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुद्धिसु । ये पि ते, भन्ते,
भविस्सन्ति अनागतमद्धान अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा सव्वे ते भगवन्तो पच्च
नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुव्वलीकरणे, चतूसु सतिपट्टानेसु
सुपत्तिट्ठित्तित्ता, सत्त बोज्झङ्गे यथाभूत भावेत्वा अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभि- 20
सम्बुद्धिस्सन्ति । भगवा पि, भन्ते, एतरहि अरह सम्मासम्बुद्धो पच्च
नीवरणे पहाय चेतसो उपक्किलेसे पञ्जाय दुव्वलीकरणे, चतूसु सतिपट्टानेसु
सुपत्तिट्ठित्तित्तो, सत्त बोज्झङ्गे यथाभूत भावेत्वा अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभि-
सम्बुद्धो” ति ।

१७ तत्र पि सुद भगवा नाळन्दाय विहरन्तो पावारिकम्बवने 25 R.
एतदेव बहुल भिक्खून धम्मि कथ करोति - “इति’ सील, इति समाधि,
इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिससो, समाधि
परिभावितो पञ्जा महप्फला होति महानिससा, पञ्जापरिभावित चित्त -

१ चेतोपरियञ्जाण - स्या० । २ भगवतो - स्या० । ३ दब्हुद्धाप - रो०; दब्हुद्धार
- स्या० । ४ अज्जातान - स्या० । ५ तमन्ता - स्या०, रो०, म० । ६ अनुपरियायपथ - स्या० ।
७ विळारनिसक्कमत्त - रो० । ८ पि न पस्सेय्य - स्या० । ९ चतूसु - रो० । १०
मुपत्तिट्ठित्तित्ता - सी० । ११ सत्त सम्बोज्झङ्गे - सी० । १२ इति पि - स्या० ।

सम्मदेव आसवेहि विमुञ्चति, सेय्यथिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा ति ।

१. पाटलिगामिकानं भगवतो श्रोवावो

१८. अथ खो भगवा नाळन्दायं यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "आयामानन्द, येन पाटलिगामो तेनुपसङ्कुमिस्तामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्तोसि । अथ खो भगवा महता भिक्षुसङ्घेन सद्धिं येन पाटलिगामो तदवसरि । अस्सोसु खो पाटलिगामिका उपासका - "भगवा किर पाटलिगामं अनुप्पत्तो" ति । अथ खो पाटलिगामिका उपासका येन भगवा तेनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो पाटलिगामिका उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - "अधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा आवसथागारं" ति । अधिवासेसि भगवा तुप्पहीभावेन । अथ खो पाटलिगामिका उपासका भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्ठायान्ना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविसरणं कत्वा येन आवसथागारं तेनुपसङ्कुमिसु; उपसङ्कुमित्वा सव्वसन्वरि आवसथागारं सन्वरित्वा आसनानि पञ्जापेत्वा उदकमणिकं पतिट्ठापेत्वा तेलपदीपं आरोपेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कुमिगु, उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठंसु । एकमन्तं ठित्ता खो पाटलिगामिका उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - "सव्वसन्वरिसन्थत", भन्ते, आवसथागारं । आसनानि पञ्जत्तानि, उदकमणिको पतिट्ठापितो, तेलपदीपो आरोपितो; यस्स दानि, भन्ते, भगवा कासं मञ्जती" ति । अथ खो भगवा सायप्पूसमम निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं भिक्षुसङ्घेन येन आवसथागारं तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा पादे पस्सासेत्वा आवसथागारं पयिसित्वा मज्झिमं यमं निस्साम पुरत्थाभिमुगो निसीदि । भिक्षुसङ्घो पि गो पादे पस्सासेत्वा आवसथागारं पयिसित्वा पच्चिदमं भित्तिं निस्साम पुरत्थाभिमुगो निगीदि, भगवन्तमेव पुरंगत्वा । पाटलिगामिका पि गो उपासका पादे पस्सासेत्वा आवसथागारं पयिसित्वा पच्चिदमं भित्तिं निस्साम पच्चिदमाभिमुगो निगीदिगु, भगवन्तमेव पुरंगत्वा ।

B. 72

B. 63

गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो पमादाधिकरणं महति भोगजानि निगच्छति ।
अयं पठमो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ।

“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलस्स सीलविपन्नस्स पापको कित्तिसद्दो
अब्भुग्गच्छति । अयं दुतियो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ।

“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो यञ्जदेव परिसं उप- 5
सङ्कमति—यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि
समणपरिसं—अविसारदो उपसङ्कमति मद्धुभूतो । अयं ततियो आदीनवो
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ।

“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो सम्मूहो कालं करोति ।
अयं चतुत्थो आदीनवो दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया ।

“पुन च परं, गहपतयो, दुस्सीलो सीलविपन्नो कायस्स भेदा परं
मरणा अपायं दुग्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति । अयं पञ्चमो आदीनवो
दुस्सीलस्स सीलविपत्तिया । इमे खो, गहपतयो, पञ्च आदीनवा दुस्सीलस्स
सीलविपत्तिया ।

२०. “पञ्चमे, गहपतयो, आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाय । 15
कतमे पञ्च ? इध, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो अप्पमादाधिकरणं महत्तं
भोगक्खन्धं अधिगच्छति । अयं पठमो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवतो सीलसम्पन्नस्स कल्याणो कित्तिसद्दो
अब्भुग्गच्छति । अयं दुतियो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो यञ्जदेव परिसं उप- 20
सङ्कमति—यदि खत्तियपरिसं, यदि ब्राह्मणपरिसं, यदि गहपतिपरिसं, यदि
समणपरिसं—विसारदो उपसङ्कमति अमद्धुभूतो । अयं ततियो आनिसंसो
सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो असम्मूहो कालं
करोति । अयं चतुत्थो आनिसंसो सीलवतो सीलसम्पदाय ।

“पुन च परं, गहपतयो, सीलवा सीलसम्पन्नो कायस्स भेदा परं मरणा
सुग्गतिं सगं लोकं उपपज्जति । अयं पञ्चमो आनिसंसो सीलवतो सील-
सम्पदाय । इमे खो, गहपतयो, पञ्च आनिसंसा सीलवतो सीलसम्पदाया” ति ।

२१. अथ सो भगवा पाटलिगामिके उपासके बहुदेव रत्ति धम्मिया
कयाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उय्योजेत्ति—“अभि-

नकन्ता खो, गहपतयो, रत्ति । यस्स दानि तुंम्हे कालं मञ्जथा” ति । “एवं भन्ते” ति खो पाटलिगामिका उपासका भगवतो पटिस्सुत्वा उट्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कर्मिसु । अथ खो भगवा अचिर- पक्कन्तेसु पाटलिगामिकेसु उपासकेसु सुञ्जागारं पाविसि ।

§ ६. पाटलिपुत्तनगरमापनं

- B. 74 5 २२. तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा' मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिवाहाय । तेन खो पन समयेन सम्बहुला देवतायो सहस्सेव^१ पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हन्ति । यस्मिं पदेसे महे- सक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, महेसक्खानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मिं पदेसे मज्झिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, मज्झिमानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मिं पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । अद्दा खो भगवा दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन ता देवतायो सहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि परिग्गण्हन्तियो । अथ खो भगवा रत्तिया पच्चूससमयं 15 पच्चुट्ठाय आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - “के' नु खो, आनन्द, पाटलिगामे नगरं मापेन्ती” ति ?

“सुनिधवस्सकारा, भन्ते, मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिवाहाया” ति ।

- “सेय्यथापि, आनन्द, देवेहि तावर्तसेहि सद्धि मन्तेत्वा^२, एवमेव 20 खो, आनन्द, सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता पाटलिगामे नगरं मापेन्ति वज्जीनं पटिवाहाय । इधाहं, आनन्द, अद्दसं दिब्बेन चक्खुना विसुद्धेन अतिक्कन्तमानुसकेन सम्बहुला देवतायो सहस्सेव पाटलिगामे वत्थूनि परि- ग्गण्हन्तियो । यस्मिं, आनन्द, पदेसे महेसक्खा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, महेसक्खानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । 25 यस्मिं पदेसे मज्झिमा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, मज्झिमानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यस्मिं पदेसे नीचा देवता वत्थूनि परिग्गण्हन्ति, नीचानं तत्थ रञ्जं राजमहामत्तानं चित्तानि नमन्ति निवेसनानि मापेतुं । यावता, आनन्द, अरियं आयतनं, यावता यणि-

१. गुनीपत्तमपारा - स्या० । २. मत्तगमेव - मी०, रो० । ३. के - मी०, स्या०, रो० । ४. मापेत्ती - मी०, स्या०, रो० । ५. यत्तो मन्तेत्वा - स्या० ।

प्यथो, इदं अग्ननगरं भविस्सति पाटलिपुत्रं पुंठभेदनं । पाटलिपुत्रस्स खो, आनन्द, तयो अन्तराया भविस्सन्ति - अग्गितो वा उदकतो वा मियुभेदा वा" ति ।

२३. अथ खो सुनिघवस्सकारा मगधमहामत्ता येन भगवा तेनुप-
सङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदिसु । सम्मोदनीयं कथं 5
सारणीयं^१ वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्टंसु । एकमन्तं ठित्ता खो सुनिघवस्सकारा
मगधमहामत्ता भगवन्तं एतदवोचु - "अधिवासेतु नो भवं गोतमो
अज्जतनाय भत्तं सद्धिं भिक्खुसङ्घेना" ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन ।
अथ खो सुनिघवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवतो अधिवासनं विदित्वा येन
सको आवसथो तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा सके आवसथे पणीतं खादनीयं 10
भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो काल आरोचापेसुं - "कालो, भो गोतम,
निद्वित्तं भत्तं" ति ।

अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धिं
भिक्खुसङ्घेन येन सुनिघवस्सकारानं मगधमहामत्तानं आवसथो तेनुपसङ्कमि;
उपसङ्कमित्वा पञ्जात्ते आसने निसीदि । अथ खो सुनिघवस्सकारा मगध- 15
महामत्ता बुद्धपमुखं^२ भिक्खुसङ्घं पणीतेन खादनीयेन^३ भोजनीयेन^४ सहत्था
सन्तप्पेसुं सम्पवारेसु । अथ खो सुनिघवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं
भुत्तावि ओनीतपत्तपारिणं^५ अञ्जातरं नीचं आसनं गहेत्वा एकमन्तं निसीदिसु ।
एकमन्तं^६ निसिन्ने खो सुनिघवस्सकारे मगधमहामत्ते भगवा इमाहि गाथाहि
अनुमोदि - 20

"यस्मि पदेसे कप्पेत्ति, वासं पण्डितजातियो" ।

सीलवन्तेत्थ भोजेत्वा, सञ्जाते ब्रह्मचारयो" ॥

"या तत्थ देवता आसु," तासं दक्खिणमादिसे ।

ता पूजिता पूजयन्ति, मानिता मानयन्ति नं ॥

"ततो नं अनुकम्पन्ति", माता पुत्तं व ओरसं । 25

देवतानुकम्पितो पोसो, सदा भद्रानि पस्सती" ति ॥

अथ खो भगवा सुनिघवस्सकारे मगधमहामत्ते इमाहि गाथाहि
अनुमोदित्वा उट्ठायासना पक्कामि" ।

१. विगिण्यथो - स्वा० । २ सारणीय - स्वा०, रो० । ३ बुद्धपमुख - रो० ।

४ - ४. खादनीयेन भोजनीयेन - रो० । ५ ओणीतपत्तपारिण - रो० । ६ एकमन्ते - इति पि ।

७. पण्डितजातिको - रो० । ८ ब्रह्मचारिणो - स्वा० । ९ अस्तु - रो० । १० अनुकम्पेन्ति - सी० ।

११. पक्कमि - सी० ।

B 76

२४. तेन खो पन समयेन सुनिधवस्सकारा मगधमहामत्ता भगवन्तं
 पिट्ठितो पिट्ठितो अनुवन्धा^१ होन्ति - "येनज्ज समणो गोतमो द्वारेन निवस्स-
 मिस्सति, तं गोतमद्वारं नाम भविस्सति; येन तित्थेन गङ्गा^२ नदि^३ तरिस्सति,
 तं गोतमतित्थं नाम भविस्सती" ति । अथ खो भगवा येन द्वारेन निवस्सामि,
 5 तं गोतमद्वारं नाम अहोसि । अथ खो भगवा येन गङ्गा नदी तेनुपसङ्कमि ।
 तेन खो पन समयेन गङ्गा नदी पूरा होति समतित्तिका काकपेय्या । अप्पेकच्चे
 मनुस्सा नावं परियेसन्ति, अप्पेकच्चे उल्लुम्पं^४ परियेसन्ति, अप्पेकच्चे कुल्ल
 वन्धन्ति पारा^५ पारं गन्तुकामा । अथ खो भगवा - सेय्यथापि नाम बलवा
 पुरिसो समिञ्जित^६ वा वाहं पसारयेय्य, पसारितं वा वाहं समिञ्जेय्य एवमेव -
 10 गङ्गाय नदिया शोरिमतीरे अन्तरहितो पारिमतीरे पच्चुट्ठासि सद्धिं भिक्खु-
 सङ्घेन । अहसा खो भगवा ते मनुस्से अप्पेकच्चे नाव परियेसन्ते, अप्पेकच्चे
 उल्लुम्पं परियेसन्ते, अप्पेकच्चे कुल्लं वन्धन्ते पारा पारं गन्तुकामे । अथ खो
 भगवा एतमत्थं विदित्वा तापं बेलाय इमं उदानं उदानेसि -

"ये तरन्ति अण्णवं सर, सेतु कत्वान विसज्ज पल्ललानि ।

15 कुल्ल^१ हि जनो वन्धति^२, तिण्णा^३ मेधाविनो जना" ति ॥

पठमभाणवार ।

॥ ७. धम्मादासो धम्मपरियायो

R 90

२५. अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "आयामा-
 नन्द, येन कोटिगामो तेनुपसङ्कमिस्सामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा
 आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं
 श्रेत्तं क्कोटिगामो तदवसरि । तत्र सुद भगवा कोटिगामे विहरति । तत्र खो
 20 भगवा भिक्खू आमन्तेसि -

B 77

"चतुस्रं, भिक्खवे, अरियसच्चान अननुवोधा अप्पटिवेधा एवमिद
 दीघमद्धानं सन्धावितं संसरित ममं चैव तुम्हाक च । कतमेसं चतुस्रं ?
 दुक्खस्स, भिक्खवे, अरियसच्चस्स अननुवोधा अप्पटिवेधा एवमिद दीघमद्धान
 सन्धावितं संसरित ममं चैव तुम्हाक च । दुक्खसामुदयस्स, भिक्खवे, अरिय-
 25 सच्चस्स अननुवोधा अप्पटिवेधा एवमिद दीघमद्धान सन्धावितं संसरित
 ममं चैव तुम्हाक च । दुक्खनिरोधस्स, भिक्खवे, अरियसच्चस्स अननुवोधा

१. अनुवद्धा - सी०, रो० । २ - २ गङ्गानदि - स्या० । ३ उज्जय - सी० । ४. पपारा
 - म०, रो० । ५ गमिञ्जित - स्या०, रो० । ६-६ कुल्ल जनी प वन्धति - स्या०, कुल्ल हि
 नोपवन्धति - सी०, रो० । ७ नितिण्णा - इति पि ।

अप्पटिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चैव तुम्हाकं च ।
 दुक्खनिरोधगामिनिया पटिपदाय, भिक्खवे, अरियसच्चस्स, अननुवोधा अप्पटि-
 वेधा, एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चैव तुम्हाकं च । तयिदं,
 भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं अनुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्खसमुदयं अरियसच्चं
 अनुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्खनिरोधं अरियसच्चं अनुवुद्धं पटिविद्धं, दुक्खनिरोध- 5
 गामिनी पटिपदा अरियसच्चं अनुवुद्धं पटिविद्धं । उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा
 भवनेत्ति, नत्थि दानि पुनब्भवो” ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्वानं सुगतो
 अथापरं एतदवोच सत्था -

“चतुन्नं अरियसच्चानं, यथाभूतं अदस्सना ।
 संसितं दीघमद्धानं, तासु तास्वेव जातिसु ॥
 “तानि एतानि दिट्ठानि, भवनेत्ति समूहता ।
 उच्छिन्नं मूलं दुक्खस्स, नत्थि दानि पुनब्भवो” ति ॥

तत्र पि सुदं भगवा कोटिगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं भिक्खूनं धम्मि
 कथं करोति - “इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि
 महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभाविता पञ्जा महप्फला होति 15
 महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्य-
 थिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा” ति

२६. अथ खो भगवा कोटिगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं
 आनन्दं आमन्तेसि - “आयामानन्द, येन नातिका तेनुपङ्कमिस्सामा” ति ।
 “एवं, भन्ते” ति एो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोत्ति । अथ खो 20 B
 भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सट्ठि येन नातिका तदवसरि । तत्र पि सुव भगवा
 नातिके विहरति गिञ्जकावसथे । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा
 तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवाटेत्वा एकमन्तं निमीदि ।
 एकमन्तं निसिञ्चो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - “साब्हो नाम,
 भन्ते, भिक्खु नातिके कालङ्कतो” । तस्स का गति, को अभिसम्परायो ? 25
 नन्दा नाम, भन्ते, भिक्खुनां नातिके कालङ्कता । तस्सा का गति, को
 अभिसम्परायो ? सुदत्तो नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालङ्कतो । तस्स
 का गति, को अभिसम्परायो ? सुजाता नाम, भन्ते, उपासिका नातिके

१. दुक्खसमुदयो - स्या० । २. दुक्खनिरोधो - स्या० । ३. वत्वा - सी०, रो० । ४.
 संसरितं - सी० । ५. तास्वेव - रो० । ६-६. भवासवा दिट्ठानि अविज्जासवा - रो०; दिट्ठानि
 भवासवा अविज्जासवा - सी० । ७. नातिका - स्या०, रो० । ८. कालवतो - सी०, रो० ।

कालङ्कता । तस्सा का गति, को अभिसम्परायो ? कुक्कुटो' नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालङ्कतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो ? काळिम्बो' नाम, भन्ते, उपासको ... पे० ... निकटो नाम, भन्ते, उपासको ... कटिस्सहो' नाम, भन्ते, उपासको ... तुट्टो नाम, भन्ते, उपासको ... सन्तुट्टो नाम, भन्ते, उपासको ... भट्टो' नाम, भन्ते, उपासको ... सुभट्टो' नाम, भन्ते, उपासको नातिके कालङ्कतो । तस्स का गति, को अभिसम्परायो" ति ?

२७. "साब्धो, आनन्द, भिक्खु आसवानं खया अनासवं चेतो-विमुत्तिं पञ्चाविमुत्तिं विट्ठेव धम्मे सयं अभिञ्जा सच्छिक्त्वा उपसम्पज्ज विहासि । नन्दा, आनन्द, भिक्खुनी पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं' 10 परिक्खया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिनी अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका । सुदत्तो, आनन्द, उपासको तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामी सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सति । सुजाता, आनन्द, उपासिका तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' । कुक्कुटो आनन्द, उपासको पञ्चन्नं 15 ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । काळिम्बो आनन्द, उपासको ... पे० ... निकटो, आनन्द, उपासको ... कटिस्सहो, आनन्द, उपासको ... तुट्टो, आनन्द, उपासको .. सन्तुट्टो, आनन्द, उपासको ... भट्टो, आनन्द, उपासको ... सुभट्टो, आनन्द, उपासको पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिको तत्थ परिनिब्बायी अनावत्तिधम्मो तस्मा लोका । 20 परोपञ्चासं, आनन्द, नातिके उपासका कालङ्कता, पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बायिने अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका । सतिधर्मा नवुत्ति, आनन्द, नातिके उपासका कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं 25 करिस्सन्ति । सातिरेवानि', आनन्द, पञ्चसतानि नातिके उपासका कालङ्कता, तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा ।

२८. "अनच्छरियं खो पनेत्तं, आनन्द, यं मनुस्सभूतो कालं करेय्य । तस्मिं येव" कालङ्कते तथागतं उपसङ्कमित्वा एतमत्थं पुच्छिस्सथ । विहेसा

१. वट्टुधो - स्या० । २. वात्तिङ्गो - रो०; वात्तिङ्गो - स्या० । ३. कटिस्सहो - सी० रो० । ४. भट्टो - स्या० । ५. सुभट्टो - स्या० । ६. गच्छोजनानं - सी०, स्या० । ७. सम्बोधिपरायणा - सी०, स्या०, रो० । ८. सातिरेवानि - स्या० । ९. तस्मिं तस्मिं ये - सी०, रो०; तस्मिं तस्मिं यो - स्या० ।

हेसा', आनन्द, तथागतस्स । तस्मातिहानन्द, धम्मादास नाम धम्मपरियायं देसेस्सामि येन समन्नागतो अरियसावको आकङ्क्षमानो अत्तना व अत्तान व्याकरेय्य^१ - 'खीणनिरयोमिह खीणतिरच्छानयोनि^२ खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति ।

5

२६ "कतमो च सो, आनन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्नागतो अरियसावको आकङ्क्षमानो अत्तनाव अत्तान व्याकरेय्य - 'खीणनिरयोमिह खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति ?

"इधानन्द, अरियसावको बुद्धे अव्वेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - 10 'इति पि सो भगवा अरह, सम्मासम्बुद्धो, विज्जाचरणसम्पन्नो, सुगतो, लोकविदू, अनुनरो, पुरिसदम्मसारथि, सत्था देवमनुस्सान, बुद्धो, भगवा' ति ।

"धम्मे अव्वेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - 'स्वाक्खातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्वो विञ्जूही' ति ।

15

"सञ्चे अव्वेच्चप्पसादेन समन्नागतो होति - 'सुप्पटिपन्नो' भगवतो सावकसङ्घो, उजुप्पटिपन्नो^३ भगवतो सावकसङ्घो, आयप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो, सामीप्पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो - यदिद चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ट पुरिसपुग्गला, एस भगवतो सावकसङ्घो आहुनेय्यो पाहुनेय्यो^४ दक्खिण्यो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तर पुञ्जवखेत्त लोकस्सा' ति ।

20

"अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागतो होति अखण्डेहि अच्छिद्देहि असवलेहि अकम्मासेहि भुजिस्सेहि विञ्जूपसत्थेहि^५ अपरामट्ठेहि समाधिसवत्तनिकेहि ।

"अय खो सो, आनन्द, धम्मादासो धम्मपरियायो येन समन्नागतो अरियसावको आकङ्क्षमानो अत्तना व अत्तान व्याकरेय्य - 'खीणनिरयोमिह खीणतिरच्छानयोनि खीणपेत्तिविसयो खीणापायदुग्गतिविनिपातो सोतापन्नोहमस्मि अविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो' ति ।

25

तत्र पि सुद भगवा नातिके विहरन्तो गिञ्जकावसथे एतदेव बहुल भिक्खून धम्मि कथ करोति - "इति सील, इति समाधि, इति पञ्जा,

१ वेसा - सी०, स्या०, रो० । २ व्याकरेय्य - रो० । ३ खीणतिरच्छानयोनि - रो० ।

४ सुप्पटिपन्नो - स्या०, रो० । ५ उजुपटिपन्नो - स्या०, रो० । ६ पाहुणेय्यो - रो० । ७ विञ्जूपसत्थेहि - सी०, रो० ।

सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिससो, समाधिपरिभाविता पञ्चा महप्फला होति महानिससा, पञ्चापरिभावित चित्त सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिद - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा” ति ।

३० अथ खो भगवा नातिके यथाभिरन्त विहरित्वा आयस्मन्त
 5 आनन्द आमन्तेसि - “आयामानन्द, येन वेसाली तेनुपसङ्गमिस्सामा” ति ।
 “एव, भन्ने” ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो
 भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुद भगवा
 वेसालिय विहरति अम्बपालिवने । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि -

“सतो, भिक्खवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानो । अय वो^१ अम्हाक
 10 अनुसासनी । कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु
 काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके
 अभिज्जादोमनस्स । वेदनासु वेदनानुपस्सी पे० चित्ते चित्तानुपस्सी
 पे० धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य
 लोके अभिज्जादोमनस्स । एव खो, भिक्खवे, भिक्खु सतो होति ।

15 “कथ च, भिक्खवे, भिक्खु सम्पजानो होति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु
 अभिक्कन्ते पटिक्कन्ते सम्पजानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्प-
 जानकारी होति, समिञ्जिते^२ पसारिते सम्पजानकारी होति, सङ्घाटि-
 पत्तचीवरधारणे सम्पजानकारी होति, अस्तिते पीते खायिते सायिते सम्प-
 जानकारी होति, उच्चारपस्मायकम्मे सम्पजानकारी होति, गते ठिते निसिन्ने
 20 सुत्ते जागरिते भासिते तुण्हीभावे सम्पजानकारी होति । एव खो, भिक्खवे,
 भिक्खु सम्पजानो होति । सतो, भिक्खवे, भिक्खु विहरेय्य सम्पजानो ।
 अय वो अम्हाव अनुसासनी” ति ।

§ ८ अम्बपाली गणिका

३१ अस्सोसि खो अम्बपाली गणिका - “भगवा किर वेसालि
 अनुप्पत्तो वेसालिय विहरति मय्ह अम्बवने” ति । अथ सो अम्बपाली
 25 गणिका भद्धानि भद्धानि यानानि योजापेत्वा भद् भद् यान अभिन्हित्वा^३
 भद्देहि भद्देहि यानेहि वेसालिया निय्यामि, येन सको आरामो तेन पायासि ।
 यावत्तिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिका व येन
 भगवा तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ।

१ - १ ण्डिगवा अविज्जागया - सी० भवासवा ण्डिगवा अपिज्जागया - २० । २
 ४ - स्या० । ३ गमिञ्जिता - स्या० २० । ४ अभिन्हित्वा - सी० २० ।

एकमन्त निसिन्न खो अम्बपालि गणिक भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त एतदवोच - “अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सद्धि भिक्खु-सङ्घेना” ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवतो अधिवासन विदित्वा उट्टायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि ।

अस्सोसु खो वेसालिका लिच्छवी - “भगवा किर वेसालि अनुप्पत्तो वेसालिया विहरति अम्बपालिवने” ति । अथ खो ते लिच्छवी भद्धानि भद्धानि यानानि योजापेत्वा भद् भद् यान अभिरुहित्वा भद्देहि भद्देहि यानेहि वेसालिया निर्य्यसु । तत्र एकच्चे लिच्छवी नीला होन्ति नीलवण्णा नीलवत्था नीलालङ्कारा, एकच्चे लिच्छवी पीता होन्ति पीतवण्णा पीतवत्था पीतालङ्कारा, एकच्चे लिच्छवी लोहिता^१ होन्ति लोहितवण्णा^१ लोहितवत्था लोहितालङ्कारा^१, एकच्चे लिच्छवी ओदाता होन्ति ओदातवण्णा ओदातवत्था ओदातालङ्कारा । अथ खो अम्बपाली गणिका दहरान दहरान लिच्छवीन अक्खेन अक्ख चक्केन चक्क युगेन^२ युग^३ पटिवट्टेसि^४ । अथ खो ते लिच्छवी अम्बपालि गणिक एतदवोचु - “किं, जे अम्बपालि, दहरान दहरान लिच्छवीन अक्खेन अक्ख चक्केन चक्क युगेन युग पटिवट्टेसी” ति ?

“तथा हि पन मे, अय्यपुत्ता, भगवा निमन्तितो स्वातनाय भत्त सद्धि भिक्खुसङ्घेना” ति ।

“देहि, जे अम्बपालि, एत^५ भत्त सतसहस्सेना” ति ।

“सच्चे पि मे, अय्यपुत्ता, वेसालि साहार दस्सथ”, एवमह त^६ भत्त न दस्सामी” ति ।

अथ खो ते लिच्छवी अङ्गलि फोटेसु - “जितम्ह वत भो अम्बकाय, जितम्ह वत भो अम्बकाया” ति” । अथ खो ते लिच्छवी येन अम्बपालिवन तेन पार्यिसु । अहसा खो भगवा ते लिच्छवी दूरतो व आगच्छन्ते । दिस्वान भिक्खू आमन्तेसि - “येस”, भिक्खवे, भिक्खून देवा तावत्तिसा अदिट्ठुव्वा,^७

१ वेसालि - स्या० । २ लोहितका - रो०, स्या० । ३ - ३ लोहितकवण्णा लोहितकवत्था लोहितकालङ्कारा - स्या० । ४ - ४ युगेन युग - स्या० । ५ पटिवट्टेसि - इति पि । ६ एक - इति पि । ७ दग्गेय्याय - इति पि । ८ एवमि महन्त - स्या० । ९ नैव दग्गाह त यत्त ति - इति पि । १० जिनम्हा वन भो अम्बपालिकाय वञ्चितम्हा वत भो अम्बपालिकाया ति - स्या० । ११ येहि - इति पि । १२ अदिट्ठा - सी०, रो० ।

R 97

ओलोकेय, भिक्खवे, लिच्छविपरिस, अपलोकेय, भिक्खवे, लिच्छविपरिस, उपसहरथ, भिक्खवे, लिच्छविपरिस - तावतिससदिस^१” ति । अथ खो ते लिच्छवी यावतिका यानस्स भूमि यानेन गन्त्वा, याना पच्चोरोहित्वा पत्तिका व येन भगवा तेनुपसङ्गमिसु, उपसङ्गमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा

5 एकमन्त निसीदिसु । एकमन्त निसिन्ने खो ते लिच्छवी भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । अथ खो ते लिच्छवी भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहसिता भगवन्त एतदवोचु - “अधिवासेतु नो, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्त सद्धि भिक्खुसङ्घेना” ति । अथ खो भगवा ते लिच्छवी एतदवोच - “अधिवुत्थ^२

10 खो मे, लिच्छवी, स्वातनाय अम्बपालिया गणिकाय भत्त” ति । अथ खो ते लिच्छवी अङ्गुलि फोटेसु - “जितम्ह वत भो अम्बकाय, जितम्ह वत भो अम्बकाया” ति । अथ खो ते लिच्छवी भगवतो भासित अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा उट्टायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कमिसु ।

३२ अथ खो अम्बपाली गणिका तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके

15 आरामे पणीत खादनीय भोजनीय पटियादापेत्वा भगवतो काल आरोचापेसि - “कालो, भन्ते, निद्धित भत्त” ति । अथ खो भगवा पुब्बण्हसमय निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सद्धि भिक्खुसङ्घेन येन अम्बपालिया गणिकाय निवेसन^३ तेनुपसङ्गमि उपसङ्गमित्वा पञ्जात्ते आसने निसीदि । अथ खो अम्बपाली गणिका बुद्धप्पमुख भिक्खुसङ्घ पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था

20 सन्तप्पेसि सम्पवारेंसि । अथ खो अम्बपाली गणिका भगवन्त भुत्तावि ओनीतपत्तपाणि^४ अञ्जातर नीच आसन गहेत्वा एकमन्त निसीदि । एकमन्त निसिन्ना खो अम्बपाली गणिका भगवन्त एतदवोच “इमाह, भन्ते, आराम बुद्धप्पमुखस्स भिक्खुसङ्घस्स दम्मी” ति । पटिग्गहेसि भगवा आराम । अथ खो भगवा अम्बपालि गणिक धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा

25 समुत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उट्टायासना पक्कामि । तत्र पि सुद भगवा वेसालिय विहरन्तो अम्बपालिवने एतदेव बहुल भिक्खून धम्मि कथ करोति - “इति सील, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिससो, समाधिपरिभाविता पञ्जा महप्फला होति महानिससा, पञ्जा-परिभावित चित्त सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यथिद - कामासवा, भवा-

30 सवा, अविज्जासवा” ति ।

१ अवलोकेय-रो० । २ तावतिसपरिस-रो० । ३ अधिवासित-स्या० । ४ परि वेसना-रो० । ५ ओणीतपत्तपाणि-रो० ।

B 84

R 98

३६ वेदुवगामवस्तूपगमनं

३३ अथ खो भगवा अम्बपालिवने यथाभिरन्त विहरित्वा आय-
स्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "आयामानन्द, येन वेदुवगामको' तेनुपसङ्क-
मिस्सामा" ति । "एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो
पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि येन वेदुवगामको
तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेदुवगामके विहरति । तत्र खो भगवा भिक्खू
आमन्तेसि - "एथ तुम्हे, भिक्खवे, समन्ता वेसालिं यथामित्त यथासन्दिट्ठ
यथासम्भत्त वस्स उपेथ^१ । अह पन इधेव वेदुवगामके वस्स उपगच्छामी"
ति । "एव, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पटिस्सुत्वा समन्ता वेसालिं
यथामित्त यथासन्दिट्ठ यथासम्भत्त वस्स उपगच्छिसु^२ । भगवा पन तत्थेव
वेदुवगामके वस्स उपगच्छि^३ ।

३४ अथ खो भगवतो वस्तूपगतस्स खरो आवाधो उप्पज्जि ।
वाब्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका^४ । तत्र^५ सुद भगवा सतो सम्पजानो
अधिवासेसि अविहञ्जमानो । अथ खो भगवतो एतदहोसि - "न खो मेत
पतिरूप^६ ग्वाह^७ अनामन्तेत्वा उपट्टाके अनपलोकेत्वा भिक्खुसङ्घ परिनिव्वा-
येय्यु । यन्नूनाह इम आबाध विरियेन^८ पटिप्पणामेत्वा^९ जीवितसङ्कार
अधिद्वाय विहरेय्य^{१०}" ति । अथ खो भगवा त आबाध विरियेन पटिप्पणामेत्वा
जीवितसङ्कार अधिद्वाय विहासि । अथ खो भगवतो सो आवाधो पटिप्प-
स्सम्भि । अथ खो भगवा गिलानवुद्धितो^{११} अचिरवुद्धितो गेलञ्जेना विहारा
निक्खम्म विहारपच्छायाय^{१२} पञ्जत्ते आसने निसीदि । अथ खो आयस्मा
आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा भगवन्त अभिवादेत्वा
एकमन्त निसीदि^{१३} । एकमन्त निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त
एतदवोच - "दिट्ठो मे, भन्ते, भगवतो फासु, दिट्ठ मे, भन्ते, भगवतो
खमनीय । अपि च मे, भन्ते, मधुरकजातो विय कायो, दिसा पि मे न
पक्खायन्ति, धम्मा पि म न पटिभन्ति भगवतो गेलञ्जेन । अपि च मे,
भन्ते, अहोसि काचिदेव अस्सासमत्ता - 'न ताव भगवा परिनिव्वायिस्सति
न याव भगवा भिक्खुसङ्घ आरब्भ किञ्चिदेव उदाहरती" ति ।

१ वेदुवगामको - सी०, रो० । २ उपगच्छय - स्या० । ३ उपगच्छु - रो०, उपगच्छु -
स्या० । ४ उपगच्छि - सी०, रो० । ५ मरणन्तिका - स्या० । ६ ता - सी०, रो०, म० । ७
पटिस्सु - स्या०, सी० । ८ योह - सी०, स्या०, रो० । ९ वीरियेन - म० । १० पटिपणामेत्वा -
म० । ११ गिलाना बुद्धितो - सी०, स्या०, रो० । १२ विहारपच्छायाय - स्या० ।

R 100

३५. "किं पनानन्द, भिक्खुसङ्घो मयि पच्चासीसति' ? देसितो, आनन्द, मया धम्मो अनन्तरं श्रवाहिरं करित्वा । नत्थानन्द, तथागतस्स धम्मेषु आचरियमुट्ठि । यस्स नून, आनन्द, एवमस्स - 'अहं भिक्खुसङ्घं परिहरिस्सामी ति वा ममुद्देसिको भिक्खुसङ्घो' ति वा, सो नून, आनन्द, भिक्खुसङ्घं आरब्भ किञ्चिदेव उदाहरेय्य । तथागतस्स खो, आनन्द, न एवं होति - 'अहं भिक्खुसङ्घं परिहरिस्सामी ति वा ममुद्देसिको भिक्खुसङ्घो' ति वा । सकिं, आनन्द, तथागतो भिक्खुसङ्घं आरब्भ किञ्चिदेव उदाहरिस्सति । अहं खो पनानन्द, एतरहि जिण्णो वुद्धो महल्लको अद्दगतो वयो-अनुप्पत्तो । आसीतिको मे वयो वत्तति । सेय्यथापि, आनन्द, ज्जजरसकटं वेधमिस्सकेन^१ यापेति, एवमेव खो आनन्द वेधमिस्सकेन मञ्जे तथागतस्स कायो यापेति । यस्मिं, आनन्द, समये तथागतो सब्बनिमित्तानं अमनसिकारा एकच्चानं वेदनानं निरोधा अनिमित्तं चेतोसमाधि उपसम्पज्ज विहरति, फासुतरो^२, आनन्द, तस्मिं समये तथागतस्स कायो होति । तस्मातिहानन्द, अत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्ज-सरणा । कथञ्चानन्द, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो ? इधानन्द, भिक्खु काये कायानु-पस्सी विहरति अतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । वेदनासु ... पे० ... चित्ते ... पे० ... धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । एवं खो, आनन्द, भिक्खु अत्तदीपो विहरति अत्तसरणो अनञ्जसरणो, धम्मदीपो धम्मसरणो अनञ्जसरणो । ये हि केचि, आनन्द, एतरहि वा मम^३ वा अच्चयेन अत्तदीपा विहरिस्सन्ति अत्तसरणा अनञ्जसरणा, धम्मदीपा धम्मसरणा अनञ्जसरणा, तमतगो मे ते, आनन्द, भिक्खू भविस्सन्ति ये केचि सिक्खा-कामा" ति ।

B. 89,
R. 101दुत्तियभाणवारं^४ ।

§ १०. चापालचेत्तिये आयुसङ्खारं श्रोस्सजि

३६. अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपात-पट्टिकन्तो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "गण्हाहि, आनन्द, निसीदनं ।

१. पच्चासिमति - ती०, स्या० । २. कि - ती०, रो० । ३. वेठमिस्सत्तेन - म०; वेठमिस्सत्तेन - स्या०; वेपमिस्सत्तेन - रो०; वेणमिस्सत्तेन - इति वि । ४. फायुवतो - रो० ।

५. मम - रो०, ती० । ६. दुत्तियभाणवारो - म०; दुत्तियभाणवारं निट्ठितं - रो० ।

R. 102 25

येन चापाल चेतिय' तेनुपसङ्कमिस्साम दिवा विहाराया" ति । "एव, भन्ते" ति खो आयस्सा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा^१ निसीदन आदाय भगवन्त पिट्ठितो पिट्ठितो अनुवन्धि । अथ खो भगवा येन चापाल चेतिय तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि । आयस्सा पि खो आनन्दो भगवन्त अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदि ।

३७ एकमन्त निसिन्न खो आयस्सन्त आनन्द भगवा एतदवोच - "रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चेतिय, रमणीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब^२ चेतिय, रमणीय बहुपुत्त चेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापाल चेतिय । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्खमानो कप्प वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा । तथागतस्स खो पन, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा । सो आकङ्खमानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा" ति । एव पि खो आयस्सा आनन्दो भगवता ओळारिके निमित्ते कयिरमाने ओळारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झित्तु, न भगवन्त याचि - "तिट्ठतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिट्ठतु सुगतो कप्प बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान" ति, यथा त मारेन परियुट्ठितचित्तो । दुतिय पि खो भगवा पे० त्तिय पि खो भगवा आयस्सन्त आनन्द आमन्तेसि - "रमणीया, आनन्द, वेसाली, रमणीय उदेन चेतिय, रमणीय गोतमक चेतिय, रमणीय सत्तम्ब चेतिय, रमणीय बहुपुत्त चेतिय, रमणीय सारन्दद चेतिय, रमणीय चापाल चेतिय । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्खमानो कप्प वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्खमानो, आनन्द, तथागतो कप्प वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा" ति । एव पि खो आयस्सा आनन्दो भगवता ओळारिके निमित्ते कयिरमाने ओळारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झित्तु, न भगवन्त याचि - "तिट्ठतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिट्ठतु सुगतो कप्प बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान" ति, यथा त मारेन परियुट्ठितचित्तो । अथ खो भगवा आयस्सन्त

१ पावाल चेतिय - स्या० । २ पटिस्सुगित्वा - स्या० । ३ सत्तम्बक - रो० ।

आनन्दं आमन्तेसि - "गच्छ त्वं, आनन्द, यस्स दानि कालं मञ्जसी" ति ।
 "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा उट्ठयासना
 भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा अविदूरे अञ्जतरस्मि रुक्खमूले
 निसीदि ।

- 5 ३८. अथ खो मारो पापिमा अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे
 येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अट्ठसि । एकमन्तं ठितो
 खो मारो पापिमा भगवन्तं एतदवोच - "परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा;
 परिनिव्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता
 खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - 'न तावाहं, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि,
 10 याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता
 धम्मघरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं
 आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जपेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति
 विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति,' उप्पन्नं परप्पवादं सह-
 धम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि
 15 खो पन, भन्ते, भिक्खू भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता
 धम्मघरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं
 आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जपेन्ति पट्टपेन्ति विवरन्ति
 विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्ग-
 हेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा;
 20 परिनिव्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो ।

"भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - 'न तावाहं, पापिम,
 परिनिव्वायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न साविका भविस्सन्ति वियत्ता
 विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मघरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटि-
 पन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति
 25 देसेस्सन्ति' पञ्जपेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी-
 करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटि-
 हारियं धम्मं देसेस्सन्ती' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भिक्खुनियो भगवतो
 साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मघरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना
 सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति
 30 देसेन्ति पञ्जपेन्ति पट्टपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं

परप्पवादं सहधम्ममेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो ।

“भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा — ‘न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेस्सन्ति पञ्जापेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्ममेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती’ ति । एतरहि खो पन, भन्ते, उपासका भगवतो सावका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जापेन्ति पट्टपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवाद सहधम्ममेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो ।

*“भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा — ‘न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेस्सन्ति पञ्जापेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानी करिस्सन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्ममेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ती’ ति । एतरहि खो पन, भन्ते, उपासिका भगवतो साविका वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खन्ति देसेन्ति पञ्जापेन्ति पट्टपेन्ति विवरन्ति विभजन्ति उत्तानीकरोन्ति, उप्पन्नं परप्पवादं सहधम्ममेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेन्ति । परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा. परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो !”

“भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा — ‘न तावाहं, पापिम, परिनिब्बायिस्सामि, याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इदं चैव भविस्सति फीतं

च वित्थारिकं वाहुजञ्जं पुथुभूतं, याव दवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो इदं ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्थारिकं वाहुजञ्जं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं । परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो" ति ।

एवं वुत्ते भगवा मारं पापिमन्तं एतदवोच - "अप्पोस्सुक्को त्वं, पापिम, होहि । न चिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती" ति ।

३६. अथ खो भगवा चापाले चेतिये सतो सम्पजानो आयुसह्वारं ओस्सजि । ओस्सट्ठे च भगवता^१ आयुसह्वारे महाभूमिचालो अहोसि भिसनको सलोमहंसो^२ । देवदुन्दुभियो^३ च फलिसु । अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि -

"तुलमतुलं च सम्भवं, भवसह्वारमवस्सजि^४ मुनि ।
अज्झत्तरतो समाहितो, अभिन्दि कवचमिवत्तसम्भवं^५ ति ।

§ ११. महतो भूमिचालस्स अट्ट पच्चया

४०. अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - "अच्छरियं वत भो, अब्भुतं वत भो । महा वतायं भूमिचालो, सुमहा वतायं भूमिचालो भिसनको सलोमहंसो; देवदुन्दुभियो च फलिसु । को नु खो हेतु को पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाया" ति ?

अथ खो आयस्सा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्सा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "अच्छरियं, भन्ते, अब्भुतं, भन्ते । महा वतायं, भन्ते, भूमिचालो; सुमहा वतायं, भन्ते, भूमिचालो भिसनको सलोमहंसो; देवदुन्दुभियो च फलिसु । को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाया" ति ?

४१. "अट्ट खो इमे, आनन्द, हेतू, अट्ट पच्चया महतो भूमिचालस्स पातुभावाय । कत्तमे अट्ट ? अयं, आनन्द, महापथवी^६ उदके पतिट्ठिता, उदकं

१. तिनं - सी० । २. भगवतो - रो० । ३. सोमहयो - रो०; सोमहयो - स्या० । ४. देवदुन्दुभियो - सी०; देवदुन्दुभियो - स्या० । ५. भवसह्वारमवस्सजि - सी०, रो०; भवसह्वारमवस्सजि - स्या० । ६. महापटवी - सी०, स्या०, रो० ।

वाते पतिट्ठितं, वातो आकासट्ठो । होति सो खो, आनन्द, समयो, यं महावाता वायन्ति । महावाता वायन्ता उदकं कम्पेन्ति । उदकं कम्पितं पर्यावि कम्पेति । अयं पठमो हेतु, पठमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, समणो वा होति ब्राह्मणो वा इद्धिमा चेतो-
वसिप्पत्तो, देवो वा महिद्धिको महानुभावो । तस्स परित्ता पथवीसञ्जा
भाविता होति, अप्पमाणा आपोसञ्जा । सो इमं पर्यावि कम्पेति सङ्कम्पेति
सम्पकम्पेति सम्पवेधेति । अयं दुतियो हेतु, दुतियो पच्चयो महतो भूमि-
चालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, यदा बोधिसत्तो तुसितकाया चवित्वा
सतो सम्पजानो मातुकुच्छि अोककमति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति
सम्पकम्पति सम्पवेधति । अयं ततियो हेतु, ततियो पच्चयो महतो भूमि-
चालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, यदा बोधिसत्तो सतो सम्पजानो मातुकुच्छिस्सा
निक्खमति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । अयं
चतुत्थो हेतु, चतुत्थो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं सम्मासम्बोधि अभि-
सम्बुज्जमति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । अयं
पञ्चमो हेतु, पञ्चमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तेति,
तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । अयं छट्ठो हेतु,
छट्ठो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो सतो सम्पजानो आयुसङ्कारं
ओस्सज्जति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति । अयं
सत्तमो हेतु, सत्तमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ।

“पुन च परं, आनन्द, यदा तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वानघातुया
परिनिव्वायति, तदायं पथवी कम्पति सङ्कम्पति सम्पकम्पति सम्पवेधति ।
अयं अट्ठमो हेतु, अट्ठमो पच्चयो महतो भूमिचालस्स पातुभावाय ।

इमे खो, आनन्द, अट्ठ हेतू, अट्ठ पच्चया महतो भूमिचालस्स पातु-
भावाया” ति ।

§ १२. अट्ट परिसा

४२. "अट्ट खो इमा, आनन्द, परिसा । कतमा अट्ट ? खत्तिय-
परिसा, ब्राह्मणपरिसा, गहपतिपरिसा, समणपरिसा, चातुमहाराजिकपरिसा,
B. 92 तावतिसपरिसा, मारपरिसा, ब्रह्मपरिसा । अभिजानामि खो पनाहं, आनन्द,
अनेकसतं खत्तियपरिसं उपसङ्कमिता^१ । तत्र पि मया सन्निसिन्नपुव्वं चैव
5 सल्लपितपुव्वं च साकच्छा च समापज्जितपुव्वा । तत्थ यादिसको तेसं वण्णो
होति तादिसको मय्हं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मय्हं
सरो होति । धम्मिया कयाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि ।
भासमानं च मं न जानन्ति - 'को नु खो अयं भासति देवो वा मनुस्सो वा' ति ?
धम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा अन्तरधायामि ।
10 अन्तरहितं च मं न जानन्ति - 'को नु खो अयं अन्तरहितो देवो वा मनुस्सो
वा' ति ? अभिजानामि खो पनाहं, आनन्द, अनेकसतं ब्राह्मणपरिसं...पे०...
गहपतिपरिसं...समणपरिसं...चातुमहाराजिकपरिसं...तावतिसपरिसं ... मार-
परिसं...ब्रह्मपरिसं उपसङ्कमिता । तत्र पि मया सन्निसिन्नपुव्वं चैव सल्लपित-
पुव्वं च साकच्छा च समापज्जितपुव्वा । तत्थ यादिसको तेसं वण्णो होति
15 तादिसको मय्हं वण्णो होति । यादिसको तेसं सरो होति तादिसको मय्हं
सरो होति । धम्मिया कयाय सन्दस्सेमि समादपेमि समुत्तेजेमि सम्पहंसेमि ।
भासमानं च मं न जानन्ति - 'को नु खो अयं भासति देवो वा मनुस्सो वा'
ति ? धम्मिया कयाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा
अन्तरधायामि । अन्तरहितं च मं न जानन्ति - 'को नु खो अयं अन्तरहितो
R. 110 देवो वा मनुस्सो वा' ति ? इमा खो, आनन्द, अट्ट परिसा ।

§ १३. अट्ट अभिभायतनानि

४३. "अट्ट खो इमानि, आनन्द, अभिभायतनानि । कतमानि अट्ट ?
अज्जकत्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परित्तानि गुयण्णदुव्वण्णानि ।
'तानि अभिभुम्य जानामि परमागो' ति एयंसञ्जी होति । इदं पटमं अभि-
भायतनं ।
25 "अज्जकत्तं रूपसञ्जी एको बहिद्धा रूपानि पम्मनि घणमाघानि
गुयण्णदुव्वण्णानि । 'तानि अभिभुम्य जानामि परमागो' ति एयंसञ्जी
होति । इदं दुतियं अभिभायतनं ।

१. चातुमहाराजिकपरिसा - वी०, ए०, रो० । २. सल्लपितपुव्वं - ए०, रो० ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति परिस्तानि सुवण्णदुब्बणानि । ‘तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी’ ति एवसञ्ची होति । इद ततिय अभिभायतन ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति अप्पमाणानि सुवण्णदुब्बणानि । ‘तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी’ ति एवसञ्ची 5 होति । इद चतुत्य अभिभायतन ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । सेय्यथापि नाम उम्मापुप्फ^१ नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्य वाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट नील नीलवण्ण नीलनिदस्सन नीलनिभास, एवमेव 10 अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति नीलानि नीलवण्णानि नीलनिदस्सनानि नीलनिभासानि । ‘तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी’ ति एव सञ्ची होति । इद पञ्चम अभिभायतन ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । सेय्यथापि नाम कणिकारुप्फ^२ 15 पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास, सेय्यथा वा पन त वत्य वाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट पीत पीतवण्ण पीतनिदस्सन पीतनिभास; एवमेव अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति पीतानि पीतवण्णानि पीतनिदस्सनानि पीतनिभासानि । ‘तानि अभिभुय्य जानामि 20 पस्सामी’ ति एवसञ्ची होति । इद छट्ठ अभिभायतन ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । सेय्यथापि नाम बन्धुजीवकपुप्फ लोहितक लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, 25 सेय्यथा वा पन त वत्य वाराणसेय्यक उभतोभागविमट्ट लोहितक लोहितकवण्ण लोहितकनिदस्सन लोहितकनिभास, एवमेव अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति लोहितकानि लोहितकवण्णानि लोहितकनिदस्सनानि लोहितकनिभासानि । ‘तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी’ ति एवसञ्ची होति । इद सत्तम अभिभायतन ।

“अञ्भक्त अरूपसञ्ची एको बहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि । सेय्यथापि नाम 30 ओसधितारका ओदाता ओदातवण्णा ओदातनिदस्सना ओदातनिभासा,

सेय्यथा वा पन तं वत्यं वाराणसेय्यकं उभतोभागविमट्टं ओदातं ओदातवण्णं ओदातनिदस्सनं ओदातनिभासं; एवमेव अज्भत्तं अरूपसञ्जी एको वहिद्धा रूपानि पस्सति ओदातानि ओदातवण्णानि ओदातनिदस्सनानि ओदातनिभासानि । 'तानि अभिभुय्य जानामि पस्सामी' ति एवंसञ्जी होति ।
 5 इदं अट्टमं अभिभायतनं । इमानि खो, आनन्द, अट्ट अभिभायतनानि ।

§ १४. अट्ट विमोक्खा

४४. "अट्ट खो इमे, आनन्द, विमोक्खा । कतमे अट्ट ? रूपी रूपानि पस्सति, अयं पठमो विमोक्खो । अज्भत्तं अरूपसञ्जी वहिद्धा रूपानि पस्सति, अयं दुतियो विमोक्खो । सुभन्तेव अधिमुत्तो होति, अयं ततियो विमोक्खो । सब्बसो रूपसञ्जानं समतिक्कमा पटिघसञ्जानं अत्यङ्गमा'
 10 नानससञ्जानं अमनसिकारा 'अनन्तो आकासो' ति आकासानञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं चतुत्थो विमोक्खो । सब्बसो आकासानञ्चायतनं समतिक्कम्म 'अनन्तं विञ्जाणं' ति विञ्जाणञ्चायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं पञ्चमो विमोक्खो । सब्बसो विञ्जाणञ्चायतनं समतिक्कम्म 'नत्थि किञ्ची' ति आकिञ्चञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं छट्ठो विमोक्खो ।
 15 सब्बसो आकिञ्चञ्जायतनं समतिक्कम्म नेवसञ्जानासञ्जायतनं उपसम्पज्ज विहरति, अयं सत्तमो विमोक्खो । सब्बसो नेवसञ्जानासञ्जायतनं समतिक्कम्म सञ्जावेदयितनिरोधं उपसम्पज्ज विहरति, अयं अट्टमो विमोक्खो । इमे खो, आनन्द, अट्ट विमोक्खा ।

§ १५. मारयाचनकथा

४५. "एकमिदाहं, आनन्द, समयं उरुवेलायं विहरामि नज्जा नेरञ्ज-
 20 शय तीरे अजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धो । अथ खो, आनन्द, मारो पापिमा येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो, आनन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच - 'परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो' ति । एवं वुत्ते, अहं, आनन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - 'न तावाहं, पापिम,
 25 परिनिब्बायिस्सामि याव मे भिक्खू न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानुधम्मप्पटिपत्ता सामीचिप्पटिपत्ता अनु-
 धम्मचारितो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिकिखस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्ज-
 पेस्सन्ति' पट्टेप्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति',

१. धत्यगमा - रो० । २. पञ्जापेस्सन्ति - सी०, रो० । ३. उत्तानी करिस्सन्ति - म०; उत्तानि - करिस्सन्ति - रो०; उत्तानिं करिस्सन्ति - सी० ।

उपपन्नं परम्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं' निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति ।

“ न तावाहं, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव मे भिक्खुनियो न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु-धम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जापेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उपपन्नं परम्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति ।

“ न तावाहं, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु-धम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जापेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उपपन्नं परम्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति ।

“ न तावाहं, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव मे उपासिका न साविका भविस्सन्ति वियत्ता विनीता विसारदा बहुस्सुता धम्मधरा धम्मानु-धम्मप्पटिपन्ना सामीचिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनियो, सकं आचरियकं उग्गहेत्वा आचिक्खिस्सन्ति देसेस्सन्ति पञ्जापेस्सन्ति पट्टपेस्सन्ति विवरिस्सन्ति विभजिस्सन्ति उत्तानीकरिस्सन्ति, उपपन्नं परम्पवादं सहधम्मेन सुनिग्गहितं निग्गहेत्वा सप्पाटिहारियं धम्मं देसेस्सन्ति ।

“ न तावाहं, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव मे इदं ब्रह्मचरियं न इद्धञ्चेव भविस्सति फीतं च वित्यारिकं वाहुजञ्जं पयुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति ।

४६. “इदानेव” खो, आनन्द, अज्ज चापाले चेतिये मारो पापिमा येनाहं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमन्तं ठितो खो, आनन्द, मारो पापिमा मं एतदवोच - ‘परिनिव्वातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिव्वातु सुगतो । परिनिव्वानकालो दानि, भन्ते, भगवतो । भासिता खो पनेसा, भन्ते, भगवता वाचा - न तावाहं, पापिम, परिनिव्वायिस्सामि याव मे भिक्खु न सावका भविस्सन्ति...पे०...याव मे भिक्खुनियो न साविका भविस्सन्ति...पे०...याव मे उपासका न सावका भविस्सन्ति...पे०...याव मे

१. सुनिग्गहितं - रो० । २. वित्यारितं - सो० । ३. बहुजञ्जं - स्या० । ४. इदानि केव - रो० । ५. पापाले - स्या० ।

उपासिका न साविका भविस्सन्ति...पे०...याव मे इदं ब्रह्मचरियं न' इद्धञ्चेव भविस्सति फीतं च वित्थारिकं वाहुजञ्जं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं' ति । एतरहि खो पन, भन्ते, भगवतो ब्रह्मचरियं इद्धञ्चेव फीतं च वित्थारिकं वाहुजञ्जं पुथुभूतं, याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ।
 5 परिनिब्बातु दानि, भन्ते, भगवा; परिनिब्बातु सुगतो । परिनिब्बानकालो दानि, भन्ते, भगवतो' ति ।

४७. "एवं वुत्ते, अहं, आनन्द, मारं पापिमन्तं एतदवोचं - 'अप्पो-स्सुक्को त्वं, पापिम, होहि । नचिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं^१ मासानं अन्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती' ति । इदानेव
 10 खो, आनन्द, अज्ज चापाले चेतिये तथागतेन सतेन सम्पजानेन आयुसह्कारो ओस्सट्ठो' ति ।

§ १६. आनन्दयाचनकथा

R. 115 ४८. एवं वुत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "तिट्ठतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिट्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानु-
 कम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं" ति ।

15 "अलं दानि, आनन्द । मा तथागतं याचि । अकालो दानि, आनन्द, तथागतं याचनाया" ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो...पे०...ततियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एवदवोच - "तिट्ठतु, भन्ते, भगवा कप्पं, तिट्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं" ति ।

20 "सद्दहसि, आनन्द, तथागतस्स बोधिं" ति ?

"एवं, भन्ते" ।

"अथ किं चरहि त्वं, आनन्द, तथागतं यावततियकं अभिनिप्पीळेसी'
 ति ?

25 "सम्मुखा मेतं, भन्ते, भगवतो सुतं सम्मुत्ता पटिग्गहितं - 'यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्युकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकह्णमानो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पा-
 वसेसं वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्युकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा । सो आकह्णमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेसं वा' ति ।

“सहसि त्व, आनन्दा” ति ?

“एव, भन्ते” ।

“तस्मातिहानन्द, तुह्येवेत दुक्कट’, तुह्येवेत अपरद्ध, य त्व तथागतेन एव ओळारिके निमित्ते कयिरमाने’ ओळारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झित्तु, न तथागत याचि - ‘तिट्ठतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिट्ठतु सुगतो 5 कप्प बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान’ ति । सचे त्व, आनन्द, तथागत याचेय्यासि, द्वे ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, अथ ततियक अधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तुह्येवेत दुक्कट, तुह्येवेत अपरद्ध ।

४९ “एकमिदाह, आनन्द, समय राजगहे विहरामि गिज्झकूटे 10 पव्वते । तत्रा पि खो ताह, आनन्द, आमन्तेसि - ‘रमणीय, आनन्द, राजगह, रमणीयो, आनन्द, गिज्झकूटो पव्वतो । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकह्वमानो कप्प वा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता 15 अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो’ आकह्वमानो, आनन्द, तथागतो कप्पवा तिट्ठेय्य कप्पावसेस वा’ ति । एव पि खो त्व, आनन्द, तथागतेन ओळारिके निमित्ते कयिरमाने ओळारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झित्तु, न तथागत याचि - ‘तिट्ठतु, भन्ते, भगवा कप्प, तिट्ठतु सुगतो कप्प बहुजन-हिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान’ 20 ति । सचे त्व, आनन्द, तथागत याचेय्यासि, द्वे ते वाचा तथागतो पटिक्खि-पेय्य, अथ ततियक अधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तुह्येवेत दुक्कट, तुह्येवेत अपरद्ध ।

५० “एकमिदाह, आनन्द, समय तत्थेव राजगहे विहरामि गोतम-निग्रोधे पे० तत्थेव राजगहे विहरामि चोरपपाते” तत्थेव राजगहे विहरामि 25 वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहाय तत्थेव राजगहे विहरामि इसिगिलिपस्से काळ-सिलाय तत्थेव राजगहे विहरामि सीतवने सप्पसोण्डिकपव्वभारे तत्थेव राजगहे विहरामि तपोदारामे तत्थेव राजगहे विहरामि वेळुवने कलन्दक-निवापे तत्थेव राजगहे विहरामि जीवकम्बवने तत्थेव राजगहे विहरामि मद्दकुच्छिस्मि भिगदाये । तत्रा पि खो ताह, आनन्द, आमन्तेसि - ‘रमणीय, 30 आनन्द, राजगह, रमणीयो गिज्झकूटो पव्वतो, रमणीयो गोतमनिग्रोधो,

R. 117

रमणीयो चौरपपातो, रमणीया वैभारपस्से सत्तपण्णिगुहा, रमणीया इसि-
 गिलिपस्से काळसिला, रमणीयो सीतवने सप्पसोण्डिकपब्भारो, रमणीयो
 तपोदारामो, रमणीयो वेळुवने कलन्दकनिवापो, रमणीयं जीवकम्भवन्,
 रमणीयो महकुच्छिस्मि मिगदायो । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा
 5 भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा...पे०...
 आकङ्खमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेसं वा' ति ।
 एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन ओळारिके निमित्ते कयिरमाने ओळारिके
 ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झित्तुं, न तथागतं याचि - 'तिट्ठतु भगवा
 कप्पं, तिट्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय
 10 हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति । सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि,
 द्वेव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य । तस्मा-
 तिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्कटं, तुय्हेवेतं अपरद्धं ।

५१. "एकमिदाहं, आनन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि उदेने
 चेतिये । तत्रा पि खो ताहं, आनन्द, आमन्तेसिं - 'रमणीया, आनन्द, वेसाली,
 15 रमणीयं उदेनेचेतियं' । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता
 बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकङ्ख-
 मानो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो
 इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्ठिता परिचिता सुसमा-
 रद्धा, सो आकङ्खमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेसं वा'
 20 ति । एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन ओळारिके निमित्ते कयिरमाने ओळारि-
 क्के ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झित्तुं, न तथागतं याचि - 'तिट्ठतु
 भगवा कप्पं, तिट्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय
 अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान' ति । सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचे-
 य्यासि, द्वेव ते वाचा तथागतो पटिक्खिपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य ।
 25 तस्मात्तिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्कटं, तुय्हेवेतं अपरद्धं ।

B 99,
R. 118

५२. "एकमिदाहं, आनन्द, समयं इधेव वेसालियं विहरामि गोतमके
 चेतिये...पे०...इधेव वेसालियं विहरामि सत्तम्भे चेतिये...इधेव वेसालियं
 विहरामि बहुपुत्ते चेतिये...इधेव वेसालियं विहरामि सारन्ददे चेतिये...इदानेव
 खो ताहं, आनन्द, अज्ज चापाले चेतिये आमन्तेसिं - 'रमणीया, आनन्द,
 30 वेसाली, रमणीयं उदेनं चेतियं, रमणीयं गोतमकं चेतियं, रमणीयं सत्तम्भं

चेतियं, रमणीयं बहुपुत्तं चेतियं, रमणीयं सारन्ददं चेतियं, रमणीयं चापालं चेतियं । यस्स कस्सचि, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो आकह्णमानो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेसं वा । तथागतस्स खो, आनन्द, चत्तारो इद्धिपादा भाविता बहुलीकता यानीकता वत्थुकता अनुट्टिता परिचिता सुसमारद्धा, सो 5 आकह्णमानो, आनन्द, तथागतो कप्पं वा तिट्ठेय्य कप्पावसेसं वा' ति । एवं पि खो त्वं, आनन्द, तथागतेन ओळारिके निमित्ते कयिरमाने ओळारिके ओभासे कयिरमाने नासक्खि पटिविज्झत्तुं, न तथागतं याचि - 'तिट्ठतु भगवा कप्पं, तिट्ठतु सुगतो कप्पं बहुजनहिताय बहुजनमुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । सचे त्वं, आनन्द, तथागतं याचेय्यासि, 10 द्वेव ते वाचा तथागतो पटिविखपेय्य, अथ ततियकं अधिवासेय्य । तस्मातिहानन्द, तुय्हेवेतं दुक्कटं, तुय्हेवेतं अपरद्धं ।

५३. "ननु एतं", आनन्द, मया पटिकच्चेव^१ अवखातं - सव्वेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जाथाभावो । तं कुतेत्थ, आनन्द, लब्भा ! यं तं जातं भूतं सङ्गतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुज्जी ति नेतं ठानं 15 विज्जति । यं खो पनेतं, आनन्द, तथागतेन चत्तं वन्तं मुत्तं पहीनं पटिनिस्सट्ठं, ओस्सट्ठो आयुसह्णारो । एकसेन वाचा तथागतेन भारिता - 'नचिरं तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो परिनिब्बायिस्सती' ति । तं च^२ तथागतो जीवितहेतु पुन पच्चागमिस्सती ति^३ नेतं ठानं विज्जति । आयामानन्द, येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसङ्क- 20 मिस्सामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्सा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ।

§ १७. महावने धम्मवेसना

५४. अथ खो भगवा आयस्मता आनन्देन सद्धिं येन महावनं कूटागारसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "गच्छ त्वं, आनन्द, यावतिका भिक्खू वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सव्वे उपट्टानसालायं सन्निपातेही" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्सा आनन्दो 25 भगवतो पटिस्सुत्वा^४ यावतिका भिक्खू वेसालिं उपनिस्साय विहरन्ति ते सव्वे उपट्टानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमन्तं ठितो खो आयस्सा

१. एव - स्या०, रो० । २. पटिगच्चेव - सी०, रो० । ३. त चेन - सी० । ४. पच्चागमिस्सती ति - म०, सी०, रो० । ५. पटिस्सुणित्वा - स्या० ।

आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "क्षत्रिपतितो, भन्ते, भिक्खुसङ्घो । यस्स दानि, भन्ते, भगवा कालं मञ्जती" ति ।

५५. अथ खो भगवा येनुपट्टानसाला तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्चत्ते आसने निसीदि । निसञ्ज खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "तस्मा-
 5 तिह, भिक्खवे, ये ते मया धम्मा अभिञ्जा देसिता ते वो साधुकं उगहेत्वा
 आसेवित्त्वा भावेत्त्वा बहुलीकात्त्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अट्टनियं अस्स
 चिरट्टितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय
 हिताय सुखाय देवमनुस्सानं । कतमे च ते, भिक्खवे, धम्मा मया अभिञ्जा
 देसिता ये वो साधुकं उगहेत्वा आसेवित्त्वा भावेत्त्वा बहुलीकात्त्वा,
 "R. 120 10 यथयिदं ब्रह्मचरियं अट्टनियं अस्स चिरट्टितिकं, तदस्स बहुजनहिताय
 बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं, सेय्ययिदं
 - चत्तारो सतिपट्टाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, चत्तारो ईद्धिपादा, पञ्च-
 न्द्रियानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्झङ्गा, अरियो अट्टङ्गिको मग्गो । इमे
 खो ते, भिक्खवे, धम्मा मया अभिञ्जा देसिता ये वो साधुकं उगहेत्वा
 15 आसेवित्त्वा भावेत्त्वा बहुलीकात्त्वा, यथयिदं ब्रह्मचरियं अट्टनियं अस्स
 चिरट्टितिकं, तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्याय
 हिताय सुखाय देवमनुस्सानं" ति ।

५६. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "हन्द दानि, भिक्खवे,
 आमन्तयामि वो - वयधम्मा सङ्खारा; अप्पमादेन सम्पादेथ । नचिरं
 B. 101 20 तथागतस्स परिनिव्वानं भविस्सति । इतो तिण्णं मासानं अच्चयेन तथागतो
 परिनिव्वायिस्सतो" ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्तान सुगतो अथापरं
 एतदवोच सत्या -

"परिपक्को वयो मय्हं, परित्तं मम जीवितं ।

पहाथ वो गमिस्सामि, कतं मे सरणमत्ततो ॥

25 "अप्पमत्ता सतीमन्तो, सुसीला होथ भिक्खवो ।

सुसमाहितसङ्कप्पा, सचित्तमनुरक्खथ ॥

१. मञ्जती - सी० । २. वो - रो० । ३. एय स्या० पोत्थके अयं अथिको पाठो दिस्सति -

दहरा पि च ये बुद्धा, ये वाता ये च पण्डिता ।

अद्वा येव दत्तिहा च, तब्दे मच्चुपरापना ॥

यथा पि बुम्भकारस्स, कतं मत्तिवभाजन ।

पुद्बञ्च महत्तञ्च, यञ्च पक्क यञ्च धामक ।

एत्थं भेदपरियत्तं, एत्थं मञ्जागजीवितं ॥

अथापरं एतदवोच सत्या -

“यो इमस्मिं धम्मविनये, अप्पमत्तो विहस्सति” ।

पहाय जातिसंसारं, दुक्खस्सन्तं करिस्सती” ति ।

ततियं भाणवारं ।

पच्छिमकं वेसालीदस्सनं

५७. अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय
वेसालिं पिण्डाय पाविसि । वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पच्छिमाभत्तं पिण्ड-
पातपट्टिककन्तो नागापलोकितं^१ वेसालिं अपलोकित्वा आयस्मन्तं आनन्दं
आमन्तेसि — “इदं पच्छिमकं, आनन्द, तथागतस्स वेसालिया दस्सनं भविस्सति ।
आयामानन्द, येन भण्डगामो^२ तेनुपसङ्कमिस्सामा” ति । “एवं, भन्ते” ति
खो आयस्सा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ।

५८. अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन राद्धिं येन भण्डगामो
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भण्डगामे विहरति । तत्र खो भगवा भिक्खु
आमन्तेसि — “चतुस्रं, भिक्खवे, धम्मानं अननुवोधा अप्पट्टिवेधा एवमिदं
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । कतमेसं चतुस्रं ?
अरियस्स, भिक्खवे, सीलस्स अननुवोधा अप्पट्टिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं
सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । अरियस्स, भिक्खवे, समाधिस्स
अननुवोधा अप्पट्टिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव
तुम्हाकं च । अरियाय, भिक्खवे, पञ्जाय अननुवोधा अप्पट्टिवेधा एवमिदं
दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं ममं चेव तुम्हाकं च । अरियाय, भिक्खवे,
विमुत्तिया अननुवोधा अप्पट्टिवेधा एवमिदं दीघमद्धानं सन्धावितं संसरितं
ममं चेव तुम्हाकं च । तयिदं, भिक्खवे, अरियं सीलं अनुवुद्धं पट्टिविद्धं,
अरियो समाधि अनुवुद्धो पट्टिविद्धो, अरिया पञ्जा अनुवुद्धा पट्टिविद्धा,
अरिया विमुत्ति अनुवुद्धा पट्टिविद्धा, उच्छिन्ना भवतण्हा, खीणा भवनेत्ति,
नत्थि दानि पुनब्भवो” ति । इदमवोच भगवा । इदं वत्थानं^३ सुगतो अयापरं
एतदवोच सत्या —

“सीलं समाधि पञ्जा च, विमुत्ति च अनुत्तरा ।

अनुवुद्धा इमे धम्मा, गोतमेन यस्सिन्ना ॥

“इति वुद्धो अभिञ्जाय, धम्ममवत्तासि भिक्खुनं ।

दुक्खस्सन्तकरो सत्या, चक्खुमा परिनिव्वुतो” ति ॥

१. विहरिस्सति — स्या०; विहेस्सति — सी० । २. नागापलोकितं — स्या० । ३. भण्डगामो —
म० । ४. वत्था — सी०, रो० ।

तत्रा' पि सुदं भगवा भण्डगामे विहरन्तो एतदेव बहुलं भिक्खून् धम्मि कथं करोति - "इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरि- भावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसे, समाधिपरिभावितो पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यधिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा" ति ।

§ १८. चत्तारो महापदेसा

५६. अथ खो भगवा भण्डगामे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "आयामानन्द, येन हत्थिगामो येन अम्बगामो येन जम्बुगामो येन भोगनगरं तेनुपसङ्कमिस्सामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खु- सङ्घेन सद्धि येन भोगनगरं तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भोगनगरे विहरति आनन्दे' चेतिये । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "चत्तारोमे, भिक्खवे, महापदेसे देसेस्सामि, तं सुणाय साधुकं मनसिकरोथ, भासिस्सामी" ति । "एवं, भन्ते" ति खो ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच -

६०. "इध, भिक्खवे, भिक्खु एवंवदेय्य - 'सम्मूखा मेतं, आवुसो, भगवतो सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुत्तासनं' ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्वं नप्पटिकोसितव्वं । अनभिनन्दित्वा अप्पटिकोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्ग- हेत्वा सुत्ते ओसारेतत्त्वानि' विनये सन्दस्सेतत्त्वानि । तानि चे सुत्ते ओसारिय- मानानि विनये सन्दस्सियमानानि, न चेव सुत्ते ओसरन्ति' न च विनये सन्दिस्सन्ति, निट्ठमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; इमस्स च भिक्खुनो दुग्गहितं' ति । इतिहेतं, भिक्खवे, छट्ठेय्याय । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि, सुत्ते चेव ओसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निट्ठमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं तस्स भगवतो वचनं; इमस्स च भिक्खुनो सुग्गहितं' ति । इदं, भिक्खवे, पठमं महापदेसं धारेय्याथ ।

२१. "इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य - 'अमुकास्मि नाम धावामे गन्तो विहरति सयेरो सपामोवसो । तस्स मे गच्छस्स सम्मुगा गुतं सम्मुगा पटिग्गहितं - अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुत्तासनं' ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्वं नप्पटिकोसितव्वं । अनभिनन्दित्वा

१. इध - एवा० । २. दिट्ठमसं पटिग्गहासा - टी०, रो० । ३. गच्छस्स - इति । ४. धावामे - टी०, रो० । ५. ओसारि - टी०, रो० ।

अप्पट्टिकोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्ते ओसारेतव्वानि विनये सन्दस्सेतव्वानि । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव सुत्ते ओसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निट्टमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तस्स च सच्चस्स दुग्गहितं' ति । इति हेतं, भिक्खवे, छड्ढेय्याथ । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते चेव ओसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निट्टमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तस्स च सच्चस्स सुग्गहितं' ति । इदं, भिक्खवे, दुतियं महापदेसं धारेय्याथ ।

“इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य - 'अमुकास्मि नाम आवासे सम्बहुत्ता थेरा भिक्खु विहरन्ति बहुस्सुता आगतागमा धम्मधरा विनयधरा मातिकाधरा । तेसं मे थेरानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - 'अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्वं...पे०...न च विनये सन्दिस्सन्ति, निट्टमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तेसं च थेरानं दुग्गहितं' ति । इति हेतं, भिक्खवे, छड्ढेय्याथ । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि...पे०...विनये च सन्दिस्सन्ति, निट्टमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तेसं च थेरानं सुग्गहितं' ति । इदं, भिक्खवे, ततियं महापदेसं धारेय्याथ ।

“इध पन, भिक्खवे, भिक्खु एवं वदेय्य - 'अमुकास्मि नाम आवासे एको' थेरो भिक्खु विहरति बहुस्सुतो आगतागमो धम्मधरो विनयधरो मातिकाधरो । तस्स मे थेरस्स सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं - 'अयं धम्मो अयं विनयो इदं सत्थुसासनं' ति । तस्स, भिक्खवे, भिक्खुनो भासितं नेव अभिनन्दितव्वं नप्पट्टिकोसितव्वं; अनभिनन्दित्वा अप्पट्टिकोसित्वा तानि पदव्यञ्जनानि साधुकं उग्गहेत्वा सुत्ते ओसारितव्वानि विनये सन्दस्सेतव्वानि । तानि चे सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि न चेव सुत्ते ओसरन्ति न च विनये सन्दिस्सन्ति, निट्टमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं न चेव तस्स भगवतो वचनं; तस्स च थेरस्स दुग्गहितं' ति । इति हेतं, भिक्खवे, छड्ढेय्याथ । तानि च सुत्ते ओसारियमानानि विनये सन्दस्सियमानानि सुत्ते चेव ओसरन्ति विनये च सन्दिस्सन्ति, निट्टमेत्थ गन्तव्वं - 'अद्दा, इदं तस्स भगवतो वचनं; तस्स च थेरस्स सुग्गहितं' ति । इदं, भिक्खवे, चतुत्थं महापदेसं धारेय्याथ । इमे सो, भिक्खवे, चत्वारो महापदेसे धारेय्याथा' ति ।

१. चे - स्था० । २. सुग्गहितं - स्था० । ३. स्था० पो.पके नत्थि ।

B. 105

६१. तत्र पि सुदं भगवा भोगनगरे विहरन्तो आनन्दे चेतिये एतदेव बहुलं भिक्खून् धम्मि कथं करोति - "इति सीलं, इति समाधि, इति पञ्जा, सीलपरिभावितो समाधि महप्फलो होति महानिसंसो, समाधिपरिभावितो पञ्जा महप्फला होति महानिसंसा, पञ्जापरिभावितं चित्तं सम्मदेव आसवेहि विमुच्चति, सेय्यधिदं - कामासवा, भवासवा, अविज्जासवा" ति ।

§ १९. कम्मरपुत्तचुन्दवत्थ

R. 127

६२. अथ खो भगवा भोगनगरे यथाभिरन्तं विहरित्वा आयस्मन्त आनन्दं आमन्तेसि - "आयामानन्द, येन पावा तेनुपसङ्कमिस्सामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि येन पावा तदवत्तरि । तत्र सुदं भगवा पावायं विहरति चुन्दस्स कम्मरपुत्तस्स अम्बवने । अस्सोसि खो चुन्दो कम्मरपुत्तो - "भगवा किर पावं अनुप्पत्तो, पावायं विहरति मय्हं अम्बवने" ति । अथ खो चुन्दो कम्मरपुत्तो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसित्तं खो चुन्दं कम्मरपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अथ खो चुन्दो कम्मरपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो भगवन्तं एतदवोच - "अधिवासेतु मे, भन्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धि भिक्खुसङ्घेना" ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । अथ खो चुन्दो कम्मरपुत्तो भगवतो अधिवासनं विदित्वा उट्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि ।
- अथ खो चुन्दो कम्मरपुत्तो तस्सा रत्तिया अच्चयेन सके निवेसने पणत्तिं जायदत्तेयं भोजनीयं पटियत्तं पटियत्तं सूरत्तं सूरत्तं सूरत्तं भगवतो कालं आरोचापेसि - "कालो, भन्ते, निद्रितं भत्तं" ति । अथ खो भगवा पुव्वहसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सिद्धं भिक्खुसङ्घेन येन चुन्दस्स कम्मरपुत्तस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा पञ्जात्ते आसने निसीदि । निसज्ज खो भगवा चुन्दं कम्मरपुत्तं आमन्तेसि - "यं ते, चुन्द, सूकरमद्वं, तेन मं परिविसि; यं पनञ्जं सादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुसङ्कं परिविसा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो चुन्दो कम्मरपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा यं अहोनि सूकरमद्वं पटियत्तं तेन भगवन्तं परिविसि; यं पनञ्जं सादनीयं भोजनीयं पटियत्तं तेन भिक्खुसङ्कं परिविसि । अथ खो भगवा चुन्दं कम्मर-

पुत्तं आमन्तेसि - 'यं ते, चुन्द, सूकरमद्वयं अवसिट्टुं तं गोत्रमे निगणाहि ।
 नाहं तं, चुन्द, पस्सामि सदेवके लोके समारके मत्तहाके सस्समणत्राह्यणिया
 पजाय सदेवमनुस्साय यस्सा तं परिभुत्तं सम्मा परिणामं गच्छेय्य, अञ्जत्र
 तयागतस्सा' ति । "एवं, भन्ते" ति सो चुन्दो कम्मारपुत्तो भगवतो
 पटिस्सुत्वा यं अहोसि सूकरमद्वयं अवसिट्टुं तं सोत्रमे निगणित्वा येन भगवा 5
 तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभियादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं
 निसिद्धं सो चुन्दं कम्मारपुत्तं भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा
 समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उट्ठायासना पक्कामि ।

६३. अथ सो भगवतो चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स भत्तं भुत्ताविस्म सरो
 आवाधो उप्पज्जि । लोहितपक्खन्दिका पवाब्हा वेदना वत्तन्ति मारणन्तिका' । 10
 ता सुदं भगवा सतो सम्पजानो अधिवासोसि अविहञ्जमानो । अथ सो
 भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "आयामानन्द, येन कुसिनारा
 तेनुपसङ्कमिस्सामा" ति । "एवं, भन्ते" ति सो आयस्सा आनन्दो भगवतो
 पक्कस्सोसि ।

चुन्दस्स भत्तं भुञ्जित्वा, कम्मारस्सा ति मे सुत्तं । 15
 आवाधं सम्फुसी धीरो, पवाब्हं मारणन्तिकं ॥
 भुत्तस्स च सूकरमद्वयेन, व्याधिप्पवाब्हो उदपादि सत्युनो ।
 विरेचमानो भगवा अवोच, गच्छामहं कुसिनारं नगरं ति ॥

§ २०. तयागतस्त महिद्विकता - चवकच्छिन्ना
 नदिका अनाबिता सन्दति

६४. अथ सो भगवा मग्गा ओक्कम्म येन अञ्जातरं ह्वसमूलं
 तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "इद्ध मे त्वं, 20
 आनन्द, चतुग्गुणं सङ्घाटि पञ्जापेहि । किलन्तोस्मि, आनन्द, निसीदिस्सामो"
 ति । "एवं, भन्ते" ति सो आयस्सा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा
 चतुग्गुणं सङ्घाटि पञ्जापेसि । निसीदि भगवा पञ्जात्ते आसने । निसज्ज
 सो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "इद्ध मे त्वं, आनन्द, पानीयं 25
 आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिबिस्सामो" ति । एवं वुत्ते, आयस्सा
 आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "इदानी, भन्ते, पञ्चमत्तानि नवटसतानि

१. मरणन्तिका - स्या० । २. पवाब्हं - स्या० । ३. विरिचमानो - छी०, स्या० ।
 ४. कुसिनार - स्या० । ५. पञ्जापेसि - रो० ।

R. 129

अतिक्कन्तानि' । तं चक्कच्छिन्नं उदकं परित्तं लुळितं^२ आविलं सन्दति । अयं, भन्ते, ककुधा^३ नदी अविदूरे अच्छोदका^४ सातोदका^५ सीतोदका^६ सेतोदका^७ सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती" ति ।

- 5 दुतियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "इद्ध मे त्वं, आनन्द, पानीयं आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी" ति । दुतियं पि खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "इदानि, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसत्तानि अतिक्कन्तानि । तं चक्कच्छिन्नं उदकं परित्तं लुळितं आविलं सन्दति । अयं, भन्ते, ककुधा नदी अविदूरे अच्छोदका सातोदका सीतोदका
10 सेतोदका सुप्पतित्था रमणीया । एत्थ भगवा पानीयं च पिविस्सति गत्तानि च सीतीकरिस्सती" ति ।

- ततियं पि खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "इद्ध मे त्वं, आनन्द, पानीयं आहर । पिपासितोस्मि, आनन्द, पिविस्सामी" ति । "एव, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा^८पत्तं गहेत्वा येन सा नदिका
15 तेनुपसङ्कमि । अथ खो सा नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुळिता आविला सन्दमाना, आयस्मन्ते आनन्दे उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दित्थ^९ । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - "अच्छरियं वत, भो, अब्भुतं वत भो, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! अय हि सा नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुळिता आविला, सन्दमाना, मयि उपसङ्कमन्ते
20 अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दती" ति ! ! पत्तेन पानीयं आदाय येन भगवा तेनुपसङ्कमि ; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं एतदवोच - "अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत, भन्ते, तथागतस्स महिद्धिकता महानुभावता ! इदानि सा भन्ते नदिका चक्कच्छिन्ना परित्ता लुळिता आविला सन्दमाना, मयि उपसङ्कमन्ते अच्छा विप्पसन्ना अनाविला सन्दित्थ ! ! पिवतु भगवा पानीयं, पिवतु सुगतो
25 पानीयं" ति । अथ खो भगवा पानीयं अपायि ।

§ २१. पुक्कुसमल्लपुत्तवत्थु

६५. तेन खो पन समयेन पुक्कुसो मल्लपुत्तो आळारस्स कालामस्स सावका कुसिनाराय पावं अद्धानमग्गप्पटिपत्तो होति । अइसा खो पुक्कुसो

R. 100,
R. 130

१. अतिक्कन्तानि - स्या० । २. लुळित - स्या० । ३. ककुधा - रो०; ककुप नदी - स्या० । ४. अच्छोदिवा - रो० । ५. सातोदिवा - रो० । ६. सीतोदिवा - रो० । ७. सेतवा - सी०, रो० । ८. सन्दति - स्या० ।

मल्लपुतो भगवन्त अञ्जतरस्मि रुक्खमूले निसिन्नं । दिस्वा' येन भगवा
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसोदि । एकमन्तं
निसिन्नो खो पुक्कुसो मल्लपुतो भगवन्तं एतदवोच - "अच्छरियं, भन्ते,
अब्भुतं, भन्ते ! सन्तेन वत्त, भन्ते, पव्वजिता विहारेण विहरन्ति ! भूत-
पुव्वं, भन्ते, आळारो कालामो अद्धानमग्गप्पटिपन्नो मग्गा ओक्कम्म अविदूरे 5
अञ्जतरस्मि रुक्खमूले दिवाविहारं' निसीदि । अथ खो, भन्ते, पञ्चगतानि
सकटसतानि आळारं कालामं निस्साय निस्साय अतिकक्कमिसु । अथ खो,
भन्ते, अञ्जतरो पुरिसो तस्स सकटसत्थस्स' पिड्डितो पिड्डितो आगच्छन्तो
येन आळारो कालामो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा आळारं कालामं एतद-
वोच - 'अपि, भन्ते, पञ्चमत्तानि सकटसतानि अतिकक्कन्तानि अद्दसा' ति ? 10

' न खो अहं, आवुसो, अद्दसं' ति ।

' किं पन, भन्ते, सद्दं अस्सोसी' ति ?

' न खो अहं, आवुसो, सद्दं अस्सोसि' ति ।

' किं पन, भन्ते, सुत्तो अहोसी' ति ?

' न खो अहं, आवुसो, सुत्तो अहोसिं' ति । 15

' किं पन, भन्ते, सञ्जी अहोसी' ति ?

' एवमावुसो' ति ।

' सो त्वं, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि
निस्साय निस्साय अतिकक्कन्तानि नेव अद्दस न पन सद्दं अस्सोसि; अपिसु'
ते, भन्ते, सद्द्वटि रजेण ओक्किणा' ति ? 20

' एवमावुसो' ति ।

"अथ खो, भन्ते, तस्स पुरिसस्स एतदहोसि - 'अच्छरियं वत्त भो,
अब्भुतं वत्त भो, सन्तेन वत्त भो पव्वजिता विहारेण विहरन्ति, यत्र हि नाम
सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि निस्साय निस्साय
अतिकक्कन्तानि नेव दक्खति न पन सद्दं सोस्सती' ति ! आळारे कालामे 25
उळारं पसादं पवेदेत्वा पक्कामी" ति ।

६६. "तं किं मञ्जसि, पुक्कुस, कत्तमं नु खो दुक्करतरं वा दुरभि-
सम्भवतरं वा - यो वा सञ्जी समानो जागरो पञ्चमत्तानि सकटसतानि
निस्साय निस्साय अतिकक्कन्तानि नेव पस्सेय्य न पन सद्दं सुणेय्य, यो वा
सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गळगळायन्ते विज्जुल्लतासु' 30

१. दिस्वान - स्या० । २. विवाविहारे - रो० । ३. सकटसत्त - इति पि । ४. अपि
हि - पी०, स्या०, रो० । ५. विज्जुल्लतासु - पी०, स्या०, रो० ।

निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सद् सुणेय्या” ति ?

“किञ्चिह, भन्ते, करिस्तान्ति पञ्च वा सकटसतानि छ वा सकट-
सतानि सत्त वा सकटसतानि अट्ट वा सकटसतानि नव’ वा सकटसतानि’
5 सकटसहस्स वा सकटसतसहस्स वा, अथ खो एतदेव दुक्करतर च दुरभि-
सम्भवतर च यो सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गळगळायन्ते
विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव पस्सेय्य न पन सद्
सुणेय्या” ति ।

“एकमिदाह, पुक्कुस, समय आतुमाय विहरामि भुसागारे’ । तेन
10 खो पन समयेन देवे वस्सन्ते देवे गळगळायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु
असनिया फलन्तिया अविहारे भुसागारस्स द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो
च वलिवद्दा’ । अथ खो, पुक्कुस, आतुमाय’ महाजनकायो निक्खमित्वा
येन ते द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो च वलिवद्दा तेनुपसङ्गमि । तेन खो
पनाह, पुक्कुस, समयेन भुसागारा निक्खमित्वा भुसागारद्वारे अम्भोकासे
15 चङ्गमामि । अथ खो, पुक्कुस, अञ्जतरो पुरिसो तम्हा महाजनकाया येनाह
तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा म अभिवादेत्वा एकमन्त अट्टासि । एकमन्त
ठित खो अह, पुक्कुस, त पुरिस एतदवोच — ‘किं नु खो एसो, आवुसो, महाजन-
कायो सन्निपतितो’ ति ?

‘इवानि, भन्ते, देवे वस्सन्ते देवे गळगळायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छ-
20 रन्तीसु असनिया फलन्तिया द्वे कस्सका भातरो हता चत्तारो च वलिवद्दा ।
एत्येसो महाजनकायो सन्निपतितो । त्व पन, भन्ते, वय अहोसी’ ति ?

‘इधेव खो अह, आवुसो, अहोसि’ ति ।

‘किं पन, भन्ते, अद्दसा’ ति ?

‘ न खो अह, आवुसो, अद्दस’ ति ।

25 ‘किं पन, भन्ते, सद् अस्सोसी’ ति ?

‘न खो अह, आवुसो, सद् अस्सोसि’ ति ।

‘किं पन, भन्ते, सुत्तो अहोसी’ ति ।

‘ न खो अह, आवुसो, सुत्तो अहोसि’ ति ।

‘किं पन, भन्ते, गञ्जी अहोसी’ ति ?

१-१ नव वा सक्कटागतानि दस वा सक्कटागतानि - सी० । २ भगागारे-स्या० ।

३. वलिवद्दा - सी०, रो० । ४. आनुवाय - स्या० ।

‘एवमावुसो’ ति ।

‘सो त्व, भन्ते, सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गळगळायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव अद्दस न पन सद्द अससोसी’ ति ?

‘एवमावुसो’ ति ?

“अय खो, पुक्कुस, पुरिसस्स एतदहोसि - अच्छरिय वत भो, अब्भुत वत भो, सन्तेन वत भो पव्वजिता विहारेन विहरन्ति, यन हि नाम सञ्जी समानो जागरो देवे वस्सन्ते देवे गळगळायन्ते विज्जुल्लतासु निच्छरन्तीसु असनिया फलन्तिया नेव दक्खति न पन सद्द सोस्सती” ति । मयि उळार पसाद पवेदेत्वा म अग्निवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामी” ति ।

एव बुत्ते, पुक्कुसो मल्लपुत्तो भगवन्त एतदवोच - “एसाह, भन्ते, यो मे आळारे कालामे पसादो त महावाते वा ओफुणामि^१ सीघसोताय^२ वा नदिया पवाहेमि । अभिक्कन्त, भन्ते, अभिक्कन्त, भन्ते । सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जित वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्न वा विवरेय्य, मूब्हुस्स वा मग्ग आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोत^३ धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती^४ ति, एवमेव भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्त सरण गच्छामि धम्म च भिक्खुसङ्घ च । उपासक म भगवा धारेतु अज्जतग्गे पाणुपेत सरण गत” ति ।

६७ अय खो, पुक्कुसो मल्लपुत्तो अब्जातर पुरिस आमन्तेसि - “इद्ध मे त्व, भणे, सिङ्गीवण^५ युगमट्ट^६ धारणीय आहरा” ति । “एव, भन्ते” ति खो सो पुरिसो पुक्कुसस्स मल्लपुत्तस्स पटिस्सुत्वा त सिङ्गीवण युगमट्ट धारणीय आहरि । अय खो पुक्कुसो मल्लपुत्तो त सिङ्गीवण युगमट्ट धारणीय भगवतो उपनामोसि - “इद, भन्ते, सिङ्गीवण युगमट्ट धारणीय । त मे भगवा पटिग्गहातु^७ अनुकम्प उपादाया” ति ।

“तेन हि, पुक्कुस्स, एकेन म अच्चादेहि एकेन आनन्द” ति ।

“एव, भन्ते” ति खो पुक्कुसो मल्लपुत्तो भगवतो पटिस्सुत्वा एकेन भगवन्त, अच्चादेसि^८ एकेन आयस्मन्त आनन्द^९ । अय खो भगवा पुक्कुस मल्लपुत्त धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तजेसि सम्पहसेसि ।

१ मुणिससि - स्या० । २ ओपुनामि - स्या०, ओपुनामि - सी०, रो० । ३ सिद्ध - क्षोताय - इति पि । ४ तेलपज्जोत - स्या० । ५ दक्खन्ती - रो० । ६ सिङ्गीवण - स्या०, रो० । ७ युग मट्ट - रो०, युग मट्ट - सी० । ८ पटिग्गहातु - रो०, सी० । ९ अच्चादेति - सी०, स्या०, म० ।

अथ खो पुक्कुसो मल्लपुत्तो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो सम्पहसितो उट्टायासना भगवन्त अभिवादेत्वा पदक्खिण कत्वा पक्कामि ।

111

६८ अथ खो आयस्सा आनन्दो अचिरपक्कन्ते पुक्कुसे मल्लपुत्तो
5 त सिङ्गीवण्ण युगमट्ठ धारणीय भगवतो काय उपनामेसि । त भगवतो काय
उपनामित हतच्चिक' विय' खायति । अथ खो आयस्सा आनन्दो भगवन्त
एतदवोच - "अच्छरिय, भन्ते, अब्भुत, भन्ते, याव परिसुद्धो, भन्ते,
तथागतस्स छविवण्णो परियोदातो । इद, भन्ते, सिङ्गीवण्ण युगमट्ठ धारणीय
R 134 भगवतो काय उपनामित हतच्चिक विय खायती" ति ।

10

"एवमेत, आनन्द, एवमेत, आनन्द । द्वीसु कालेसु अतिविय तथा-
गतस्स परिसुद्धो कायो होति छविवण्णो परियोदातो । कतमेसु द्वीसु ? य
च, आनन्द, रत्ति तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्झति, य च
रत्ति अनुपादिसेसाय निव्वानधातुया परिनिव्वायति - इमेसु खो आनन्द द्वीसु
कालेसु अतिविय तथागतस्स कायो परिसुद्धो होति छविवण्णो परियोदातो ।
15 अज्ज खो पनानन्द, रत्तिया पच्छिमे यामे कुसिनाराय उपवत्तने मल्लान सालवने
अन्तरेन^१ यमकसालान तथागतस्स परिनिव्वान भविस्सति । आयामानन्द,
येन ककुधा नदी तेनुपसङ्कमिस्सामा" ति ।

"एव, भन्ते" ति खो आयस्सा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि ।

सिङ्गीवण्ण युगमट्ठ, पुक्कुसो अभिहारयि ।

20

तेन अच्छादितो सत्या, हेमवण्णो^१ असोभथा ति ॥

६९ अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि येन ककुधा नदी
तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा ककुध नदि अज्जोगाहेत्वा न्हत्वा^१ पिवित्वा च
पच्चुत्तरित्वा येन अम्बवन तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त चुन्दक
आमन्तेसि - "इह^२ मे त्व, चुन्दक, चतुग्गुण सङ्घाटि पञ्जपेहि । किलन्तोस्मि,
25 चुन्दक, निपज्जिस्सामी" ति । "एव, भन्ते" ति खो आयस्सा चुन्दको भगवतो
पटिस्सुत्वा चतुग्गुण सङ्घाटि पञ्जपेसि । अथ खो भगवा दक्खिणेन पस्सेन
सीहसेय्य कप्पेसि, पादे^३ पाद अच्चाघाय, सतो सम्पजानो उट्टानसञ्ज
R 135 पनसिकरित्वा । आयस्सा पन चुन्दको तत्थेव भगवतो पुरतो निसीदि ।

१-१ वीतच्चिक विय - रो०, हतच्चिक - सी०, स्या० । २ अन्तरे - स्या० । ३ सोम
वण्णो - स्या० । ४ नहात्वा - रो० । ५ पादेन - स्या० ।

गन्त्वान् बुद्धो नदिक^१ ककुघ,
अच्छोदक सातुदक विप्पसन्न ।
ओगाहि सत्या अकिलन्तरूपो^२,
तथागतो अप्पटिमो च^३ लोके ॥

न्हत्वा च पिवित्वा चुदतारि^४ सत्या,
पुरक्खती भिक्खुगणस्स मज्झे ।
वत्ता^५ पवत्ता भगवा इध धम्ममे,
उपागमि अम्बवन महेंसि ॥

आमन्तयि चुन्दक नाम भिक्खु,
चतुग्गुण सन्थर^६ मे निपज्ज^७ ।
सो चोदितो^८ भावितत्तेन चुन्दो,
चतुग्गुण सन्थरि खिप्पमेव ।
निपज्जि सत्या अकिलन्तरूपो,
चुन्दो पि तत्थ पमुखे^९ निसीदी ति ॥

३२२ द्वे पिण्डपाता समसमफला

७० अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "सिया खो 15
पनानन्द, चुन्दस्स कम्मरपुत्तस्स कोचि विप्पटिसार उप्पादेय्य - 'तस्स ते,
आवुसो चुन्द, अलाभा, तस्स ते दुल्लद्ध, यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात
परिभुञ्जित्वा" परिनिव्वुतो' ति । चुन्दस्स, आनन्द, कम्मरपुत्तस्स एव
विप्पटिसारो पटिविनेतव्वो - 'तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुलद्ध,
यस्स ते तथागतो पच्छिम पिण्डपात परिभुञ्जित्वा परिनिव्वुतो । सम्मुखा 20
मेत, आवुसो चुन्द, भगवतो सुत सम्मुखा पटिग्गहित -

द्वेमे पिण्डपाता समसमफला समविपाका" अतिविय अञ्जेहि
पिण्डपातेहि महप्फलतरा च महानिससतरा च । कतमे द्वे ? य च पिण्डपात
परिभुञ्जित्वा तथागतो अनुत्तर सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्जति, य च पिण्ड-
पात परिभुञ्जित्वा तथागतो अनुपादिसेसाय निव्वानघातुया परिनिव्वायति - 25
इमे द्वे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अतिविय अञ्जेहि पिण्डपातेहि

१ नदिय - सी०, रो० । २ सुकिलन्तरूपो - सी०, रो० । ३ च - रो० । ४ चुन्दकेन
- सी०, चुदकानि कुत्वा - स्या० । ५ सत्या - स्या०, रो० । ६ पत्थर - रो०, सन्थरि - स्या० ।
७ निपज्जि - स्या० । ८ मोदितो - रो० । ९ सम्मुखे - सी० । १० भुञ्जित्वा - रो० ।
११. समसमविपाका - सी०, स्या०, रो० ।

महृफलतरा च महानिसंसतरा च । आयुसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन
कम्मरपुत्तेन कम्मं उपचितं, वण्णसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मरपुत्तेन
कम्मं उपचितं, सुखसंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मरपुत्तेन कम्मं उपचितं,
मससंवत्तनिकं आयस्मता चुन्देन कम्मरपुत्तेन कम्मं उपचितं, सग्गसंवत्तनिकं
5 आयस्मता चुन्देन कम्मरपुत्तेन कम्मं उपचितं, आधिपतेय्यसंवत्तनिकं
आयस्मता चुन्देन कम्मरपुत्तेन कम्मं उपचितं' ति ।

"चुन्दस्स, आनन्द, कम्मरपुत्तस्स एवं विप्पटिसारो पटिविनेतब्बो"
ति ।

अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा तायां वेलायां इमं उदानं उदानेसि—
10 "ददतो पुञ्जं पवड्ढति,
संयमतो वेरं न चीयति^१ ।
कुसलो च जहाति पापकं,
रागदोसमोहक्खया सनिब्बुतो"^२ ति ।

चतुत्य भाणवारं^३ ।

§ २३. परिनिब्बानमञ्चनिपन्नो भगवा

७१. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि — "आयामा-
15 नन्द, येन हिरञ्जवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं
मल्लानं सालवनं तेनुपसङ्कमिस्सामा" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा
आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो भगवा महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं
येन हिरञ्जवतिया नदिया पारिमं तीरं येन कुसिनारा उपवत्तनं मल्लानं
सालवनं तेनुपसङ्कमिं, उपसङ्कमित्था आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि — "इह
20 मे त्वं, आनन्द, अन्तरेण यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चकं पञ्जापेहि ।
किलमन्तोस्मि, आनन्द, निपज्जिस्सामी" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा
आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा अन्तरेण यमकसालानं उत्तरसीसकं मञ्चकं
पञ्जापेसि । अथ खो भगवा दक्खिण्णेण पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि, पादे पादं
अच्चाधाय, सतो सम्पजानो ।

25 तेन खो पन समयेण यमकसाला सट्ठफालिफुल्ला होन्ति अकाल-
पुप्फेहि । ते तथागतस्स सरीरं ओकिरन्ति अञ्जोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति

१. आधिपतेय्यसंवत्तनिकं — स्या० । २. चीयति — स्या० । ३. निब्बुतो — स्या० । ४
आळारखेदल्लभाणवारं विहितं चतुत्वं — सी०, रो०; चतुत्यो भाणवारो — म० । ५. पारिमा — रो० ।

तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि मन्दारवपुष्पानि अन्तलिक्खा पपतन्ति । तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अज्झोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि चन्दनचुष्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति । तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अज्झोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि तूरियानि अन्तलिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्वानि पि सङ्गीतानि अन्तलिक्खे वत्तन्ति तथागतस्स पूजाय ।

७२ अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "सव्वफालि-
फुल्ला खो, आनन्द, यमकसाला अकालपुप्फेहि । ते तथागतस्स सरीर
ओकिरन्ति अज्झोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि
मन्दारवपुष्पानि अन्तलिक्खा पतन्ति । तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति
अज्झोकिरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि चन्दन-
चुष्णानि अन्तलिक्खा पपतन्ति । तानि तथागतस्स सरीर ओकिरन्ति अज्झो-
किरन्ति अभिप्पकिरन्ति तथागतस्स पूजाय । दिव्वानि पि तूरियानि अन्त-
लिक्खे वज्जन्ति तथागतस्स पूजाय, दिव्वानि पि सङ्गीतानि अन्तलिक्खे वत्तन्ति
तथागतस्स पूजाय । न खो, आनन्द, एत्तावता तथागतो सक्कतो वा होति
गरुक्कतो वा मानितो वा पूजितो वा अपचितो वा । यो खो, आनन्द, भिक्खु
वा भिक्खुनी वा उपासको वा उपासिका वा धम्मानुधम्मप्पटिपन्नो विहरति
सामीच्चिप्पटिपन्नो' अनुधम्मचारी, सो तथागत सक्करोति गरु' करोति'
मानेति पूजेति अपचियति' परमाय पूजाय । तस्मात्तिहानन्द, धम्मानुधम्म-
प्पटिपन्ना विहरिस्साम सामीच्चिप्पटिपन्ना अनुधम्मचारिनो ति, एव हि वो,
आनन्द, सिक्खित्तच्च" ति ।

उपवाणत्थेर अपसारेसि

७३ तेन खो पन समयेन आयस्मा उपवाणो भगवतो पुरतो ठितो
होति भगवन्त वीजयमानो' । अथ खो भगवा आयस्मन्त उपवाण अप-
सारेसि' - "अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो अट्ठासी" ति । अथ खो आयस्मतो
आनन्दस्स एतदहोसि - "अय खो आयस्मा उपवाणो दीघरत्त भगवतो
उपट्ठाको सन्तिकवचरो समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे काले
आयस्मन्त उपवाण अपसारेति - 'अपेहि भिक्खु मा मे पुरतो अट्ठासी' ति ।
को नु खो हेतु, को पच्चयो, य भगवा आयस्मन्त उपवाण अपसारेति - 'अपेहि,
भिक्खु, मा मे पुरतो अट्ठासी' " ति ? अथ खो आयस्मा आनन्दो भगवन्त

१ सामीच्चिपटिपन्नो - स्या० । २-२ गरुक्करोति - स्या०, रो० । ३ सी०, स्या०, रो० पौत्यकेन
नहिय । ४ वीजयमानो - स्या०, रो० । ५ अपसारेति - स्या०, अपसारेसि - रो० ।

एतदवोच - "अयं, भन्ते, आयस्मा उपवाणो दीधरत्तं भगवतो उपट्टाको सन्ति कावचरो समीपचारी । अथ च पन भगवा पच्छिमे काले आयस्मन्तं उपवाणं अपसारेति - 'अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो अट्टासी'ति । को नु खो, भन्ते, हेतु, को पच्चयो, यं भगवा आयस्मन्तं उपवाणं अपसारेति -

5 'अपेहि, भिक्खु, मा मे पुरतो अट्टासी' " ति ?

"येभुय्येन, आनन्द, दससु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता तथागतं दस्सनाय । यावता, आनन्द, कुसिनारा उपवत्तनं मल्लानं सालवनं समन्ततो द्वादस योजनानि, नत्थि सो पवेसो वालग्गकोटिनितुवनमत्तो पि महेसक्खाहि देवताहि अप्फुटो । देवता, आनन्द, उज्झायन्ति - 'दूरा च वतम्ह आगता

10 तथागतं दस्सनाय । कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा । अज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परिनिब्बानं भविस्सति । अयं च महेसक्खो भिक्खु भगवतो पुरतो ठितो ओवारेन्तो । न मयं लभाम पच्छिमे काले तथागतं दस्सनाया' ति !!

७४. "कथंभूता पन, भन्ते, भगवा देवता मनसिकरोती" ति ?

15 "सन्तानन्द, देवता आकासे पथवीसञ्चिनियो^१ केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं^२ पपतन्ति^३, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - 'अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरधायिस्सती' ति ।

20 "सन्तानन्द, देवता पथवियं पथवीसञ्चिनियो केसे पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति, विवट्टन्ति - 'अतिखिप्पं भगवा परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं सुगतो परिनिब्बायिस्सति, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरधायिस्सती' ति ।

"या पन ता देवता वीतरागा ता सता सम्पजाना अधिवासेन्ति - अनिच्चा सहकारा, तं कुतेत्थ लब्भा" ति ।

चत्तारि संवेजनीयट्टानानि

25 ७५. "पुब्बे, भन्ते, दिसासु वस्सं वृत्था^४ भिक्खू आगच्छन्ति तथागतं दस्सनाय । ते मयं लभाम मनोभावनीये भिक्खू दस्सनाय, लभाम पयिरुपासनाय । भगवतो पन मयं, भन्ते, अच्चयेन न लभिस्साम मनोभावनीये भिक्खू दस्सनाय न लभिस्साम पयिरुपासनाया" ति ।

१. मनमिचरोत्तीति - स्था० । २. पट्ठी० - रया०, रो० । ३-३. दिवंगदं विव पन-
तन्ति - रया० । ४. पक्खुमा - स्था० । ५. दस्सपुट्टा - म० ।

“चत्तारिमाणि, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि
ठानानि । कतमानि चत्तारि ? इध तथागतो जातो ति, आनन्द, सद्धस्स
कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इध तथागतो अनुत्तरं सम्मामम्बोधि
अभिसम्बुद्धो ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं ।
इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स
दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं । इध तथागतो अनुपादिसेसाय निब्बानघातुया
परिनिव्वुतो ति, आनन्द, सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयं संवेजनीयं ठानं ।
इमानि सो, आनन्द, चत्तारि सद्धस्स कुलपुत्तस्स दस्सनीयानि संवेजनीयानि
ठानानि ।

“आगमिस्सन्ति सो, आनन्द, सद्धा भिवरू भिक्खुनियो उपासका
उपासिकायो — इध तथागतो जातो ति पि, इध तथागतो अनुत्तरं सम्मा-
सम्बोधिं अभिसम्बुद्धो ति पि, इध तथागतेन अनुत्तरं धम्मचक्रं पवत्तितं
ति पि, इध तथागतो अनुपादिसेसाय निब्बानघातुया परिनिव्वुतो ति पि ।
ये हि केचि, आनन्द, चैतिमचारिकं आहिण्णन्ता पसन्नचित्ता कालं करिस्सन्ति,
सव्वे ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपज्जिस्सन्ती” ति ।

आनन्दपुच्छा

७६. “कयं मयं, भन्ते, मातुगामे पटिपज्जामा” ति ?

“अदस्सनं, आनन्दा” ति ।

“दस्सने, भगवा, सति कयं पटिपज्जितव्वं” ति ?

“अनालापो, आनन्दा” ति ।

“आलपन्तेन पन, भन्ते, कयं पटिपज्जितव्वं” ति ?

“सति, आनन्द, उपट्ठापेतव्वा” ति ।

७७. “कयं मयं, भन्ते, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जामा” ति ?

“अध्यावटा तुम्हे, आनन्द, होय तथागतस्स सरीरपूजाय । इद्ध
तुम्हे, आनन्द, सारत्थे^१ पटथ अनुयुञ्जय^२; सारत्थे अप्पमत्ता आत्तापिनो
पहितत्ता विहरथ । सन्तानन्द, सत्तिपपण्डिता पि ब्राह्मणपण्डिता पि गहपति-
पण्डिता पि तथागते अभिप्पसन्ना । ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती” ति ।

७८. “कयं पन, भन्ते, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्वं” ति ?

“यथा सो, आनन्द, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं
तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्वं” ति ।

“कथं पन, भन्ते, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती” ति ?

“रञ्जो, आनन्द, चक्कवत्तिस्स सरीर अहतेन वत्थेन वेठेन्ति, अहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेठेन्ति, एतेनुपायेन पञ्चहि युगसतेहि रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीर^१ वेठेत्वा आयासाय तेलदोणिया पक्खिपित्था अञ्जिस्सा आयासाय दोणिया पटिकुज्जित्वा^२ सब्बगन्धान चित्तक करित्वा रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीर ज्ञापेन्ति । चातुमहापथे^३ रञ्जो चक्कवत्तिस्स थूप करोन्ति । एव खो, आनन्द, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति । यथा खो, आनन्द, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एव तथागतस्स सरीरे पटिपज्जि-
 10 तब्ब । चातुमहापथे तथागतस्स थूपो कातब्बो । तत्थ ये माल वा मन्ध वा चुण्णक^४ वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्त वा पसादेस्सन्ति तेस त भविस्सति दीघरत्त हिताय सुखाय ।

थूपारहपुग्गला

७६ “चत्तारोमे, आनन्द, थूपारहो । कतमे चत्तारो ? तथागतो अरह सम्मासम्बुद्धो थूपारहो, पञ्चेकसम्बुद्धो थूपारहो, तथागतस्स सावको
 15 थूपारहो, राजा चक्कवत्ती^५ थूपारहो ति ।

“किं चानन्द, अत्यवस पटिच्च तथागतो अरह सम्मासम्बुद्धो थूपारहो ? अयं तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स थूपो ति, आनन्द, बहुजना^६ चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्ग लोक उपपज्जन्ति । इदं खो, आनन्द, अत्यवस पटिच्च तथागतो
 20 अरह सम्मासम्बुद्धो थूपारहो ।

“किं चानन्द, अत्यवस पटिच्च पञ्चेकसम्बुद्धो थूपारहो ? अयं तस्स भगवतो^७ पञ्चेकसम्बुद्धस्स थूपो ति, आनन्द, बहुजना चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्ग लोक उपपज्जन्ति । इदं खो, आनन्द, अत्यवस पटिच्च पञ्चेकसम्बुद्धो थूपारहो ।

“किं चानन्द, अत्यवस पटिच्च तथागतस्स सावको थूपारहो ? अयं तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स सावकस्स थूपो ति, आनन्द, बहुजना चित्त पसादेन्ति । ते तत्थ चित्त पसादेत्वा कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्ग लोक उपपज्जन्ति । इदं खो, आनन्द, अत्यवस पटिच्च तथागतस्स सावको थूपारहो ।

१ सरीरे-स्या० । २ पटिकुज्जित्वा - रो० । ३ चातुमहापथे-सी०, स्या०, रो० ।

४ वण्णक - सी०, रो० । ५ चक्कवत्ति - स्या० । ६ बहु जना - स्या० । ७ स्या०, सी० पोत्थवेसु नत्थि ।

“किं चानन्द, अत्यवसं पटिच्च राजा चक्कवत्ती थूपारहो ? अयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्जो थूपो ति, आनन्द, बहुजना चित्तं पसादेन्ति । ते तत्थ चित्तं पसादेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपज्जन्ति । इदं खो, आनन्द, अत्यवसं पटिच्च राजा चक्कवत्ती थूपारहो । इमे खो, आनन्द चत्तारो थूपारहा” ति ।

आनन्दे अच्छरियधम्मा

८०. अथ खो आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आलम्बित्वा रोदमानो अट्ठासि — “अहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिब्बानं भविस्सति यो मम अनुकम्पको” ति । अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि — “कहं नु खो, भिक्खवे, आनन्दो” ति ?

“एसो, भन्ते, आयस्मा आनन्दो विहारं पविसित्वा कपिसीसं आलम्बित्वा रोदमानो ठितो — ‘अहं च वतम्हि सेखो सकरणीयो, सत्थु च मे परिनिब्बानं भविस्सति यो मम अनुकम्पको’” ति । अथ खो भगवा अञ्जतरं भिक्खुं आमन्तेसि — “एहि त्वं, भिक्खु, मम वचनेन आनन्दं आमन्तेहि — ‘सत्था तं, आवुसो आनन्द, आमन्तेती’” ति । “एवं, भन्ते” ति खो सो भिक्खु भगवतो पटिस्सुत्वा येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच — “सत्था तं, आवुसो आनन्द, आमन्तेती” ति । “एवमावुसो” ति खो आयस्मा आनन्दो तस्स भिक्खुनो पटिस्सुत्वा येन भगवा तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो आयस्मन्तं आनन्दं भगवा एतदवोच — “अलं, आनन्द, मा सोचि, मा परिदेवि । ननु एतं, आनन्द, भया पटिकच्चेव’ अक्खातं —;सब्बहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो; तं कुतेत्थ, आनन्द, लब्भा ! यं तं जातं भूतं सङ्गतं पलोक-धम्मं तं वत तथागतस्सा पि सरीरं मा पलुज्जी ति नेतं ठानं विज्जति । दीघरत्तं खो ते, आनन्द, तथागतो पच्चुपट्ठितो मेत्तेन कायकम्मेन हितेन सुखेन अद्वयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन वचीकम्मेन हितेन सुखेन अद्वयेन अप्पमाणेन, मेत्तेन मनोकम्मेन हितेन सुखेन अद्वयेन अप्पमाणेन । कत्तपुञ्जोसि त्वं, आनन्द, पधानमनुयुञ्ज, खिप्पं होहिसि अनासवो” ति ।

८१. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि — “ये पि ते, भिक्खवे, अहेसुं अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतणरमायेव’

उपट्टाका अहेसुं, सेय्यथापि मय्हं आनन्दो । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति
 अनागतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, तेषं पि भगवन्तानं एतप्परमायेव
 उपट्टाका भविस्सन्ति, सेय्यथा पि मय्हं आनन्दो । पण्डितो, भिक्खवे, आनन्दो;
 मेघावी, भिक्खवे, आनन्दो । जानाति अयं कालो तथागतं दस्स-
 5 नाय उपसङ्कमितुं भिक्खूनं, अयं कालो भिक्खुनीनं, अयं कालो उपासकानं,
 R. 145 अयं कालो उपासिकानं, अयं कालो रञ्जो राजमहामत्तानं तित्थियानं
 तित्थियसावकानं ति ।

८२. “चत्तारोमे, भिक्खवे, अच्छरिया अब्भुता’ धम्मा’ आनन्दे ।
 कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति,
 B 120 10 दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति, भासितेन पि
 सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा होति, अथ खो
 आनन्दो तुण्ही होति । सचे, भिक्खवे, भिक्खुनीपरिसा आनन्दं दस्सनाय
 उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं भासति,
 भासितेन पि सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुनीपरिसा
 15 होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । सचे, भिक्खवे, उपासकपरिसा आनन्दं
 दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्मं
 भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व, भिक्खवे, उपासक-
 परिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । सचे, भिक्खवे, उपसिका-
 परिसा आनन्दं दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र
 20 चे, आनन्दो, धम्मं भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व,
 भिक्खवे, उपासिकापरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । इमे खो,
 भिक्खवे, चत्तारो अच्छरिया अब्भुता धम्मा आनन्दे ।

“चत्तारोमे भिक्खवे, अच्छरिया अब्भुता धम्मा रञ्जे चक्क-
 वत्तिमिह । कतमे चत्तारो ? सचे, भिक्खवे, खत्तियपरिसा राजानं चक्क-
 25 वत्ति दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे राजा
 चक्कवत्ती भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व, भिक्खवे,
 खत्तियपरिसा होति, अथ खो राजा चक्कवत्ती तुण्ही होति । सचे भिक्खवे
 ब्राह्मणपरिसा...पे०...गहपतिपरिसा...पे०...समणपरिसा राजानं चक्कवत्ति
 दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे राजा चक्क-
 30 वत्ती, भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अत्तित्ता व, भिक्खवे,

समणपरिसा होति, अथ खो राजा चक्कवत्ती तुण्ही होति । एवमेव खो, भिक्खवे, चत्तारोमे अञ्छरिया अब्भुता धम्मा आनन्दे । सचे, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा आनन्द दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्म भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अतित्ता व, भिक्खवे, भिक्खुपरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । सचे भिक्खुनी- 5
परिसा पे० उपासकपरिसा पे० उपासिकापरिसा आनन्द दस्सनाय उपसङ्कमति, दस्सनेन सा अत्तमना होति । तत्र चे आनन्दो धम्म भासति, भासितेन पि सा अत्तमना होति । अतित्ता व, भिक्खवे, उपासिकापरिसा होति, अथ खो आनन्दो तुण्ही होति । इमे खो, भिक्खवे, चत्तारो अञ्छरिया अब्भुता धम्मा आनन्दे” ति । 10

महासुदस्सनकथा

८३ एव वुत्ते, आयस्मा आनन्दो भगवन्त एतदवोच — “मा, भन्ते, भगवा इमस्मि खुट्ठकनगरके^१ उज्जलनगरके साखानगरके परिनिव्वायि^२ । सन्ति, भन्ते, अञ्जानि महानगरानि, सेय्यथिद — चम्पा राजगृह सावत्थी^३ पाकेत कोसम्बी वाराणसी, एत्थ भगवा परिनिव्वायतु । एत्थ बहू खत्तिय- 15
महासाला ब्राह्मणमहासाला गृहपतिमहासाला तथागते अभिप्पसन्ना । ते तथागतस्स सरीरपूज करिस्सन्ती” ति ।

“माहेव, आनन्द, अवच, माहेव, आनन्द, अवच — ‘खुट्ठकनगरक उज्जलनगरक साखानगरक’ ति । भूतपुव्व, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नाम अहोसि चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा चातुरन्तो विजितावी जनप्पदत्थावरि- 20
यप्पत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स अय कुसि- नारा कुसावती नाम राजधानी अहोसि पुरत्थिमेन च पच्छिमेन च द्वादसयोज- नानि आयामेन, उत्तरेन च दक्खिणेन च सत्तयोजनानि वित्थारेन । कुसावती, आनन्द, राजधानी इद्धा चेव अहोसि फीता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्षा च । सेय्यथापि, आनन्द, देवान आल्लकमन्दा^४ नाम राजधानी 25
इद्धा चेव होति फीता च बहुजना च आकिण्णयक्खा च सुभिक्षा च, एवमेव खो, आनन्द, कुसावतीः राजधानी इद्धा चेव अहोसि फीता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिक्षा च । कुसावती, आनन्द, राजधानी दसहि सद्देहि अविचित्ता अहोसि दिवा चेव रत्ति च, सेय्यथिद — हत्थिसद्देन अस्स-

१ कुट्टनगरके - सी०, रो० । २ परिनिव्वायतु - रो० । ३ सावत्थि - रो०

४ आलकमन्दा - त्या० ।

सद्देन रयसद्देन भेरिसद्देन मुदिङ्गसद्देन वीणासद्देन गीतसद्देन सङ्घसद्देन सम्मसद्देन पाणिताळसद्देन अस्नाथ पिवथ खादथा ति दसमेन सद्देन ।

“गच्छ त्व, आनन्द । कुसिनार पविसित्वा कोसिनारकान मल्लान आरोचेहि — ‘अज्ज खो, वासेट्ठा’, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स परि-
 5 निव्वान भविस्सति । अभिक्कमथ, वासेट्ठा, अभिक्कमथ, वासेट्ठा । मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ — ‘अम्हाक च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स परिनिव्वान अहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिमे काले तथागत दस्सनाया ’ ति । “एव, भन्ते” ति खो आयस्सा आनन्दो भगवतो पटिस्सुत्वा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय अत्तदुतियो^१ कुसिनार^२ पाविसि ।

मल्लान वन्दना

- 10 ८४ तेन खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्थागारे^३ सत्ति-
 पतिता होन्ति केनचिदेव करणीयेन । अथ खो आयस्सा आनन्दो येन कोसि-
 नारकान मल्लान सन्थागार तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा कोसिनारकान
 मल्लान आरोचेसि — “अज्ज खो, वासेट्ठा, रत्तिया पच्छिमे यामे तथागतस्स
 परिनिव्वान भविस्सति । अभिक्कमथ, वासेट्ठा, अभिक्कमथ, वासेट्ठा । मा
 15 पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ — ‘अम्हाक च नो गामक्खेत्ते तथागतस्स परिनिव्वान अहोसि, न मय लभिम्हा पच्छिमे काले तथागत^४ दस्सनाया’ ”
 ति । इदमायस्मतो आनन्दस्स सुत्वा मल्ला च मल्लपुत्ता च मल्लसुणिसा
 च मल्लपजापतियो च अघाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्पेक्खे केसे
 पकिरिय कन्दन्ति, बाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपात पपत्तन्ति, आवट्टन्ति
 20 विवट्टन्ति — ‘अत्तिखिप्प भगवा परिनिव्वायिस्सति, अत्तिखिप्प सुगतो परि-
 निव्वायिस्सति, अत्तिखिप्प चक्खु^५ लोके अन्तरथायिस्सती’ ति । अथ खो
 मल्ला च मल्लपुत्ता च मल्लसुणिसा च मल्लपजापतियो च अघाविनो
 दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता येन उपवत्तन मल्लान सालवन येनायस्सा आनन्दो
 तेनुपसङ्गमिसु । अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि — “सचे खो अह
 25 कोसिनारके मल्ले एकमेक भगवन्त वन्दापेस्सामि, आवन्दितो^६ भगवा
 कोसिनारकेहि मल्लेहि भविस्सति अयाय रत्ति विभायिस्सति । यन्नूनाह
 कोसिनारके मल्ले कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्त वन्दा-
 पेय्य — ‘इत्थन्नामो, भन्ते, मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो भगवतो

१ यासिट्ठा — स्या० । २ अदुतियो — स्या० । ३ कुसिनाराय — स्या०, रो० । ४ तपागारे
 — स्या० । ५ तथागतस्स — सी० । ६ चक्खुमा — सी०, स्या० । ७ चन्दितो व — सी० ।

पादे सिरसा वन्दती' ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो कोसिनारके मल्ले कुलपरिवत्तसो कुलपरिवत्तसो ठपेत्वा भगवन्त वन्दापेसि - 'इत्थन्नामो, भन्ते, मल्लो सपुत्तो सभरियो सपरिसो सामच्चो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो एतेन उपायेन षठ्ठमेनेव यामेन कोसिनारके मल्ले भगवन्त वन्दापेसि ।

5

सुभट्टपरिव्वाजकवत्थु

८५ तेन खो पन समयेन सुभट्टो नाम परिव्वाजको कुसिनाराय ँट्ठिवसति । अस्सोसि खो सुभट्टो परिव्वाजको - "अज्ज' किर' रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वान भविस्सती" ति । अथ खो सुभट्टस्स परिव्वाजकस्स एतदहोसि - "सुत खो पन मेत परिव्वाजकान वुड्ढान महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - 'कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । अज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वान भविस्सति । अत्थि च मे अय कङ्खाधम्मो उप्पन्नो - 'एव पसन्नो अह समणे गोतमे । पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसेतु यथाह इम कङ्खाधम्म पजहेय्य' ति । अथ खो सुभट्टो परिव्वाजको येन उपवत्तन मल्लान सालवन येनायस्मा आनन्दो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा आयस्मन्त आनन्द एतदवोच - "सुत मेत, भो आनन्द, परिव्वाजकान वुड्ढान महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - 'कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । अज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वान भविस्सति । अत्थि च मे अय कङ्खाधम्मो उप्पन्नो - 'एव पसन्नो अह समणे गोतमे, पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसेतु यथाह इम कङ्खाधम्म पजहेय्य' ति । साधाह, भो आनन्द, लभेय्य समण गोतम दस्सनाया" ति । एव वुत्ते, आयस्मा आनन्दो सुभट्ट परिव्वाजक एतदवोच - "अल, आवुसो सुभट्ट, मा तथागत विहेठेसि । किलन्तो भगवा" ति । दुतिय पि खो सुभट्टो परिव्वाजको पे० ततिय पि खो सुभट्टो परिव्वाजको आयस्मन्त आनन्द एतदवोच - "सुत मेत, भो आनन्द, परिव्वाजकान वुड्ढान महल्लकान आचरियपाचरियकान भासमानान - 'कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा' ति । अज्जेव रत्तिया पच्छिमे यामे समणस्स गोतमस्स परिनिव्वान भविस्सति । अत्थि च मे अय कङ्खाधम्मो उप्पन्नो -

10

15

20

25

B.
R

एव पसन्नो अह समणे गोतमे, पहोति मे समणो गोतमो तथा धम्म देसेतु यथाह इम कङ्खाधम्म पजहेय्य' ति । माधाह, भो आनन्द, लभेय्य समण गोतम दस्सनाया' ति । ततिय पि खो आयस्मा आनन्दो सुभद् परिव्वाजक एतदवोच - "अल, आवुसो सुभद्, मा तथागत विहेठेस्सि । किलन्तो भगवा"

5 ति ।

८६ अस्सोसि खो भगवा आयस्मतो आनन्दस्स सुभद्देन परिव्वाजकेन सद्धि इम कथासल्लाप । अथ खो भगवा आयस्मन्त आनन्द आमन्तेसि - "अल, आनन्द, मा सुभद् वारेसि । लभत, आनन्द, सुभद्दो तथागत दस्सनाय । य किञ्चि म सुभद्दो पुच्छिस्सति सब्ब त अञ्जापेक्खो व पुच्छिस्सति, 10 नो विहेसापेक्खो । य चस्साह पुट्ठो व्याकरिस्सामि, त खिप्पमेव आजानिस्सती" ति । अथ खो आयस्मा आनन्दो सुभद् परिव्वाजक एतदवोच - "गच्छावुसो सुभद्, करोति ते भगवा ओकास" ति । अथ खो सुभद्दो परिव्वाजको येन भगवा तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा भगवता सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय' वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । 15 एकमन्त निसिन्नो खो सुभद्दो परिव्वाजको भगवन्त एतदवोच - "येने, भो गोतम, समणब्राह्मणा सद्धिनो गणिनो गणाचरिया ज्ञाता यस्सिन्नो तित्यकरा साधुसम्मता बहुजनस्स, सेय्यथिद - पूरणो कस्सपो, मक्खलि गोसालो, अजितो केसकम्बलो^१, पकुधो कच्चायनो, सञ्जयो वेलट्टपुत्तो, निगण्ठो नाटपुत्तो^२, सब्बेते सकाय पटिञ्जाय अग्गिञ्जिसु, सब्बेव न अग्गिञ्जिसु, 20 उदाहु एकच्चे अग्गिञ्जिसु एकच्चे न अग्गिञ्जिसू" ति ?

"अल, सुभद्, तिट्ठेते - सब्बेते सकाय पटिञ्जाय अग्गिञ्जिसु, सब्बेव न अग्गिञ्जिसु, उदाहु एकच्चे अग्गिञ्जिसु एकच्चे न अग्गिञ्जिसू ति । धम्म ते, सुभद्, देसेस्सामि, त सुणाहि, साधुक मनसिकरोहि, भासिस्सामी" ति ।

25 "एव, भन्ते" ति खो सुभद्दो परिव्वाजको भगवतो पच्चस्सोसि । भगवा एतदवोच -

८७ "यस्मि खो, सुभद्, धम्मविनये अरियो अट्टङ्गिनो मग्गो न उपलब्धमति, समणो पि तत्थ न उपलब्धमति । द्रुतियो पि तत्थ समणो न उपलब्धमति । ततियो पि तत्थ समणो न उपलब्धमति । नतुत्थो पि तत्थ समणो न उपलब्धमति । यस्मि च खो, सुभद्, धम्मविनये अरियो अट्टङ्गिनो मग्गो 30

१ छागणीय - स्या०, रो० । २ वेगम्बली - रो० । ३ भापुत्तो - रो० ।

उपलब्धति, समणो पि तत्थ उपलब्धति । दुतियो पि तत्थ समणो उपलब्धति । ततियो पि तत्थ समणो उपलब्धति । चतुत्यो पि तत्थ समणो उपलब्धति । इमस्मि खो, सुभद्, धम्मविनये अरियो अट्टङ्गिको मग्गो उपलब्धति । इधेव, सुभद्, समणो, इध दुतियो समणो, इध ततियो समणो, इध चतुत्यो समणो । सुञ्जा परप्पवादा समणेभि अञ्जेहि' । इमे च^१, सुभद्, भिक्खू सम्मा 5 विहरेय्यु, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा" ति ।

एकूनतिसो वयसा सुभद्,
यं पव्वजि किकुसलानुएसी ।
वस्सानि पञ्जास समाधिकानि,
यतो अहं पव्वजितो सुभद् ।
जायस्स धम्मस्स पदेसवत्ती^३,
इतो वहिद्धा समणो पि नत्थि ॥

"दुतियो पि समणो नत्थि । ततियो पि समणो नत्थि । चतुत्यो पि समणो नत्थि । सुञ्जा परप्पवादा समणेभि अञ्जेहि । इमे च, सुभद्, भिक्खू सम्मा विहरेय्यु, असुञ्जो लोको अरहन्तेहि अस्सा" ति । 15

८८ एव वुत्ते, सुभद्दो परिव्वाजको भगवन्त एतदवोच — "अभिवकन्तं, भन्ते, अभिवकन्त, भन्ते ! सेय्यथापि, भन्ते, निक्कुज्जितं वा उक्कुज्जेय्य, पटिच्छन्नं वा विवरेय्य, मूब्हुस्स वा मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती ति; एवमेवं भगवता अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाह, भन्ते, भगवन्तं सरणं गच्छामि 20 धम्मं च भिक्खूसङ्घं च । लभेय्याहं, भन्ते, भगवतो सन्तिके पव्वज्जं लभेय्यं उपसम्पद" ति ।

"यो खो, सुभद्, अञ्जतिथियपुव्वां इमस्मि धम्मविनय आकह्वति पव्वज्जं आकह्वति उपसम्पदं, सो चत्तारो मासे परिवसति । चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पव्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय । अपि च मेत्थ पुग्गलवेमत्तता विदिता" ति । 25

"सच्चे, भन्ते, अञ्जतिथियपुव्वा इमस्मि धम्मविनये आकह्वन्ता पव्वज्जं आकह्वन्ता उपसम्पदं चत्तारो मासे परिवसन्ति, चतुन्नं मासानं अच्चयेन आरद्धचित्ता भिक्खू पव्वाजेन्ति उपसम्पादेन्ति भिक्खुभावाय; अहं चत्तारि वस्सानि परिवसिस्सामि, चतुन्नं वस्सानं अच्चयेन आरद्धचित्ता 30 भिक्खू पव्वाजेन्तु उपसम्पादेन्तु भिक्खुभावाया" ति ।

अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि - "तेनहानन्द, सुभद् पव्वाजेही" ति । "एवं, भन्ते" ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । अथ खो सुभद्दो परिव्वाजको आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोच - "लाभा वो, आवुसो आनन्द; सुलद्धं वो, आवुसो आनन्द, ये एत्थ सत्थु" सम्मुखा अन्तेवासिकाभिसेकेन अभिसित्ता" ति । अलत्थ खो सुभद्दो परिव्वाजको भगवतो सन्तिके पव्वज्जं अलत्थ उपसम्पदं । अचिरूपसम्पन्नो खो पनायस्मा सुभद्दो एको वूपकट्ठो अप्पमत्तो आतापी पहितत्तो विहरन्तो नचिरस्सेव - यस्सत्थाय कुलपुत्ता सम्मदेव अगारस्मा अनगारियं पव्वजन्ति, तदनुत्तरं - ब्रह्मचरियपरियोसानं दिट्ठेव धम्मो सयं अभिञ्जा सच्छिकत्वा उपसम्पज्ज विहासि । "खीणा जाति, वुसितं ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्थत्ताया" ति अब्भञ्जासि । अञ्जतरो खो पनायस्मा सुभद्दो अरहतं अहोसि । सो भगवतो पच्छिमो सक्खिसावको अहोसी ति ।

पञ्चम भाणवारं .

तथागतपच्छिमवाचा

८६. अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - "सिया खो पनानन्द, तुम्हाकं एवमस्स - 'अतीतसत्थुक पावचन । नत्थि नो सत्था' ति । न खो पनेतं, आनन्द, एवं दट्ठव्वं । यो वो, आनन्द, मया धम्मो च विनयो च देसितो पञ्जात्तो, सो वो ममच्चयेन सत्था । यथा खो पनानन्द, एतरहि भिक्खु अञ्जमञ्ज आवुसोवादेन समुदाचरन्ति, न खो ममच्चयेन एवं समुदाचरितव्वं । थेरतरेन, आनन्द, भिक्खुना नवकतरो भिक्खु नामेन वा गोत्तेन वा आवुसोवादेन वा समुदाचरितव्वो । नवकतरेन भिक्खुना थेरतरो भिक्खु 'भन्ते' ति वा 'आयस्मा' ति वा समुदाचरितव्वो । आकह्वमानो, आनन्द, सङ्घो ममच्चयेन खुद्धानुखुद्धानि सिक्खापदानि समूहनतु । छन्नस्स, आनन्द, भिक्खुनो ममच्चयेन ब्रह्मदण्डो दातव्वो" ति ।

"कतमो पन, भन्ते, ब्रह्मदण्डो" ति ?

"छन्नो, आनन्द, भिक्खु यं इच्छेय्य तं वदेय्य, सो भिक्खूहि नेव वत्तव्वो न श्रोवदित्तव्वो न अनुसासित्तव्वो" ति ।

९०. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - "सिया खो पन, भिक्खवे, एकभिक्खुस्सा^१ पि कह्वा वा विमति वा वुद्धे वा धम्मो वा सङ्घे वा मग्गे वा पटिपदाय वा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिनो अहुवत्थ -

१. पव्वाजेया - सी०, स्या०, रो० । २. सत्थारा - स्या० । ३. प्रचिरूपसम्पन्नो - स्या० ।

४. वे - स्या० । ५. एकभिक्खुस्सपि - स्या०, रो० ।

‘सम्मुखीभूतो नो सत्या अहोसि, न मयं सक्खिमहा’ भगवन्तं सम्मुत्ता पटि-
 पुच्छित्तु” ति । एवं वुत्ते, ते भिक्खू तुण्ही अहेसुं । दुतियं पि खो भगवा
 ...पे०...ततियं पि खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - “सिया खो पन, भिक्खवे,
 एकभिक्खुस्सा पि कद्धा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सङ्घे वा मग्गे वा
 पटिपदाय वा, पुच्छथ, भिक्खवे, मा पच्छा विप्पटिसारिणो अहुवत्थ - 5
 ‘सम्मुखीभूतो नो सत्या अहोसि, न मयं सक्खिमहा भगवन्तं सम्मुत्ता
 पटिपुच्छित्तु” ति । ततियं पि खो ते भिक्खू तुण्ही अहेसुं । अथ खो भगवा
 भिक्खू आमन्तेसि - “सियाखो पन, भिक्खवे, सत्युगारवेण पि न पुच्छेय्याय ।
 सहायको पि, भिक्खवे, सहायकस्स आरोचेत्तु” ति । एवं वुत्ते, ते भिक्खू
 तुण्ही अहेसुं । 10

अथ खो आयस्सा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - “अच्छरियं, भन्ते,
 अब्भुतं, भन्ते ! एवं पसन्नो अहं, भन्ते, इमस्मि भिक्खुसङ्घे, नत्थि एक-
 भिक्खुस्सा पि कद्धा वा विमति वा बुद्धे वा धम्मे वा सङ्घे वा मग्गे वा पटि-
 पदाय वा” ति ।

“पसादा खो त्वं, आनन्द, वदेसि । जाणमेव हेत्थ, आनन्द, तथा- 15
 गतस्स । नत्थि इमस्मि भिक्खुसङ्घे एकभिक्खुस्सा पि कद्धा वा विमति
 वा बुद्धे वा धम्मे वा सङ्घे वा मग्गे वा पटिपदाय वा । इमेसं हि, आनन्द,
 पञ्चन्न भिक्खुसतान यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो अविनिपातधम्मो
 नियतो सम्बोधिपरायणो” ति ।

६१. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - “हन्द दानि, भिक्खवे, 20
 आमन्तयामि वो - वयधम्मा सङ्घारा, अप्पमादेन सम्पादेथा” ति । अथ
 तथागतस्स पच्छिमा वाचा ।

परिनिब्बुत्तकथा

६२. अथ खो भगवा पठमं ज्ञानं समापज्जि । पठमज्ज्ञाना बुद्ध्हित्वा
 दुतिय ज्ञानं समापज्जि । दुतियज्ज्ञाना बुद्ध्हित्वा ततियं ज्ञानं समापज्जि ।
 ततियज्ज्ञाना बुद्ध्हित्वा चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ञाना बुद्ध्हित्वा 25
 आकासानञ्चायतनं समापज्जि । आकासानञ्चायतनसमापत्तिया बुद्ध्हित्वा
 विञ्जाणञ्चायतनं समापज्जि । विञ्जाणञ्चायतनसमापत्तिया बुद्ध्हित्वा
 आकिञ्चञ्चायतनं समापज्जि । आकिञ्चञ्चायतनसमापत्तिया बुद्ध-
 हित्वा नेवसञ्जानासञ्जायतनं समापज्जि । नेवसञ्जानासञ्जायतन-
 समापत्तिया बुद्ध्हित्वा सञ्जावेदयितनिरोधं समापज्जि । 30

अथ खो आयस्मा आनन्दो आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदवोच - "परि-
निव्वुतो, भन्ते अनुरुद्ध, भगवा" ति ।

"नावुसो आनन्द, भगवा परिनिव्वुतो, सञ्जावेदयितनिरोधं
समापन्नो" ति ।

- 5 अथ खो भगवा सञ्जावेदयितनिरोधसमापत्तिया वुट्ट्हित्वा नेव-
राञ्जानासञ्जायतनं समापज्जि । नेवसञ्जानासञ्जायतनसमापत्तिया
वुट्ट्हित्वा आकिञ्चञ्जायतनं समापज्जि । आकिञ्चञ्जायतनसमापत्तिया
वुट्ट्हित्वा विञ्जाणञ्जायतनं समापज्जि । विञ्जाणञ्जायतनसमापत्तिया
वुट्ट्हित्वा आकासानञ्जायतनं समापज्जि । आकासानञ्जायतनसमापत्तिया
10 वुट्ट्हित्वा चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा ततियं ज्ञानं
समापज्जि । ततियज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा दुतियं ज्ञानं समापज्जि । दुतिय-
ज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा पठमं ज्ञानं समापज्जि । पठमज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा दुतियं
ज्ञानं समापज्जि । दुतियज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा ततियं ज्ञानं समापज्जि । ततिय-
ज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि । चतुत्थज्ज्ञाना वुट्ट्हित्वा समनन्तरा
15 भगवा परिनिव्वायि ।

६३. परिनिव्वुते भगवति, सह परिनिव्वाना, महाभूमिचालो अहोसि
R 157 भिसनको सलोमहंसो । देवदुन्दुभियो च फालिसु । परिनिव्वुते भगवति,
सह परिनिव्वाना, ब्रह्मासहम्पति इमं गाथं अभासि --

"सव्वेव निक्खिपिस्सन्ति, भूता लोके समुस्सयं ।

20 यत्थ एतादिसो सत्था, लोके अप्पट्टिपुग्गलो ।

तथागतो वलप्पत्तो, सम्बुद्धो परिनिव्वुतो" ति ॥

६४. परिनिव्वुते भगवति, सह परिनिव्वाना, सक्को देवानमिन्दो
इमं गाथं अभासि -

"अनिच्चा वत सङ्खारा, उप्पादकयधम्मिनो ।

25 उप्पज्जित्वा निरुज्जन्ति, तेसं वूपसमो सुखो" ति ।

६५. परिनिव्वुते भगवति, सह परिनिव्वाना, आयस्मा अनुरुद्धो
इमा गाथायो अभासि -

"नाहु अस्सासपस्सासो, ठितचित्तस्स तादिनो ।

अनेजो^१ सन्तिमारब्भ, यं कालमकरो मुनि ॥

30 "असल्लीनेन चित्तेन, वेदनं अज्झवासयि ।

पज्जोतस्सेव निव्वानं, विमोवखो चेतसो अहू" ति ॥

६६. परिनिर्वृतो भगवति, सह परिनिर्व्वाना, आयस्मा आनन्दो
इमं गायं अभासि -

“तदासि यं भिसनकं, तदासि लोमहंसनं ।

सव्वाकारवरूपेते, सम्बुद्धे परिनिर्व्वुते” ति ॥

६७. परिनिर्व्वुते भगवति, ये ते तत्थ भिक्खू अवीतरागा अप्पेकच्च
वाहा पग्गह्हा कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - “अति-
खिप्पं भगवा परिनिर्व्वुतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिर्व्वुतो, अतिखिप्पं चक्खुं
लोके अन्तरहितो” ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना
अधिवासेन्ति - “अनिच्चा वुत सङ्खारा, तं कुतेत्य लब्भा” ति ।

६८. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो भिक्खू आमन्तेसि - “अलं, आवुसो,
मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एतं, आवुसो, भगवता पटिकच्चेव अक्खातं -
'सव्वेहेव पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जाथाभावो' । तं कुतेत्य,
आवुसो, लब्भा । यं तं जातं भूतं सङ्गतं पलोकधम्मं तं वत मा पलुञ्जी ति
नेतं ठानं विज्जति । देवता, आवुसो, उज्जायन्ती” ति ।

“कथंभूता पन, भन्ते, आयस्मा अनुरुद्धो देवता मनसि करोती” ति ? 15

“सन्तावुसो आनन्द, देवता आकासे पथवीसञ्जिनियो केसे पकिरिय
कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - ‘अतिखिप्पं भगवा
परिनिर्व्वुतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिर्व्वुतो, अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तर-
हितो’ ति । सन्तावुसो आनन्द, देवता पथविया पथवीसञ्जिनियो केसे
पकिरिय कन्दन्ति, वाहा पग्गह्हा कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति
विवट्टन्ति - ‘अतिखिप्पं भगवा परिनिर्व्वुतो, अतिखिप्पं सुगतो परिनिर्व्वुतो,
अतिखिप्पं चक्खुं लोके अन्तरहितो’ ति । या पन ता देवता वीतरागा ता
सता सम्पजाना अधिवासेन्ति - ‘अनिच्चा सङ्खारा, तं कुतेत्य लब्भा’” ति ।
अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो आयस्मा च आनन्दो तं रत्तावसेसं धम्मिया कथाय
शीतिनामेसुं । 25

६९. अथ खो आयस्मा अनुरुद्धो आयस्मन्तं आनन्दं आमन्तेसि -
“गच्छावुसो आनन्द, कुसिनार पविसित्वा कोसिनारकानं मल्लानं आरोचेहि -
'परिनिर्व्वुतो, वासेट्ठा', भगवा । यस्स दानि कालं मञ्जाथा” ति । “एवं,
भन्ते” ति खो आयस्मा आनन्दो आयस्मतो अनुरुद्धस्स पटिस्सुत्वा पुव्वण्ह-
समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय अत्तदुतियो कुसिनारं पाविसि । तेन 30

१. भन्ते अनुरुद्ध देवता मनसि करोन्ती ति - स्या० । २. वासिट्ठा - स्या० ।

खो पन समयेन कोसिनारका मल्ला सन्धागारे' सन्निपतिता होन्ति तेनेव' करणीयेन । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन कोसिनारकानं मल्लानं सन्धागारं तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा कोसिनारकानं मल्लानं आरोचेसि - "परिनिव्वुतो, वासेट्ठा, भगवा । यस्स दानि कालं मञ्जया" ति । इदमायस्मतो

5 आनन्दस्स वचनं सुत्वा मल्ला च मल्लपुत्ता च मल्लसुणिसा च मल्लपजापतियो च अघाविनो दुम्मना चेतोदुक्खसमप्पिता अप्पेकच्चे केसे पक्किरिय कन्दन्ति, वाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपातं पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति - 'अतिखिप्यं भगवा परिनिव्वुतो, अतिखिप्यं सुगतो परिनिव्वुतो, अतिखिप्यं चक्खुं लोके अन्तरहितो' ति !

§ २४. बुद्धसरीरपूजः

B 131 10

१००. अथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणापेसुं - "तेन हि भणे, कुसिनारायं गन्धमालं च सब्बं च ताळावचरं सन्निपातेथा" ति । अथ खो कोसिनारका मल्ला गन्धमालं च सब्बं च ताळावचरं पञ्च च दुस्सयुगसतानि आदाय येन उपवत्तनं मल्लानं सालवनं येन भगवतो सरीरं तेनुपसङ्गमिसु; उपसङ्गमित्वा भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि

15 गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवित्तानानि करोन्ता मण्डलमाळे^१ पटियादेन्ता एकदिवसं वीतिनामेसुं ।

अथ खो कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि - "अतिविकालो खो अञ्ज भगवतो सरीरं ज्ञापेतु । स्वे दानि मयं भगवतो सरीरं ज्ञापेस्सामा" ति । अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि

20 गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता चेलवित्तानानि करोन्ता मण्डलमाळे पटियादेन्ता दुत्तिपं पि दिवसं वीतिनामेसुं, तत्तिपं पि दिवसं वीतिनामेसुं, चतुत्थं पि दिवसं वीतिनामेसु, पञ्चमं पि दिवसं वीतिनामेसुं, छट्ठं पि दिवसं वीतिनामेसुं ।

R.160

अथ खो सत्तमं^४ दिवसं कोसिनारकानं मल्लानं एतदहोसि - "मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा वाहिरेन वाहिरं दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ज्ञापेस्सामा" ति ।

१०१. तेन खो पन समयेन अट्ठ मल्लपामोक्खा सीसन्हाता^५ अहतानि

१. सन्धागारे - स्या०; सन्धागारे - रो० । २. केन - स्या० । ३. मण्डलमालानि - स्या०, रो० । ४. सत्तममि - स्या० । ५. सीसन्हाता - स्या०; सीसं नहाता - रो० ।

वत्यानि निवत्या "मयं भगवतो सरीरं उच्चारैस्सामा" ति न सक्कोन्ति उच्चारैतुं । अथ खो कोसिनारका मल्ला आयस्मन्तं अनुरुद्धं एतदवोचुं— "को नु खो, भन्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पञ्चयो, येनिमे अट्ट मल्लपामोक्खा सीसंहाता अहतानि वत्यानि निवत्या, 'मयं भगवतो सरीरं उच्चारैस्सामा' ति, न सक्कोन्ति उच्चारैतुं" ति ?

"अञ्जया खो, वासेट्टा, तुम्हाकं अधिप्पायो, अञ्जया देवतानं अधिप्पायो" ति ।

"कथं पन, भन्ते, देवतानं अधिप्पायो" ति ?

"तुम्हाकं खो, वासेट्टा, अधिप्पायो — 'मयं भगवतो सरीरं नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता दक्खिणेन दक्खिणं नगरस्स हरित्वा वाहिरेन वाहिरं दक्खिणतो नगरस्स भगवतो सरीरं ज्ञापेस्सामा' ति; देवतानं खो, वासेट्टा, अधिप्पायो — 'मयं भगवतो सरीरं दिव्वेहि नच्चेहि गीतेहि वादितेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरं करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्वारेन नगरं पवेसेत्वा मज्जेन मज्झं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटवन्धनं नाम मल्लान चैतियं एत्थ भगवतो सरीरं ज्ञापेस्सामा'" ति ।

"यथा, भन्ते, देवतानं अधिप्पायो तथा होतू" ति ।

१०२. तेन खो पन समयेन कुसिनारा याव सन्धिसमलसंकटीरा जण्णुमत्तेन^१ ओधिना मन्दारपुप्फेहि सन्थता^२ होति । अथ खो देवता च कोसिनारका च मल्ला भगवतो सरीरं दिव्वेहि च मानुसकेहि च नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करोन्ता गरु करोन्ता मानेन्ता पूजेन्ता उत्तरेन उत्तरं नगरस्स हरित्वा उत्तरेन द्वारेन नगर पवेसेत्वा मज्जेन मज्झं नगरस्स हरित्वा पुरत्थिमेन द्वारेन निक्खमित्वा पुरत्थिमतो नगरस्स मकुटवन्धनं नाम मल्लानं चैतियं एत्थ च भगवतो सरीरं निक्खिपिसु ।

१०३. अथ खो कोसिनारका मल्ला आयस्मन्तं आनन्दं एतदवोचुं— "कथं मय, भन्ते आनन्द, तथागतस्स सरीरे पटिपज्जामा" ति ?

"यथा खो, वासेट्टा, रब्बो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्व" ति ।

“कथं पन, भन्ते आनन्द, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ती”
ति ?

“रञ्जो, वासेट्टा, चक्कवत्तिस्स सरीरं अहतेन वत्थेन वेठेन्ति, अहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेन्ति, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेठेन्ति । एतेन उपायेन पञ्चहि युगसत्तेहि रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरं वेठेत्वा, आयसाय^१ तेलदोणिया पक्खपित्वा अञ्जिस्सा आयसाय दोणिया पटिकुज्जित्वा, सव्वगन्धानं चित्तकं करित्वा रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरं ज्ञापेन्ति । चातुमहापथे^२ रञ्जो चक्कवत्तिस्स थूपं करोन्ति । एवं खो, वासेट्टा, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति ।
10 यथा खो, वासेट्टा, रञ्जो चक्कवत्तिस्स सरीरे पटिपज्जन्ति, एवं तथागतस्स सरीरे पटिपज्जितव्वं । चातुमहापथे तथागतस्स थूपो कातव्वो । एत्थ ये मालं वा गन्धं वा चुण्णकं वा आरोपेस्सन्ति वा अभिवादेस्सन्ति वा चित्तं वा पसादेस्सन्ति, तेसं त भविस्सति दीघरत्तं हिताय सुखाया” ति ।

B 133

१०४. अथ खो कोसिनारका मल्ला पुरिसे आणापेसुं – “तेन हि,
15 भणे, मल्लानं विहतं कप्पासं सक्षिपातेथा” ति । अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरं अहतेन वत्थेन वेठेत्वा विहतेन कप्पासेन वेठेसुं, विहतेन कप्पासेन वेठेत्वा अहतेन वत्थेन वेठेसु । एतेन उपायेन पञ्चहि युगसत्तेहि भगवतो सरीरं वेठेत्वा आयसाय तेलदोणिया पक्खपित्वा अञ्जिस्सा आयसाय दोणिया पटिकुज्जित्वा सव्वगन्धानं चित्तकं करित्वा
20 भगवतो सरीरं चित्तकं आरोपेसुं ।

R. 162

§ २५. महाकस्सपत्थेरवत्थु

१०५. तेन खो पन समयेन आयस्सा महाकस्सपो पावाय कुसिनारं अद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसत्तेहि । अथ खो आयस्सा महाकस्सपो मग्गा ओक्कम्म अञ्जातरस्मि
25 र्क्खमूले निसीदि । तेन खो पन समयेन अञ्जातरो आजीवको कुसिनाराय मन्दारपुप्फं गहेत्वा पावं अद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । अद्दसा खो आयस्सा महाकस्सपो त आजीवकं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वा तं आजीवकं एतद-
वोच – “अपावुत्तो, अम्हाकं सत्थारं जानासी” ति ?

“आमावुत्तो, जानामि – अज्ज सत्ताहपरिनिव्वृतो समणो गोतमो । ततो मे इदं मन्दारपुप्फं गहितं ति । तत्थ ये ते भिक्खु अवीतरागा अप्पेकच्चे

वाहा पग्गय्ह कन्दन्ति, छिन्नपात पपतन्ति, आवट्टन्ति विवट्टन्ति — ‘अतिखिप्प भगवा परिनिव्वुतो, अतिखिप्प सुगतो परिनिव्वुतो, अतिखिप्प चक्खु लोके अन्तरहितो’ ति । ये पन ते भिक्खू वीतरागा ते सता सम्पजाना अधि-
वासेन्ति — ‘अनिच्चा सङ्गारा, त कुतेत्थ लब्भा’” ति ।

१०६ तेन खो पन समयेन सुभद्दो नाम बुद्धपव्वजितो^१ तस्स 5
परिसाय निसिन्नो होति । अय खो सुभद्दो बुद्धपव्वजितो ते भिक्खू एतद-
वोच — ‘अल, आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । सुमुत्ता मय तेन
महासमणेन । उपद्दुता च.होम — ‘इद वो^२ कप्पति, इद वो न कप्पती’ ति ।
इदानि पन मय य इच्छिस्साम त करिस्साम, य न इच्छिस्साम न त
करिस्सामा’ ति । अथ खो आयस्सा महाकस्सपो भिक्खू आमन्तेसि — ‘अल, 10
आवुसो, मा सोचित्थ, मा परिदेवित्थ । ननु एत, आवुसो, भगवता पटि-
कच्चेव अक्खात — ‘सव्वेहेव पिपेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथा-
भावो । त कुतेत्थ, आवुसो, लब्भा । य त जात भूत सङ्गत पत्तो कधम्म
त तथागतस्सा पि सरीर मा पलुज्जी ति नेत ठान विज्जती’” ति ।

१०७ तेन खो पन समयेन चत्तारो मल्लपामोक्खा सीसन्हाता 15
अहतानि वत्थानि निवत्था — ‘मय भगवतो चितक आळिम्पेस्सामा’ ति
न सक्कोन्ति आळिम्पेतु । अथ खो कोसिनारका मल्ला आयस्मन्त अनुरुद्ध
एतदवोचु — ‘को नु खो, भन्ते अनुरुद्ध, हेतु, को पच्चयो, येनिमे चत्तारो
मल्लपामोक्खा सीसन्हाता अहतानि वत्थानि निवत्था — ‘मय भगवतो चितक
आळिम्पेस्सामा’ ति न सक्कोन्ति आळिम्पेतु’ ति ? 20

‘अञ्जथा खो, वासेट्ठा, देवतान अधिप्पायो’ ति ।

‘कथ पन, भन्ते, देवतान अधिप्पायो’ ति ?

‘देवतान खो, वासेट्ठा, अधिप्पायो — ‘अय आयस्सा महाकस्सपो
पावाय कुसिनार अद्धानमग्गप्पटिपन्नो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि पच्चमत्तेहि
भिक्खुसतेहि, न ताव भगवतो चितको पज्जलिस्सति यावायस्सा महाकस्सपो 25
भगवतो पादे सिरसा न वन्दिस्सती’” ति ।

‘यथा, भन्ते, देवतान अधिप्पायो तथा होतू’ ति ।

१०८ अथ खो आयस्सा महाकस्सपो येन कुसिनारा मकुटवन्धन
नाम मेल्लान चेतिय येन भगवतो चितको तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा

एकसं चीवरं कत्वा अञ्जलिं पणामेत्वा तिवखत्तुं चित्तकं पदक्खिणं कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दि । तानि पि खो पञ्चभिक्षुसतानि एकसं चीवरं कत्वा अञ्जलिं पणामेत्वा तिवखत्तुं चित्तकं पदक्खिणं कत्वा भगवतो पादे सिरसा वन्दिसु । वन्दिते च पनायस्मता महाकस्सपेन तेहि च पञ्चहि

R 164

5 भिक्षुसतेहि सयमेव भगवतो चित्तको पज्जलि ।

B. 135

१०६. ज्ञायमानस्स खो पन भगवतो सरीरस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मं ति वा मंसं ति वा न्हारू' ति वा लसिका ति वा, तस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ न मसि; सरीरानेव अवसिस्सिसु । सेयथापि नाम सप्पिस्स वा तेलस्स वा ज्ञायमानस्स नेव छारिका पञ्जायति न मसि, एवमेव भगवतो सरीरस्स ज्ञायमानस्स यं अहोसि छवी ति वा चम्मं ति वा मंसं ति वा न्हारू ति वा लसिका ति वा तस्स नेव छारिका पञ्जायित्थ न मसि, सरीरानेव अवसिस्सिसु । तेसं च पञ्चन्नं दुस्सयुगसतानं द्वेव दुस्सानि न डड्हिसु यं च सब्वअन्नन्तरिमं यं च बाहिरं । दड्ढे च खो पन भगवतो सरीरे अन्त-
लिक्खा उदकधारा पातुभवित्वा भगवतो चित्तकं निव्वापेसि । उदकसालतो' पि अब्भुन्नमित्वा भगवतो चित्तकं निव्वापेसि । कोसिनारका पि मल्ला सव्वगन्धोदकेन भगवतो चित्तकं निव्वापेसुं । अथ खो कोसिनारका मल्ला भगवतो सरीरानि रात्ताहं सन्धागारे सत्तिपञ्जरं करित्वा धनुपाकारं परि-
क्खपापेत्वा' नच्चेहि गीतेहि वादितेहि मालेहि गन्धेहि सक्करिसु गरं करिसु मानेसुं पूजेसुं ।

10

15

३२६. सरीरधातुविभजनं

११०. अस्सोसि खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो - "भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो कोसिनारकानं गल्लानं दूतं पाहेसि - "भगवा पि खत्तियो, अहं पि खत्तियो, अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं, अहं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामी" ति ।

20

25

अस्सोसुं खो वेसालिका लिच्छवी - "भगवा किर कुसिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अथ खो वेसालिका लिच्छवी कोसिनारकानं मल्लानं दूतं पाहेसुं - "भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा" ति ।

R. 165

अस्सोसुं सो कपिलवत्युवागी मया - "भगवा किर कुमिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अयं सो कपिलवत्युवागी मया कोमिनारत्तानं मत्तानं दूतं पाहेसुं - "भगवा अम्हाकं ज्ञातिमेट्ठो, मयं पि अरहाम भगवतो मरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं भूयं न महं न करिस्सामा" ति ।

अस्सोसुं सो अल्लकण्णका वुत्तयो - "भगवा किर कुमिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अयं सो अल्लकण्णका वुत्तयो कोमिनारत्तानं मत्तानं दूतं पाहेसुं - "भगवा पि सत्तियो, मयं पि सत्तिगा, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं भूयं न महं न करिस्सामा" ति ।

अस्सोसुं सो राममायका कोञ्जिजा^१ - "भगवा किर कुमिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अयं सो राममायका कोञ्जिजा कोमिनारत्तानं मत्तानं दूतं पाहेसुं - "भगवा पि सत्तियो, मयं पि सत्तिगा, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं भूयं न महं न करिस्सामा" ति ।

अस्सोसि सो वेट्ठदीपको ब्राह्मणो - "भगवा किर कुमिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अयं सो वेट्ठदीपको ब्राह्मणो कोमिनारत्तानं मत्तानं दूतं पाहेसि - "भगवा पि सत्तियो, अहं पिस्मि ब्राह्मणो, अहं पि अरहामि भगवतो सरीरानं भागं, अहं पि भगवतो सरीरानं भूयं न महं न करिस्सामो" ति ।

अस्सोसुं सो पावेम्वया मत्ता - "भगवा किर कुमिनारायं परिनिव्वुतो" ति । अयं सो पावेम्वया मत्ता कोमिनारत्तानं मत्तानं दूतं पाहेसुं - "भगवा पि सत्तियो, मयं पि सत्तिगा, मयं पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, मयं पि भगवतो सरीरानं भूयं न महं न करिस्सामा" ति ।

१११. एवं वुत्ते, कोमिनारत्ता मत्ता ते मद्धे गणे एतस्सोसुं - "भगवा अम्हाकं गामाग्गेत्ते परिनिव्वुतो. न मयं दम्माय भगवतो सरीरानं भागं" ति ।

११२. एवं वुत्ते, दोणो ब्राह्मणो ते मद्धे गणे एतस्सोसुं -
 "मुग्गन्तु भोन्तो मम एवत्तान",
 अम्हाकं वुत्तो अहं सन्तिवारी ।
 न हि सायु मं उत्तममुग्गत्तम्,
 सरीरभागे' मिया मग्गहारो ॥

१. कपिलवत्त - स्तो. रो. । २. वुत्तो - स्तो. । ३. वेत्त - स्तो. रो. ।
 ४. एवत्तानं - स्तो. रो. । ५. मदीस्सो - रो. ।

सञ्चेव भोन्तो संहिता समग्ना,
सम्मोदमाना करोमदृभागे ।
चित्थारिका होन्तु दिसासु थूपा,
वहू' जना' चक्खुमतो पसन्ना' ति ॥

5 ११३. "तेन हि, ब्राह्मण, त्वञ्चेव भगवतो सरीरानि अट्टधा समं सविभत्तं विभजाही" ति । "एवं, भो" ति खो दोणो ब्राह्मणो तेसं सञ्चानं गणानं पटिस्सुत्वा भगवतो सरीरानि अट्टधा समं सविभत्तं विभजित्वा ते सञ्चे गणे एतदवोच - "इमं मे भोन्तो तुम्भं ददन्तु", अहं पि तुम्बस्स थूपं च महं च करिस्सामी" ति । अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स तुम्भं ।

10 ११४. अस्सोसुं खो पिप्पलिवनिया^१ मोरिया - "भगवा किर कुसिनारायं परिनिब्बुतो" ति । अथ खो पिप्पलिवनिया मोरिया कोसिनारकानं मल्लानं दूतं पाहेसुं - "भगवा पि खत्तियो, मयं पि खत्तिया, मय पि अरहाम भगवतो सरीरानं भागं, भगवतो सरीरानं थूपं च महं च करिस्सामा" ति । "नत्थि भगवतो सरीरानं भागो । विभत्तानि भगवतो सरीरानि ।
15 इतो अङ्गारं हरथा" ति । ते ततो अङ्गारं हरिसु" ।

धातुथूपपूजा

R. 167 ११५. अथ खो राजा मागधो अजातसत्तु वेदेहिपुत्तो राजगहे भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकासि । वेसालिका पि लिच्छवी वेसालियं भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । कपिलवत्युवासी पि सक्या कपिलवत्युस्मि भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । अल्लकप्पका पि ब्रुलयो अल्लकप्पे
20 भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । रामगामका पि कोळिया रामगामे भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । वेट्टदीपको पि ब्राह्मणो वेट्टदीपे भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकासि । पावेय्यका पि मल्ला पावायं
B. 139 भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । कोसिनारका पि मल्ला कुसिनारायं भगवतो सरीरानं थूपं च महं च अकंसु । दोणो पि ब्राह्मणो तुम्बस्स थूपं
25 च महं च अकासि । पिप्पलिवनिया पि मोरिया पिप्पलिवने अङ्गारानं थूपं च महं च अकंसु । इति अट्ट सरीरथूपा^२, नवमो तुम्बथूपो, दसमो अङ्गार-थूपो । एवमेतं भूतपुट्ठं ति ।

१-१. बहुज्जो - रो० । २. देन्तु - स्या० । ३. पिप्पलिवनिया - रो०, स्या० । ४. धारिण्यु - स्या० । ५. सरीरथूपा - स्या० ।

११६ अट्टदोण चक्खुमतो सरीर,
 सत्तदोण जम्बुदीपे महेन्ति ।
 एक च दोण पुरिसवरुत्तमस्स,
 रामगामे नागराजा महेत्ति ॥

एका हि^१ दाठा तिदिवेहि पूजिता,
 एका पन गन्धारपुरे महीयत्ति^२ ।
 कालिङ्गरञ्जो विजिते पुनेक,
 एक पन नागराजा महेत्ति ॥

तस्सेव तेजेन अय वसुन्धरा,
 आयागसेट्ठेहि मही अलङ्कता ।
 एव इम चक्खुमतो सरीर,
 सुसक्कत सक्कतसक्कतेहि ॥

देविन्दनागिन्दनरिन्दपूजितो,
 मनुस्सिन्दसेट्ठेहि तथेव पूजितो ।
 त वन्दथ^३ पञ्जलिका लभित्वा^४,
 बुद्धो हवे कप्पसतेहि दुल्लभो^५ ॥

*चत्तालीस^६ समा दन्ता, केसा लोमा च सव्वसो ।
 देवा हरिसु एकेक, चक्कवाळपरम्परा ति* ॥

महापरिनिब्बानसुत्त निद्रित्त तत्तिय ।

— ० —

१ महेन्ति - स्या०, रो० । २ एका पि - रो० । ३ महिय्यत्ति - स्या० । ४ त त
 वन्दथ - स्या० । ५ लभित्वा - स्या०, रो० । * * रो० फोत्यके नत्तिय । ६ चत्ताळीस - स्या० ।

४. महासुदस्सनसुतं

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुसिनारायं विहरति उपवत्तने मल्लानं सालवने अन्तरेण यमकसालानं परिनिव्वानसमये । अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतद-
5 वोच — “मा, भन्ते, भगवा इमस्मि खुद्दकनगरके^१ उज्जङ्गलनगरके साखान-
नगरे परिनिव्वायि । सन्ति, भन्ते, अञ्जानि महानगरानि, सेय्यथिदं^२ —
चम्पा राजगहं सावत्थि साकेतं कोसम्बी वाराणसी । एत्थ भगवा परि-
निव्वायतु । एत्थ बहू खत्तियमहासाला ब्राह्मणमहासाला गहपतिमहासाला
तथागते अभिप्पसन्ना । ते तथागतस्स सरीरपूजं करिस्सन्ती” ति ।

10 “मा हेवं, आनन्द, अवच; मा हेवं, आनन्द, अवच — खुद्दक-
नगरकं उज्जङ्गलनगरकं साखानगरकं^३ ति ।

§ १. कुसावती राजधानी

२. “भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नाम अहोसि खत्तियो मुद्धावसित्तो चातुरन्तो जनपदत्थावरियप्पत्तो^४ । रञ्जो, आनन्द, महा-
सुदस्सनस्स अयं कुसिनारा कुसावती नाम राजधानी अहोसि*, पुरत्थिमेण च
15 पच्छिमेण च द्वादसयोजनानि आयामेण, उत्तरेण च दक्खिणेण च सत्तयोज-
नानि वित्थारेण । कुसावती, आनन्द, राजधानी इद्धा चेव अहोसि फीता
च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिव्खा च । सेय्यथापि, आनन्द, देवानं
आळकमन्दा^५ नाम राजधानी इद्धा चेव होति फीता च बहुजना आकिण्णयक्खा
च सुभिव्खा च; एवमेव खो, आनन्द, कुसावती राजधानी इद्धा चेव अहोसि
20 फीता च बहुजना च आकिण्णमनुस्सा च सुभिव्खा च । कुसावती, आनन्द,
राजधानी दसहि सद्देहि अविचित्ता अहोसि दिवा चेव रत्ति^६ च, सेय्यथिदं —
हत्थिसद्देण अस्ससद्देण रथसद्देण भेरिसद्देण मुदिङ्गसद्देण वीणासद्देण गीतसद्देण

१. कुहनगरके — सी०, रो० । २. सेय्यथिदं — स्या०, रो० । ३. साखानगरकं — सी०, रो० ।
४. जनपदद्वावरियप्पत्तो — स्या० । *एत्थ “सा खो आनन्द कुसावती” इति ग्रथिक्खे पाठो सी०, रो०
पोत्पक्खेसु विस्सति । ५. आळकमन्दा — स्या० । ६. रत्ती — रो० ।

सम्मसद्देन पाणिताळमद्देन' सद्देन' अस्नाय' पियय गादथा ति दग्मेन गद्देन ।

"कुसावती, आनन्द, राजधानी गत्तहि पात्तारेहि परिगिता अहोसि—
एको' पाकारो सोवणमयो, एको रुपियमयो, एको वेळुरियमयो, एको
फलिकमयो, एको लोहितङ्कमयो', एको मसारगल्लमयो, एतो सच्चरतनमयो । 5
कुसावतिया, आनन्द, राजधानिया चतुत्र वण्णान द्वागानि अहेसु — एक द्वार
सोवणमय, एकं रुपियमय, एक वेळुरियमय, एक फलिकमय । एकेहम्मि
द्वारे सत्त एसिका निपाता अहेसु तिपोरिसद्दा तिपोरिगनिपाता' द्वादस-
पोरिसा उब्बेधेन' — एका एसिका सोवणमया, एता रुपियमया, एका वेळुरिय-
मया, एका फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, एका मसारगल्लमया, एता 10
सच्चरतनमया ।

"कुसावती, आनन्द, राजधानी सत्तहि तालपन्तीहि परिगिता
अहोसि — एका तालपन्ति सोवणमया, एका रुपियमया, एका वेळुरियमया,
एका फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, एका मसारगल्लमया, एका सच्च-
रतनमया । सोवणमयस्स तालस्स सोवणमयो खन्धो अहोसि, रुपियमयानि 15
पत्तानि च फलानि च । रुपियमयस्स तालस्स रुपियमयो खन्धो अहोसि,
सोवणमयानि पत्तानि च फलानि च । वेळुरियमयस्स तालस्स वेळुरियमयो
खन्धो अहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स
फलिकमयो खन्धो अहोसि, वेळुरियमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितङ्क-
मयस्स तालस्स लोहितङ्कमयो खन्धो अहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि च 20
फलानि च । मसारगल्लमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो खन्धो अहोसि,
लोहितङ्कमयानि पत्तानि च फलानि च । सच्चरतनमयस्स तालस्स सच्च-
रतनमयो खन्धो अहोसि, सच्चरतनमयानि पत्तानि च फलानि च । तास
खो पनानन्द, तालपन्तीन वातेरितान सद्दो अहोसि वग्गु च रजनीयो च
कमनीयो' च मदनीयो च । सेय्ययापि, आनन्द, पच्चच्चिन्निवस्स तूरियम्म 25
सुरियस्स सुचिनीतस्स सुप्पटिताळितस्स सुवुसलेहि समन्नाहतस्स गद्दो होति
वग्गु च रजनीयो च खमनीयो च मदनीयो च, एयमेव खो, आनन्द,
तास तालपन्तीन वातेरितान सद्दो अहोसि वग्गु च रजनीयो च समनीयो च

१ क्षान्तद्देन—स्वा०, मी०, ताळमद्देन—रो० । २ रो०, स्ना० पात्तारेणु कपि । ३
घासय—स्वा० । ४ तस्य एको—रो० । ५ लोहितङ्कमयो—इति हि । ६-६ विगित्ति-
पाता०—स्वा०, अनुपोरिसा उब्बेधेन—रो० । ७ खमनीयो—म०; खन्निवा—स्वा० ।

मदनीयो, च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिया धुत्ता
अहेसु सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं सहेन परिचारेसुं ।

§ २. चककरतनं

३. “राजा, आनन्द, महासुदस्सनो सत्तहि रतनेहि समन्नागतो अहोसि
चतूहि च इद्धीहि । कतमेहि सत्तहि ? इधानन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स
५ तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरिपासादवरगतस्स दिव्वं
चककरतनं पातुरुहोसि सहस्सारं सनेमिकं सनाभिकं सव्वाकारपरिपूरं । दिस्वा
रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - ‘सुतं खो पनेतं - यस्स रञ्जो खत्तिथस्स
भुद्धावसित्तस्स तदहुपोसथे पन्नरसे सीसन्हातस्स उपोसथिकस्स उपरि-
पासादवरगतस्स दिव्वं चककरतनं पातुभवति सहस्सारं सनेमिकं सनाभिकं
१० सव्वाकारपरिपूर, सो होति राजा चककवत्ती ति । अस्सं नु खो अहं राजा
चककवत्ती’ ति ।

४. “अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो उट्ठायीसना एकंस उत्तरा-
सङ्गं करित्वा, वामेन हत्थेन सुवण्णाभिङ्गारं गहेत्वा, दक्खिणेन हत्थेन चककरतन
अव्भुक्किरि - ‘पवत्तु भवं चककरतन, अभिविजिनातु भवं चककरतनं’ ति ।
१५ अथ खो त, आनन्द, चककरतनं पुरत्थिमं दिसं पवत्ति, अन्वदेव^१ राजा
महासुदस्सनो सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय । यस्मि खो पनानन्द, पदेसे चकक-
रतनं पतिट्ठासि तत्थ राजा महासुदस्सनो वास उपगच्छि^२ सद्धि चतुरङ्गिनिया
सेनाय । ये खो पनानन्द, पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते राजानं महासुदस्सन
उपसङ्गमित्वा एवमाहंसु - ‘एहि खो, महाराज; स्वागतं^३ ते, महाराज,
२० सकं ते, महाराज; अनुसास, महाराजा’ ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह -
‘पाणो न हन्तव्वो, अदिन्नं न आदातव्वं, कामेसु मिच्छा न चरितव्वा, मुसा न
भणितव्वा^४, मज्जं न पातव्वं । यथाभुत्तं च भुञ्जथा’ ति । ये खो पनानन्द,
पुरत्थिमाय दिसाय पटिराजानो ते रञ्जो महासुदस्सनस्स अनुयन्ता^५
अहेसुं । अथ खो तं, आनन्द, चककरतनं पुरत्थिमं समुद्दं अज्झोगाहेत्वा^६
२५ पच्चुत्तरित्वा दक्खिणं दिसं पवत्ति...पे०...दक्खिणं समुद्दं अज्झोगाहेत्वा पच्चु-
त्तरित्वा पच्छिमं दिसं पवत्ति...पे०...पच्छिमं समुद्दं अज्झोगाहेत्वा पच्चुत्तरित्वा
उत्तरं दिसं पवत्ति, अन्वदेव राजा महासुदस्सनो सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय ।

R. 173

B. 142

१ पवत्ति - १५० । २. अनुदेव - ११० । ३. उपगच्छि - सी० । ४. सागतं -
रो० । ५. भासितव्वा - सी०, स्था०, रो० । ६. अनुयुत्ता - रो०; अनुयन्ता - सी० । ७.
अज्झोगहेत्वा - रो० ।

यस्मिं खो पनानन्द, पदेसे चक्करतन पतिट्टासि तत्थ राजा महासुदस्सनो वास उपगच्छि सद्धि चतुरङ्गिनिया सेनाय । ये खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ते राजान महासुदस्सन उपसङ्कमित्वा एवमाहसु — 'एहि खो, महाराज, स्वागत ते, महाराज, सक ते, महाराज, अनुसास, महाराजा' ति । राजा महासुदस्सनो एवमाह — 'पाणो न हन्तव्वो, अदिन्न न आदातव्व, कामेसु मिच्छा न चरितव्वा, मुसा न भणितव्वा, मज्ज न पातव्व । यथाभुत्त च भुञ्जथा' ति । ये खो पनानन्द, उत्तराय दिसाय पटिराजानो ने रञ्जो महासुदस्सनस्स अनुयन्ता अहेसु ।

५ "अथ खो त, आनन्द, चक्करतन समुहपरियन्त पथवि' अभि-
विजिनित्वा', कुसार्वति राजधानि पच्चागन्त्वा, रञ्जो महासुदस्सनस्स
अन्तेपुरद्वारे अत्यकरणपमुत्ते' अवसाहत मञ्जे अट्टासि, रञ्जो महा-
सुदस्सनस्स अन्तेपुर उपसोभयमान । रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एव-
रूप चक्करतन पातुरहोसि ।

§ ३. हत्थिरतन

६ "पुन च पर, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स हत्थिरतन पातु-
रहोसि सब्बसेतो सत्तप्पतिट्ठो इद्धिमा वेहासङ्गमो उपोसथो नाम नागराजा ।
त दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि — 'भद्दक वत भो हत्थियान,
सच्चे दमथ उपेय्या' ति । अथ खो त, आनन्द, हत्थिरतन — सेय्यथापि नाम
भदो' हत्थाजानियो' दीघरत्त सुपरिदन्तो एवमेव — दमथ उपगच्छि ।
भूतपुव्व, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव हत्थिरतन वीमसमानो पुव्वण्ह-
समथ अभिसहित्वा समुहपरियन्त पथवि अनुयायित्वा, कुसार्वति राजधानि
पच्चागन्त्वा पातरायमकासि । रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवत्थ
हत्थिरतन पातुरहोसि ।

§ ४ अस्तरतनं

७ "पुन च पर, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स अस्तरतन पातु-
रहोसि सब्बसेतो काळसीसो' मुञ्जकेसो इद्धिमा वेहासङ्गमो वलाहको नाम
अस्तराजा । त दिस्वा रञ्जो महासुदस्सनस्स चित्त पसीदि — 'भद्दक वत
भो अस्तरयान, सच्चे दमथ उपेय्या' ति । अथ खो त, आनन्द, अस्तरतन —
सेय्यथापि नाम भदो अस्साजानियो दीघरत्त सुपरिदन्तो एवमेव — दमथ

१ पठवि — स्या०, रो० । २ भनिविजित्वा — स्या० । ३ अत्यकरणपमुत्ते — मो० ।
४-५ यथाभुत्ताजानियो — म० । ५ अनुयायित्वा — रो० । ६ वावमीसो — स्या०, रो० ।

उपगच्छि । भूतपुष्यं, आनन्द, राजा महामुदस्त्वनो तमेव अस्सरतनं वीमं-
मानो पुष्यण्हसमयं अभिरहित्वा समुद्रपरियन्तं पथवि अनुयायित्वा कुसावति
राजधानि पच्चागन्त्वा पातरासमकासि । रञ्जो, आनन्द, महामुदस्त्वनस्त
एवरूपं अस्सरतनं पातुरहोसि ।

५.५. मणिरतनं

5 ८. "पुन च परं, आनन्द, रञ्जो महामुदस्त्वनस्त मणिरतनं पातु-
रहोसि । सो अहोसि मणि वेदुरियो सुभो जातिमा अट्टंसो मुपरिकम्मनतो
अच्छो विप्पसत्तो मच्चाकरसम्पत्तो । तस्म सो पनानन्द, मणिरतनस्त आभा
समन्ता योजनं कृटा अहोसि । भूतपुष्यं, आनन्द, राजा महामुदस्त्वनो तमेव
मणिरतनं वीमंसमानो चतुरङ्गिणि सेनं सन्नहित्वा मणि धजगं आरोपेत्वा
10 रतन्धकारतिमिस्साय पावासि । ये सो पनानन्द, समन्ता गामा अहेनुं ते
तेनोभामेन कम्मन्ते पयोजेनुं दिवा ति मञ्जमाना । रञ्जो, आनन्द,
महामुदस्त्वनस्त एवरूपं मणिरतनं पातुरहोसि ।

५.६. इतिरतनं

सस्तामिकं पि अस्तामिकं पि । सो राजानं महासुदस्सनं उपसङ्गमित्वा
 एवमाह — 'अप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि । अहं ते धनेन धनकरणीयं
 करिस्सामी' ति । भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तमेव गहपतिरतनं
 वीमंसमानो नावं अभिरुहित्वा मज्जे गङ्गाय नदिया सोत्तं ओगाहित्वा'
 गहपतिरतनं एतदवोच — 'अत्यो मे, गहपति, हिरञ्जासुवण्णेना' ति । 'तेन 5
 हि, महाराज, एकं तीरं नावं उपेतू' ति । 'इधेव मे, गहपति, अत्यो हिरञ्जा-
 सुवण्णेना' ति । अथ खो तं, आनन्द, गहपतिरतनं उभोहि हत्येहि उदकं
 ओमसित्वा पूरं हिरञ्जासुवण्णस्स कुम्भि उद्धरित्वा राजानं महासुदस्सनं
 एतदवोच — 'अलमेत्तावता, महाराज ; कतमेत्तावता, महाराज ; पूजित-
 मेत्तावता, महाराजा' ति ? राजा महासुदस्सनो एवमाह — 'अलमेत्तावता, 10
 गहपति । कतमेत्तावता, गहपति । पूजितमेत्तावता, गहपती' ति । रञ्जो,
 आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं गहपतिरतनं पातुरहोसि ।

§ ८. परिणायकरतनं

११. "पुन च परं, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स परिणायकरतनं
 पातुरहोसि पण्डितो वियत्तो मेधावी पटिवलो, राजानं महासुदस्सनं उपया-
 पेत्तव्वं" उपयापेतुं, अपयापेतव्वं अपयापेतु, ठपेतव्वं ठपेतु । सो राजानं 15
 महासुदस्सनं उपसङ्गमित्वा एवमाह — 'अप्पोस्सुक्को त्वं, देव, होहि ।
 अहमनुसासिस्सामी' ति । रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स एवरूपं परि-
 णायकरतनं पातुरहोसि ।

"राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमेहि सत्तहि रतनेहि समन्नागतो
 ग्होसि । 20

§ ९. चतुर्दशसमन्नागतो महासुदस्सनो

१२. "राजा, आनन्द, महासुदस्सनो चतूहि इद्धीहि समन्नागतो
 अहोसि । कत्तमाहि चतूहि इद्धीहि ? इधानन्द, राजा महासुदस्सनो अभि-
 रूपो अहोसि दस्सनीयो पासादिको परमाय वण्णपोवखरताय समन्नागतो
 अतिविय अञ्जेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय पटमाय
 इद्धिया समन्नागतो अहोसि । 25

"पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो दीघायुको अहोसि चिर-
 ट्टित्तिको अतिविय अञ्जेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय

दुतियाय इद्विया समन्नागतो अहोसि ।

“पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो अप्पावाघो अहोसि अप्पा-
तङ्को, समवेपाकिनिया गहणिया समन्नागतो नातिसीताय नाच्चुण्हाय
अतिविय अञ्जेहि मनुस्सेहि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय ततियाय
5 इद्विया समन्नागतो अहोसि ।

R.178 “पुन च परं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगहपतिकानं पियो
अहोसि मनापो । सेय्यथापि, आनन्द, पिता पुत्तानं पियो होति मनापो;
एवमेव खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो ब्राह्मणगहपतिकानं पियो अहोसि
मनापो । रञ्जो पि, आनन्द, महासुदस्सनस्स ब्राह्मणगहपतिका पिया
10 अहेसुं मनापा । सेय्यथापि, आनन्द, पितु पुत्ता पिया होन्ति मनापा; एवमेव
खो, आनन्द, रञ्जो पि महासुदस्सनस्स ब्राह्मणगहपतिका पिया अहेसु
मनापा ।

B 146 15 “भूतपुब्बं, आनन्द, राजा महासुदस्सनो चतुरङ्गिनिया सेनाय
उय्यानभूमि निव्यासि । अथ खो, आनन्द, ब्राह्मणगहपतिका राजानं महा-
सुदस्सनं उपसङ्कमित्वा एवमाहंसु — ‘अतरमानो, देव, याहि, यथा तं मयं
चिरतरं पस्सेय्यामा’ ति । राजा पि, आनन्द, महासुदस्सनो सारथि आमन्तेसि
— ‘अतरमानो, सारथि, रथ पेसेहि, यथा अहं ब्राह्मणगहपतिके चिरतर
पस्सेय्य’ ति । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाय चतुत्थिया’ इद्विया
समन्नागतो अहोसि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो इमाहि चतूहि इद्वीहि
20 समन्नागतो अहोसि ।

§ १०. धम्मपासादपोक्खरणी

१३. “अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि —
‘यन्नूनाहं इमासु तालन्तरिकासु धनुसते धनुसते पोक्खरणियो मापेय्य’ ति ।
“मापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासु तालन्तरिकासु
धनुसते धनुसते पोक्खरणियो । ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो चतुस्र वण्णानं
25 इट्ठकाहि चिता अहेसुं — एका इट्ठका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका
वेळुरियमया, एका फलिकमया ।

“तासु खो पनानन्द, पोक्खरणीसु चत्तारि चत्तारि सोपानानि अहेसुं
चतुस्रं वण्णानं — एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेळुरियमयं,
एकं फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया धम्भा अहेसुं,

रूपियमया सूचियो च उण्हीस च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया
 थम्भा अहेसु, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीस च । वेळुरियमयस्स सोपानस्स
 वेळुरियमया थम्भा अहेसु, फलिकमया सूचियो च उण्हीस च । फलिकमयस्स
 सोपानस्स फलिकमया थम्भा अहेसु, वेळुरियमया सूचियो च उण्हीस च ।
 ता खो पनानन्द, पोक्खरणियो द्वीहि वेदिकाहि परिविखत्ता अहेसु — एका 5
 वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया
 थम्भा अहेसु, रूपियमया सूचियो च उण्हीस च । रूपियमयाय वेदिकाय
 रूपियमया थम्भा अहेसु, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीस च । अथ खो,
 आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि — 'यन्नूनाह इमासु पोक्खरणीसु
 एवरूप माल रोपापेय्य — उप्पल पदुम कुमुद पुण्डरीक सच्चोतुक सच्चजनस्स 10
 अनावट' ति । रोपापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासु पोक्खरणीसु
 एवरूप माल — उप्पल पदुम कुमुद पुण्डरीक सच्चोतुक सच्चजनस्स
 अनावट ।

१४ "अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि —
 'यन्नूनाह इमासु पोक्खरणीन तीरे न्हापके पुरिसे ठपेय्य, ये आगतागत जन 15
 न्हापेस्सन्ती' ति । ठपेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासु पोक्खरणीन
 तीरे न्हापके पुरिसे, ये आगतागत जन न्हापेसु ।

"अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि — 'यन्नूनाह
 इमासु पोक्खरणीन तीरे एवरूप दान पट्टपेय्य — अन्न अन्नत्थिकस्स^१, पान
 पानत्थिकस्स, वत्थ वत्थत्थिकस्स, यान यानत्थिकस्स, सयन सयनत्थिकस्स, 20
 इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरञ्ज हिरञ्जत्थिकस्स, सुवण्ण सुवण्णत्थिकस्सा'
 ति । पट्टपेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तासु पोक्खरणीन तीरे
 एवरूप दान — अन्न अन्नत्थिकस्स, पान पानत्थिकस्स, वत्थ वत्थत्थिकस्स,
 यान यानत्थिकस्स, सयन सयनत्थिकस्स, इत्थि इत्थित्थिकस्स, हिरञ्ज
 हिरञ्जत्थिकस्स, सुवण्ण सुवण्णत्थिकस्सा ति । 25

१५ "अथ खो, आनन्द, ब्राह्मणगहपतिका प्हूत^२ सापतेय्य प्रादाय
 राजान महासुदस्सन उपसङ्कगित्वा एवमाहसु — 'इव, देव, प्हूत सापतेय्य
 देवस्सेव' उद्दिस्स आभत । त देवो पटिग्गण्हतू" ति । 'अल भो, ममपिद^३

१ अनावट — स्था०, अनावार — रो० । २ अन्नट्ठिकस्स — म० । ३ पट्टव — सी० ।

४ देव येव — रो०, देवञ्जेव — सी० । ५ पटिग्गण्हतु — सी०, स्था०, पटिग्गण्हतु — रे० ।

६ मम पि — रो० ।

पहूत सापतेय्य धम्मिकेन बलिना अभिसङ्कत, त च वो होतु, इतो च भिय्यो हरथा' ति । ते रञ्जा पटिक्खत्ता एकमन्त अपवकम्म एव समचिन्तेसु - 'न खो एत अम्हाक पतिरूप य इमानि सापतेय्यानि पुनदेव सकानि धरानि पटिहरेय्याम' । यन्नून मय रञ्जो महासुदस्सनस्स निवेसन मापेय्यामा'
 5 ति । ते राजान महासुदस्सन उपसङ्कमित्वा एवमाहसु - 'निवेसन ते, देव, मापेस्सामा'^१ ति । अधिवासेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तुण्हीभावेन ।

१६ "अथ खो, आनन्द, सक्को देवानमिन्दो रञ्जो महासुदस्सनस्स चेतसा चेतोपरिवित्तकमञ्जाय विस्सकम्म देवपुत्त आमन्तेसि -
 B 148 10 'एहि त्व, सम्म विस्सकम्म, रञ्जो महासुदस्सनस्स निवेसन मापेहि धम्म नाम पासाद' ति । 'एव भदन्तवा' ति^२ खो, आनन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा^३ - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जित वा वाह पसारैय्य, पसारित वा वाह समिञ्जेय्य, एवमेव - देवेषु तावतिसेसु अन्तरहितो रञ्जो महासुदस्सनस्स पुरतो पातुरहोसि । अथ खो,
 15 आनन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो राजान महासुदस्सन एतदवोच - 'निवेसन ते, देव, मापेस्सामि धम्म नाम पासाद' ति । अधिवासेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो तुण्हीभावेन ।

"मापेसि खो, आनन्द, विस्सकम्मो देवपुत्तो रञ्जो महासुदस्सनस्स निवेसन धम्म नाम पासाद । धम्मो, आनन्द, पासादो पुरत्थिमेन पच्छिमेन
 20 च योजन आयामेन अहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च अड्ढयोजन^४ वित्थारेन । धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स तिपोरिस उच्चतरेण वत्थु चित्त अहोसि चतुल्ल वण्णान इट्ठकाहि - एका इट्ठका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेळुरियमया, एका फलिकमया ।

"धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चतुरासीति थम्भसहस्सानि अहेसु
 25 चतुन्न वण्णान - एको थम्भो सोवण्णमयो, एको रूपियमयो, एको वेळुरियमयो, एको फलिकमयो । धम्मो, आनन्द, पासादो चतुन्न वण्णान फलकेहि सन्यतो अहोसि - एक फलक सोवण्णमय, एक रूपियमय, एक वेळुरियमय, एव फलिकमय ।

१ पटिहाराम - रो० पटिहारेय्याम - स्या० पटिहरेय्यामा ति - सी० । २ मापे य्यामा - स्या० । ३ भदन्ते ति - सी० । ४ पटिस्सुगित्वा - स्या० । ५ अट्ठयोजन - ती०, रो० ।

“धम्मस्स, आनन्द, पासादस्स चतुवीसति सोपानानि अहेसुं चतुन्नं वण्णानं - एकं सोपानं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेळुरियमयं, एकं फलिकमयं । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा अहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च । वेळुरियमयस्स सोपानस्स वेळुरियमया थम्भा अहेसुं, फलिकमया सूचियो च उण्हीसं च । फलिकमयस्स सोपानस्स फलिकमया थम्भा अहेसुं, वेळुरियमया सूचियो च उण्हीसं च ।

“धम्मे, आनन्द, पासादे चतुरासीति कूटागारसहस्सानि अहेसुं चतुन्नं वण्णानं - एकं कूटागारं सोवण्णमयं, एकं रूपियमयं, एकं वेळुरियमयं, एकं फलिकमयं । सोवण्णमये कूटागारे रूपियमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो अहोसि । रूपियमये कूटागारे सोवण्णमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो अहोसि । वेळुरियमये कूटागारे दन्तमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो अहोसि । फलिकमये कूटागारे सारमयो पल्लङ्को पञ्जत्तो अहोसि । सोवण्णमयस्स कूटागारस्स द्वारे रूपियमयो तालो ठितो अहोसि ; तस्स रूपियमयो खन्धो सोवण्णमयानि पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स कूटागारस्स द्वारे सोवण्णमयो तालो ठितो अहोसि ; तस्स सोवण्णमयो खन्धो रूपियमयानि पत्तानि च फलानि च । वेळुरियमयस्स कूटागारस्स द्वारे फलिकमयो तालो ठितो अहोसि ; तस्स फलिकमयो खन्धो वेळुरियमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स कूटागारस्स द्वारे वेळुरियमयो तालो ठितो अहोसि ; तस्स वेळुरियमयो खन्धो फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च ।

१७. “अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - ‘यन्नूनाहं महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे सोवण्णमयं तालवतं मापेय्यं, यत्थ दिवाविहारं निसीदिस्सामी’ ति । मापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे सब्बसोवण्णमयं तालवतं, यत्थ दिवाविहारं निसीदि । धम्मो, आनन्द, पासादो द्वीहि वेदिकाहि परिकिखत्तो अहोसि - एका वेदिका सोवण्णमया, एका रूपियमया । सोवण्णमयाय वेदिकाय सोवण्णमया थम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च । रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया थम्भा अहेसुं, सोवण्णमया सूचियो च उण्हीसं च ।

१८. “धम्मो, आनन्द, पासादो द्वीहि किङ्किणिकजालेहि परिकिखत्तो ३०

अहोसि - एक जाल सोवण्णमय, एक रूपियमय । सोवण्णमयस्स जालस्स रूपियमया किङ्किणिका अहेसु । रूपियमयस्स जालस्स सोवण्णमया किङ्किणिका अहेसु । तेस खो पनानन्द, किङ्किणिकजालान वातेरितान सद्दो अहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च । सेय्यथापि, आनन्द,

- B 150 5 पञ्चङ्गिकस्स तुरियस्स सुविनीतस्स सुप्पटिताळितस्स सुकुसलेहि समन्ना-
हतस्स सद्दो होति वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव
खो, आनन्द, तेस किङ्किणिकजालान वातेरितान सद्दो अहोसि वग्गु
च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च । ये खो पनानन्द, तेन समयेन
कुसावतिया राजधानिया धुत्ता अहेसु सोण्डा पिपासा, ते तेस किङ्किणिक-
10 जालान वातेरितान सद्देन परिचारेसु । निट्ठितो खो पनानन्द, धम्मो पासादो
दुट्ठिक्खो^१ अहोसि मुसति चक्खूनि । सेय्यथापि, आनन्द, वस्सान पच्छिमे
मासे सरदसमये विद्धे विगतवलाहके देवे आदिच्चो नभ अट्ठुग्गममानो^२
R 184 दुट्ठिक्खो होति^३ मुसति चक्खूनि, एवमेव खो, आनन्द, धम्मो पासादो
दुट्ठिक्खो अहोसि मुसति चक्खूनि ।

- 15 १६ “अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि -
‘यन्नूनाह धम्मस्स पासादस्स पुरतो धम्म नाम पोक्खरणि मापेय्य’
ति । मापेसि खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो धम्मस्स पासादस्स पुरतो
धम्म नाम पोक्खरणि । धम्मा^४, आनन्द, पोक्खरणी पुरत्थिमेन पच्छिमेन
च योजन आयामेन अहोसि, उत्तरेन दक्खिणेन च अट्ठुयोजन वित्थारेन ।
20 धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी चतुस्र वण्णान इट्ठुकाहि चिता अहोसि - एका
इट्ठुका सोवण्णमया, एका रूपियमया, एका वेळुरियमया, एका फलिकमया ।

- “धम्माय, आनन्द, पोक्खरण्या चतुवीसति सोपानानि अहेसु चतुस्र
वण्णान - एक सोपान सोवण्णमय, एक रूपियमय, एक वेळुरियमय, एक
फलिकमय । सोवण्णमयस्स सोपानस्स सोवण्णमया थम्भा अहेसु, रूपियमया
25 सूचियो च उण्हीस च । रूपियमयस्स सोपानस्स रूपियमया थम्भा अहेसु,
सोवण्णमया सूचियो च उण्हीस च । वेळुरियमयस्स सोपानस्स वेळुरियमया
थम्भा अहेसु, फलिकमया सूचियो च उण्हीस च । फलिकमयस्स सोपानस्स
फलिकमया थम्भा अहेसु, वेळुरियमया सूचियो च उण्हीस च ।

“धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी द्वीहि वेदिकाहि परिक्खित्ता अहोसि -

एका वेदिका सोवणमया, एका रूपियमया । सोवणमयाय वेदिकाय सोवणमया धम्भा अहेसुं, रूपियमया सूचियो च उण्हीसं च । रूपियमयाय वेदिकाय रूपियमया धम्भा अहेसुं, सोवणमया सूचियो च उण्हीसं च ।

“धम्मा, आनन्द, पोक्खरणी सत्तहि तालपन्तीहि परिविखत्ता अहोसि—
एका तालपन्ति सोवणमया, एका रूपियमया, एका वेळुरियमया, एका 5
फलिकमया, एका लोहितङ्कमया, एका मसारगल्लमया, एका सब्बरतन-
मया । सोवणमयस्स तालस्स सोवणमयो खन्धो अहोसि, रूपियमयानि
पत्तानि च फलानि च । रूपियमयस्स तालस्स रूपियमयो खन्धो अहोसि,
सोवणमयानि पत्तानि च फलानि च । वेळुरियमयस्स तालस्स वेळुरियमयो
खन्धो अहोसि, फलिकमयानि पत्तानि च फलानि च । फलिकमयस्स तालस्स 10
फलिकमयो खन्धो अहोसि, वेळुरियमयानि पत्तानि च फलानि च । लोहितङ्क-
मयस्स तालस्स लोहितङ्कमयो खन्धो अहोसि, मसारगल्लमयानि पत्तानि
च फलानि च । मसारगल्लमयस्स तालस्स मसारगल्लमयो खन्धो अहोसि,
लोहितङ्कमयानि पत्तानि च फलानि च । सब्बरतनमयस्स तालस्स सब्-
रतनमयो खन्धो अहोसि, सब्बरतनमयानि पत्तानि च फलानि च । तासं सो 15
पनानन्द, तालपन्तीनं वातेरितानं सद्दो अहोसि, वग्गु च रजनीयो च
कमनीयो च मदनीयो च । सेय्यथापि, आनन्द, पञ्चङ्गिकस्स तूरियस्स
सुविनीतस्स सुप्पटिताळितस्स सुकुसलेहि ममत्ताहतस्स मद्दो होति
वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च मदनीयो च, एवमेव सो, आनन्द, तासं
तालपन्तीनं वातेरितानं सद्दो अहोसि वग्गु च रजनीयो च कमनीयो च 20
मदनीयो च । ये सो पनानन्द, तेन समयेन कुसावतिया राजधानिया धुत्ता
अहेसु सोण्डा पिपासा, ते तासं तालपन्तीनं वातेरितानं मद्देन परिचारेणुं ।

“निट्ठिते सो पनानन्द, धम्मे पासादे निट्ठिताय धम्माय न पोक्ख-
रणिया, राजा महासुदस्सनो ये' तेन समयेन समणेमु वा समणसम्मता
ब्राह्मणेसु वा ब्राह्मणसम्मता, ते सब्बकामेहि मन्तप्पेत्वा धम्मं पासादं 25
अभिरुहि ।

पञ्चमभाष्यकारे ।

§ ११. ज्ञानसम्पत्ति

२०. “अयं सो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोनि —
‘किस्स नु खो मे इदं कम्मस्स फलं ? किस्स कम्मस्स विपाको येनाहं एतरहि

१. ये सो पनानन्द — स्था० । २ पञ्चमभाष्यकारे — म०; पञ्चमभाष्यकारं — रो० ।

R. 186

एवंमहिद्विको एवंमहानुभावो' ति ? अथ सो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - 'तिण्ण' सो मे इदं कम्ममं फलं, तिण्णं कम्ममं विपाको येनाहं एतरहि एवंमहिद्विको एवंमहानुभावो, संय्यथिदं - दानस्स, दमस्स, संयमस्सा' ति ।

5 "अथ सो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो येन महावियूहं कूटागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारे ठितो उदानं उदानेसि - 'तिट्ठ, कामवितक्क ! तिट्ठ, व्यापादवितक्क ! तिट्ठ, विहिंसा-वितक्क ! एत्तावता कामवितक्क, एत्तावता व्यापादवितक्क, एत्तावता विहिंसावितक्क' ति !

10 २१. "अथ सो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहं कूटागारं पविसित्वा सोवण्णमये पल्लङ्के निसिन्नो, विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुस-लेहि धम्मोहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं^१ ज्ञानं^२ उपसम्पज्ज विहासि । वितक्कविचारानं वूपसमा अज्जत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभाव अवितावकं^३ अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि ।
15 पीतिया च विरागा उपेक्खको^४ च विहासि सतो च सम्पज्जानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेसि^५ यं तं अरिया आचिक्खन्ति - 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी' ति ततियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना^६ पुब्बेव सोमनस्सदोमनस्सानं अत्थङ्गमा^७ अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि ।

20 २२. "अथ सो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो महावियूहा कूटागारा निक्खमित्वा सोवण्णमयं कूटागारं पविसित्वा रूपियमये पल्लङ्के निसिन्नो भेत्तासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्ताय सब्बावन्तं लोकं भेत्तासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेनं^८ फरित्वा विहासि । करुणासहगतेन चेतसा...पे०...मुदितासहगतेन चेतसा
B. 153 25 ...पे०...उपेक्खासहगतेन चेतसा एकं दिसं फरित्वा विहासि, तथा दुतियं, तथा
R. 187 ततियं, तथा चतुत्थं । इति उद्धमधो तिरियं सब्बधि सब्बत्ताय सब्बावन्तं लोकं उपेक्खासहगतेन चेतसा विपुलेन महग्गतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्या-पज्जेन फरित्वा विहासि ।

१. तिन - सी० । २-२ पठमज्ञान - स्या०, रो० । ३. उपेक्खा - रो० । ४. पटि-सवेदेति - स्या०, रो० । ५. पहाना - सी० । ६. अत्थगमा - रो० । ७. अब्यापज्जेन - रो० ।

§ १२ चतुरासीतिनगरसहस्सादि

२३ “रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति नगरसहस्सानि अहेसु कुसावतीराजधानिप्पमुखानि, चतुरासीति पासादसहस्सानि अहेसु धम्मपासादप्पमुखानि, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि अहेसु महावियूह-कूटागारप्पमुखानि, चतुरासीति पल्लङ्गसहस्सानि अहेसु सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोणकत्थतानि पट्टिकत्थतानि 5 पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो-लोहितकूपधानानि, चतुरासीति नागसहस्सानि अहेसु सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपट्टिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, चतुरासीति अस्ससहस्सानि अहेसु सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपट्टिच्छ- 10 न्नानि वलाहकयस्सराजप्पमुखानि, चतुरासीति रथसहस्सानि अहेसु सीहचम्मपरिवारानि, व्यक्वचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु-कम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णधजानि हेमजालपट्टिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि, चतुरासीति मणिसहस्सानि अहेसु मणिरतनप्प- 15 मुखानि, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि अहेसु सुभट्टादेविप्पमुखानि, चतुरा-सीति गहपतिसहस्सानि अहेसु गहपतिरतनप्पमुखानि, चतुरासीति खत्तिय-सहस्सानि अहेसु अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, चतुरासीति धेनुसहस्सानि अहेसु दुहसन्दनानि कसूपधारणानि, चतुरासीति वत्थकोटि- 20 सहस्सानि अहेसु खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान कोसेय्यसुखुमान कम्बल-सुखुमान, रञ्जो, आनन्द, महासुदस्सनस्स चतुरासीति थालिपाक-सहस्सानि अहेसु, साय पात भत्ताभिहारो अभिहरियित्थ ।

२४ “तेन खो पनानन्द, समयेन रञ्जो महासुदस्सनस्स चतुरासीति नागसहस्सानि साय पात उपट्टान आगच्छन्ति । अथ खो, आनन्द, रञ्जो महासुदस्सनस्स एतदहोसि - ‘इमानि खो मे चतुरासीति नाग-सहस्सानि साय पात उपट्टान आगच्छन्ति । यन्नून वस्ससतस्स वस्ससतस्स 25 अच्चयेन द्वेचत्तालीस द्वेचत्तालीस नागसहस्सानि सकिं सकिं उपट्टान आगच्छेय्यु’ति । अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो परिणायकरतन आमन्तेसि - ‘इमानि खो मे, सम्म परिणायकरतन, चतुरासीति नागसहस्सानि

१ कद्वि० - स्या० । मिगपच्चत्थरणानि - रो० । २० कुपधानानि - स्या० ।

३ इत्थी० - स्या० । ४ बुकलसन्धानि - रो० । ५ कसुपधारणानि - स्या० । ६-६ सी०, रो० पोत्थकेयु नत्थि । ७ गच्छन्ति - सी० ।

सायं पातं उपट्टानं आगच्छन्ति । तेन हि, सम्म परिणायकरतन, वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन द्वेचत्तालीसं द्वेचत्तालीसं नागसहस्सानि सकिं सकिं उपट्टानं आगच्छन्तू” ति । “एवं, देवा” ति खो, आनन्द, परिणायकरतनं रञ्जो महासुदस्सनस्स पच्चस्सोसि । अथ खो, आनन्द, रञ्जो महा-

5 सुदस्सनस्स अपरेण समयेण वस्ससतस्स वस्ससतस्स अच्चयेन द्वेचत्तालीसं द्वेचत्तालीसं नागसहस्सानि सकिं सकिं उपट्टानं आगमंसु ।

§ १३. सुभद्दादेविउपसङ्कमनं

२५. “अथ खो, आनन्द, सुभद्दाय देविया बहुन्नं वस्सानं बहुन्नं वस्ससहस्सानं अच्चयेण एतदहोसि — ‘चिरं दिट्ठो खो मे राजा महासुदस्सनो, यन्नूनाहं राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय उपसङ्कमेय्यं’ ति । अथ खो, आनन्द,

10 सुभद्दा देवी इत्थागारं आमन्तेसि — ‘एथ तुम्हे सीसानि न्हायथ, पीतानि वत्थानि पारुपथ । चिरं दिट्ठो नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सामा’ ति । ‘एवं, अय्ये’ ति खो, आनन्द, इत्थागारं सुभद्दाय देविया पटिस्सुत्वा सीसानि न्हायित्वा पीतानि वत्थानि पारुपित्वा येण सुभद्दा देवी तेनुपसङ्कमि । अथ खो, आनन्द, सुभद्दा देवी

15 परिणायकरतनं आमन्तेसि — ‘कप्पेहि, सम्म परिणायकरतन, चतुरङ्गिणि सेनं । चिरं दिट्ठो नो राजा महासुदस्सनो । राजानं महासुदस्सनं दस्सनाय उपसङ्कमिस्सामा’ ति । ‘एवं, देवी’ ति खो, आनन्द, परिणायकरतनं सुभद्दाय देविया पटिस्सुत्वा चतुरङ्गिणि सेनं कप्पापेत्वा सुभद्दाय देविया पटिवेदेसि — ‘कप्पिता खो, देवि, चतुरङ्गिणी सेना । यस्स दानि कालं मञ्जसी’ ति ।

20 अथ खो, आनन्द, सुभद्दा देवी चतुरङ्गिनिया सेनाय सद्धिं इत्थागारेण येण धम्मो पासादो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा धम्मं पासादं अभिह्वित्वा येण महावियूहं कूटागारं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा महावियूहस्स कूटागारस्स द्वारवाहं आलम्बित्वा अट्टासि । अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो सद्दं मुत्वा — ‘किं नु खो महतो विय जनकायस्स सद्दो’ ति महावियूहा कूटागारा

25 निवसमन्तो अद्दस सुभद्दं देविं द्वारवाहं आलम्बित्वा ठितं । दिस्वान सुभद्दं देवि एतदवोच — ‘एत्थेव, देवि, तिट्ठ, मा पाविसी’ ति । अथ खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो अञ्जतरं पुरिसं आमन्तेसि — ‘एहि त्वं, अम्मो पुरिस, महावियूहा कूटागारा सोवण्णमयं पल्लकं नीहरित्वा सव्वसोवण्णमये तालयणे पञ्चपेही’ ति । ‘एवं, देवा’ ति खो, आनन्द, नो पुरिसो रञ्जो महा-

सुदस्सनस्य पटिस्सुत्वा महावियूहा कूटागारा सोवण्णमयं पल्लङ्कं नीहरित्वा
सत्त्वसोवण्णमये तालवने पञ्जपेसि । अथ सो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो
दक्खिण्णेन पस्सेन सीहसेय्यं कप्पेसि पादे पादं अच्चाधाय सतो सम्पजानो ।

२६. “अथ खो, आनन्द, सुभहाय देविया एतदहोसि — ‘विप्पसन्नानि
सो रञ्जो महासुदस्सनस्स इन्द्रियाणि, परिमुद्धो’ छविवण्णो परियोदातो, 5
मा हेव सो राजा महासुदस्सनो कालमकासी’ ति राजानं महासुदस्सनं एतद-
योच —

‘इमानि ते, देव, चतुरासीति नगरसहस्सानि कुसावतीराजघानि-
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते,
देव, चतुरासीति पासावसहस्सानि धम्मपासावप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं 10
जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति कूटागर-
सहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते
अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्ण-
मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गौनकत्थतानि पटिकत्थतानि 15
पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो-
लोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि ।
इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्ण-
घजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि । एत्थ, देव,
छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति अस्स-
सहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वलाहक- 20
अस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि ।
इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्घचम्म-
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि
सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ,
देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति 25
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते
अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतन-
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव,
चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि,
जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि 30

अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते
 अपेक्खं करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि
 कंसूपधारणानि । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं करोहि । इमानि
 ते, देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं
 5 कोसेव्यसुखुमानं कम्बलसुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं
 करोहि । इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय पात
 भत्ताभिहारो अभिहरियति' । एत्थ, देव, छन्दं जनेहि, जीविते अपेक्खं
 करोही' ति ।

२७. "एवं वुत्ते, आनन्द, राजा महासुदस्सनो सुभद्दं देवि एतदवोच-

10 'दीघरत्तं खो मं त्वं, देवि, इट्ठेहि कन्तेहि पियेहि मनापेहि
 समुदाचरित्थ; अथ च पन मं त्वं पच्छिमे काले अनिट्ठेहि अकन्तेहि
 अप्पियेहि अमनापेहि समुदाचरसी' ति ।

'कथं चरहि तं, देव, समुदाचरामी' ति ?

'एवं खो मं त्वं, देवि, समुदाचर -

15 सब्बेहेव, देव, पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथाभावो ।
 मा खो त्वं, देव, सापेक्खो कालमकासि । दुक्खा सापेक्खस्स कालकिरिया,
 गरहिता च सापेक्खस्स कालकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति नगर-
 सहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते
 अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासाद-
 20 प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि
 ते, देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महाविपूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ,
 देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
 पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोन्-
 कत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिमिगपवरपच्चत्थरणानि
 25 सउत्तरच्छदानि उभतोलीहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते
 अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णा-
 लङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्यमुखानि ।
 एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
 अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि
 30 वलाहकअस्सराजप्यमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीविते अपेक्खं माकासि ।

इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्धचम्म-
परिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि
सोवण्णधजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि । एत्थ, देव,
छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति मणि-
सहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं 5
माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्रादेविप्पमुखानि ।
एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते
अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अनुयन्तानि
परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । 10
इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूपधारणानि ।
एत्थ देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेव्यसुखुमानं कम्बल-
सुखुमानं । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । इमानि ते देव
चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियति । एत्थ, 15
देव, छन्द पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासी' ति ।

२८. "एवं वृत्ते, आनन्द, सुभद्रा देवी परोदि, अस्सूनि पवत्तेसि ।
अथ खो, आनन्द, सुभद्रा देवी अस्सूनि पुञ्छित्वा' राजानं महासुदस्सणं
एतदवोच - 'सब्बेहेव, देव, पियेहि मनापेहि नानाभावो विनाभावो अञ्जथा-
भावो । मा खो त्वं, देव, सापेक्खो कालमकासि । दुक्खा सापेक्खस्स कालं- 20
किरिया, गरहिता च सापेक्खस्स कालंकिरिया । इमानि ते, देव, चतुरासीति
नगरसहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते
अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति पासादसहस्सानि धम्मपासाद-
प्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । इमानि ते,
देव, चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि । एत्थ, 25
देव, छन्दं पजह, जीवित्ते अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्णमयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि
गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिभिगपवरपच्चत्थरणानि
सउत्तरच्छदानि उभतोलोहितकूपधानानि । एत्थ, देव, छन्दं पजह, जीवित्ते
अपेक्खं माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णा- 30

लङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि ।
एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि

वलाहकअस्सराजप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख
5 माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि
व्यग्घचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डुकम्बलपरिवारानि सोवण्णा-

लङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि वेजयन्तरथप्पमुखानि ।
एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
मणिसहस्सानि मणिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख

10 माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति इत्थिसहस्सानि इत्थिरतनप्पमुखानि ।
एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति
गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते

अपेक्ख माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति खत्तियसहस्सानि अनु-
यन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख

15 माकासि । इमानि ते, देव, चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कसूप-
घारणानि । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख माकासि । इमानि ते,
देव, चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमान कप्पासिकसुखुमान कोसेय्य-
सुखुमान कम्बलसुखुमान । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख माकासि ।
इमानि ते, देव, चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि साय पात भत्ताभिहारो
20 अभिहरियति । एत्थ, देव, छन्द पजह, जीविते अपेक्ख माकासो' ति ।

§ १४ सङ्कारानं घनिच्चभावो

२६ "अय खो, आनन्द, राजा महासुदस्सनो नचिरस्सेव काल-
मकासि । सेय्यथापि, आनन्द, गहपतिस्स वा गहपतिपुत्तस्स वा मनुञ्ज
R 196 भोजनं भुत्ताविस्स भत्तसम्मदो होति, एवमेव खो, आनन्द, रञ्जो महा-
सुदस्सनस्स मारणन्तिका वेदना अहोसि । कालङ्कतो च, आनन्द, राजा
25 महासुदस्सनो सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपज्जि । राजा, आनन्द, महासुदस्सनो
चतुरासीति वस्सासहस्सानि कुमारकीळ^१ कीळि, चतुरासीति वस्सासहस्सानि
ओपरज्ज कारेसि, चतुरासीति वस्ससहस्सानि रज्ज कारेसि, चतुरासीति
वस्ससहस्सानि गिहिभूतो^२ घम्मे पासादे ब्रह्मचरिय चरि^३ । सो चत्तारो

१ ० सुमदादेविपमुखानि - रो० । २ ० कीळि - सी०, रो० । ३ गिहीभनो - सी०,
रो० । ४ ब्रह्मचरियमचरि - इति वि ।

ब्रह्मविहारे भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा ब्रह्मलोकूपगो अहोसि ।

३०. "सिया खो पनानन्द, एवमस्स - 'अञ्जो नून तेन समयेन राजा महासुदस्सनो अहोसी' ति, न खो पनेतं, आनन्द, एवं दट्ठव्वं । अहं तेन समयेन राजा महासुदस्सनो अहोसिं । मम तानि चतुरासीति नगर-सहस्सानि कुसावतीराजधानिप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पासाद- 5 सहस्सानि धम्मपासादप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति कूटागारसहस्सानि महावियूहकूटागारप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति पल्लङ्कसहस्सानि सोवण्ण-मयानि रूपियमयानि दन्तमयानि सारमयानि गोनकत्थतानि पटिकत्थतानि पटलिकत्थतानि कदलिभिगपवरपच्चत्थरणानि सउत्तरच्छदानि उभतो-लोहितकूपधानानि, मम तानि चतुरासीति नागसहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि 10 सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि उपोसथनागराजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति अस्ससहस्सानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजाल-पटिच्छन्नानि बलाहकअस्सराराजप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति रथसहस्सानि सीहचम्मपरिवारानि व्यग्घचम्मपरिवारानि दीपिचम्मपरिवारानि पण्डु-कम्बलपरिवारानि सोवण्णालङ्कारानि सोवण्णघजानि हेमजालपटिच्छन्नानि 15 वेजयन्तरथप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति मणिसहस्सानि मणिरतनप्प-मुखानि, मम तानि चतुरासीति इत्थिसहस्सानि सुभद्दादेविप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति गहपतिसहस्सानि गहपतिरतनप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति खत्तिसहस्सानि अनुयन्तानि परिणायकरतनप्पमुखानि, मम तानि चतुरासीति धेनुसहस्सानि दुहसन्दनानि कंसूपधारणानि, मम तानि 20 चतुरासीति वत्थकोटिसहस्सानि खोमसुखुमानं कप्पासिकसुखुमानं कोसेत्थ-सुखुमानं कम्बलसुखुमानं, मम तानि चतुरासीति थालिपाकसहस्सानि सायं पातं भत्ताभिहारो अभिहरियित्थ ।

३१. "तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिनगरसहस्सानं एकञ्जेव तं नगरं होति, यं तेन समयेन अज्झावसामि - यदिदं कुसावती राजधानी । 25 तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिपासादसहस्सान एको येव सो पासादो होति, यं तेन समयेन अज्झावसामि - यदिदं धम्मो पासादो । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिकूटागारसहस्सानं एकञ्जेव तं कूटागारं होति, यं तेन समयेन अज्झावसामि - यदिदं महावियूहं कूटागारं । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति-पल्लङ्कसहस्सानं एको येव सो पल्लङ्को होति, यं तेन समयेन परिभुञ्जामि - 30 यदिदं सोवण्णमयो वा रूपियमयो वा दन्तमयो वा सारमयो वा । तेसं खो

R.198

पनानन्द, चतुरासीतिनागसहस्सानं एको येव सो नागो होति, यं तेन समयेन अभिरुहामि — यदिदं उपोसथो नागराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीति-
अस्सासहस्सानं एको येव सो अस्सो होति, यं तेन समयेन अभिरुहामि — यदिदं
वलाहको अस्सराजा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिरथसहस्सानं एको येव

5 सो रथो होति, यं तेन समयेन अभिरुहामि — यदिदं वेजयन्तरथो । तेसं खो
B.161 पनानन्द, चतुरासीतिइत्थिसहस्सानं एका येव सा इत्थी होति, या' तेन
समयेन पच्चुपट्ठाति — खत्तियानी^१ वा वेस्सिनी^१ वा । तेसं खो पनानन्द,
चतुरासीतिवत्थकोटिसहस्सानं एकं येव तं दुस्सयुगं होति, यं तेन समयेन
परिदहामि — खोमसुखुमं वा कप्पासिकसुखुमं वा कोसेय्यसुखुमं वा कम्बल-
10 सुखुमं वा । तेसं खो पनानन्द, चतुरासीतिथालिपाकसहस्सानं एको येव सो
थालिपाको होति, यतो नाळिकोदनपरमं^२ भुञ्जामि तदुपियं च सूपेय्यं ।

३२. “पस्सानन्द, सब्वेते सङ्खारा अतीता निरुद्धा विपरिणता ।
एवं अनिच्चा खो, आनन्द, सङ्खारा; एवं अद्दुवा^३ खो, आनन्द, सङ्खारा;
एवं अनस्सासिका खो, आनन्द, सङ्खारा ! थावञ्चिदं, आनन्द, अलमेव
15 सब्वसङ्खारेसु निव्विन्दितुं, अलं विरज्जितुं, अलं विमुच्चितुं ।

“छक्खत्तुं खो पनाहं, आनन्द, अभिजानामि इमस्मि पदेसे सरीरं
निक्खिपितं, तं^४ च खो राजाव समानो चक्कवत्ती धम्मिको धम्मराजा
चातुरन्तो विजितावी जनपदत्थावरियपत्तो सत्तरतनसमन्नागतो । अयं सत्तमो
सरीरनिक्खेपो । न खो पनाहं, आनन्द, तं पदेसं समनुपस्सामि सदेवके लोके
R.199 20 समारके सन्नह्हाके सस्समणब्राह्मणिया पजाय सदेवमनुस्साय यत्थ तथागतो
अट्टमं सरीरं निक्खिपेय्या” ति ।

इदमवोच भगवा । इदं वत्वान^५ सुगतो अथापरं एतदवोच सत्या-

“अनिच्चा वत सङ्खारा,
उप्पादवयधम्मिनो ।

25

उप्पज्जित्वा निरुज्जन्ति,
तेसं धूपसमो सुखो” ति ॥

महासुदस्सनसुतं निवृत्तं चतुत्थं ।

—:०:—

१. या मं-रो० । २. यत्तियोनि-सं०; यत्तियनी-रो० । ३. वेस्सायिनी-स्या० ;
वेत्तायिनी-रो० । ४. नाळिकोदनपरमं-सी० ; नाळिकोदनं परमं-स्या० । ५. प्रपुवा-
स्या० । ६. यं-स्या० । ७. वत्ता-सी०, रो० ।

५. जनवसभसुत्तं

१. मागधके आरब्ध आनन्दस्स परिकया

१. एयं मे सुत्तं । एकं समयं भगवा नादिके^१ विहरति गिञ्जका-
वसथे । तेन सो पन समयेन भगवा परितो परितो जनपदेसु परिचारके
अबभतीते कालङ्कते^२ उपपत्तीसु व्याकरोति^३ कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेसु
चेतियवंसेसु^४ कुरुपञ्चालेसु सूरसेनेसु^५ - "असु अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र
उपपन्नो । परोपञ्जास^६ नातिकिया^७ परिचारका अबभतीता कालङ्कता
पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिवसया ओपपातिका तत्थ परिनिब्बा-
यिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुत्ति नातिकिया परिचारिका
अबभतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिवसया रागदोसमोहानं तनुत्ता
सकदागामिनो, सकिदेव^८ इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति;
सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अबभतीता कालङ्कता
तिण्णं संयोजनानं परिवसया सोत्तापन्ना अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधि-
परायणा" ति ।

२. अस्सोसुं सो नातिकिया परिचारका - "भगवा किर परितो
परितो जनपदेसु परिचारके अबभतीते कालङ्कते उपपत्तीसु व्याकरोति
कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्झसूरसेनेसु - 'असु
अमुत्र उपपन्नो, असु अमुत्र उपपन्नो । परोपञ्जास नातिकिया परिचारका
अबभतीता कालङ्कता पञ्चन्नं श्रोरम्भागियानं संयोजनानं परिवसया ओप-
पातिका तत्थ परिनिब्बायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुत्ति
नातिकिया परिचारका अबभतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिवसया
रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अबभतीता
कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिवसया सोत्तापन्ना अविनिपातधम्मा नियता
सम्बोधिपरायणा' ति । तेन च; नातिकिया परिचारका अत्तमना अहेसुं
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्चवेय्याकरणं^९ सुत्वा" ।

१. नातिके - म०, सी० । २. कालङ्कते - सी०, रो० । ३. व्याकरोति - रो० । ४.
चेतियंसेसु - म०, स्वा०, रो० । ५. मज्झसूरसेनेसु - सी०, रो० । ६. परोपञ्जासं - सी० ।
७. नातिकिया - स्वा०, रो० । ८. सकि देव - इति नि । ९. पञ्चवेय्याकरणं - स्वा० ।

३. अस्तोसि खो आयस्मा आनन्दो - "भगवा किर परितो परितो जनपदेसु परिचारके अब्भतीते कालङ्कते उपपत्तीसु व्याकरोति कासिकोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्झसूरसेनेसु - 'असु अमुत्र उपपत्तो, असु अमुत्र उपपत्तो । परोपञ्चास नातिकिया परिचारका अब्भतीता काल-
 5 ङ्कता पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिकखया ओपपातिका तत्थ परिनिव्वायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुति नातिकिया परिचारका अब्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिकखया रागदोसमोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिकिया परिचारका अब्भतीता कालङ्कता तिण्णं
 10 संयोजनानं परिकखया सोतापत्ता अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा' ति । तेन च नातिकिया परिचारका अत्तमना अहेसुं पमुदिता पीतिसोमनस्स-जाता भगवतो पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा" ति ।

R. 202

४. अथ खो आयस्मतो आनन्दस्स एतदहोसि - "इमे खो पना पि अहेसुं मागयका' परिचारका वहू चेव रत्तञ्जू च अब्भतीता कालङ्कता ।
 15 सुञ्जा मञ्जे अङ्गमगघा अङ्गमागघकेहि' परिचारकेहि अब्भतीतेहि कालङ्कतेहि । ते' खो पना पि अहेसुं बुद्धे पसन्ना धम्मे पसन्ना सद्धे पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनो, ते अब्भतीता कालङ्कता भगवता अब्ब्याकता; तेसं' पिस्स' साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति' । अयं खो पना पि अहोसि राजा मागघो सेनियो विम्बिसारो धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मण-
 20 गहपतिकानं नेगमानं चेव जनपदानं च । अपिस्सुदं मनुस्सा कित्तयमानरूपा' विहरन्ति - 'एवं नो सो धम्मिको धम्मराजा सुसापेट्वा कालङ्कतो । एवं मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्जो विजिते फासुं' विहरिम्हा' ति । सो खो पना पि अहोसि बुद्धे पसन्तो धम्मे पसन्तो सद्धे पसन्तो सीलेसु परिपूरकारी' । अपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंसु - 'याव मरणकाला पि राजा मागघो सेनियो
 25 विम्बिसारो भगवन्तं कित्तयमानरूपो कालङ्कतो' ति । सो अब्भतीतो कालङ्कतो भगवता अब्ब्याकतो; तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगति । भगवतो गो पन गम्बोधि मगघेसु । मत्थ गो भगवतो गम्बोधि मगघेसु, कयं तत्र भगवा मागघके परिचारके अब्भतीते

B. 164

कालङ्कते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य । भगवा चे खो पन भागधके परिचारके
अव्भतीते कालङ्कते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना' तेनस्सु भागधका
परिचारका; येन खो पनस्सु दीनमना भागधका परिचारका - कथं ते भगवा
न व्याकरेय्या" ति ?

५. इदमायस्मा आनन्दो भागधके परिचारके आरम्भ एको रहो 5
अनुविचिन्तेत्वा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्वाय येन भगवा तेनुपसङ्कमि;
उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो
आयस्मा आनन्दो भगवन्तं एतदवोच - "सुतं मेतं, भन्ते - 'भगवा किर परितो
परितो जनपदेसु परिचारके अव्भतीते कालङ्कते उपपत्तीसु व्याकरोति कासि-
कोसलेसु वज्जिमल्लेसु चेतियवंसेसु कुरुपञ्चालेसु मज्जसूरसेनेसु - असु अमत्र 10
उपपन्नो, असु अमत्र उपपन्नो; परोपञ्जास नातिक्रिया परिचारका अव्भ-
तीता कालङ्कता पञ्चन्नं ओरम्भागियानं संयोजनानं परिक्खया ओपपातिका
तत्थ परिनिव्वायिनो अनावत्तिधम्मा तस्मा लोका; साधिका नवुत्ति नाति-
क्रिया परिचारका अव्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया रागदोस-
मोहानं तनुत्ता सकदागामिनो, सकिदेव इमं लोकं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं 15
करिस्सन्ति; सातिरेकानि पञ्चसतानि नातिक्रिया परिचारका अव्भतीता
कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिक्खया सोतापन्ना अविनिपातधम्मा नियता
सम्बोधिपरायणा ति । तेन च नातिक्रिया परिचारका अत्तमना अहेसुं
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो पञ्हुवेय्याकरणं सुत्वा' ति । इमे
खो पना पि, भन्ते, अहेसुं भागधका परिचारका वहू चैव रत्तञ्जू च अव्भ- 20
तीता कालङ्कता । सुञ्जा मञ्जे अङ्गभागधा अङ्गभागधकेहि परिचारकेहि
अव्भतीतेहि कालङ्कतेहि । ते खो पना पि, भन्ते, अहेसुं बुद्धे पसन्ना धम्मे
पसन्ना सङ्घे पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिनो, ते अव्भतीता कालङ्कता भगवता
अव्याकता; तेसं पिस्स साधु, वेय्याकरणं, बहुजनो पसीवेय्य, ततो गच्छेय्य
सुगति । अयं खो पना पि, भन्ते, अहोसि. राजा भागधो सेनियो विम्बिसारो 25
धम्मिको धम्मराजा हितो ब्राह्मणगहपतिकानं नेगमानं चैव जनपदानं च-
अपिस्सुदं मनुस्सा कित्तयमानरूपा विहरन्ति - 'एवं नो सो धम्मिको धम्म-
राजा सुखापेत्वा कालङ्कतो । एवं मयं तस्स धम्मिकस्स धम्मरञ्जो विजित्ते
फासु विहरिम्हा' ति । सो खो पना पि, भन्ते, अहोसि बुद्धे पसन्नो धम्मे
पसन्नो सङ्घे पसन्नो सीलेसु परिपूरकारी । अपिस्सुदं मनुस्सा एवमाहंसु - 30

‘याव मरणकाला पि राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो भगवन्तं कित्तय-
मानरूपो कालङ्कतो’ ति । सो अब्भतीतो कालङ्कतो भगवता अब्बान्केतो;
तस्स पिस्स साधु वेय्याकरणं, बहुजनो पसीदेय्य, ततो गच्छेय्य सुगतिं ।
भगवतो खो पन, भन्ते, सम्बोधि मागधेसु । यत्थ खो पन, भन्ते, भगवतो
5 सम्बोधि मागधेसु, कथं तत्र भगवा मागधके परिचारके अब्भतीते कालङ्कते
उपपत्तीसु न व्याकरेय्य ? भगवा चे खो पन, भन्ते, मागधके परिचारके
अब्भतीते कालङ्कते उपपत्तीसु न व्याकरेय्य, दीनमना तेनस्सु मागधका
परिचारका; येन खो पनस्सु दीनमना मागधका परिचारका – कथं ते भगवा
न व्याकरेय्या” ति ।

10 इदमायस्मा आनन्दो मागधके परिचारके आरब्ध भगवतो सम्मुखा
परिकथं कत्वा उट्ठायासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदविक्षणं कत्वा पक्कामि ।

§ २. जनवसभयवस्स पातुभावो

६. अथ खो भगवा अचिरपक्कन्ते आयस्मन्ते आनन्दे पुट्ठण्हसमयं
निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय नातिकं पिण्डाय पाविसि । नातिके पिण्डाय
चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिवक्कन्तो पादे पक्खालेत्वा गिञ्जकावसथं
15 पविसित्वा मागधके परिचारके आरब्ध अट्टिकत्वा मनसिकत्वा सब्बं चेतसा
समन्नाहरित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदि – “गतिं नेसं जानिस्सामि अभि-
सम्परायं, यंगतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया” ति । अट्ठसा खो भगवा
मागधके परिचारके यंगतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ति । अथ खो
भगवा सायण्हसमयं पटिसल्लाना वुट्ठितो गिञ्जकावसथा निक्खमित्वा
20 विहारपच्छायायं पञ्जत्ते आसने निसीदि ।

७. अथ खो आयस्मा आनन्दो येन भगवा तेनुपसङ्गमि; उपसङ्क-
मित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो आयस्मा
आनन्दो भगवन्तं एतदवोच – “उपसन्तपदिस्सो”, भन्ते भगवा, भातिरिब
भगवतो मुखवण्णो विप्पसन्नत्ता इन्द्रियानं । सन्तेन नूनज्ज, भन्ते, भगवा
25 विहारेण विहासी” ति ।

“यदेव खो मे त्वं, आनन्द, मागधके परिचारके आरब्ध सम्मुखा
परिकथं कत्वा उट्ठायासना पक्कन्तो, तदेवाहं नातिके पिण्डाय चरित्वा पच्छा-
भत्तं पिण्डपातपटिवक्कन्तो पादे पक्खालेत्वा गिञ्जकावसथं पविसित्वा मागधके

१. ताय – रो०, सी० । २. पट्टि कत्वा – म० । ३-३. सब्बचेतसो – रो० । ४. उपसन्त-
पतिसो – सी०; उपसन्तपतिसो – रया०, उपसन्तपतिसो – रो० ।

परिचारके आरब्ध अर्द्धि कृत्वा मनसिकृत्वा सर्व्वं चेतसा समज्ञाहरित्वा पञ्चस्र्त्ते
आसने निसीदि - 'गतिं नेशं जानिस्सामि अभिसम्परायं यंगतिका ते भवन्तो
यंअभिसम्पराया' ति । अद्दसं खो अहं, आनन्द, मागधके परिचारके यंगतिका
ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ति ।

८. "अथ खो, आनन्द, अन्तरहितो यक्खो सद्दमनुस्सावेसि - 'जन- 5
वसभो अहं, भगवा, जनवसभो अहं, सुगता' ति । अभिजानासि नो त्वं, आनन्द,
इतो पुब्बे एवरूपं नामधेय्यं सुतं यदिदं जनवसभो" ति? . . .

"न खो अहं, भन्ते, अभिजानामि इतो पुब्बे एवरूपं नामधेय्यं सुत
यदिदं जनवसभो ति । अपि च मे, भन्ते, लोमानि ह्हुदानि 'जनवसभो' ति
नामधेय्यं सुत्वा । तस्स मय्हं, भन्ते, एतदहोसि - 'न हि नून सो ओरको 10
यक्खो भविस्सति यदिदं एवरूपं नामधेय्यं सुपञ्चस्र्त्तं यदिदं जनवसभो'" ति ।

"अनन्तरा खो, आनन्द, सद्दपातुभावा उल्लारवणो मे यक्खो सम्मुखे
पातुरहोसि । दुतियं पि सद्दमनुस्सावेसि - 'विम्बिसारो अहं, भगवा, विम्बि-
सारो अहं, सुगता ति । इदं सत्तमं खो अहं, भन्ते, वेस्सवणस्स महाराजस्स
सहव्यतं उपपज्जामि, सो ततो चुतो मनुस्सराजा भवितु पहोमि' । 15

'इतो सत्त ततो रात्त, ससारानि चतुद्दस ।

निवासगभिजानामि, यत्थ मे वुसितं पुरे ॥

९. 'दीघरत्तं खो अहं, भन्ते, अविनिपातो अविनिपात सञ्जानामि,
आसा च पन मे सन्तिट्ठति सकदागामिताया' ति ।

"अच्छरियमिदं आयस्मतो जनवसभस्स यक्खस्स, अब्भुत्तमिदं आय- 20
स्मतो जनवसभस्स यक्खस्स । 'दीघरत्तं खो अहं, भन्ते, अविनिपातो अवि-
निपातं सञ्जानामी,' ति च वदेसि 'आसा च पन मे सन्तिट्ठति सकदा-
गामिताया' ति च वदेसि । कुतोनिदानं पनायस्सा जनवसभो यक्खो एवरूपं
उल्लारं विसैसाधिगमं सञ्जानाती" ति ?

'न अञ्जत्र, भगवा, तव सासना ; न अञ्जत्र', सुगत, तव सासना । 25
यदग्गे अहं, भन्ते, भगवति एकन्तिकतो" अभिप्पसन्नो तदग्गे अहं, भन्ते,
दीघरत्तं अविनिपातो अविनिपातं सञ्जानामि, आसा च पन मे सन्तिट्ठति-
सकदागामिताय । इधाहं, भन्ते, वेस्सवणेन महाराजेन पेसितो विरूह्हकस्स
महाराजस्स सन्तिके केनचिदेव करणीयेन अद्दसं भगवन्त अन्तरामग्गे गिञ्ज-

- कावसथं पविसित्वा भागधके परिचारके आरब्ध अट्टि कत्वा मनसिकत्वा सव्यं चेतसा समन्नाहरित्वा निसिन्नं - गति नेसं जानिस्सामि अभिसम्परायं यंगतिका ते भगवन्तो यंअभिसम्पराया ति । अच्छरियं सो पनेतं, भन्ते, यं वेस्सवणस्स महाराजस्स तस्सं परिसायं भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिगा-
- 5 हितं - यंगतिका ते भवन्तो यंअभिसम्पराया ति । तस्स मय्हं, भन्ते, एतद-
 होसि - भगवन्तं च दक्खामि, इदं च भगवतो आरोचेस्सामी ति । इमे सो मे, भन्ते, द्वेषच्चया भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्गमितुं ।

§ ३. सुधम्माय सभाय वण्णना, श्रह्मणो पातुभावो

B. 168

१०. 'पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदद्दुपोसथे पन्नरसे वस्सूपनायिकाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावतिसा
- 10 सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्नपतिता, महतो च दिव्वा परिता' समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसा निसिन्ना होन्ति । पुरत्थिमाय दिसाय धतरट्ठो महाराजा पच्छिमाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; दक्खिणाय दिसाय विरुब्भयो महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरुपवसो महाराजा पुरत्थाभिमुखो
- 15 निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्खिणाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा । यदा, भन्ते, केवलकप्पा च देवा तावतिसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्नपतिता, महतो च दिव्वा परिता समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसा निसिन्ना होन्ति; इदं नेसं होति आसनेस्मि, अथ पच्छा अग्गाकं आसनें होति । ये
- 20 ते, भन्ते, देवा भगवति श्रह्मचरियं चरित्वा धधुनुपपन्ना तावतिसायं ते अज्जे

R. 200

ते अञ्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना ।

सावका भूरिपञ्जस्ता, विसेसूपगता इध ॥

इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका ।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मत्तं ति ॥

‘तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा भिय्थोसोमत्ताय अत्तमना होन्ति 5
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिव्वा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति
असुरकाया ति । अथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिसा सुधम्मार्यं सभायं
सन्निसिन्ना होन्ति सन्नपतिता तं अत्थं चिन्तयित्वा तं अत्थं मन्तयित्वा वुत्त-
वचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मि अत्थे होन्ति, पञ्चानुसिद्धवचना पि
तं चत्तारो महाराजानो तस्मि अत्थे होन्ति सकेसु सकेसु आसनेसु ठिता 10
अविपक्कन्ता १ ।

‘ते वुत्तवापया राजानो, पटिग्गह्थानुसारानि ।

विप्पसन्नमना सन्ता, ग्रद्धंमु सम्हि आसने ति ॥

११. ‘अथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उळारो आलोको सञ्जायि, 15
ओभासो पातुरहोसि अतिवक्कम्भेव देवान देवानुभावं । अथ खो, भन्ते,
सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे आमन्तेसि - यथा खो, मारिसा, निमित्तानि
दिस्सन्ति, उळारो आलोको सञ्जायति, ओभामो पातुभवति, ब्रह्मा पातु-
भविस्सति । ब्रह्मनो हेतं पुब्बनिमित्तं पातुभावाय, यदिदं आलाको सञ्जायति,
ओभासो पातुभवती ति ।

‘यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातुभविस्सति ।

ब्रह्मनो हेतं निमित्तं, ओभासो विपुलो महा ति ॥

१२. ‘अथ खो, भन्ते, देवा तावतिसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु 25
- ओभासमेतं अस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्चिक्कत्वाव नं गमिस्सामा
ति । चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु - ओभासमेतं
अस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्चिक्कत्वाव नं गमिस्सामा ति । इदं 25
मुत्वा देवा तावतिसा एकग्गा समापज्जिसु - ओभासमेतं अस्साम यंविपाको
भविस्सति, सच्चिक्कत्वाव नं गमिस्सामा ति ।

‘यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनञ्जुमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, ओळा-
रिकं अत्तभावं अभिनिम्मिन्त्वा पातुभवति । यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मनो
पकतिवण्णो, अनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चक्खुपथस्सि । यदा, 30

१. वुत्तवचना नामिदं - इति पि । २. अविपक्कन्ता - इति पि ।

भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, सो अञ्जे देवे अति-
रोचति वण्णेन चैव यससा च । सेय्यथापि, भन्ते, सोवण्णो विग्गहो मानुसं
विग्गहं अतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं
तावतिसानं पातुभवति, सो अञ्जे देवे अतिरोचति वण्णेन चैव यससा च ।
यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो देवानं तावतिसानं पातुभवति, न तस्सं परिसायं
कोचि देवो अभिवादेति वा पच्चुट्टेति वा आसनेन वा निमन्तेति । सव्वेव
तुण्हीभूता पञ्जलिका पल्लङ्केन निसीदन्ति - यस्सदानि देवस्स पल्लङ्के
इच्छिस्सति ब्रह्मा सनङ्कुमारो तस्स देवस्स पल्लङ्के निसीदिस्सती ति ।

- 'यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनङ्कुमारो पल्लङ्के निसीदति,
10 उळारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं; उळारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं ।
सेय्यथापि, भन्ते, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो अधुनाभिसित्तो^१ रज्जेन, उळारं
सो लभति वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो,
भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनङ्कुमारो पल्लङ्के निसीदति, उळारं सो लभति
R. 211 देवो वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । अथ, भन्ते,
15 ब्रह्मा सनङ्कुमारो ओळारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा कुमारवण्णी^२ हुत्वा
पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोति । सो वेहासं अब्भुग्गत्वा आकासे
अन्तलिवखे पल्लङ्केन निसीदि । सेय्यथापि, भन्ते, भगवा पुरिसो सुपच्चत्थते
वा पल्लङ्के समे वा भूमिभागे पल्लङ्केन निसीदेय्य; एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा
सनङ्कुमारो वेहासं अब्भुग्गत्वा आकासे अन्तलिवखे^३ पल्लङ्केन निसीदित्वा
20 देवानं तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि -

५. 171.

- मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका ।
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ॥
नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यत्तस्सिने ।
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥
25 ते अञ्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यत्तसायुना ।
सावका भूरिपञ्जास्स, विसंसूपगता इध ॥
इद दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका ।
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ति ॥

१. इतिरो पोत्यके नास्ति । २. अधुनावसित्तो - स्या० । ३. कुमारवण्णो - स्या० । ४. अन्तलिवखे - सी० ।

१३. 'इममत्थं', भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो भासित्य । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भासतो अट्टङ्गसमन्नागतो सरो होति - विस्सट्ठो च विञ्जेत्थो च मञ्जु च सवनीयो च विन्दु च अधिसारी च गम्भीरो च निन्नादी च । यथापरिसं खो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो सरेन विञ्जापेति; न चस्स वहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स खो पन, भन्ते, एवं अट्टङ्गसमन्नागतो सरो होति, सो वुच्चति ब्रह्मास्सरो ति ।

१४. वेवसभायं ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स वेतना

१४. 'अथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो तेत्तिसे अत्तभावे अभि-
निम्मिनित्वा देवानं तावतिसानं पच्चेकपल्लङ्केसु पच्चेकपल्लङ्केन' निसीदित्वा
देवे तावतिसे आमन्तेसि - तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, यावं
च सो भगवा बहुजनहिताय पटिपन्नो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय 10
हिताय सुखाय देवमनुस्सान; ये हि केचि, भो, बुद्धं सरणं गता धम्मं सरणं
गता सद्धं सरणं गता, सीलेसु परिपूरकारिनो, ते कायस्स भेदा परं मरणा
अप्पेकच्चे परनिम्मित्तवसवत्तीनं देवानं सहव्यत उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे
निम्मानरतीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे तुसितानं देवानं सहव्यतं
उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे यामानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे ताव- 15
तिसानं देवानं सहव्यतं उपपज्जन्ति, अप्पेकच्चे चानुमहाराजिकानं' देवानं
सहव्यतं उपपज्जन्ति, ये सव्वनिहीनं कायं परिपूरेन्ति ते गन्धव्वकायं परि-
पूरेन्ती ति ।

१५. 'इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो भासित्य । इममत्थं, भन्ते,
ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भासतो घोसोपेव देवा मञ्जन्ति - ख्वायं मम पल्लङ्के 20
स्वायं एकोव भासती ति ।

एकस्मिं भासमानस्मिं, सव्वे भासन्ति निम्मिता' ।

एकस्मिं तुण्हिमासीने, सव्वे तुण्ही भवन्ति ते ॥

तदासु' देवा मञ्जन्ति, तावतिसा सहिन्दका ।

ख्वायं मम पल्लङ्कस्मिं, स्थायं एकोव भासती ति ॥ 25

चत्तारो इद्धिपादा

१६. 'अथ खो, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो एकत्तेन अत्तानं उपसंहरति ।

१. इममत्थं - सी०, स्वा०, रो० । २ पल्लङ्केन - म० । ३ चानुमहाराजिकानं - रो० ।

R.213

एकतेन अत्तानं उपसंहरित्वा सयकस्स... देवानमिन्दस्स... पल्लङ्के पल्लङ्केन
निसीदित्वा देवे तावत्तिसे आमन्तेसि -

तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावत्तिसा, याव सुपञ्जत्ता चिमे तेन
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो इद्धिपादा पञ्जत्ता
5 इद्धिपहुताय^१ इद्धिविसविताय^२ इद्धिविकुब्बन्ताय । कतमे चत्तारो ? इध
भो भिक्खु छन्दसमाधिप्पधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति; विरिय-
समाधिप्पधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं भावेति; चित्तसमाधिप्पधानसङ्खार-
समन्नागतं इद्धिपादं भावेति; वीमंसासमाधिप्पधानसङ्खारसमन्नागतं इद्धिपादं
भावेति । इमे खो भो तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन
10 चत्तारो इद्धिपादा पञ्जत्ता इद्धिपहुताय इद्धिविसविताय इद्धिविकुब्बन्ताय ।
ये हि केचि भो अतीतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं इद्धिविधं
पच्चनुभोसुं, सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्नं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकत्ता^३ ।
ये पि हि केचि भो अनागतमद्धानं समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं
इद्धिविधं पच्चनुभोस्सन्ति, सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्नं इद्धिपादानं बहुलीकत्ता ।
15 ये पि हि केचि भो एतरहि समणा वा ब्राह्मणा वा अनेकविहितं इद्धिविधं पच्च-
नुभोन्ति, सब्बे ते इमेसंयेव चतुन्नं इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकत्ता । पस्सन्ति
नो भोन्तो देवा तावत्तिसा ममपिभं^४ एवरूपं इद्धानुभावं ति ?

R.173

एवं महाब्रह्मो^५ ति ।

R. 214

अहं पि खो भो इमेसंयेव चतुन्नं च इद्धिपादानं भावितत्ता बहुलीकत्ता
20 एवं महिद्धिको एवमहानुभावो ति ।

तयो ओकासाधिगमा

‘इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धमारो भासित्थ । इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा
सनद्धमारो भासित्वा देवे तावत्तिसे आमन्तेसि -

१७. तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावत्तिसा, यावच्चिन्दं तेन
भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन तयो ओकासाधिगमा अनु-
25 बुद्धा सुखस्साधिगमाय । कतमे तयो ? इध भो एकच्चो संसट्ठो विहरति
कामेहि संसट्ठो अकुसलेहि धम्मेहि । सो अपरेन समयेन अरियधम्मं सुणाति,
योनिस्सो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । सो अरियधम्मस्सवणं
आगम्म योनिस्सोमनसिकारं धम्मानुधम्मपटिपत्तिं असंसट्ठो विहरति कामेहि

१. इद्धिपहुताय - स्या० । २. इद्धिविसविताय - स्या० । ३. बहुलीकत्ता - गी० ।
४. ममपिभं - स्या० । ५. ब्रह्मो - रो० ।

असंसद्भो अकुसलेहि धम्मोहि । तस्स असंसद्भस्स कामेहि असंसद्भस्स अकुसलेहि
 धम्मोहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, भो, पमुदा
 पामोज्जं जायेथ, एवमेव खो, भो, असंसद्भस्स कामेहि असंसद्भस्स अकुसलेहि
 धम्मोहि उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । अयं खो, भो, तेन भगवता
 जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन पठमो श्रोकासाधिगमो अनुबुद्धो 5
 सुखस्साधिगमाय ।

पुन च परं, भो, इधेकच्चस्स श्रोळारिका कायसङ्खारा अप्पटिप्पस्सद्धा
 होन्ति, श्रोळारिका वचीसङ्खारा अप्पटिप्पस्सद्धा होन्ति, श्रोळारिका चित्त-
 सङ्खारा अप्पटिप्पस्सद्धा होन्ति । सो अपरेन समयेन अरियधम्मं सुणानि,
 योनिस्सो मनसि करोति, धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । तस्स अरियधम्मस्सवनं 10
 आगम्म योनिस्सोमनसिकारं धम्मानुधम्मप्पटिपत्तिं श्रोळारिका कायसङ्खारा
 पटिप्पस्सम्भन्ति, श्रोळारिका वचीसङ्खारा पटिप्पस्सम्भन्ति, श्रोळारिका
 चित्तसङ्खारा पटिप्पस्सम्भन्ति । तस्स श्रोळारिकानं कायसङ्खारानं पटिप्प-
 स्सद्धिया, श्रोळारिकानं वचीसङ्खारानं पटिप्पस्सद्धिया, श्रोळारिकानं चित्त-
 सङ्खारानं पटिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । सेय्यथापि, 15
 भो, पमुदा पामोज्जं जायेथ, एवमेव खो श्रोळारिकानं कायसङ्खारानं पटिप्प-
 स्सद्धिया, श्रोळारिकानं वचीसङ्खारानं पटिप्पस्सद्धिया, श्रोळारिकानं चित्त-
 सङ्खारानं पटिप्पस्सद्धिया उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । अयं खो,
 भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन दुतियो श्रोकासाधिगमो
 अनुबुद्धो सुखस्साधिगमाय । 20

पुन च परं, भो, इधेकच्चो इदं कुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं
 अकुसलं ति यथाभूतं नप्पजानाति, इदं सावज्जं इदं अनवज्जं इदं सेवितब्बं
 इदं न सेवितब्बं इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं
 नप्पजानाति । सो अपरेन समयेन अरियधम्मं सुणानि, योनिस्सो मनसि करोति,
 धम्मानुधम्मं पटिपज्जति । सो अरियधम्मस्सवनं आगम्म योनिस्सोमनसिकारं 25
 धम्मानुधम्मप्पटिपत्तिं, इदं कुसलं ति यथाभूतं पजानाति इदं अकुसलं ति
 यथाभूतं पजानाति इदं सावज्जं इदं अनवज्जं इदं सेवितब्बं इदं न सेवितब्बं
 इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हसुक्कसप्पटिभागं ति यथाभूतं पजानाति । तस्स
 एवं जानतो एवं पस्सतो अविज्जा पहीयति, विज्जा उप्पज्जति । तस्स
 अविज्जाविरागा विज्जुप्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । 30

सेव्यथापि, भो, पमुदा पामोज्जं जायेथ, एवमेव खो, भो, अविज्जाविरागा विज्जु
 प्पादा उप्पज्जति सुखं, सुखा भिय्यो सोमनस्सं । अयं खो, भो, तेन भगवता
 जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन ततियो ओकासाधिगमो अनुबुद्धो
 सुखस्साधिगमाय । इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
 5 सम्मासम्बुद्धेन तयो ओकासाधिगमा अनुबुद्धा सुखस्साधिगमाया ति ।

चत्तारो सतिपट्टाना

‘इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्दुमारो भासित्व । इममत्थं, भन्ते,
 ब्रह्मा सनद्दुमारो भासित्वा देवे तावत्तिसं आगन्तेसि —

१८. तं किं भञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावत्तिसा, माव सुपञ्जता
 चिमे तेन भगवता जानता पस्सता अरहता सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो सतिपट्टाना
 पञ्जता कुसलस्साधिगमाय । कतमे चत्तारो ? इथ, भो, भियसु अज्झत्तं
 काये कायानुपस्सी विरहति आतापी सम्पजानो सतिमा विनेम्य सोरे
 अभिज्जादोमनस्सं । अज्झत्त काये कायानुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा
 समाधियति, सम्मा विप्पसीदति । सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्मा
 विप्पसन्नो वहिद्धा परकाये आणदस्सनं अभिनिव्वत्तेति । अज्झत्त वेदनासु
 15 वेदनानुपस्सी विहरति ... पे० ... वहिद्धा परवेदनासु आणदस्सनं अभि-
 निव्वत्तेति । अज्झत्तं चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ... पे० ... वहिद्धा परचित्तं
 आणदस्सनं अभिनिव्वत्तेति । अज्झत्तं धम्मेषु धम्मणुपस्सी विहरति
 आतापी सम्पजानो सतिमा विनेम्य सोके अभिज्जादोमनस्सं । अज्झत्त
 धम्मेषु धम्मणुपस्सी विहरन्तो तत्थ सम्मा समाधियति, सम्मा विप्पसीदति ।
 20 सो तत्थ सम्मा समाहितो सम्माविप्पसन्नो वहिद्धा परधम्मेषु आणदस्सनं
 अभिनिव्वत्तेति । इमे खो, भो, तेन भगवता जानता पस्सता अरहता
 सम्मासम्बुद्धेन चत्तारो सतिपट्टाना पञ्जता मृगणस्साधिगमाया ति ।

चित्तस्त एकगता परिवक्षता, अयं वुच्चति, भो, अरियो सम्मासमाधि
 सउपनिषो इति पि सपरिवक्षारो इति पि । सम्मादिद्विस्त, भो, सम्मासङ्कप्पो
 पहोति, सम्मासङ्कप्पस्स सम्मावाचा पहोति, सम्मावाचस्स सम्माकम्मन्तो
 पहोति, सम्माकम्मन्तस्स सम्माआजीवो पहोति, सम्माआजीवस्स सम्मावायामो
 पहोति, सम्मावायामस्स सम्मासति पहोति, सम्मासतिस्स सम्मासमाधि 5
 पहोति, सम्मासमाधिस्स सम्माआणं पहोति, सम्माआणस्स सम्माविमुत्ति
 पहोति । यञ्चि तं, भो, सम्मा वदमानो वदेय्य - स्वाक्खातो भगवता धम्मो
 सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्तं वेदितव्वो विञ्जूहि,
 अपास्ता अमतस्स द्वारा ति इदमेव तं सम्मा वदमानो वदेय्य - स्वाक्खातो
 हि, भो, भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनेय्यिको 10
 पच्चत्तं वेदितव्वो विञ्जूहि, अपास्ता अमतस्स द्वारा । ये हि केचि, भो, वुद्धे
 अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, धम्मे अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, सद्धे
 अवेच्चप्पसादेन समन्नागता, अरियकन्तेहि सीलेहि समन्नागता । ये चिमे
 ओपपातिका धम्मविनीता' सातिरेकानि चतुवीसतिसतसहस्सानि मागधका
 परिचारका अब्भतीता कालङ्कता तिण्णं संयोजनानं परिवक्षया सोतापन्ना 15
 अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा । अत्यि चेवेत्य सकदागामिनो ।

अत्यायं' इतरा पजा, पुञ्जाभागाति मे मनो ।

सह्वातुं नो पि सक्कोमि, मुसावादस्स ओत्तप्पं ति ॥

२०. 'इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो भासित्य । इममत्थं, भन्ते,
 ब्रह्मणो सनद्धुमारस्स भासतो वेस्सवणस्स महाराजस्स एवं चेतसो 20
 परिवितक्को उदपादि - अच्छरियं वत भो, अब्भुतं वत भो, एवरूपो पि
 नाम उळारो सत्या भविस्सति ! एवरूपं उळारं धम्मवत्तानं, एवरूपा उळारा
 विसेसाधिगमा पञ्जायिस्सन्ती ति ! अय, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो वेस्स-
 वणस्स महाराजस्स चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय वेस्सवणं महाराजानं
 एतदवोच - तं किं मञ्जति भवं वेस्सवणो महाराजा, अतीतं पि अद्धानं 25
 एवरूपो उळारो सत्या अहोसि, एवरूपं उळारं धम्मवत्तानं, एवरूपा उळारा
 विसेसाधिगमा पञ्जायिसु; अनागतं पि अद्धानं एवरूपो उळारो सत्या
 भविस्सति एवरूपं उळारं धम्मवत्तानं एवरूपा उळारा विसेसाधिगमा
 पञ्जायिस्सन्ती ति ।

२१. 'इममत्थं, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावत्तिसानं अभासि, 30

D. 177

R. 219

इममत्यं वेस्सवणो महाराजा ब्रह्मणो सनङ्कुमारस्स देवानं तावत्तिसानं
भासतो सम्मुखा सुतं^१ सम्मुखा पटिग्गहितं^२ सयं परित्तायं आरोचेत्ति” ।

इममत्यं जनवसभो यक्खो वेस्सवणस्स महाराजस्स सयं परित्तायं
भासतो सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं भगवतो आरोचेत्ति । इममत्यं
5 भगवा जनवसभस्स यक्खस्स सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा पटिग्गहेत्वा सामञ्च
अभिञ्जाय आयस्मतो आनन्दस्स आरोचेत्ति । इममत्यमायस्मा-आनन्दो
भगवतो सम्मुखा सुत्वा सम्मुखा पटिग्गहेत्वा आरोचेत्ति भिक्खूणं भिक्खुणीणं
उपासकानं उपासिकानं । तयिदं ब्रह्मचरियं इद्धं चेव फीतं च वित्थारिकं
वाहुजञ्जं पुथुभूतं याव देवमनुस्सेहि सुप्पकासितं ति ।

जनवसभसुत्तं निट्ठितं पञ्चमं ।

—:०:—

६. महागोविन्दसुतं

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा राजगहे विहरति गिज्जकूटे पव्वते । अथ खो पञ्चसिखो गन्धव्वपुत्तो अभिकन्ताय रत्तिया अभिकन्तवण्णो केवलकप्पं गिज्जकूटं पव्वतं ओभासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धव्वपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - "यं खो मे, भन्ते, देवानं तावत्तिसानं सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं आरोचेमि तं भगवतो" ति । "आरोचेहि मे त्वं, पञ्चसिखा" ति भगवा अवोच ।

§ १. सुधम्मा देवसभा

२. "पुरिमानि, भन्ते, दिवसानि पुरिमतरानि तदहूपोसथे पन्नरसे ावारणाय पुण्णाय पुण्णमाय रत्तिया केवलकप्पा च देवा तावत्तिसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्नपतिता, महती च दिव्वपरिसा^१ समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो^२ चतुद्दिसा^३ निसिन्ना होन्ति । पुरत्थिमाय दिसाय घत्तरट्ठो महाराजा पच्छिमाभिमुखो^४ निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा^५; दक्खिणाय दिसाय विरूहको महाराजा उत्तराभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; पच्छिमाय दिसाय विरूपक्खो महाराजा पुरत्याभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा; उत्तराय दिसाय वेस्सवणो महाराजा दक्खिणाभिमुखो निसिन्नो होति देवे पुरक्खत्वा । यदा पन, भन्ते, केवलकप्पा च देवा तावत्तिसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्नपतिता, महती च दिव्वपरिसा समन्ततो निसिन्ना होन्ति, चत्तारो च महाराजानो चतुद्दिसा निसिन्ना होन्ति, इदं नेसं होति आसनस्मिं; अथ पच्छा अम्हाकं आसनं होति ।

"ये ते, भन्ते, देवा भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा अघुनूपपन्ना^६ तावत्तिसकार्यं^७ ते अञ्जे देवे अतिरोचन्ति वण्णेन चैव यससा च । तेन सुदं, भन्ते, देवा तावत्तिसा अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिव्वा वत, भो, काया परिपूरन्ति, हायन्ति असुरकाया ति ।

३. "अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावत्तिसानं सम्पसादं"

१. भन्ते भगवतो - रो० । २. दिव्वा परिता - रो० । ३. महाराजा - रो० । ४. चतुद्दिसा - सी०, रो० । ५. पच्छिमाभिमुखो - सी०, स्पा०, रो० । ६. पुरेक्खित्वा - सी० । ७. अघुनूपपन्ना - सी०; अघुनूपन्ना - रो० । ८. तावत्तिसाया - रो० । ९. पसाद - रो० ।

विदित्वा इमाहि गाथाहि अनुमोदि -

'मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका ।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ॥

'नवे' देवे च' पस्सन्ता, वण्णवन्ते यसस्सिनो' ।

5 सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥

'ते अञ्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यससायुना ।

सायका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥

'इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका ।

तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं' ति ॥

R. 222 10 "तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा भिय्योसो' मत्ताय' अत्तमना होन्ति
पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता; दिव्वा वत, भो, काया परिपूरेन्ति, हायन्ति
असुरकाया ति ।

§ २. भगवतो अट्ट यथाभुच्चा वण्णा

४. "अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं सम्पसादं
विदित्वा देवे तावतिसे आमन्तेसि - 'इच्छेय्याथ नो तुम्हे, मारिसा, तस्स

15 भगवतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे सोतु' ति ? 'इच्छाम मयं, मारिस, तस्स

भगवतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे सोतु' ति । अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो

देवानं तावतिसानं भगवतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि - 'तं किं

मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव' च सो' भगवा बहुजनहिताय

प्रदिप्रत्तो बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं ।

20 एवं बहुजनहिताय पटिपन्नं बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय

सुखाय देवमनुस्सानं इमिनापङ्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम

न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

'स्वाक्खातो खो पन तेन' भगवता' धम्मो सन्दिट्टिको अकालिको

एहिपस्सिको ओपनेय्यिको' पच्चत्तं वेदितव्वो विञ्जूहि । एवं ओपनेय्यि-

25 कस्स धम्मस्स देसेतारं इमिनापङ्गेन समन्नागतं सत्थारं नेव अतीतंसे

समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

१-१. नवे य देवे - स्पा०, रो० । २. यसस्सिने - सी०, म० । ३-३ भिय्योसोमताय - सी०;
भीयोसो मत्ताय - रो० । ४-४. याव चस्स सो - रो०; यावञ्चेसो - स्पा० । ५-५ तस्स मय-
वतो - रो०; तस्स भगवता - रत्वा० । ६. ओपनेय्यिको - स्पा०, रो०; ओपनेय्यिको - सी० ।

‘इदं कुसलं ति खो पन तेन भगवता सुपञ्जत्तं’, इदं अकुसलं ति सुपञ्जत्तं, इदं सावज्जं इदं अनवज्जं इदं सेवितव्वं इदं न सेवितव्वं इदं हीनं इदं पणीतं इदं कण्हमुवकसप्पटिभागं ति सुपञ्जत्तं । एवं कुसलत्ताकुसल-सावज्जानवज्ज-सेवितव्व्यासेवितव्व-हीनपणीतकण्हमुवक-सप्पटिभागानं^१ धम्मानं पञ्जापेतारं^२ इमिनापञ्जेन समन्नागतं सत्यारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जात्त तेन भगवता ।

‘सुपञ्जत्ता खो पन तेन भगवता सावकानं निव्व्यानगामिनी पटिपदा । संसन्दति निव्वानं च पटिपदा च । सेय्यथापि नाम गङ्गोदकं यमुनोदकेन संसन्दति समेति, एवमेव सुपञ्जत्ता तेन भगवता सावकानं निव्व्यानगामिनी पटिपदा । संसन्दति निव्वानं च पटिपदा च । एवं निव्वान-गामिनिया पटिपदाय पञ्जापेतारं इमिनापञ्जेन समन्नागतं सत्यारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जात्त तेन भगवता ।

‘अभिनिप्फन्नो^३ खो पन तस्स भगवतो लाभो, अभिनिप्फन्नो सिलोको । याव मञ्जे खतिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति, विगतमदो खो पन सो भगवा आहारं आहारंति । एवं विगतमदं आहारं आहरयमानं^४ इमिनापञ्जेन समन्नागतं सत्यारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जात्त तेन भगवता ।

‘लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेत्तानं चैव पटिपत्तानं खीणासवानं च वुसितवत्तं । ते^५ भगवा अपनुज्ज एकारामतं अनुयुत्तो विहरति । एवं एकारामतं अनुयुत्तं इमिनापञ्जेन समन्नागतं सत्यारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जात्त तेन भगवता ।

‘यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी । इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एवं धम्मानुधम्मपटिपत्तं इमिनापञ्जेन समन्नागतं सत्यारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जात्त तेन भगवता ।

‘तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकयङ्कयो परियोसित-सङ्कप्पो अज्जासयं आदिब्रह्मचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकयङ्कयं परियोसितसङ्कप्पं अज्जासयं आदिब्रह्मचरियं इमिनापञ्जेन समन्नागतं

१. सुपञ्जत्तं - सी०, रो० । २. ० हीनपणीन - सी०, स्वा०, रो० । ३. पञ्ज-पेतारं - स्वा० । ४. अभिनिप्फन्नो - रो० । ५. आहरयमान - सी०, रो० ; आहरयमानं - स्वा० । ६. तेन - स्वा० ।

सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता' ति ।

५. "इमे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवानं तावतिसानं भगवतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, देवा तावतिसा भिव्योसो मत्ताय अत्तमना होन्ति पमुदिता पीतिसोमनस्सजाता भगवतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे सुत्वा । तत्र, भन्ते, एकच्चे देवा एवमाहंसु - 'अहो वत, मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्चे देवा एवमाहंसु - 'तिट्ठन्तु, मारिसा, चत्तारो सम्मासम्बुद्धा । अहो वत, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । एकच्चे देवा एवमाहंसु - 'तिट्ठन्तु, मारिसा, तयो सम्मासम्बुद्धा । अहो वत, मारिसा, द्वे सम्मासम्बुद्धा लोके उप्पज्जेय्युं धम्मं च देसेय्युं यथरिव भगवा तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति ।

R 225 15 ६. "एवं वुत्ते, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे एतदवोच - 'अट्ठानं खो एतं, मारिसा, अनवकासो यं एकस्सा लोकधातुया द्वे अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा अप्रुवं अचरिमं उप्पज्जेय्युं, नेतं ठानं विज्जति । अहो वत, मारिसा, सो भगवा अप्पावाधो अप्पातङ्को चिरं दीघमद्धानं तिट्ठेय्य तदस्स बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सानं' ति । अथ खो, भन्ते, येनत्थेन देवा तावतिसा सुधम्मायं सभायं सन्निसिन्ना होन्ति सन्नपतिता तं अत्थं चिन्तयित्वा, तं अत्थं मन्तयित्वा, वुत्तवचना पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मिं अत्थे होन्ति, पच्चानु-
20 सिट्ठवचना' पि तं चत्तारो महाराजानो तस्मिं अत्थे होन्ति सकेसु सकेसु आसनेसु ठिता अविपक्कन्ता' ।

B. 182

25

ते वुत्तवाक्या राजानो, पटिग्गहानुसासनि ।

विप्पसन्नमना सन्ता, अट्ठंसु सम्हि आसने ति ॥

§ ३. अह्णुनो सनञ्जुमारस्स पातुभावो

७. "अथ खो, भन्ते, उत्तराय दिसाय उल्लारो आलोको सञ्जायि ओभासो पातुरहोसि अतिक्कम्मेव देवानं देवानुभावं । अथ खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो देवे तावतिसे आमन्तेसि - 'यथा खो, मारिसा,

निमित्तानि' दिस्सन्ति उळारो' आलोको सञ्जायति ओभासो पातु भवति, ब्रह्मा पातु भविस्सति; ब्रह्मणो हेतं पुट्वनिमित्तं पातुभावाय यदिदं आलोको सञ्जायति ओभासो पातु भवती ति ।

'यथा निमित्ता दिस्सन्ति, ब्रह्मा पातु भविस्सति ।

ब्रह्मणो हेतं निमित्तं', ओभासो विपुलो महा' ति ॥

८. "अथ खो, भन्ते, देवा तावतिसा यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु - 'ओभासमेतं जस्साम यंविपाको' भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति । चत्तारो पि महाराजानो यथासकेसु आसनेसु निसीदिसु - 'ओभासमेतं जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति । इदं सुत्वा देवा तावतिसा एकगगा समार्षज्जिसु - 'ओभासमेतं जस्साम यंविपाको भविस्सति, सच्छिकत्वा व नं गमिस्सामा' ति ।

"यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, ओळारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिनित्वा पातु भवति । यो खो पन, भन्ते, ब्रह्मणो पकतिवण्णो अनभिसम्भवनीयो सो देवानं तावतिसानं चक्खुपथस्मि । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो अञ्जे देवे अतिरोचति वण्णेन चैव यससा च । सेय्यथापि, भन्ते, सो वण्णो विग्गहो मानुसं विग्गहं अतिरोचति; एवमेव खो, भन्ते, यदा ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, सो अञ्जे देवे अतिरोचति वण्णेन चैव यससा च । यदा, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो देवानं तावतिसानं पातु भवति, न तस्सं परिसायं कोचि देवो अभिवादेति वा पच्चुट्टेति वा आसनेन वा निमन्तेति । सब्बेव तुण्हीभूता पञ्जलिका पल्लङ्गेन निसीदन्ति - 'यस्स दानि देवस्स पल्लङ्गे' इच्छिस्सति ब्रह्मा सनद्धुमारो तस्स देवस्स पल्लङ्गे निसीदिस्सती' ति । यस्स खो पन, भन्ते, देवस्स ब्रह्मा सनद्धुमारो पल्लङ्गे निसीदति, उळारं सो लभति देवो देवपटिलाभं, उळारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । सेय्यथापि, भन्ते, राजा खत्तियो मुद्धावसित्तो अधुनाभिसित्तो रज्जेन उळारं सो लभति वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति सोमनस्सपटिलाभं; एवमेव खो, भन्ते, यस्स देवस्स ब्रह्मा सनद्धुमारो पल्लङ्गे निसीदति उळारं सो लभति देवो वेदपटिलाभं, उळारं सो लभति देवो सोमनस्सपटिलाभं । अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो

१. नमित्ता - स्या०, रो० । २. स्या०, रो० पोत्येनु नरिय । ३ पुत्रनिमित्तं - स्या० ।

४ यं विपाको - सी०, स्या०, रो० । ५. रो० पोत्येके नरिय ।

देवानं तावतिसानं सम्पसादं विदित्वा अन्तरहितो इमाहि गाथाहि
अनुमोदि -

- ‘मोदन्ति वत भो देवा, तावतिसा सहिन्दका ।
तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं ॥
- 5 ‘नवे देवे च पस्सन्ता, वण्णवन्ते यस्सिन्ने’ ।
सुगतस्मि ब्रह्मचरियं, चरित्वान इधागते ॥
‘ते अञ्जे अतिरोचन्ति, वण्णेन यस्सायुना ।
सावका भूरिपञ्जस्स, विसेसूपगता इध ॥
‘इदं दिस्वान नन्दन्ति, तावतिसा सहिन्दका ।
10 तथागतं नमस्सन्ता, धम्मस्स च सुधम्मतं’ ति ॥

६. “इममत्थं”, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो अभासित्थ । इममत्थं, भन्ते,
ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स भासतो अट्टङ्गसमन्नागतो सरो होति - विस्सट्ठो च
विञ्जेय्यो च मञ्जु च सवणीयो च विन्दु च अविस्सारी च गम्भीरो च
निन्नादी च । यथापरिसं सो पन, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो सरेन विञ्जापेति ।

- 15 न चस्स वहिद्धा परिसाय घोसो निच्छरति । यस्स सो पन, भन्ते, एवं
अट्टङ्गसमन्नागतो सरो होति सो बुच्चति ‘ब्रह्मास्सरो’ ति । अथ सो, भन्ते,
देवा तावतिसा ब्रह्मानं सनद्धुमारं एतदवोचुं - ‘साधु, महाप्रहो’, एतदेव मयं
सरुदाय मोदाम । अतिय च सक्केन देवानमिन्देन तस्स भगवतो अट्ट यथाभुञ्जा
यण्णा भासिता ; ते च मयं सरुदाय मोदामा’ ति ।

- 20 १०. “अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनद्धुमारो मक्कं देवानमिन्दं एतदवोच -
‘साधु, देवानमिन्द, मयं पि तस्स भगवतो अट्ट यथाभुञ्जे वण्णे मुण्ण्यमा’ ति ।
‘एवं, महाप्रहो’ ति गो, भन्ते, सारो देवानमिन्दो ब्रह्मनो सनद्धुमारस्स
भगवतो अट्ट यथाभुञ्जे वण्णे पयिरदाहामि -

- ‘तं कि मञ्जमि’, महाप्रहो, याय’ च सो भगवा बट्टजनहिताय
25 पटिपन्नो बट्टजनमुग्गाय सोरानुवग्गाय पत्थाय हिताय मुग्गाय देवमनुग्गानं ।
एवं बट्टजनहिताय पटिपन्नं बट्टजनमुग्गाय सोरानुवग्गाय पत्थाय हिताय
मुग्गाय देवमनुग्गानं इमिनापण्णेन मग्गनागतं मग्गारं येय वणींमं मग्गनु-
पग्गाम न पणेतरेहि, अञ्जाद ऐन भगवता ।

‘स्वाक्खानो खो पनत्तेन’ भगवता धम्मो सन्दिट्टिको अवालिदो एहिपस्सिको ओपनेय्यिको पच्चत्त वेदितव्वो विञ्झूहि । एव ओपनेय्यिकस्स धम्मस्स वेसेतार इमिनापञ्जेन समन्नागत सत्थार नेव अतीतसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

‘इद कुसल ति खो पन तेन भगवता सुपञ्जत्त, इद अकुसल ति सुपञ्जत्त, इद सावज्ज इद अनवज्ज इद सेवितव्व इद न सेवितव्व इद हीन इद पणीत्त इद कण्हसुक्कसप्पटिभाग ति सुपञ्जत्त । एव कुसलाकुसल-सावज्जानवज्जसेवितव्वासेवितव्वहीनपणीत्तकण्हसुक्कसप्पटिभागान धम्मान पञ्जापेतार इमिनापञ्जेन समन्नागत सत्थार नेव अतीतसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

‘सुपञ्जत्ता खो पन तेन भगवता सावकान निब्बानगामिनी पटिपदा । ससन्दति निब्बान च पटिपदा च । सेय्यथापि नाम गङ्गोदक यमुनोदकेन ससन्दति समेति, एवमेव सुपञ्जत्ता तेन भगवता सावकान निब्बान-गामिनी पटिपदा । ससन्दति निब्बान च पटिपदा च । एव निब्बानगामिनिया पटिपदाय पञ्जापेतार इमिनापञ्जेन समन्नागत सत्थार नेव अतीतसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

‘अभिनिप्फन्नो खो पन तस्स भगवतो लाभो, अभिनिप्फन्नो सिलोको, याव मञ्जे खत्तिया सम्पियायमानरूपा विहरन्ति । विगतमदो खो पन सो भगवा आहार आहारेति । एव विगतमद आहार आहरयमान इमिनापञ्जेन समन्नागत सत्थार नेव अतीतसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

‘लद्धसहायो खो पन सो भगवा सेखान च्चैव पटिपन्नान खीणासवान च वुसितवत् । ते भगवा अपनुज्ज एकारामत्त अनुयुत्तो विहरति । एव एकारामत्त अनुयुत्त इमिनापञ्जेन समन्नागत सत्थार नेव अतीतसे समनु-पस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

‘यथावादी खो पन सो भगवा तथाकारी, यथाकारी तथावादी, इति यथावादी तथाकारी, यथाकारी तथावादी । एव धम्मानुधम्मप्पटिप्पन्न इमिनापञ्जेन समन्नागत सत्थार नेव अतीतसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता ।

‘तिण्णविचिकिच्छो खो पन सो भगवा विगतकथङ्कयो परियोसित-

R. 230

सङ्कृष्णो अज्ज्ञासयं आदिग्रहचरियं । एवं तिण्णविचिकिच्छं विगतकथङ्कयं
परियोसितसङ्कृष्णं अज्ज्ञासयं आदिग्रहचरियं । इमिनापङ्गेन समन्नागतं
सत्थारं नेव अतीतंसे समनुपस्साम न पनेतरहि, अञ्जत्र तेन भगवता' ति ।

११. "इमे खो, भन्ते, सक्को देवानमिन्दो ब्रह्मणो सनङ्कुमारस्स भग-
वतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे पयिरुदाहासि । तेन सुदं, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो
अत्तमनो होति पमुदितो पीतिसोमनस्सजातो भगवतो अट्ट यथाभुच्चे वण्णे
सुत्वा । अथ, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो ओळारिकं अत्तभावं अभिनिम्मिन्त्वा,
कुमारवण्णी हुत्वा, पञ्चसिखो देवानं तावतिसानं पातुरहोसि । सो वेहासं
अव्भुगन्त्वा आकासे अन्तलिकखे' पल्लङ्केन निसीदि' । सेय्यथापि, भन्ते, बलवा
पुरिसो सुपच्चत्थते वा पल्लङ्के समे वा भूमिभागे पल्लङ्केन निसीदेय्य;
एवमेव खो, भन्ते, ब्रह्मा सनङ्कुमारो वेहासं अव्भुगन्त्वा आकासे अन्तलिकखे
पल्लङ्केन निसीदित्वा देवे तावतिसे आमन्तेसि -

B. 186

10

§ ४. गोविन्दब्राह्मणवत्थु

१२. 'तं किं मञ्जन्ति, भोन्तो देवा तावतिसा, याव दीघरत्तं महा-
पञ्चोव सो भगवा अहोसि ।

१३. 'भूतपुब्बं, भो, राजा दिसम्पति नाम अहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्जो
गोविन्दो नाम ब्राह्मणो पुरोहितो अहोसि । दिसम्पतिस्स रञ्जो रेणु नाम
कुमारो पुत्तो अहोसि । गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो
अहोसि । इति रेणु च राजपुत्तो जोतिपालो च माणवो अञ्जे च छ खत्तिया
इच्चेते अट्ट सहापा अहेसु । अथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्चयेन गोविन्दो
ब्राह्मणो कालमकासि । गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कते' राजा दिसम्पति परिदेवेसि-
यस्मि वत, भो, मय समये गोविन्दे ब्राह्मणे सब्बकिच्चानि सम्मा वोस्सज्जित्वा
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता' परिचारेम, तस्मिं नो' समये
गोविन्दो ब्राह्मणो कालङ्कतो ति । एवं वुत्ते, भो, रेणु राजपुत्तो राजावं
दिसम्पति एतदवोच - मा खो त्वं, देव, गोविन्दे ब्राह्मणे कालङ्कते अतिबाह्वं
परिदेवेसि; अत्थि, देव, गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स जोतिपालो नाम माणवो पुत्तो
पण्डिततरो चेव पितरा अलमत्थदसतरो चेव पितरा; ये पिस्स' पिता अत्थे
अनुसासि ते पि जोतिपालस्सेव माणवस्स अनुसासनिया' ति ।

R. 231

20

25

१. अन्तलिकखे - सी० । २. निसीदित्वा - रो० । ३. कालकते - सी०, स्या०, रो० ।
४. समङ्गीभूता - सी०, स्या०, रो० । ५. खो पन - स्या०; रो० पोत्थके नत्थि । ६. ये पि तस्स -
स्या० । ७. अनुसासणीया - स्या० ।

एव कुमाग ति ?

एव देवा ति ।

महागोविन्दो

१३ 'अथ सो, भो, राजा दिसम्पति अञ्जतर पुरिस आमन्नेसि
 - एहि त्व, अम्मो पुरिस, येन जोतिपालो नाम माणवो तेनुपसङ्गम,
 उपसङ्गमित्वा जोतिपाल माणव एव वदेहि - भवमत्यु भवन्त जोतिपाल 5
 माणव राजा दिसम्पति भवन्त जोतिपाल माणव आमन्तयति, राजा
 दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स दस्सनवामो ति । एव देवा ति सो, भो,
 सो पुरिसो दिसम्पतिस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा येन जोतिपालो माणवो
 तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा जोतिपाल माणव एतदवोच - भवमत्यु
 भवन्त जोतिपाल, राजा दिसम्पति भवन्त जोतिपाल माणव आमन्तयति, 10
 राजा दिसम्पति भोतो जोतिपालस्स माणवस्स दस्सनवामो ति । एव,
 भो, ति सो, भो, जोतिपालो माणवो तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन राजा
 दिसम्पति तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा दिसम्पतिना रञ्जा गट्ठि सम्मोदि,
 सम्मोदनीय कथ सारणीय' जोतिसारेत्वा एवमन्त निसीदि, एरुमन्त
 निसिन्न सो, भो, जोतिपाल माणव राजा दिसम्पति एतदवोच - अनुगासतु 15
 नो भव जोतिपालो, मा नो भव जोतिपालो अनुसासनिया पचत्त्याहासि',
 पेत्तिने त ठाने ठपेस्सामि, गोविन्दिये अभिसिञ्जिम्मामी ति । एव,
 भो, ति सो, भो, सो जोतिपालो माणवो दिग्गम्पनिस्स रञ्जो पचत्तोमि ।
 अथ सो, भो, राजा दिसम्पति जोतिपाल माणव गोविन्दिये अभिमिञ्जि,
 त पेत्तिके ठाने ठपेस्सि । अभिसिञ्जो जोतिपालो माणवो गोविन्दिये पेत्तिने 27
 ठाने ठपितो येपिस्स पिता अत्ये अनुसासि ते पि अये अनुसासति,
 येपिस्स पिता अत्ये नानुसासि ते पि अत्ये नानुसासति', येपिस्स पिता
 कम्मन्ते अभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते अभिसम्भोति, येपिस्स पिता
 कम्मन्ते नाभिसम्भोसि ते पि कम्मन्ते नाभिसम्भोनि' । तमेन मनुम्मा
 एवमाहुसु - गोविन्दो वत, भो, ब्राह्मणो, महागोविन्दो वा, भो, ब्राह्मणो 25
 ति । इमिना सो एव, भो, पत्त्यायेन जोतिपालस्स माणवस्स गोविन्दो'
 महागोविन्दोत्वैव समञ्जा उदपादि ।

१ शासनीय - स्था०, रो० । २ उच्चमासि - रो० । ३ अनुगासति - प० ।

४ अभिसम्भोति - म० । ५ महागोविन्दो - रो०, स्था० पेत्तिके जदि ।

रज्जसंविभजनं

१४. 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्लको अद्दगतो वयोअनुप्पत्तो । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिमिह रज्जे कालङ्कते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्जे अभिसिञ्चेय्युं । प्रायन्तु भोन्तो, येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसङ्गमयं; उपसङ्गमित्वा रेणुं राजपुत्तं एवं वदेथ - मयं खो भीतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा अण्णटिकूला । यंसुखो भव तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्लको अद्दगतो वयोअनुप्पत्तो । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिमिह रज्जे कालङ्कते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्जे अभिसिञ्चेय्युं । सचे भवं रेणु रज्जं लभेथ, संविभजेथ नो रज्जेना ति । एवं, भो, ति खो, भो, ते छ खत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजपुत्तो तेनुपसङ्गमिसु; उपसङ्गमित्वा रेणुं राजपुत्तं एतदवोचुं - मयं खो भोतो रेणुस्स सहाया पिया मनापा अण्णटिकूला; यंसुखो भवं तंसुखा मयं, यंदुक्खो भवं तंदुक्खा मयं । दिसम्पति खो, भो, राजा जिण्णो वुद्धो महल्लको अद्दगतो वयोअनुप्पत्तो । को नु खो पन जानाति जीवितं ! ठानं खो पनेतं विज्जति यं दिसम्पतिमिह रज्जे कालङ्कते राजकत्तारो भवन्तं रेणुं रज्जे अभिसिञ्चेय्युं । सचे भवं रेणु रज्जं लभेथ, संविभजेथ नो रज्जेना ति ।

को नु खो, भो, अञ्चो मम विजित्ते सुखो भवेथ^१, अञ्जत्र भवन्तेभि ! सचाहं, भो, रज्जं लभिस्सामि, संविभजिस्सामि वो रज्जेना ति ।

१५. 'अथ खो, भो, अहोरत्तानं अच्चयेन राजा दिसम्पति कालमकासि । दिसम्पतिमिह रज्जे कालङ्कते राजकत्तारो रेणुं राजपुत्तं रज्जे अभिसिञ्चिसु । अभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति । अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो, अभिसित्तो रेणु रज्जेन पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेति । को नु खो पन, भो, जानाति !

१. वुद्धो - स्या० । २. अण्णटिकूला - रो० । ३. सुख भवेय्याथ - स्या०; सुलभेय्याथ - सी०, रो० ।

मदनीया कामा । आयन्तु भोन्तो येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमथ; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एवं वदेथ - दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो, अभिसित्तो भवं रेणु रज्जेन, सरति भवं तं वचनं ति ?

१६. 'एवं, भो, ति खो, भो, ते छ लत्तिया महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा रेणुं राजानं एतदवोचुं - दिसम्पति खो, भो, राजा कालङ्कतो । अभिसित्तो भवं रेणु रज्जेन । सरति भवं तं वचनं ति ?

सरामहं, भो, तं वचनं' । को नु खो, भो, पहोति इमं महापथवि' उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुपं सत्तथा समं सुविभत्तं विभजित्तुं ति ?

को नु खो, भो, अञ्जो पहोति, अञ्जप्र महागोविन्देन ब्राह्मणेना ति? 10

'अथ खो, भो, रेणु राजा अञ्जतर पुरिसं आमन्तेसि - एहि त्वं, अम्भो पुरिस, येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कम; उपसङ्कमित्वा महागोविन्दं ब्राह्मणं एवं वदेहि - राजा त, भन्ते, रेणु आमन्तेती ति । एवं देवा ति खो, भो, सो पुरिसो रेणुस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा महागोविन्द ब्राह्मणं एतदवोच - राजा तं, 15 भन्ते, रेणु आमन्तेती ति । एवं, भो, ति खो, भो, सो महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स पुरिसस्स पटिस्सुत्वा येन रेणु राजा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणुना रञ्जा सद्धिं सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिद्धं खो, भो, महागोविन्दं ब्राह्मण रेणु राजा एतदवोच - एतु भवं गोविन्दो, इमं महापथवि उत्तरेन आयत दक्खिणेन 20 सकटमुख सत्तथा समं सुविभत्तं विभजतू' ति । एवं, भो, ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्मणो रेणुस्स रञ्जो पटिस्सुत्वा इम महापथवि उत्तरेन आयतं दक्खिणेन सकटमुख सत्तथा समं सुविभत्तं विभजि, सब्वानि सकटमुखानि पट्टपेसि' । तत्र सुदं मज्झे रेणुस्स रञ्जो जनपदो होति ।

१७. दन्तपुरं कलिङ्गानं, अस्सकानञ्च पोतनं ।

माहिस्सति' अवन्तीनं, सोदीरानञ्च रोशुकं ॥ 25

मिथिला च विदेहानं, चम्पा अङ्गेषु मापिता ।

वाराणसी च कासीनं, एते गोविन्दमापिता ति ॥

B 190, R. 236 १८ 'अथ खो, भो, ते छ खत्तिया ययासकेन लाभेन अत्तमना अहेसु परिपुण्णसङ्कप्पा - य वत नो अहोसि ईच्छित्त य आकङ्खित्त य' अधिप्येत य अभिपत्थित्त^१ त नो लद्ध ति ।

सत्तभू ब्रह्मदत्तो च, वेस्सभू भरतो सह ।

5

रेणु द्वे धतरट्ठा च, तदासु सत्त भारता^१ ति ॥

पठमभाणवार निद्वित ।

§ ५ महागोविन्दस्स पटिसल्लान

१९ 'अथ खो, भो, ते छ खत्तिया येन महागोविन्दो ब्राह्मणो तेनुप-सङ्कमिसु, उपसङ्कमित्वा महागोविन्द ब्राह्मण एतदवोचु - यथा खो भव गोविन्दो रेणुस्स रञ्जो सहायो पियो मनापो अप्पटिकूलो, एवमेव खो भव गोविन्दो अम्हाक पि सहायो पियो मनापो अप्पटिकूलो । अनुसासतु नो भव गोविन्दो, मा नो भव गोविन्दो अनुसासनिया पच्चव्याहासी^१ ति । एव, भो, ति खो सो महागोविन्दो ब्राह्मणो तेस छत्र खत्तियान पच्चवस्सोसि । अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो सत्त च राजानो खत्तिये मुद्धावसित्ते^२ रञ्जे^३ अनुसासि, सत्त च ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसत्तानि मन्ते वाचेसि ।

R. 237

२० 'अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अपरेण रमयेण एव कल्याणो कित्तिसद्दो अभुग्गच्छि^४ - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - मय्ह खो एव कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भगगतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह ब्रह्मान पस्सामि न ब्रह्मना साकच्छेमि न ब्रह्मना सल्लपामि न ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान^५ महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति करुण भान भायति, सो ब्रह्मान पस्सति ब्रह्मना साकच्छेति ब्रह्मना सल्लपति ब्रह्मना मन्तेती ति । यन्नूनाह वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयेय्यु^६ करुण भान भायेय्य ति ।

B 191

20

25

२१ 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा

१ स्या० पोत्वके नत्थिय । २ अधिपत्थित्त - सी०, रो० । ३ भारता - स्या०, भारता - म० । ४ पच्चव्याहासी - सी०, पच्चव्याहासी - रो० । ५-६ मुद्धावसित्तेन रञ्जेन - स्या० । ६ अब्भुग्गच्छि - सी०, रो० । ७ बुद्धान - स्या० । ८ पटिसल्लीयेय्य - सी० ।

तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा रेणु राजान एतदवोच - मय्ह खो, भो, एव कल्याणो कित्तिसद्दो अग्भुग्गतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह, भो, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुण ज्ञानं ज्ञायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । इच्छामह, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, करुण ज्ञान भायितु; नमिह केनचि उपसङ्गमितव्वो, अज्जत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति ।

यस्स दानि भवं गोविन्दो काल मज्जती ति ।

२२. 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया तेनुप-सङ्गमि, उपसङ्गमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच - मय्ह खो, भो, एव कल्याणो कित्तिसद्दो अग्भुग्गतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह, भो, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान महल्लकान आचरिय-पाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुण ज्ञान भायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । इच्छामह, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयितु, करुण ज्ञान भायितु, नमिह केनीच उपसङ्गमितव्वो, अज्जत्र एकेन भत्ताभिहारेना ति ।

यस्स दानि भव गोविन्दो काल मज्जती ति ।

२३ 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन सत्त च ब्राह्मण-महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्गमि, उपसङ्गमित्वा सत्त च ब्राह्मण-महासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच - मय्ह खो, भो, एव कल्याणो कित्तिसद्दो अग्भुग्गतो - सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह, भो, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मना साकच्छेमि, न ब्रह्मना सल्लपामि, न ब्रह्मना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान महल्लकान आचरिय-पाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुण

ज्ञान भायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मिना साकच्छेति, ब्रह्मिना सल्लपति, ब्रह्मिना मन्तेती ति । तेन हि, भो, यथासुते यथापरियत्ते मन्ते वित्थारेण सज्जाय करोथ, अञ्जामञ्ज च मन्ते वाचेथ, इच्छामह, भो, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयित्तु, करुण भान ज्ञायित्तु, नम्मि केनचि उपसङ्कमितव्वो,

5 अञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारेणा ति ।

यस्स दानि भव गोविन्दो काल मञ्जती ति ।

R 239

२४ 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा भरिया सादिसियो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमिन्त्वा चत्तारीसा भरिया सादिसियो एतदवोच - मय्ह खो, भोती, एव कल्याणो कित्तिसद्दो अब्भुगतो - सक्खि महागोविन्दो

10 ब्राह्मणो ब्रह्मान पस्सति, सक्खि महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मिना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह, भोती, ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मिना साकच्छेमि, न ब्रह्मिना सल्लपामि, न ब्रह्मिना मन्तेमि । सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति, करुण ज्ञान ज्ञायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मिना

15 साकच्छेति, ब्रह्मिना सल्लपति, ब्रह्मिना मन्तेती ति । इच्छामह, भोती, वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयित्तु, करुण ज्ञान ज्ञायित्तु, नम्मि केनचि उपसङ्कमितव्वो, अञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारेणा ति ।

यस्स दानि भव गोविन्दो काल मञ्जती ति ।

D 193

२५ 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो पुरत्थियमेन नगरस्स नव सन्धानार' कारापेत्वा वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयि, करुण भान भायि, नास्सुध' कोचि उपसङ्कमि', अञ्जत्र एकेन भत्ताभिहारेण । अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स चतुप्प मासान अच्चयेन अहुदेव उक्कण्ठना अहु परितस्सना - सुत खो पन मेत ब्राह्मणान बुद्धान महल्लकान आचरियपाचरियान भासमानान - यो वस्सिके चत्तारो मासे पटिसल्लीयति,

25 करुण भान ज्ञायति, सो ब्रह्मान पस्सति, ब्रह्मिना साकच्छेति सल्लपति मन्तेती ति । न खो पनाह ब्रह्मान पस्सामि, न ब्रह्मिना साकच्छेमि, न ब्रह्मिना मल्लपामि, न ब्रह्मिना मन्तेमी ति ।

३६ ब्रह्मिना तनङ्कुमारेण साकच्छा

२६ 'अथ खो, भो, ब्रह्मा तनङ्कुमारो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स

१ सन्धानार - गो०, रो०, गन्धानार - एवा० । २ तन्ग - ६.१०; नास्सुध - रो० ।

३ उपसङ्कमि - रो० ।

चेतसा चेतोपरिवितक्कमञ्जाय - सेय्यथापि नाम वलवा पुरिसो समिञ्जित'
 वा वाह पसारेय्य पसारित वा' वाह समिञ्जेय्य' एवमेव - ब्रह्मलोके
 अन्तरहितो महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स सम्मुखे पातुरहोसि । अथ खो, भो,
 महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स अहुदेव भय अहु छम्भितत्त अहु लोमहसो यथा
 त अदिट्ठपुब्ब रूप दिस्वा । अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो भीतो 5
 सविग्गो लोमहट्ठजातो ब्रह्मान सनङ्कुमार गाथाय अज्झभासि -

वण्णवा यसवा सिरिमा^१, को नु त्वमसि मारिस ।
 अजानन्ता त पुच्छाम, कथ जानेमु त मय ति^२ ॥

म वे कुमार जानन्ति, ब्रह्मलोके सनन्तन^३ ।
 सव्वे जानन्ति म देवा, एव गोविन्द जानहि^४ ॥ 10

आसन उदक पज्ज, मधुपाकञ्च^५ ब्रह्मनो ।
 अग्घे भवन्त पुच्छाम, अग्घ कुस्तु नो भव ॥

पटिग्गण्हाम^६ ते अग्घ, य त्व गोविन्द भाससि ।
 दिट्ठधम्महितत्थाय, सम्पराय सुखाय च ।
 कतावकासो पुच्छस्सु, य किञ्चि^७ अभिपत्थित^८ ति ॥ 15

२७ 'अथ खो, भो, महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - कता-
 वकासो खोमिह ब्रह्मना सनङ्कुमारेन, किं नु खो अह ब्रह्मान सनङ्कुमार
 पुच्छेय्य दिट्ठधम्मिक वा अत्थ सम्परायिक वा ति ? अथ खो, भो, महा-
 गोविन्दस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - कुसलो खो अह दिट्ठधम्मिकान अत्थान,
 अञ्जे पि म दिट्ठधम्मिक अत्थ पुच्छन्ति, यन्नूनाह ब्रह्मान सनङ्कुमार सम्प- 20
 रायिकञ्जेव अत्थ पुच्छेय्य ति । अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो ब्रह्मान
 सनङ्कुमार गाथाय अज्झभासि -

पुच्छामि ब्रह्मान सनङ्कुमार,
 कङ्खी अर्काह्वि^१ परवेदियेसु ।
 कत्थट्ठित्तो किमिह च सिक्खमानो,
 पप्पोत्ति मच्चो अमत ब्रह्मलोक ति ॥ 25

१ समिञ्जित - स्वा०, रो० । २ समिञ्जेय्य - स्वा०, रो० । ३ सिरिमा -
 सी० । ४ रो० पोषके नत्थि । ५ सनन्ति च - सी० । ६ जानाहि - सी० । ७ मधुपाकञ्च -
 सी०, म० । ८ पटिग्गण्हाम - रो० । ९-९ किञ्चिदभिपत्थित - सा० । १० अकङ्ख -
 सी० ।

हित्वा ममत्तं मनुजेसु ब्रह्मे,
 एकोदिभूतो करुणाधिमुत्तो' ।
 निरामगन्धो विरतो भेषुनस्मा,
 एत्थद्वितो एत्थ च सिक्खमानो ।
 5 पप्पोति मच्चो अमत्तं ब्रह्मलोकं ति ॥

२८ हित्वा ममत्त ति अहं भोतो अजानामि । इधेकच्चो अप्प वा भोगक्खन्वं पहाय महन्तं वा भोगक्खन्वं पहाय, अप्पं वा आतिपरिवट्टं पहाय महन्तं वा आतिपरिवट्ट पहाय, केसमस्सु ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारिय पव्वजति - इति हित्वा ममत्त ति' अहं भोतो अजानामि । एकोदिभूतो ति अहं भोतो अजानामि । इधेकच्चो विवित्त सेनासनं भजति अरञ्ज खखमूल पव्वत कन्दर गिरिगुह सुसान वन-पत्थ अब्भोकास पलालपुञ्ज' - इति एकोदिभूतो ति अहं भोतो अजानामि । करुणाधिमुत्तो ति अहं भोतो अजानामि । इधेकच्चो करुणासहगतेन चेतसा एक दिस फरित्वा विहरति तथा द्वितिय, तथा ततिय, तथा चतुत्थ, इति उद्धमघोतिरिय सब्बधि सब्बत्तताय सब्बावन्त लोक करुणासहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन' फरित्वा विहरति - इति करुणाधिमुत्तो ति अहं भोतो अजानामि । आमगन्धे च खो अहं भोतो भासमानस्स न अजानामि ।

के आमगन्वा मनुजेसु ब्रह्मे,
 एत्ते अविद्धा' इध ब्रूहि धीर ।
 केनावटा वाति पजा कुरुत्तु',
 आपाधिका निवुत्तब्रह्मलोका ति ॥
 कोधो मोसवज्ज निकति च दुब्भो',
 कदरियता अतिमानो उसूया" ।
 इच्छा विविच्छा" परहेठना" च,
 लोभो च दोसो च मदो च मोहो ।

१ करुणाधिमुत्तो - म० । २-२ ति सह - स्या०, ताह - सी०, रो० । ३ चाह - रो०, मह - स्या० । ४ पञ्जानपुञ्ज पटिसल्लीपति - स्या० । ५ पद - रो०, सह - स्या० । ६ अब्यापज्जेन - रो०, अब्यापज्जेन - स्या० । ७ अविद्धा - स्या० । ८ केनावटा - स्या० । ९ कुरुत्तु - स्या०, कुरुत्तु - रो० । १० दोसो - रो०, दोब्भो - स्या० । ११ उरुमुया - सी०, रो०, उरुमुया - स्या० । १२ विविच्छा - स्या०, रो० । १३ परहेठना - सी० ।

एतेसु युक्ता अनिरागगन्धा,
आपायिका नियुतब्रह्मलोका ति ॥

यथा सो अहं भोतो आमगन्धे भासमानस्स आजानामि, ते न सुनिम्म-
दया अगार अज्जावसता । पव्वजिस्सामहं, भो, अगारस्सा अनगारियं ति ।

यस्स दानि भव गोविन्दो काल मञ्जती ति ।

४ ७. महागोविन्दस्स पव्वज्जा

२६. 'अथ सो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन रेणु राजा
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा रेणु राजानं एतदयोच - अञ्ज दानि भवं
पुरोहितं परियेसतु यो भोतो रज्जं अनुसासिस्सति । इच्छामहं, भो,
अगारस्सा अनगारियं पव्वजितुं । यथा सो पन मे सुतं ब्रह्मणो
आमगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया अगारं अज्जावसता । पव्व- 10
जिस्सामहं, भो, अगारस्सा अनगारियं ति ।

आमन्तयामि राजानं, रेणुं भूमिपति अहं ।
त्व पजानस्सु रज्जेन, नाहं पोरोहिच्चे' रमे ॥
सचे ते ऊन' कामेहि', अहं परिपूरयामि ते ।
यो तं हिंसति वारेमि, भूमिसेनापती' अहं । 15
तुवं पिता' अहं पुत्तो', मा नो गोविन्द पाजहि' ॥
नमत्थि ऊनं कामेहि, हिंसिता' मे न विज्जति ।
अमनुस्सवचो सुत्वा, तस्माहं न गहे रमे ॥
अमनुस्सो म्भंवण्णो, किं' ते अत्थं अभासथ ।
यं च' सुत्वा जहासि" नो, गहे अग्हे च केवली" ॥ 20
उपवुत्थस्स मे पुब्बे, पिट्टकामस्स" मे सतो ।
अग्गि पज्जलितो आसि, कुसपत्तपरित्थतो ॥
ततो मे ब्रह्मा पातुरहु, ब्रह्मलोका सनन्तनो ।
सो मे पञ्हु वियाकासि, त सुत्वा न गहे रमे ॥

१. पोरोहन्ने - स्या०, रो० । २-२ ऊनकामेहि - स्या० । ३ भूमिसेनापति - स० ।
४. सच - स्या०, रो० । ५. पिनामि - रो० । ६ पुत्तो च - स्या० । ७ पाजहि - सी० । ८
हिंसितो - स्या० । ९ क - स्या०, रो० । १०. रो० वेत्थके म्पि । ११ पव्वजि -
रो० । १२. केवली - रो०, स्या०; नेवली - सी० । १३. म्भंवणस्स - सी०, म्भंवणस्स - रो०,
पिट्टकामस्स - स्या० ।

- सद्दहामि अह भोतो, य त्व गोविन्द भाससि ।
 अमनुस्सवचो सुत्वा, कथ वत्तेथ अञ्जया ॥
 ते त अनुवत्तिस्साम, सत्था गोविन्द नो भव^१ ।
 मणि यथा वेळुरियो, अकाचो विमलो सुभो ।
 5 एव सुद्धा चरिस्साम, गोविन्दस्सानुसासने ति ॥

सचे भव गोविन्दो अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्सति, मय^१ पि
 अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्साम^१ । अथ या ते गति सा नो गति
 भविस्सती ति ।

छ खत्तियआमन्तना

- ३० 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते छ खत्तिया
 10 तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा ते छ खत्तिये एतदवोच-अञ्ज दानि
 भवन्तो पुरोहित परिसेसन्तु यो भवन्तान रज्जे अनुसासिस्सति । इच्छामह,
 भो, अगारस्मा अनगारिय पव्वजितु । यथा खो पन मे सुत ब्रह्मणो
 आमगन्धे भासमानस्स ते न सुनिम्मदया अगार अञ्जावसता ।
 पव्वजिस्सामह, भो, अगारस्मा अनगारिय ति । अथ खो, भो, ते छ खत्तिया
 R 245 15 एकमन्त अपक्कम्म एव समचिन्तेसु - इमे खो ब्राह्मणा नाम धनलुद्धा,
 यन्नून मय महागोविन्द ब्राह्मण धनेन सिक्खेय्यामा ति । ते महागोविन्द
 ब्राह्मण उपसङ्कमित्वा एवमाहसु - सविज्जति खो, भो, इमेसु सत्तसु
 रज्जेसु पहूत^१ साप्पतेय्य, ततो भोतो यावतकेन अत्थो तावतप
 आहरीयत^१ ति ।

- 20 अल, भो^१ ममपिद पहूत सापतेय्य भवन्तानयेव^१ वाहसा तपह
 सव्व पहाय अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्सामि । यथा खो पन मे सुत
 B. 197 ब्रह्मणो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगार अञ्जावसता ।
 पव्वजिस्सामह, भो, अगारस्मा अनगारिय ति ।

- 25 'अथ खो, भो, ते छ खत्तिया एकमन्त अपक्कम्म एव सम-
 चिन्तेसु - इमे खो ब्राह्मणा नाम इत्थिलुद्धा^१, यन्नून मय महागोविन्द ब्राह्मण
 इत्थीहि सिक्खेय्यामा ति । ते महागोविन्द ब्राह्मण उपसङ्कमित्वा
 एवमाहसु - सविज्जन्ति^१ खो, भो, इमेसु सत्तसु रज्जेसु पहूता इत्थियो,
 १ भव - रो० । २ अह - रो० । ३ पव्वजिलामि - रो० । ४ पहूत - सी० । ५
 आहरीयत - सी०, आहरेय्यत - रो० । ६ भवन्तान येव - रो०, सी० । ७ इत्थिलुद्धा - स्था० ।
 ८ सविज्जन्ते - रो० ।

ततो भोतो यावत्तिकाहि अत्थो तावत्तिका आनीयत' ति ।

अल, भो, ममपिमा' चत्तारीसा भरिया सादिसियो तापाह' मव्या पहाय अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्सामि । यथा खो पन मे सुत ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगार अज्झावसता । पव्वजिस्सामह, भो, अगारस्मा अनगारिय ति ।

३१. सचे भव गोविन्दो अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्सति, मय पि अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति ।

सचे जहथ' कामानि, यत्थ सत्तो पुयुज्जनो ।

आरम्भव्हो' दब्हा होथ, सन्तिवलसमाहिता' ॥

एस मग्गो उजुमग्गो, एस मग्गो अनुत्तरो ।

सद्धम्मो' सव्विभ रक्खित्तो, ब्रह्मालोकूपपत्तिया ति ॥

तेन हि भवं गोविन्दो सत्त वस्सानि आगमेतु । सत्तन्न वस्मान् अचचयेन मयं पि अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति ।

अतिचिरं खो, भो, सत्त वस्सानि । नाहं सक्कोमि भवन्ते सत्त वस्सानि आगमेतु । को नु खो पन, भो, जानाति जीवित्तानं । गमनीयो सम्परायो मन्तायं' बोद्धव्वं कत्तव्व कुसलं चरितव्वं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मनो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता । पव्वजिस्सामह, भो, अगारस्मा अनगारियं ति ।

तेन हि भव गोविन्दो छ्वस्सानि आगमेतु . पे० पव्व वस्सानि आगमेतु चत्तारि वस्सानि आगमेतु तीणि वस्सानि आगमेतु द्वे वस्सानि आगमेतु एक वस्स आगमेतु, एकस्स' वस्सस्स' अचचयेन मय पि अगारस्मा अनगारिय पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति ।

अतिचिरं खो, भो, एक वस्स । नाहं सक्कोमि भवन्ते एकं वस्स आगमेतु । को नु खो पन, भो, जानाति जीवित्तानं । गमनीयो सम्परायो

१ आनिय्यत - रो० , आनेय्यत - सी० , आनीयता - स्या० । २ मय पिता - सी० । ३ ता पाह - रो० , तावाह - स्या० । ४ जहाव - रो० , पज्जथ - स्या० । ५ आरम्भो - स्या० , आरम्भव्हो - सी० , आरम्भव्हो - रा० । ६ सन्तीवलसमाहिता - स्या० । ७ सधम्मो - सी० । ८ मन्ताय - रो० । ९ तीनि - सी० । १०-१०. एकवस्सस्स - रो० ।

मन्तायं वोद्धव्वं कत्तव्वं कुसलं चरितव्वं ब्रह्मचरियं, नत्थि जातस्स अमरणं ।
यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मणो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया
अगारं अज्जावसता । पव्वजिस्सामहं, भो, अगारस्सा अनगारियं ति ।

तेन हि भवं गोविन्दो सत्त मासानि आगमेतु । सत्तन्नं मासानं
5 अच्चयेन मयं पि अगारस्सा अनगारियं पव्वजिस्साम । अथ या ते गति
सा नो गति भविस्सती ति ।

अतिचिर खो, भो, सत्त मासानि । नाहं सक्कोमि भवन्ते सत्त
मासानि आगमेतुं । को नु खो पन, भो, जानाति जीवितानं ! गमनीयो
सम्परायो मन्तायं वोद्धव्वं कत्तव्व कुसल चरितव्व ब्रह्मचरियं, नत्थि
10 जातस्स अमरण । यथा खो पन मे सुत ब्रह्मणो आमगन्धे भासमानस्स,
ते न सुनिम्मदया अगारं अज्जावसता । पव्वजिस्सामहं, भो, अगारस्सा
अनगारियं ति ।

तेन हि भव गोविन्दो छ मासानि आगमेतु ... पे० ... पञ्च मासानि
आगमेतु ... चत्तारि मासानि आगमेतु ... तीणि मासानि आगमेतु ... द्वे
15 मासानि आगमेतु ... एक मास आगमेतु ... अद्धमासं आगमेतु, अद्धमासस्स
अच्चयेन मयं पि अगारस्सा अनगारियं पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा
नो गति भविस्सती ति ।

अतिचिरं खो, भो, अद्धमासो । नाहं सक्कोमि भवन्ते अद्धमासं
आगमेतु । को नु खो पन, भो, पजानाति^१ जीवितानं ! गमनीयो सम्परायो
20 मन्तायं वोद्धव्वं कत्तव्वं कुसलं चरितव्व ब्रह्मचरियं । नत्थि जातस्स अमरण ।
यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मणो आमगन्धे भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया
अगारं^२ अज्जावसता । पव्वजिस्सामहं, भो, अगारस्सा अनगारियं ति ।

R. 248

B 199

तेन हि भवं गोविन्दो सत्ताहं आगमेतु याव मयं सके पुत्तभातरो
रज्जेन^३ अनुसासिस्साम^४ । सत्ताहस्स अच्चयेन मयं पि अगारस्सा अन-
25 गारियं पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति ।
न चिर खो, भो, सत्ताह । आगमेस्सामहं^५ भवन्ते सत्ताहं ति ।

ब्राह्मणमहासालादीनंआमन्तनं

३२. 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन ते सत्त च ब्राह्मण-
महासाला सत्त च न्हातकसतानि तेनुपसङ्गमि ; उपसङ्गमित्वा सत्त च

१. जानाति - सी०, स्था०, रो० । २. अगारस्सा - रो० । ३. रज्जे - स्था०, रो० ।
४. अनुसासाम - रो० । ५. आगमिस्सामहं - स्था०, रो०, सी० ।

ब्राह्मणमहासाले सत्त च न्हातकसतानि एतदवोच - अञ्चं दानि भवन्तो
 आचरियं परियेसन्तु यो भवन्तानं मन्ते वाचेस्सति । इच्छामहं, भो, अगारस्मा
 अनगारियं पव्वजित्तु । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मणो आमगन्धे भास-
 मानस्स, ते न सुनिम्मदया अगार अज्झावसता । पव्वजिस्सामहं, भो,
 अगारस्मा अनगारियं ति ।

मा भवं गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पव्वजि । पव्वज्जा, भो,
 अप्पेसक्खा च अप्पलाभा च; ब्रह्मञ्चं मह्सेक्खं च महालाभं चा ति ।

मा भवन्तो एवं अवचुत्थ - पव्वज्जा अप्पेसक्खा च अप्पलाभा
 च, ब्रह्मञ्चं मह्सेक्खं च महालाभं चा ति । को नु खो, भो, अञ्जत्र'
 मया मह्सेक्खतरो वा महालाभतरो वा ! अहं हि', भो', एतरहि राजा व'
 रञ्चं ब्रह्मा व' ब्रह्मान' देवता व' गह्पतिकानं । तमह सव्वं पहाय अगारस्मा
 अनगारियं पव्वजिस्सामि । यथा खो पन मे सुतं ब्रह्मणो आमगन्धे
 भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता । पव्वजिस्सामह, भो,
 अगारस्मा अनगारियं ति ।

सचे भव गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पव्वजिस्सति, मयं पि
 अगारस्मा अनगारियं पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति
 भविस्सती ति ।

भरियानं आमन्तना

३३. 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो येन चत्तारीसा'
 भरिया सादिसियो तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा चत्तारीसा भरिया
 सादिसियो एतदवोच - या भोतीन इच्छति सकानि वा जातिकुलानि
 गच्छतु' अञ्च वा भत्तारं परियेसतु' । इच्छामहं, भोती, अगारस्मा
 अनगारियं पव्वजित्तु । यथा खो पन मे सुत ब्रह्मणो आमगन्धे
 भासमानस्स, ते न सुनिम्मदया अगारं अज्झावसता । पव्वजिस्सामह,
 भोती, अगारस्मा अनगारियं ति ।

त्वञ्जेव नो जाति जातिकामानं, त्वं पन भत्ता भत्तुकामानं । सचे
 भव गोविन्दो अगारस्मा अनगारियं पव्वजिस्सति, मयं पि अगारस्मा
 अनगारियं पव्वजिस्साम । अथ या ते गति सा नो गति भविस्सती ति ।

१. अञ्चो - रो० । २-२ दो वा - स्या० । ३. च - रो० । ४ च - रो० । ५ ब्राह्मणान -
 स्या०, रो०, म० । ६ च - रो० । ७ सम्पए - रो० । ८ चत्तारीसा च - सी० । ९ गच्छन्तु -
 स्या० । १०. परियेसन्तु - स्या० ।

महागोविन्दो पव्वजि

३४. 'अथ खो, भो, महागोविन्दो ब्राह्मणो तस्स सत्ताहस्स
अच्चयेन केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा
अनगारियं पव्वजि । पव्वजितं पन' महागोविन्दं ब्राह्मणं सत्त च
राजानो खत्तिया मुद्धावसित्ता सत्त च ब्राह्मणमहासाला सत्त च न्हातक-
5 सतानि चत्तारीसा च भरिया सादिसियो अनेकानि च खत्तियसहस्सानि
अनेकानि च ब्राह्मणसहस्सानि अनेकानि च गहपतिसहस्सानि अनेकेहि' च
इत्यागारेहि' इत्थियो केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा
महागोविन्दं ब्राह्मणं अगारस्मा अनगारियं पव्वजितं अनुपव्वजिसु ।
ताय सुदं, भो, परिसाय परिवुतो महागोविन्दो ब्राह्मणो गामनिगम-
R. 250 10 राजधानीसु चारिक चरति । यं खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दो
ब्राह्मणो गामं वा निगमं वा उपसङ्कमति, तत्थ राजा व होति रञ्जं,
ब्रह्मा व ब्रह्मानं, देवता व गहपतिकानं । तेन' खो पन' समयेन मनुस्सा
खिपन्ति वा उपक्खलन्ति वा ते एवमाहंसु - नमत्थु महागोविन्दस्स
ब्राह्मणस्स नमत्थु सत्त पुरोहितस्सा ति ।

15 ३५. 'महागोविन्दो, भो, ब्राह्मणो भेत्तासहगतेन चेतसा एकं
दिसं फरित्वा विहासि; तथा दुतियं, तथा ततियं, तथा चतुत्थं । इति
उद्धमधो तिरियं सब्वधि सब्वत्ताय सब्बावन्तं लोकं भेत्तासहगतेन चेतसा
विपुलेन महगतेन अप्पमाणेन अवेरेन अब्यापज्जेन फरि वा विहासि ।
करुणासहगतेन चेतसा ... पे० ... मुदितासहगतेन चेतसा ... प० ... उपेक्खा-
20 सहगतेन चेतसा ... पे० ... अब्यापज्जेन फरित्वा विहासि, सावकानं
च ब्रह्मलोकसहव्यताय' मगं देसेसि ।

B.201 ३६. 'ये खो पन, भो, तेन समयेन महागोविन्दस्स ब्राह्मणस्स
सावका सब्वेन सब्वं सासनं भ्राजानिसु ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं
ब्रह्मलोकं उपपज्जिसु । ये न सब्वेन सब्वं सासनं भ्राजानिसु ते कायस्स भेदा
25 परं मरणा अप्पेकच्चे परनिम्मितवसवत्तीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जिसु,
R. 251 अप्पेकच्चे निम्मानरतीनं देवानं सहव्यतं उपपज्जिसु, अप्पेकच्चे
तुसितानं देवानं सहव्यतं उपपज्जिसु, अप्पेकच्चे यामानं देवानं सहव्यतं

१. च पन - त्या०, रो० । २. अनेका - त्या०, रो० । ३. इत्यागार - त्या० । ४. ब्रह्मलोकं - रो०, रो०, त्या० । ५-५. ये खो पन भो तेन - त्या० । ६. ब्रह्मलोकसहव्यताय - रो० । ७. उपपज्जिसु - रो० ।

उपपज्जिगु, अप्पेवच्चे तावतिंगानं देवानं गह्वर्यत उपपज्जिगु, अप्पेवच्चे चातुमहाराजिवानं देवानं सहव्यत उपपज्जिगु । ये सत्त्वनिहीनं कायं परिपूरेणु ते गन्धर्वकाय परिपूरेणु । इति गो, भो, सत्त्वेस येव तेस कुलपुत्तानं अमोघा पव्वज्जा अहोसि अवञ्जा सफला सउद्रया' ति ।

३७ "सरति त भगवा" ति ? "सरामह, पञ्चसित । अह तेन 5
समयेन महागोविन्दो ब्राह्मणो अहोसि । अह तेसं मावतानं ब्रह्मलोक-
सहव्यताय मग्ग देसेसि । त सो पन मे, पञ्चसित, ब्रह्मचरिय न
निव्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न अभिञ्जाय न
सम्बोधाय न निव्वानाय सवत्तति, यावदेव ब्रह्मलोकूपपत्तिया । इद सो
पन मे, पञ्चसित, ब्रह्मचरिय एवन्तनिव्विदाय विरागाय निरोधाय 10
उपसमाय अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय सवत्तति । कतमं च त,
पञ्चसित, ब्रह्मचरिय एवन्तनिव्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय
अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय सवत्तति ? अयमेव अरियो अट्टणितो
मग्गो, सेय्यधिदं - सम्मादिट्ठि, सम्मासद्धप्पो, सम्मावाचा, सम्मावम्मन्तो,
सम्माआजीवो, सम्मावायामो, सम्मासति, सम्मासमाधि । इद सो त, 15
पञ्चसित, ब्रह्मचरियं एवन्तनिव्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय
अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय सवत्तति ।

३८ "ये सो पन मे, पञ्चसित, सावया सत्तेन सव्व सासन
आजानन्ति ते आसवानं राया अनासव चेतोविमुत्ति पञ्चाविमुत्ति
दिट्ठेव धम्मे सय अभिञ्जा सच्चिद्वक्त्वा उपसम्पज्ज विरहन्ति, ये न 20
सव्वेन सव्व सासन आजानन्ति ते पञ्चमं ओरम्भागियानं सयोजनानं"
परिक्खया ओपपात्तिवा होन्ति, तस्य परिनिव्वायिनो, अनायत्तिधम्मा
तस्मा लोता । ये न सव्वेन सव्व सासन आजानन्ति अप्पेवच्चे तिण्ण
सयोजनानं परिक्खया रागदोसमोहानं तनुत्ता सत्तागामिनो होन्ति,
सतिदेव इमं लोणं आगन्त्वा दुक्खस्सन्तं वरिस्सन्ति" । ये न सव्वेन सव्व 25
सासन आजानन्ति अप्पेकच्चे तिण्ण सयोजनानं परिक्खया सोनापन्ना
होन्ति अविनिपातधम्मा नियता सम्बोधिपरायणा" । इति सो, पञ्चसित,

१ चातुमहाराजिवानं - स्तो०, रो० । २ देव्ये - रा० । ३-३ सत्त्वनिहीनं - स्तो०, रो० । ४ पन - सो०, स्तो० । ५ अहोसि - स्तो० । ६ अट्टणितो - स्तो० । ७ त - स्तो० । ८-८ सो पौपदे मग्गि । ९ तेस्यपद - स्तो०, रो० । १० सम्मावज्जनं - स्तो०, स्तो० । ११ वरिस्सन्ति - रो० । १२ ० परायणा - स्तो०, स्तो०, रो० ।

सव्येसं येव' इमेसं कुलपुत्तानं अमोघा पव्यज्जा अवञ्जा सफला सउद्रया" ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमनो पञ्चसिखो गन्धव्वपुत्तो भगवतो
भासितं अभिनन्दित्वा अनुभोदित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं
कत्वा तत्येवन्तरधायी ति ।

5

महागोविन्दमुत्तं निष्ठितं छट्ठं ।

—:०:—

७. महासमयसुरां

१. चतुर्नं सुद्धावासकायिकानं देवानं गाथा

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा सवकेसु विहरति कपिलवत्युस्मिं महावने महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसत्तेहि सव्वेहेव अरहन्तेहि; दसहि च लोकघातूहि देवता येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्खुसङ्घं च । अथ सो चतुर्नं सुद्धावासकायिकानं देवानं एतदहोसि - "अयं सो भगवा सवकेसु विहरति कपिलवत्युस्मिं महावने महता भिक्खुसङ्घेन सद्धिं पञ्चमत्तेहि भिक्खुसत्तेहि सव्वेहेव अरहन्तेहि; दसहि च लोकघातूहि देवता येभुय्येन सन्निपतिता होन्ति भगवन्तं दस्सनाय भिक्खुसङ्घं च । यन्नून मयं पि येन भगवा तेनुपसङ्गमेय्याम; उपसङ्गमित्वा भगवतो सन्तिके पञ्चेकं गाथं भासेय्यामा" ति ।

२. अथ सो ता देवता - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समिञ्जितं वा वाहं पसारयेय्य पसारितं वा वाहं समिञ्जेय्य एवमेव - सुद्धावासेसु देवेषु अन्तरहिता भगवतो पुरतो पातुरहेसु । अथ सो ता देवता भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त अट्ठंसु । एकमन्तं ठिता सो एका देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि -

"महासमयो पवनस्मि, देवकाया समागता ।

आगतम्ह इमं धम्मसमयं, दक्खिताये अपराजितसङ्घं" ति ।

अथ सो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि -

"तत्र भिक्खवो समादहंसु^१, चित्तमत्तनो उजुकं अकंसु^२ ।

सारयीव^३ नेत्तानि गहेत्वा, इन्द्रियानि खसन्ति पण्डिता" ति ॥

अथ सो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि -

"छेत्वा खीलं^४ छेत्वा पलिघं^५, इन्दखील ऊहच्च^६ मनेजा ।

ते चरन्ति सुद्धा विमला, चक्खुमता सुदन्ता सुसुनागा^७" ति ॥

१. देवताय - म० । २. पञ्चेगाय - गो०, स्या०, रो० । ३. समिञ्जित - स्या०, रो० । ४. एवमेव - रो० । ५. पातुरहेसु - स्या०, रो० । ६. मन्तादहिसु - ती० । ७. उदुत्तयसु - ती०, स्या०, रो० । ८. सारयीव - ती०, रो० । ९. तिन - रो० । १०. पलीघ - स्या० । ११. धोहच्च - स्या०; उदृच्च - ती० । १२. सुसुनागा - स्या० ।

B. 204,
R. 255

अथ खो अपरा देवता भगवतो सन्तिके इमं गाथं अभासि-
 “ये केचि बुद्धं सरणं गतासे, न ते गमिस्सन्ति अपायभूमिं” ।
 पहाय मानुसं देहं, देवकायं परिपूरेस्सन्ती” ति ॥

§ २. भगवता सन्निपतितानं देवतानं नामकित्तनं

३. अथ खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि- “येभुय्येन, भिक्खवे,
 5 दससु लोकधातूसु देवता सन्निपतिता ह्योन्ति^१ तथागतं दस्सनाय भिक्खु-
 सङ्घं च । ये पि ते, भिक्खवे, अहेसुं अतीतमद्धानं अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा,
 तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव^२ देवता सन्निपतिता अहेसु सेय्यथापि
 मय्हं एतरहि । ये पि ते, भिक्खवे, भविस्सन्ति अनागतमद्धानं अरहन्तो
 सम्मासम्बुद्धा तेसं पि भगवन्तानं एतंपरमायेव देवता सन्निपतिता
 10 भविस्सन्ति सेय्यथापि मय्हं एतरहि । आचिक्खिस्सामि, भिक्खवे,
 देवकायानं नामानि; कित्तयिस्सामि, भिक्खवे, देवकायानं नामानि;
 देसेस्सामि, भिक्खवे, देवकायानं नामानि । तं सुणाथ, साधुकं मनसिकरोथ,
 भासिस्सामी” ति । “एवं, भन्ते” ति खो ते भिक्खू भगवतो
 पच्चस्सोसुं ।

15 ४. भगवा एतदवोच-

“सिलोकमनुकस्सामि, यत्थ भुम्मा तदस्सिता ।
 ये सिता गिरिगम्भरं, पहितत्ता सगाहिता ॥

“पुयूसीहाव^३ सल्पीना^४, लोमहंसाभिसम्भुनो ।
 ओदातमनसा सुद्धा, विप्पसन्नमनाविला^५ ॥

R. 256 20

“भिय्यो^६ पच्चसते ञ्जत्वा, वने कापिलवत्यवे ।
 ततो आमन्तयो सत्या, सावके सासने रते ॥

“देवकाया अभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो ।
 ते च आतप्पमकरं, सुत्वा बुद्धस्स सासन ॥

25

“तेसं पातुरहुं^७ ज्ञाणं, अमनुस्सानदस्सनं ।
 अप्पेके रातमद्दवसुं, राहस्सं अथ सत्तरीं ॥

१. अणयं-गी० । २. रो० पोत्थवे नयि । ३. एतपरमा येव-रो०; एतपरमायेव-
 स्वा० । ४-४. पुपु गीहाव सल्पीना-गी०, स्वा० । ५. विप्पसना मनाविला-गी०, रो० । ६
 भिय्यो-रो० । ७. पातुरहुं-रा० । ८. गतति-रो० ।

- “सतं एके सहस्सानं, श्रमनुस्सानमद्सुं ।
 श्रप्पेकेनन्तमद्दयसुं, दिसा सच्च्या फुटा श्रहुं ॥
- “तं च सच्चं श्रभिञ्जाय, ववत्थित्वान' चक्खुमा ।
 ततो श्रामन्तयी सत्था, सायके सासने रते ॥
- “देवकाया श्रभिवक्कन्ता, ते विजानाय भिवक्खवो ।
 ये वोहं कित्तयिस्सामि, गिराहि अनुपुट्ठसो ॥ 5
५. “सत्तसहस्सा ते' यक्खा, भुम्मा कापिलवत्थवा ।
 इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्सिस्सो ।
 मोदमाना श्रभिवक्कामुं, भिवक्खूनं समितिं वनं ॥
- “द्यसहस्सा हेमवता, यक्खा नानत्तवण्णिनो ।
 इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्सिस्सो ।
 मोदमाना श्रभिवक्कामुं, भिवक्खूनं समितिं वनं ॥ 10
- “सातागिरा तिसहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो ।
 इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्सिस्सो ।
 मोदमाना श्रभिवक्कामुं, भिवक्खूनं समितिं वनं ॥ 15
- “इच्चते सोळससहस्सा, यक्खा नानत्तवण्णिनो ।
 इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्सिस्सो ।
 मोदमाना श्रभिवक्कामुं, भिवक्खूनं समितिं वनं ॥
- “वेस्सामित्ता पच्चसत्ता, यक्खा नानत्तवण्णिनो ।
 इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्सिस्सो ।
 मोदमाना श्रभिवक्कामुं, भिवक्खूनं समितिं वनं ॥ 20
- “कुम्भीरो' राजगहिको, वेपुल्लस्स निवेससं ।
 भिय्यो नं सत्तसहस्सं, यक्खानं पयिरुपासति ।
 कुम्भीरो राजगहिको, सोपागा' समितिं वनं ॥
६. “पुरिमञ्च दिसं राजा, धतरट्ठो पसारति ।
 गन्धब्बानं अधिपति', महाराजा यस्सिस्सो ॥ 25

१. धहु-रो० । २. ववत्थित्वान-स्या०, रो०; श्रवेत्थित्वान-सी० । ३. य-स्या०, रो० । ४. जुत्तिमन्तो-सो०, स्या०, म० । ५. कुम्भीरो-रो० । ६. सोपाग-स्या०, रो० ।
 ७. अधिपति-स्या०, रो० ।

B 205

“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महव्वला ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वन ॥

5

“दक्खिण च दिसं राजा, विरूह्हो त पसासति’ ।
कुम्भण्डान अधिपति, महाराजा यसस्सिसो ॥

“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महव्वला ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वन ॥

10

“पच्छिम च दिस राजा, विरूपक्खो पसासति ।
नागान च अधिपति, महाराजा यसस्सिसो ॥

“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महव्वला ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वन ॥

15

“उत्तर च दिस राजा, कुवेरो त पसासति ।
यवखान च अधिपति, महाराजा यसस्सिसो ॥

R. 258

“पुत्ता पि तस्स बहवो, इन्दनामा महव्वला ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामु, भिक्खूनं समिति वन ॥

“पुरिम दिस घत्तरट्ठो, दक्खिणेन विरूह्हको ।
पच्छिमेन विरूपक्खो, कुवेरो उत्तर दिस ॥

20

“चत्तारो ते महाराजा, समन्ता चतुरो दिसा ।
दह्ल्लमाना अट्टसु, वने कापिलवत्थवे ॥

७ “तेस मायाविनो दासा, आगु वञ्चनिका सठा ।
माया कुटेण्डु विटेण्डु, विट्ठच्च विट्ठो सह ॥

25

“चन्दनो कामसेट्ठो च, किन्निघण्डु निघण्डु च ।
पनादो ओपमञ्जो च, देवसूतो च भातलि ॥

१. तप्पसापति - स्या० । २ व - रो०, स्या० पोत्यके मत्वि । ३ दह्ल्लमाना - इति पि, ददल्लमाना - सी० । ४ आगु - रो०, आगु - स्या० । ५ वेटेण्डु - सी०, स्या०, रो० । ६ विट्ठु च - स्या० । ७ विट्ठुचो - रो० । ८ किन्नुघण्डु - रो०, विन्नु घण्डु - स्या०, विन्नुघण्डु - सी० । ९ देवसूतो - सी० ।

B. 268

“दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥

5

“वेण्डुदेवा^१ सहलि^२ च, असमा च दुवे यमा ।
चन्दस्सूपनिसा देवा, चन्दभागुं पुरक्खत्वा^३ ॥

R.260

“सुरियस्सूपनिसा देवा, सुरियभागुं पुरक्खत्वा ।
नक्खत्तानि पुरक्खत्वा, आगुं मन्दवलाहका ।
वसूनं वासवो सेट्ठो, सक्कोपागा^४ पुरिन्ददो ॥

10

“दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥

“अथागु^५ सहभू देवा, जलमग्गिसिखारिव ।
अरिट्ठका च रोजा च, उमापुप्फनिभासिनो^६ ॥

15

“वरुणा सहधम्मा च, अच्चुता च अनेजका ।
सूलेय्यरुचिरा^७ आगुं, आगुं वासवनेसिनो ।
दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ॥

“इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥

20

“समाना महासमाना^८, मानुसा मानुसुत्तमा ।
खिट्ठापदोसिका^९ आगुं, आगुं मनोपदोसिका^{१०} ॥

“अथागुं हरयो देवा, ये च लोहितवासिनो ।
पारगा महापारगा, आगुं देवा यसस्सिनो ॥

25

“दसेते दसधा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यसस्सिनो ।
मोदमाना अभिक्कामुं, भिक्खूनं समिति वनं ॥

१ वेण्डु च देवा - स्या०; वेण्डु च देवा - रो० । २. सहली - स्या०, ली०; सहली - रो० । ३. पुरेक्खत्वा - ली०; पुरेक्खत्वा - स्या० । ४. मरुतो पाग - स्या०, रो० । ५. अथागु - स्या०; अथागु - रो० । ६. उमापुप्फनिभासिनो - ली०, स्या०, रो० । ७. सुनेय्य रुचिरा - ली० । ८. महासमाना - म० । ९. खिट्ठापदोसिका - ली०, स्या०, रो० । १०. मनोपदोसिका - ली०, स्या०, रो० ।

“सुवका करम्भा” अरुणा, आगुं वेघनसा सह ।
श्रोदातगह्या पामोवसा, आगुं देवा विचक्रुषणा ॥

“सदामत्ता हारगजा, मिस्तका च यस्तस्सिनो ।
यनयं आगं पज्जुघ्नो”, यो दिसा अभिवस्सति ॥

“दसेते दसघा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्तस्सिनो ।
मोदमाना अभिवकामुं, भिवखूनं समिति वनं ॥

5

“खेमिया तुसिता यामा, कट्टका च यस्तस्सिनो ।
लम्बीतका” लामसेट्टा, जोतिनामा च आसवा ।
निम्मानरतिनो आगुं, अथागुं परनिम्मिता ॥

10

“दसेते दसघा काया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ।
इद्धिमन्तो जुतीमन्तो, वण्णवन्तो यस्तस्सिनो ।
मोदमाना अभिवकामुं, भिवखूनं समिति वनं ॥

“सट्ठेते देवनिकाया, सव्वे नानत्तवण्णिनो ।
नामन्वयेन आगच्छु”, ये चञ्जे सदिसा सह ॥

15

“पवुत्थजातिमखिलं”, ओपतिण्णमनासवं ।
दवखेमोघतरं नागं, चन्दं व असितातिगं ॥

११. “सुब्रह्मा परमत्तो” च, पुत्ता इद्धिमत्तो सह ।
सन्नद्धमारो तिस्सो च, सोपागं” समिति वनं ॥

“सहस्सं” ब्रह्मलोकानं”, महाब्रह्माभित्तिट्ठति ।
उपपन्नो जुतीमन्तो, भिस्माकायो यस्तस्सिनो ॥

20

“दसेत्थ इस्सरा आगुं, पच्चेकवसवत्तिनो ।
तेसं च मज्झतो आग”, हारितो परिवारितो ॥

१२. “ते च सव्वे अभिवकन्ते,
सइन्दे” देवे” सन्नह्मके ।

25

१. करम्भा - स्या०, रो० । २. आगा - स्या० । ३. पज्जुघ्नो - स्या० । ४. सखितका - सी०, स्या० । ५. आगच्छु - सी०, स्या०, रो० । ६. पवुत्थजातिमखिलं - स्या०; पवुत्थजातिमखिलं - म० । ७. असितातिगं - स्या० । ८. परमत्यो - सी० । ९. सोपागा - सी० । १०-१०. सहस्सब्रह्मलोकानं - स्या०, रो० । ११. आगा - सी०, स्या० । १२-१२ सइन्देदे - रो०; सिन्देदे - स्या० ।

मारसेना अभिक्कामि,
पस्स कण्हस्स मन्दियं ॥

R. 262

“एथ गण्हथ वन्धथ, रागेण वद्धमत्थु^१ वो ।
समन्ता परिवारेथ, मा वो भुञ्चित्य कोचि नं ॥

B₂10 5

“इति तत्थ महासेनो, कण्हो^२ सेनो^३ अपेसयि ।
पाणिना तलमाहच्च^४, सरं कत्वान भेरवं ॥

“यथा पावुस्सको मेघो, थनयन्तो सविज्जुको ।
तदा सो पच्चुदावत्ति, सङ्गद्धो असयंवत्ते^५ ॥

10

१३. “तं च सब्बं अभिञ्जाय, ववत्थित्वान^६ चक्खुमा ।
ततो आमन्तयी सत्था, सावके सासने रते ॥

“मारसेना अभिक्कन्ता, ते विजानाथ भिक्खवो ।
ते च आतप्पमकरं, सुत्वा वुद्धस्स सासनं ।

वीत्तरागेहि पक्कामु, नेस^७ लोमा^८ पि इञ्जयुं ॥
“सब्बे विजितसङ्गामा, भयातीता यसस्सिनो ।

15

मोदन्ति सह भूतेहि, सावका ते जनेसुता” ति ॥

महासमयसुत्त^९ निहित^९ सत्तम^९ ।

—:०:—

१ वन्धमत्थु - सी०, स्या० । २-२ वण्हसेन - रो०, स्या० । ३ धत्तमाहच्च - सी० । ४
अपेसयि - स्या०, अपेसयसी - सी०, रो० । ५ ववत्थित्वान - स्या०, रो० । ६ नस - रो० ।
७ लोमं - सी०, स्या०, रो० । ८ महासमयसुत्तन्त - रो० । ९. सी० पोत्थवे नत्थि । १०. रो०
पोत्थवे नत्थि ।

८. सक्कपञ्चसुतां

१. पञ्चसिखो भगवन्तं वीणं अस्सावेत्ति

१. एवं मे सुतं । एकं रामयं भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स अम्बसण्डा^१ नाम ब्रह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके^२ पव्वते इन्द-
सालगुहायं । तेन खो पन समयेन सक्कस्स देवानमिन्दस्स उस्सुक्कं उदपादि
भगवन्तं दस्सनाय । अथ खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि - “कहं नु
खो भगवा एतरहि विहरति अरहं सम्मासम्बुद्धो” ति ? अइसा खो सक्को
देवानमिन्दो भगवन्तं मगधेसु विहरन्तं, पाचीनतो राजगहस्स अम्बसण्डा
नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्वते इन्दसालगुहायं । दिस्वान^३
देवे तावत्तिसे आमन्तेसि - “अयं, मारिसा, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो
राजगहस्स अम्बसण्डा ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्वते इन्दसाल-
गुहायं । यदि पन, मारिसा, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्याम
अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं” ति ? “एवं भइन्तवा” ति खो देवा तावत्तिसा सक्कस्स
देवानमिन्दस्स पच्चस्सोसु ।

२. अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वपुत्तं^४ आमन्तेसि -
“अयं, तात पञ्चसिख, भगवा मगधेसु विहरति, पाचीनतो राजगहस्स अम्ब-
सण्डा नाम ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्वते इन्दसालगुहायं । यदि
पन, तात पञ्चसिख, मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमेय्याम अरहन्तं सम्मा-
सम्बुद्धं” ति ? “एवं भइन्तवा” ति खो पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो सक्कस्स
देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा वेलुवपण्डुवीणं^५ आदाय सक्कस्स देवानमिन्दस्स
अनुचरियं उपागमि ।

३. अथ खो सक्को देवानमिन्दो देवेहि तावत्तिसेहि परिवुतो पञ्च-
सिखेन गन्धव्वदेवपुत्तेन पुरक्खतो^६ - सेय्यथापि नाम बलवा पुरिसो समि-
ञ्जितं^७ वा वाह पसारय्य, पसारितं वा वाहं समिञ्जेय्य एवमेव - देवेसु
तावत्तिसेसु अन्तरहितो, मगधेसु पाचीनतो राजगहस्स अम्बसण्डा नाम
ब्राह्मणगामो तस्सुत्तरतो, वेदियके पव्वते पच्चुट्ठासि । तेन खो पन समयेन
वेदियको पव्वतो अतिरिव ओभासजातो होति अम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो -

१. अम्बसण्डी - स्या० । २. वेदिके - सी० । ३. दिस्वा - रो० । ४. गन्धव्वदेवपुत्तं -
सी० । ५. वेलुवपण्डुवीणं - स्या० । ६. पुरेस्सतो - सी० । ७. समिञ्जितं - स्या०, रो० ।

यथा तं देवानं देवानुभावेन । अपिस्सुदं परितो गामेसु मनुस्सा एवमाहंसु-
 "आदित्तस्सु नामज्ज वेदियको पव्वतो, ज्ञायतिसु' नामज्ज वेदियको पव्वतो,
 जलतिसु' नामज्ज वेदियको पव्वतो', किंसु नामज्ज वेदियको पव्वतो अतिरिक्
 ओभासजातो, अम्बसण्डा च ब्राह्मणगामो" ति, संविग्गा लोमहट्ठजाता
 5 अहेसुं ।

R. 265

४. अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वदेवपुत्तं ग्राम-
 न्तेसि - "दुरुपसङ्कमा खो, तात पञ्चसिख, तथागता मादिसेन ज्ञानरता'
 तदन्तरं' पटिसल्लीना' । यदि पन त्वं, तात पञ्चसिख, भगवन्तं पठमं पसादे-
 व्यासि ! तथा, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्क-
 10 मेय्याम अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं" ति । "एवं भद्दन्तवा" ति खो पञ्चसिखो
 गन्धव्वदेवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा वेलुवपण्डुवीण'
 आदाय येन इन्दसालगुहा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा, "एत्तावता
 मे भगवा नेव अतिदूरे' भविस्सति' नाच्चासन्ने, सद्दं च सोस्सती" ति
 एकमन्तं अट्ठासि ।

15

५. एकमन्तं ठितो खो पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो वेलुवपण्डुवीण
 अस्सावेसि इमा च गाथा" अभासि बुद्धूपसञ्छिता" धम्मूपसञ्छिता
 सङ्घूपसञ्छिता" अरहन्तूपसञ्छिता कामूपसञ्छिता -

"वन्दे ते पितरं भद्दे, तिम्वरं" सुरियवच्छसे" ।
 येन जातासि कल्याणी, आनन्दजननी भम ॥

20

"वातो व सेदतं कन्तो, पानीयं व पिपासतो ।
 अङ्गीरसि" पियामेसि, धम्मो अरहतामिव" ॥

"आतुरस्सेव भेसज्जं, भोजनं व जिघच्छतो ।
 परिनिब्बापय" मं" भद्दे, जलन्तमिव वारिना ॥

R. 266

१. ज्ञायतिसु - स्या०; ज्ञायतिसु - सी०; पञ्चायितस्सु - रो० । २ ज तस्सु -
 स्या०; जलतिसु - सी०; जलितस्सु - रो० । ३ स्या० पोत्थके नरिय । ४. ज्ञायी ज्ञानरता -
 सी०, रो०, स्या० । ५. तदन्तरं - स्या०, रो० । ६ पटिसल्लीना - रो० । ७ रो० पोत्थके
 नरिय । ८ वेलुवपण्डुवीण - स्या० । ९-९ अविदूरे खो वसति - स्या० । १० मे सोस्सति - स्या०;
 खो सोस्सति - रो० । ११. गाथायो - स्या० । १२. बुद्धूपसञ्छिता - सी०, स्मा० ।
 १३ रो० पोत्थके नरिय । १४. तिम्वरं - रो० । १५ तूरिय० - म०; सुरियवच्छसे - रो० ।
 १६. अङ्गीरसी - सी०; अङ्गीरसी - रो०; अङ्गीरसी - स्या० । १७. अरहत्त इव - स्या० ।
 १८. परिनिष्वापयि - स्या० । १९. रो० पोत्थके नरिय ।

"सीतोदकं" पोक्खरणिं, युत्तं किञ्जकखरेणुना ।
 नागो घम्माभित्तो व, ओगाहे ते थनूदरं ॥
 "अच्चङ्कुसो व नागो व", जितं मेत्ततोमरं^१ ।
 कारणं नप्पजानामि, सम्मतो लक्खणूरुया^२ ॥
 "तयि गेधितचित्तोस्मि", चित्तं विपरिणामितं ।
 पटिगन्तुं न सक्कोमि, वङ्कघस्तोव^३ अम्बुजो ॥
 "वामूह" सज मं भद्दे, सज मं मन्दलोचने ।
 पलिस्सज मं कल्याणि, एतं मे अभिपत्थितं ॥
 "अप्पको वत मे सन्तो, कामो वेल्लित्तकेसिया^४ ।
 अनेकभावो सम्पुपादि^५, अरहन्तेव दक्खिणा ॥
 "यं मे अत्थि कतं पुञ्जं, अरहन्तेसु तादिसु ।
 तं मे सब्बङ्गकल्याणि, तथा सद्धिं विपच्चतं ॥
 "यं मे अत्थि कतं पुञ्जं, अस्मिं पथविमण्डले" ।
 तं मे सब्बङ्गकल्याणि, तथा सद्धिं विपच्चतं ॥
 "सक्यपुत्तो व ज्ञानेन, एकोदि" निपको सतो ।
 अमतं मुनि जिगिंसानो^६, तमहं सुरियवच्छसे ॥
 "यथा पि मुनि नन्देय्य, पत्त्वा सम्बोधिमुत्तमं ।
 एवं नन्देय्यं^७ कल्याणि, मिस्सीभाव" गतो तथा ॥
 "सक्को चे" मे वरं दज्जा, तावत्तिसानमिस्सरो ॥
 ताहं भद्दे वरेय्याहे, एवं कामो दब्धो मम ॥
 "सालं व" न चिरं फुल्लं, पितरं ते सुमेघसे ।
 वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी" पजा" ति ।

६. एवं वृत्ते भगवा पञ्चसिखं गन्धर्वदेवपुत्रं एतदबोच-
 "संसन्दति खो ते, पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरेन गीतस्सरो च

१. सीतोदकं - रो० । २. च - स्या०, रो० । ३. तुत्ततोमरं - स्या०, रो० । ४. लक्खणुरुया -
 रो० । गधित० - स्या०; गधित० - रो० । ५. वङ्कघस्तोव - स्या० । ६. वामूह - रो० । ७.
 वेल्लित्तकेसिया - सी० । ८. सम्पुपादि - स्या०; अनकभावसम्पुपादि - सी०; सम्पादि - रो० ।
 ९. पुष्पविमण्डले - रो० । १०. एकोदि - सी० । ११. जिगीमानो - य० । १२. नन्देय्य - रो० ।
 १३. मिस्समाव - स्या० । १४. च - रो० । १५. सालवन - स्या० । १६. यस्ससेता -
 सी०, स्या०, रो० ।

तन्तिस्सरेन; न च पन^१, पञ्चसिख, तन्तिस्सरो गीतस्सरं अतिवत्तति
गीतस्सरो च तन्तिस्सरं । कदा संयूब्हा पन ते, पञ्चसिख, इमा गाथा
बुद्धूपसञ्चिता धम्मूपसञ्चिता सङ्घूपसञ्चिता अरहन्तूपसञ्चिता
कामूपसञ्चिता” ति ?

B. 214

५ “एकमिदं^२, भन्ते, समयं भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा
नेरञ्जराय तीरे अजपालनिग्रोधे पठमाभिसम्बुद्धो । तेन खो पनाहं,
भन्ते, समयेन भद्दा नाम सुरियवच्छसा तिम्बरुनो गन्धव्वरञ्चो धीता
तमभिकङ्खामि । सा खो पन, भन्ते, भगिनी परकामिनी होति;
सिखण्डी नाम मातलिस्स सञ्जाहकस्स पुत्तो तमभिकङ्खति । यतो खो
१० अहं, भन्ते, तं भगिनिं नालत्थं केनचि परियायेन, अथाहं वेलुवपण्डुवीणं
आदाय येन तिम्बरुनो गन्धव्वरञ्चो निवेसनं तेनुपसङ्कमिं; उपसङ्कमिन्वा
वेलुवपण्डुवीणं अस्सावेसिं इमा च गाथायो अभासिं बुद्धूपसञ्चिता
धम्मूपसञ्चिता सङ्घूपसञ्चिता अरहन्तूपसञ्चिता कामूपसञ्चिता -

R. 268

‘वन्दे ते पितरं भद्दे, तिम्बरं सुरियवच्छसे ।

१५ येन जातासि कल्याणी^३, आनन्दजननी मम ॥ ... पे० ...

‘सालं व न चिरं फुल्लं, पितरं ते सुमेधसे ।

वन्दमानो नमस्सामि, यस्सा सेतादिसी पजा’ ति ॥

“एवं वुत्ते, भन्ते, भद्दा सुरियवच्छसा मं एतदवोच - ‘न खो मे,
मारिस, सो भगवा सम्मुखा दिट्ठो, अपि च सुतोयेव मे सो भगवा
२० देवानं तावत्तिसानं सुधम्माय सभायं उपनच्चन्तिया । यतो खो त्वं,
मारिस, तं भगवन्तं कित्तेसि, होतु नो अज्ज समागमो’ ति । सोयेव नो,
भन्ते, तस्सा भगिनिया सद्धिं समागमो अहोसि, न च दानि ततो
पच्छा” ति ।

R. 269

§ २. सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं उपसङ्कमि

७. अथ खो सक्कस्स देवानमिन्दस्स एतदहोसि - “पटिसम्मोदंति
२५ पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो भगवता, भगवा च पञ्चसिखेना” ति । अथ खो
सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वदेवपुत्तं आमन्तेसि - “अभिवादेहि मे त्वं,
तात पञ्चसिख, भगवन्तं - ‘सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो
सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती” ति । “एवं भद्दन्त्वा” ति

१-१. नेव पन - एया० । २. एकमिदाहं - म०; एकमिदं - टी०, रो० । ३. कल्याणि -
री० ।

खो पञ्चसिखो गन्धव्वदेवपुत्तो सक्कस्स देवानमिन्दस्स पटिस्सुत्वा भगवन्तं अभिवादेसि^१ - "सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो सपरिज्जो भगवतो पादे सिरसा वन्दती" ति ।

"एवं^२ सुखी होतु, पञ्चसिख, सक्को देवानमिन्दो सामच्चो सपरिज्जो; सुखकामा हि देवा मनुस्सा असुरा नागा गन्धव्वा ये चञ्छे सन्ति पुथुकाया" ति ।

८. एवं च पन तथागता एवरूपे महेसक्खे यक्खे अभिवदन्ति । अभिवदितो^३ सक्को देवानमिन्दो भगवतो इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि । देवा पि तावत्तिसा इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टंमु । पञ्चसिखो पि गन्धव्व- देवपुत्तो इन्दसालगुहं पविसित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्टासि ।

तेन खो पन समयेन इन्दसालगुहा विसमा सन्ती समा समपादि, सम्वाधा सन्ती उरुन्दा^४ समपादि, अन्धकारो गुहायं अन्तरधायि, आलोको उदपादि - यथा तं देवानं देवानुभावेन ।

९. अथ खो भगवा सक्कं देवानमिन्दं एतदवोच - "अच्छरियमिदं आयस्मतो कोसियस्स, अब्भुतमिदं^५ आयस्मतो कोसियस्स, ताव बहु- किच्चस्स बहुकरणीयस्स यदिदं इधागमनं" ति ।

"चिरपटिकाहं, भन्ते, भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितुकामो; अपि च देवानं तावत्तिसानं केहिचि^६ किच्चकरणीयेहि व्यावटो"; एवाहं नासखिं भगवन्तं दस्सनाय उपसङ्कमितु । एकमिदं, भन्ते, समयं भगवा सावत्थियं विहरति सलळागारके^७ । अथ ख्वाहं^८, भन्ते, सावत्थियं अगमासि भगवन्तं दस्सनाय । तेन खो पने, भन्ते, समयेन भगवा अञ्चतरेन समाधिना निसिन्नो होति भूजति" च नाम वेस्सवणस्स महाराजस्स परिचारिका भगवन्तं पञ्चुपट्टिता होति पञ्जलिका नमस्समाना तिट्ठति । अथ ख्वाहं, भन्ते, भूजति एतदवोचुं - 'अभिवादेहि मे त्वं, भगिनि, भगवन्तं - सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो सपरिज्जो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति । एवं वुत्ते, भन्ते, सा भूजति मं

१. अभिवादेति - स्या०, म० । २. रो० पोत्थके नत्थि । ३. अभिवादितो - रो० । ४. उरुन्दा - स्या० । ५. अब्भुतमिदं - स्या० । ६. केहिचि केहिचि - म०, सी०, रो० । ७. व्यावटो - रो० । ८. सलळागारके - सी० । ९. खो अहं - स्या० । १०. भूजती च - सी०, रो०; भूजती - स्या० ।
दीप०-३.

एतद्वोच - 'अकालो खो, मारिस, भगवन्तं दस्सनाय; पटिसल्लीनो भगवा' ति ।

- R. 271 'तेन हि, भगिनि, यदा भगवा तम्हा समाधिम्हा वुद्धितो होति
B. 216 अथ मम वचनेन भगवन्तं अभिवादेहि - सक्को, भन्ते, देवानमिन्दो सामच्चो
5 सपरिजनो भगवतो पादे सिरसा वन्दती' ति ।

"कच्चि मे सा, भन्ते, भगिनी भगवन्तं अभिवादेसि ? सरति भगवा तस्सा भगिनिया वचनं" ति ?

"अभिवादेसि मं सा, देवानमिन्द, भगिनी । सरामहं तस्सा भगिनिया वचनं । अपि चाहं आयस्मतो नेमिसद्देन' तम्हा समाधिम्हा वुद्धितो" ति ।

- 10 "ये ते, भन्ते, देवा अम्हेहि पठमतरं तावतिसकायं उपपन्ना तेसं मे सम्मुखा सुतं सम्मुखा पटिग्गहितं' - 'यदा तथागता लोके उप्पज्जन्ति अरहन्तो सम्मासम्बुद्धा, दिब्बा काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया' ति । तं मे इदं, भन्ते, सक्खिदिट्ठं - यतो तथागतो लोके उप्पन्नो अरहं सम्मासम्बुद्धो, दिब्बा काया परिपूरेन्ति, हायन्ति असुरकाया ति ।

गोपकवत्थु

- 15 १०. "इधेव, भन्ते, कपिलवत्थुस्मि गोपिका नाम सक्कधीता अहोसि बुद्धे पसन्ना धम्मे पसन्ना सङ्घे पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिणी' । सा इत्थितं' विराजेत्वा पुरिसत्तं' भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपन्ना' देवानं तावतिसानं सहव्यतं' अम्हाकं पुत्तत्तं अज्झुपमता । तत्र पि नं एवं जानन्ति - 'गोपको देवपुत्तो, गोपको देवपुत्तो' ति । अञ्जे पि, भन्ते,
20 तयो भिक्खू भगवति ब्रह्मचरियं चरित्वा हीनं गन्धब्बकायं उपपन्ना । ते पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता' परिचारयमाना अम्हाकं उपट्टानं आगच्छन्ति अम्हाकं पारिचरियं । ते अम्हाकं उपट्टानं आगते अम्हाकं पारिचरियं गोपको देवपुत्तो पटिच्चोदेसि - 'कुतोमुखा नाम तुम्हे मारिसा तस्स भगवतो धम्मं अस्सुत्थ' - अहं हि नाम इत्थिका समाना बुद्धे पसन्ना
25 धम्मे पसन्ना सङ्घे पसन्ना सीलेसु परिपूरकारिणी इत्थितं विराजेत्वा पुरिसत्तं भावेत्वा कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपन्ना देवानं तावतिसानं

R. 272

१. चक्कनेमिसद्देन - स्या० । २. पटिग्गहीन - सी०, स्या० रो० । ३. परिपूरीकारीणी - स्या० । ४. इत्थिवित्तं - रो०; इत्थीवित्तं - स्या० । ५. पुरिसवित्तं - स्या०, रो० । ६. उप्पन्ना - रो० । ७. सहव्यतं - रो० । ८. समङ्गीभूता - सी०, स्या०, रो० । ९. आपहित्य - स्या०; अस्सुत्था - रो० ।

सहव्यतं सवकस्स देवानमिन्द्रस्स पुत्तत्तं अज्झुपगता । इधा पि मं एवं जानन्ति
 गोपको देवपुत्तो गोपको देवपुत्तो ति । तुम्हे पन, मारिसा, भगवति ब्रह्मचरियं
 चरित्त्वा हीनं गन्धव्वकायं उपपन्ना । दुद्धिद्वरूपं वत्त, भो, अहसाम, ये मयं
 अहसाम सहधम्मिके हीनं गन्धव्वकायं उपपन्ने” ति । तेसं, भन्ते, गोपकेन
 देवपुत्तेन पटिचोदितानं द्वे देवा दिट्ठेव धम्मं सति पटिलभिसु कायं १
 ब्रह्मपुरोहितं, एको पन देवो कामे^१ अज्झावसि ।

११. ‘उपासिका चक्खुमतो अहोसि,
 नामं पि मय्हं अहु गोपिका ति ।
 बुद्धे च धम्मं च अभिप्पसन्ना,
 सङ्खञ्चुपट्ठासि पत्तन्नचित्ता ॥
 ‘तस्सेव बुद्धस्स सुधम्मताय,
 सवकस्स पुत्तोमिह महानुभावो ।
 महाजुतीको^२ तिदिवूपपन्नो,
 जानन्ति मं इधा पि ‘गोपको’ ति ॥

10

‘अथहसं भिक्खवो दिट्ठपुब्बे,
 गन्धव्वकामूपगते वसीने ।
 इमेहि ते गोतमसावकासे,
 ये च मयं पुब्बे मनुस्सभूता ॥

15

‘अन्नेन पानेन उपट्ठहिम्हा,
 पादूपसङ्गह्यह सके निवेसने ।
 कुतोमुत्ता नाम इमे भवन्तो,
 बुद्धस्स धम्मानि^३ पटिग्गहेसु^४ ॥

20

‘पञ्चत्तं वेदितव्वो हि धम्मो,
 सुदेसितो चक्खुमतानुबुद्धो ।
 अहं हि^५ तुम्हेव उपासमानो,
 सुत्वान अरियान^६ सुभासितानि ॥

25

‘सवकस्स पुत्तोमिह महानुभावो,
 महाजुतीको तिदिवूपपन्नो ।

१. ते य कामे - रो० । २. महाजुतिको - स्या०, रो० । ३-३. धम्मस्स न पटिग्गहेसु-
 स्या०, रो० । ४. पि - स्या० । ५. अरियानं - स्त्री०, स्या० ।

तुम्हे पन सेट्टमुपासमाना,
अनुत्तरं^१ ब्रह्मचरियं चरित्वा ॥

'हीनं^२ कायं^३ उपपन्ना भवन्तो,
अनानुलोमा भवतूपपत्ति ।
दुद्दित्ठरूपं वत अद्दसाम,
सहधम्मिके हीनकायूपपन्ने ॥

'गन्धब्बकायूपगता भवन्तो,
देवानमागच्छथ पारिचरियं ।
अगारे वसतो मय्हं,
इमं^४ पस्स विसेसतं ॥

'इत्थी वृत्वा स्वज्ज पुमोमिह देवो',
दिब्बेहि कामेहि समङ्गिभूतो' ।
ते चोदिता गोतमसावकेन,
संवेगमापादु^५ समेच्च गोपकं ॥

'हन्द वियायाम^६ व्यायाम',
मा नो मयं परपेस्सा^७ अद्दम्हा' ।
तेसं दुवे विरियमारभिसु',
अनुत्तरं^८ गोतमसासनानि ॥

'इधेव चित्तानि विराजयित्वा,
कामेसु आदीनवमद्दंसु'^९ ।
ते कामसंयोजनवन्धनानि.

पापिमयोगानि दुरच्चयानि ॥
'नागो व सत्तानि'^{१०} गुणानि^{११} छेत्वा'^{१२},
देवे तार्वत्तिसे अतिक्कर्मिसु ।
सइन्दा देवा सपजापत्तिका,
सव्वे सुघम्माय सभायुपविट्ठा ॥

१. अनुत्तरे - स्या०, रो० । २-२. हीनकायं - स्या०, रो० । ३. इदं - रो० । ४. देवा - स्या० । ५. मापादु - सी० । ६. वियायाम - स्या०; व्यायाम - सी० । ७. वियायाम - स्या० । ८. परपेसा - सी० । ९. वीरिया० - म० । १०. अनुत्तरा - रो० । ११. मद्दत्तिसु - स्या०, रो० । १२-१२. सत्तानि० - स्या०; सन्दानगुणानि - रो० । १३. भत्ता - रो० ।

B. 218

5

10

15

R. 274

20

25

'तेसं' निसिञ्चानं अभिक्कमिसु',
वीरा^१ विरागा विरजं करोन्ता ।
ते दिस्वा संवेगमकासि वासवो,
देवाभिभू देवगणस्स मज्जे ॥

'इमेहि ते हीनकायूपपन्ना,
देवे तावत्तिसे अभिक्कमन्ति'^२ ।
संवेगजातस्स वचो निसम्म,
सो गोपको वासवमज्जभासि ॥

'बुद्धो जनिन्दत्थि'^३ मनुस्सलोके,
कामाभिभू सक्कमुनी ति ञ्जायति ।
तस्सेव ते पुत्ता सत्तिथा विहीना,
चोदिता^४ मया ते सत्तिमज्जलत्थु'^५ ॥

'तिण्णं तेसं आवसिनेत्थ एको,
गन्धब्बकायूपगतो वसीनो ।
द्वे च सम्योधिपथानुसारिनो',
देवे पि हीळेन्ति समाहितत्ता ॥

'एतादिसी धम्मप्पकासनेत्थ,
न तत्थ किकह्वति कोचि सावको ।
नित्तिण्णओघं विचिकिच्छद्धिं,
बुद्धं नमस्साम जिन् जनिन्द'^६ ॥

"यं ते धम्मं इधञ्जाय,
विसेसं अज्जगंसु'^७ ते ।
कायं ब्रह्मपुरोहितं,
दुवे तेसं विसेसगू ॥

"तस्स धम्मस्स पत्तिथा,
आगतम्हासि मारिस्स ।

5

10

15

20

25

१-१. ते सन्निधिना न अभिक्कमिसु - स्या०; वे सन्निधिना न पतिक्कमिसु - रो०,
सी० । २. विरा - सी० । ३. अतिक्कमन्ति - स्या०, रो० । ४. पनिन्दत्थि - रो० ।
५. बुता - रो० । ६. सत्तिपच्चलत्थु - स्या० । ७. उपदानुसारिनो - स्या० । ८. अज्जगमंसु -
स्या० ।

कतावकासा' भगवता,
पञ्हं पुच्छेमु मारिसा" ति ॥

१२. अथ खो भगवतो एतदहोसि - "दीघरत्तं विसुद्धो खो अयखो^१ । य किञ्चि मं पञ्हं पुच्छिस्सति सब्बं तं अत्यसञ्चितं येव
5 पुच्छिस्सति नो अनत्यसञ्चितं । यञ्चस्साहं पुट्ठो व्याकरिस्सामि त खिप्पमेव आजानिस्सती" ति ।

R. 220

१३. अथ खो भगवा सक्कं देवानामिन्दं गाथाय अज्झभासि -

"पुच्छ वासव मं पञ्हं, यं किञ्चि मनसिच्छसि ।
तस्स तस्सेव पञ्हस्स, अहं अन्तं करोमि ते" ति ॥

पठमभाणवारं निहितं ।

§ ३. सक्कपञ्हविस्सज्जनं

इस्सामच्छरियसंयोजना सत्ता

R. 276 10

१४. कतावकासो सक्को देवानमिन्दो भगवता^१ इमं भगवन्तं^२
पठमं पञ्हं अपुच्छि - "किसंयोजना नु खो, मारिस, देवा मनुस्सा असुरा
नागा गन्धब्बा ये चञ्जे सन्ति पुथुकाया ते - 'अवेरा अदण्डा असपत्ता
अब्यापज्जा' विहरेमु अवेरिनो' ति इति च^३ नेसं होति, अथ च पन सवेरा
सदण्डा ससपत्ता सब्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो" ति ? इत्थं सक्को
15 देवानमिन्दो भगवन्तं पञ्हं^४ अपुच्छि । तस्स भगवा पञ्ह पुट्ठो व्याकासि -

"इस्सामच्छरियसंयोजना खो, देवानमिन्द, देवा मनुस्सा असुरा
नागा गन्धब्बा ये चञ्जे सन्ति पुथुकाया ते - 'अवेरा अदण्डा असपत्ता अब्या-
पज्जा विहरेपु अवेरिनो' ति इति च नेसं होति, अथ च पन सवेरा
ससपत्ता सब्यापज्जा विहरन्ति सवेरिनो" ति । इत्थं भगवा सक्कस्स देवान-
20 मिन्दस्स पञ्हं पुट्ठो व्याकासि ।

अत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि-
"एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्य कह्वा विगता कथङ्कथा भगवतो
पञ्हवेय्याकरणं सुत्वा" ति ।

१. कतावकासा - रो० । २. सक्को - रो० । ३-३. भगवन्तं इमं - सी०, रो० । ४. अब्यापज्जा - रो० । ५. वे - सी०, स्या०, रो० । ६. वेरिनो - रो० । ७. इमं पठमं पञ्हं - सी०, रो० । ८. विहरन्ता - स्या० । ९. पञ्हस्स वेय्याकरणं - सी०; पञ्हा वेय्याकरणं - स्या० ।

इस्सामच्छरियं पियाप्पियपभवं

१५. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरिं पञ्चहं अपुच्छि -

“इस्सामच्छरियं पन, मारिस, किंनिदानं किंसमुदयं किंजातिकं किंपभवं; किस्मिं सति इस्सामच्छरियं होति; किस्मिं असति इस्सामच्छरियं न होती” ति ?

“इस्सामच्छरियं खो, देवानमिन्द, पियाप्पियनिदानं पियाप्पियसमुदयं पियाप्पियजातिकं पियाप्पियपभवं; पियाप्पिये सति इस्सामच्छरियं होति, पियाप्पिये असति इस्सामच्छरियं न होती” ति ।

पियाप्पियं छन्दपभवं

“पियाप्पियं खो पन, मारिस, किंनिदानं किंसमुदयं किंजातिकं किंपभवं; किस्मिं सति पियाप्पियं होति; किस्मिं असति पियाप्पियं न होती” ति ?

“पियाप्पियं खो, देवानमिन्द, छन्दनिदानं छन्दसमुदयं छन्दजातिकं छन्दपभवं; छन्दे सति पियाप्पियं होति; छन्दे असति पियाप्पियं न होती” ति ।

छन्दो वितक्कपभवो

“छन्दो खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो; किस्मिं सति छन्दो होति; किस्मिं असति छन्दो न होती” ति ?

“छन्दो खो, देवानमिन्द, वितक्कनिदानो वितक्कसमुदयो वितक्कजातिको वितक्कपभवो; वितक्के सति छन्दो होति; वितक्के असति छन्दो न होती” ति ।

वितक्को पपञ्चसञ्जासङ्घापभवो

“वितक्को खो पन, मारिस, किंनिदानो किंसमुदयो किंजातिको किंपभवो; किस्मिं सति वितक्को होति; किस्मिं असति वितक्को न होती” ति ?

“वितक्को खो, देवानमिन्द, पपञ्चसञ्जासङ्घानिदानो पपञ्चसञ्जासङ्घासमुदयो पपञ्चसञ्जासङ्घाजातिको पपञ्चसञ्जासङ्घापभवो; पपञ्चसञ्जासङ्घाय सति वितक्को होति; पपञ्चसञ्जासङ्घाय असति वितक्को न होती” ति ।

“कथंपटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु पपञ्चसञ्जासङ्खानिरोध-
सारूपगामिनि पटिपदं पटिपन्नो होती” ति ?

पपञ्चसञ्जासङ्खानिरोधगामिनी पटिपदा

R. 27B

१६. “सोमनस्सं पाहं”, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि – सेवितब्बं
पि असेवितब्बं पि । दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि –
5 सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । उपेक्खं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि –
सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि ।

१७. “सोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि – सेवितब्बं
पि असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ
यं जञ्जा सोमनस्सं ‘इमं खो मे सोमनस्सं सेवतो अकुसला धम्मा
10 अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती’ ति, एवरूपं सोमनस्सं न
सेवितब्बं । तत्थ यं जञ्जा सोमनस्सं ‘इमं खो मे सोमनस्सं सेवतो
अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ती’ ति, एवरूपं
सोमनस्सं सेवितब्बं । तत्थ यं चे सवितक्कं सविचारं, यं चे अविताक्कं
अविचारं, ये अविताक्के अविचारे, ते पणीततरे । सोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द,
15 दुविधेन वदामि – सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति यं तं वुत्तं
इदमेतं पटिच्च वुत्तं ।

B. 222

१८. “दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि – सेवितब्बं पि
असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ यं
जञ्जा दोमनस्सं ‘इमं खो मे दोमनस्सं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति
20 कुसला धम्मा परिहायन्ती’ ति, एवरूपं दोमनस्सं न सेवितब्बं । तत्थ यं
जञ्जा दोमनस्सं ‘इमं खो मे दोमनस्सं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति,
कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ती’ ति, एवरूपं दोमनस्सं सेवितब्बं । तत्थ यं चे
सवितक्कं सविचारं, यं चे अविताक्कं अविचारं, ये अविताक्के अविचारे, ते
पणीततरे । दोमनस्सं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि – सेवितब्बं पि
25 असेवितब्बं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं ।

R. 271

१९. “उपेक्खं पाह, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि – सेवितब्बं पि
असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ यं
जञ्जा उपेक्खं ‘इमं खो मे उपेक्खं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला
धम्मा परिहायन्ती’ ति, एवरूपा उपेक्खा न सेवितब्बा । तत्थ यं जञ्जा

उपेक्खं 'इमं खो मे उपेक्खं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ती' ति, एवरूपा उपेक्खा सेवितब्बा । तत्थ यं चे सवितक्कं सविचारं, यं चे अवितक्कं अविचारं, ये अवितक्के अविचारे, ते पणीततरे । उपेक्खं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । एवं 5 पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पपञ्चसञ्जासङ्खानिरोधसारुप्पगामिनि पटिपदं पटिपन्नो होती" ति ।

२०. इत्थं भगवा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पञ्चं पुट्ठो व्याकासि । अत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि - "एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मत्थ कङ्खा विगता' कथञ्चथा' 10 भगवतो पञ्चवेय्याकरणं सुत्वा" ति ।

पातिमोक्खसंवरपटिपदा

२१. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पञ्चं अपुच्छि -

"कयं पटिपन्नो पन, मारिस्स, भिक्खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो होती" ति ? 15

"कायसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । परियेसनं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि ।

"कायसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि 20 असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जञ्जा कायसमाचारं 'इमं खो मे कायसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती' ति, एवरूपो कायसमाचारो न सेवितब्बो । तत्थ यं जञ्जा कायसमाचारं 'इमं खो मे कायसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसलाधम्मा अभिवड्ढन्ती' ति, 25 एवरूपो कायसमाचारो सेवितब्बो । कायसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं ।

“वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जञ्जा वचीसमाचारं ‘इमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती’ ति, एवरूपो वचीसमाचारो न सेवितब्बो । तत्थ यं जञ्जा वचीसमाचारं ‘इमं खो मे वचीसमाचारं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ती’ ति, एवरूपो वचीसमाचारो सेवितब्बो । वचीसमाचारं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं ।

B.224

“परियेसनं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति खो पनेतं वुत्तं किञ्चेतं पटिच्च वुत्तं ? तत्थ यं जञ्जा परियेसनं ‘इमं खो मे परियेसनं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ती’ ति, एवरूपा परियेसना न सेवितब्बा । तत्थ यं जञ्जा परियेसनं ‘इमं खो मे परियेसनं सेवतो अकुसला धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ती’ ति, एवरूपा परियेसना सेवितब्बा । परियेसनं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पी ति । इति यं तं वुत्तं इदमेतं पटिच्च वुत्तं । एवं पटिपन्नो खो, देवानमिन्द, भिक्खु पातिमोक्खसंवराय पटिपन्नो होती” ति ।

R. 281

इत्थं भगवा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पञ्हुं पुट्ठो व्याकासि । अत्तमनो सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि -
 20 “एवमेतं, भगवा, एवमेतं, सुगत । तिण्णा मेत्थ कङ्खा विगता कथङ्कथा भगवतो पञ्हुवेय्याकरणं सुत्वा” ति ।

इन्द्रियसंवरपटिपदा

२२. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरिं पञ्हुं अपुच्छि-

“कथं पटिपन्नो पन, मारिस, भिक्खु इन्द्रियसंवराय पटिपन्नो
 23 होती” ति ?

“चक्खुविञ्जेय्यं रूपं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । सोत्तविञ्जेय्यं सद्दं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । घानविञ्जेय्यं गन्धं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि असेवितब्बं पि । जिह्वा-
 30 विञ्जेय्यं रसं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि - सेवितब्बं पि

असेवितव्यं पि । कायविञ्ज्येयं फोटुव्यं पाहं, देवानमिन्द, दुविधेन वदामि -
सेवितव्यं पि असेवितव्यं पि । मनोविञ्ज्येयं धम्मं पाहं, देवानमिन्द,
दुविधेन वदामि - सेवितव्यं पि असेवितव्यं पी" ति ।

एवं चुत्ते, सक्को देवानमिन्दो भगवन्तं एतदवोच - "इमस्स खो
अहं, भन्ते, भगवता सङ्घित्तेन भासितस्स एवं वित्थारेण अत्थं आजानामि - ३
यथारूपं, भन्ते, चक्खुविञ्ज्येयं रूपं सेवतो अकुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति,
कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपं चक्खुविञ्ज्येयं रूपं न सेवितव्यं ।
यथारूपं च खो, भन्ते, चक्खुविञ्ज्येयं रूपं सेवतो अकुसला धम्मा परि-
हायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, एवरूपं चक्खुविञ्ज्येयं रूपं
सेवितव्यं । यथारूपं च खो, भन्ते, सोतविञ्ज्येयं सद्दं सेवतो ... पे० ... 10
धानविञ्ज्येयं गन्धं सेवतो ... जिह्वाविञ्ज्येयं रसं सेवतो ... काय-
विञ्ज्येयं फोटुव्यं सेवतो ... मनोविञ्ज्येयं धम्मं सेवतो अकुसला धम्मा
अभिवड्ढन्ति, कुसला धम्मा परिहायन्ति, एवरूपो मनोविञ्ज्येयो धम्मो न
सेवितव्यो । यथारूपं च खो, भन्ते, मनोविञ्ज्येयं धम्मं सेवतो अकुसला
धम्मा परिहायन्ति, कुसला धम्मा अभिवड्ढन्ति, एवरूपो मनोविञ्ज्येयो 15
धम्मो सेवितव्यो । इमस्स खो मे', भन्ते, भगवता सङ्घित्तेन भासितस्स
एवं वित्थारेण अत्थं आजानतो' तिण्णा मत्थ कद्दु विगता कयद्दुया भगवतो
पञ्चवेय्याकरणं सुत्वा" ति ।

नानाधातु लोको

२३. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा
अनुमोदित्वा भगवन्तं उत्तरि पञ्चं अपुच्छि - 20

"सब्बेव नु खो, मारिस, समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला
एकन्तछन्दा एकन्तअज्झोसाना" ति ?

"न खो, देवानमिन्द, सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला
एकन्तछन्दा एकन्तअज्झोसाना" ति ।

"कस्मा पन, मारिस, न सब्बे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीना 25
एकन्तछन्दा एकन्तअज्झोसाना" ति ?

"अनकधातु नानाधातु खो, देवानमिन्द, लोको । तस्मि अनेकधातु-
नानाधातुस्मि लोके यं यदेव सत्ता धातुं अभिनिविसन्ति तं तदेव धाममा

परामासा' अभिनिविस्स वोहरन्ति - 'इदमेव सच्चं, मोघमञ्जं' ति ।
 तस्मा न सव्वे समणब्राह्मणा एकन्तवादा एकन्तसीला एकन्तछन्दा
 एकन्तअञ्जोसाना" ति ।

“सव्वेव नु खो, मारिस, समणब्राह्मणा अच्चन्तनिट्ठा अच्चन्त-
 5 योगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसाना” ति ?

R. 283

“न खो, देवानमिन्द, सव्वे समणब्राह्मणा अच्चन्तनिट्ठा अच्चन्त-
 योगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसाना” ति ?

B. 226

“कस्मा पन, मारिस, न सव्वे समणब्राह्मणा अच्चन्तनिट्ठा अच्चन्त-
 योगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसाना” ति ?

10 “ये खो, देवानमिन्द^१, भिक्खू^२ तण्हासह्वयविमुत्ता ते अच्चन्तनिट्ठा
 अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्तपरियोसाना । तस्मा न सव्वे
 समणब्राह्मणा अच्चन्तनिट्ठा अच्चन्तयोगक्खेमी अच्चन्तब्रह्मचारी अच्चन्त-
 परियोसाना” ति ।

इत्थं भगवा सक्कस्स देवानमिन्दस्स पञ्चं पुट्ठो व्याकासि^३ । अत्तमनो
 15 सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दि अनुमोदि - “एवमेतं, भगवा,
 एवमेतं, सुगत । तिण्णा मत्थ कङ्खा विगता कथङ्कथा पञ्चवेय्याकरणं
 सुत्वा” ति ।

२४. इतिह सक्को देवानमिन्दो भगवतो भासितं अभिनन्दित्वा
 अनुमोदित्वा भगवन्तं एतदवोच -

20 “एजा, भन्ते, रोगो, एजा गण्डो, एजा सल्लं, एजा इमं पुरिसं
 परिकड्ढति तस्स तस्सेव भवस्स अभिनिव्वत्तिया” । तस्मा अयं पुरिसो
 उच्चावचमापज्जति । येसाहं^४, भन्ते, पञ्चानं इतो बहिद्धा अञ्जेसु
 समणब्राह्मणेषु ओकासकम्मं पि नालत्थं ते मे भगवता व्याकता । दीघ-
 रत्तानुसयिते च पन^५ मे विचिकिच्छाकथङ्कयासल्लं, तं च भगवता
 25 अब्बुब्बं” ति ।

अञ्जे समणब्राह्मणा

R. 284

“अभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इमे पञ्चे अञ्जे समणब्राह्मणे

१. परामम्म - रो० । २-२. ते देवानमिन्द समणब्राह्मणा - रो०; ते देवानमिन्द -
 स्या० । ३. व्याकासि - रो० । ४. अभिनिव्वत्तिया - रो० । -५. दीघरत्तानुसयिता, मञ्च
 पन - स्या०; दीघरत्तानुसयितो, मञ्च पन - गी०, रो० ।

पुच्छिता” ति ?

“अभिजानामहं, भन्ते, इमे पञ्चे अञ्जे समणब्राह्मणे
पुच्छिता” ति ?

“यथा कथं पन ते, देवानमिन्द, व्याकांमु ? सचे ते अग्रह,
भासस्सू” ति ।

“न खो मे, भन्ते, ग्रह यत्थस्स भगवा निसिन्नो भगवन्तरूपो चा” ति ।

“तेन हि, देवानमिन्द, भासस्सू” ति ।

“येस्वाहं”, भन्ते, मञ्जामि समणब्राह्मणा आरञ्जिका पन्तसेनासना
ति, त्याहं उपसङ्कमित्वा इमे पञ्चे पुच्छामि । ते मया पुट्टा न सम्पायन्ति ।
असम्पायन्ता ममं येव पटिपुच्छन्ति — ‘को नामो आयस्मा’ ति ? तेसाहं 10
पुट्टो व्याकरोमि — ‘अहं खो, मारिस, सक्को देवानमिन्दो’ ति । ते ममं येव
उत्तरि पटिपुच्छन्ति — ‘कि पनायस्मा, देवानमिन्द, कम्मं कत्वा इमं ठानं
पत्तो’ ति ? तेसाहं यथासुतं यथापरियत्तं धम्मं देसेमि । ते तावतकेनेव
अत्तमना होन्ति — ‘सक्को च नो देवानमिन्दो दिट्ठो, यं च नो अपुच्छिम्हा
तं च नो व्याकासी’ ति । ते अञ्जदत्थु ममं येव सावका सम्पज्जन्ति न 15
चाहं तेसं । अहं खो पन, भन्ते, भगवतो सावको सोतापन्नो अविनिपात-
धम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो” ति ।

सक्कस्स सोमनस्सपटिलाभस्स छ अत्थवसा

२५. “अभिजानासि नो त्वं, देवानमिन्द, इतो पुब्बे एवरूपं
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं” ति ?

“अभिजानामहं, भन्ते, इतो पुब्बं एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्स- 20
पटिलाभं” ति ।

“यथा कथं पन त्वं, देवानमिन्द, अभिजानासि इतो पुब्बे एवरूपं
वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं” ति ?

“भूतपुब्बं, भन्ते, देवासुरसङ्गामो समुपव्यूहो” अहोसि । तस्मि
खो पन, भन्ते, सङ्गामे देवा जिनिमु, असुरा पराजिमु” । तस्स मग्घं, 25
भन्ते, तं सङ्गामं अभिविजिनित्वा विजितसङ्गामस्स एतदहोसि — ‘या चेव
दानि दिट्ठा ओजा या च असुरा ओजा उभयमेतं देवा परिभुञ्जिस्सन्ती’

१. देवानमिन्दो — मी०, रो० । २. येसाहं — सी०, स्वा०, रो० । ३. सम्बोधिपरायणो — स्वा०,
रो० । ४. समुपव्यूहो — सी०, रो० । ५. पराजिमु — म०, स्वा० । ६. उभयमेतं — स्वा० ।

ति । सो खो पन मे, भन्ते, वेदपटिलाभो सोमनस्सपटिलाभो सदण्डावचरो
ससत्थावचरो, न निव्विदाय न विरागाय न निरोधाय न उपसमाय न
अभिञ्जाय न सम्बोधाय न निव्वानाय सवत्तति । यो खो पन मे अय,
भन्ते, भगवतो धम्म सुत्वा वेदपटिलाभो सोमनस्सपटिलाभो सो अदण्डा-
5 वचरो असत्थावचरो एकन्तनिव्विदाय विरागाय निरोधाय उपसमाय
अभिञ्जाय सम्बोधाय निव्वानाय सवत्तती" ति ।

२६ "किं पन त्व, देवानमिन्द, अत्यवस सम्पस्समानो एवरूप
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेसी" ति ?

"छ खो अह, भन्ते, अत्यवसे सम्पस्समानो एवरूप वेदपटिलाभ
10 सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि ।

"इधेव तिट्ठमानस्स, देवभूतस्स मे सतो ।

पुनरायु^१ च मे लद्धो, एव अनाहि मारिस ।।

"इम खो अह, भन्ते, पठम अत्यवस सम्पस्समानो एवरूप
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि ।

15 "चुताह दिविया काया, आयु हित्वा अमानुस ।

अमूब्हो गब्भमेस्सामि^२, यत्य मे रमती मनो ।।

"इम खो अह, भन्ते, दुतिय अत्यवस सम्पस्समानो एवरूप
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि ।

"स्वाह अमूब्हपञ्जास्स, विहर सासने रतो ।

20 जायेन विहरिस्सामि, सम्पजानो पटिस्सतो ।।

"इम खो अह, भन्ते, ततिय अत्यवस सम्पस्समानो एवरूप
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि ।

"जायेन मे चरतो^३ च, सम्बोधि च भविस्सति ।

अञ्जाता विहरिस्सामि, स्वेव अन्तो^४ भविस्सति ।।

25 "इम खो अह, भन्ते, चतुत्य अत्यवस सम्पस्समानो एवरूप
वेदपटिलाभ सोमनस्सपटिलाभ पवेदेमि ।

"चुताह मानुसा काया, आयु हित्वान मानुस ।

पुन देवो^५ भविस्सामि, देवलोकमिह^६ उत्तमो ।।

१ इयं - स्या० । २ पुनेव आयु - स्या० । ३ गब्भमिस्सामि - रा० । ४ वरतो - स्या० ।
५ मन्तो - ती० । ६ पुनदेव - सी० । ७ लोकस्मि - स्या०, यो० ।

“इमं खो अहं, भन्ते, पञ्चमं अथवसं सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि ।

“ते पणीततरा देवा, अकनिट्ठा यसस्सिनो ।

अन्तिमे वत्तमानम्हि, सो निवासी भविस्सति ॥

“इमं खो अहं, भन्ते, छट्ठं अथवसं सम्पस्समानो एवरूपं ५ वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि ।

“इमे खो अहं, भन्ते, छ अथवसे सम्पस्समानो एवरूपं वेदपटिलाभं सोमनस्सपटिलाभं पवेदेमि ।

२७. अपरियोसितसङ्कप्पो, विचिकिच्छो^१ कथङ्कथी ।

विचरिं दीघमद्धानं, अन्वेसन्तो तथागतं ॥

“यस्सु मञ्जामि समणे, पविवित्तविहारिनो ।

सम्बुद्धा^२ इति मञ्जानो^३, गच्छामि ते उपासितु ॥

“कथं आराधना होति, कथं होति विराधना ।

इति पुट्टा न सम्पायन्ति, मग्गे पटिपदासु च ॥

“त्यस्सु^४ यदा मं जानन्ति, सक्को देवानमागतो ।

त्यस्सु ममेव पुच्छन्ति, किं कत्वा पापुणी इदं ॥

“तेसं यथासुतं धम्मं, देसयामि^५ जनेसुतं ।

तेन^६ अत्तमना^७ होन्ति, दिट्ठो नो वासवो ति च ॥

“यदा च बुद्धमद्दुक्खि^८, विचिकिच्छावितारणं ।

सोम्हि वीतभयो अज्ज, सम्बुद्धं पयिरुपासिय^९ ॥

“तण्हासल्लस्स हन्तारं, बुद्धं अप्पटिपुग्गलं ।

अहं वन्दे महावीरं, बुद्धमादिच्चवन्धुनं^{१०} ॥

“यं करोमसि” ब्रह्मणो, समं देवेहि मारिस ।

तदज्ज तुय्हं दस्साम^{११}, हन्द सामं करोम ते ॥

“त्वमेव” असि^{१२} सम्बुद्धो, तुवं सत्या अनुत्तरो ।

सदेवकास्मि लोकास्मि, नत्थि ते पटिपुग्गलो” ति ॥

१. विचिकिच्छी - रो०; विचिकिच्छा - स्वा० । २. सम्बुद्धो - रो० । ३. मञ्जमानो - स्वा० । ४. त्थस्सु - सी०, रो०; त्यत्ता - स्वा० । ५. देसियामि - सी० । ६-९. तेनस्सतमना - रो० । ७. सम्बुद्धं - स्वा० । ८. पयिरुपासियं - स्वा० । ९. वन्धाम० - रो० । १०. करोमसे - स्वा० । ११. कत्ताम - सी०, रो०; दत्तामि - स्वा० । १२-१३. तुवमेवसि - रो० ।

B. 230

२८. अथ खो सक्को देवानमिन्दो पञ्चसिखं गन्धव्वपुत्तं
 आमन्तेसि - "बहुपकारो खो भेसि त्वं, तात पञ्चसिख, यं त्वं भगवन्तं
 पठमं पसादेसि । तथा, तात, पठमं पसादितं पच्छा मयं तं भगवन्तं
 5 दस्सनाय उपसङ्कमिम्हा अरहन्तं सम्मासम्बुद्धं । पेत्तिके वा ठाने ठपयिस्सामि,
 गन्धव्वराजा भविस्ससि, भद्दं च ते सुरियवच्छसं दम्मि । सा हि ते
 अभिपत्थिता" ति ।

अथ खो सक्को देवानमिन्दो पाणिना पथविं परामसित्वा तिव्वत्तुं
 उदानं उदानेसि -

"नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्सा" ति ।

R. 269

- 10 इमस्मि च पन वेय्याकरणस्मि भञ्जामाने सक्कस्स देवानमिन्दस्स
 विरजं वीतमलं धम्मचक्खुं उदपादि - "यं किञ्चि समुदयधम्मं सब्बं तं
 निरोधधम्मं" ति । अञ्जेसं च असीतिया देवतासहस्सानं इति ये सक्केन
 देवानमिन्देन अज्झिपुत्तं पुट्ठा ते भगवता व्याकता^१; तस्मा इमस्स
 वेय्याकरणस्स सक्कपञ्हात्वेव^२ अधिवचनं ति ।

सक्कपञ्हुत्तं निद्धितं अट्टमं ।

—:०:—

६. महासतिपट्टानसुत्तं

§ १. उद्देशो

१. एवं मे सुतं । एकं समयं भगवा कुरुसु विहरति कम्मासधम्मं^१ नाम कुरुनं निगमो । तत्र खो भगवा भिक्खू आमन्तेसि - “भिवसवो” ति । “भदन्ते”^२ ति ते भिक्खू भगवतो पच्चस्सोसुं । भगवा एतदवोच -

२. “एकायनो अयं, भिक्खवे, मग्गो सत्तानं विमुद्धिया, सोक-परिदेवानं^३ समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सानं अत्यङ्गमाय”, जायस्स 5 अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय - यदिदं चत्तारो सतिपट्टाना ।

“कतमे चत्तारो? इध, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । वेदनासु वेदानानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो 10 सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं । धम्मोसु धम्मानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं ।

§ २. कायानुपस्सना

(क) आनापानपट्ठं

३. “कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति? इध, भिक्खवे, भिक्खु अरञ्जगतो वा रुक्खमूलगतो वा सुञ्जागारगतो वा निसीदति पल्लङ्कं आभुजित्वा, उजुं कायं पणिघाय, परिमुखं सति 15 उपट्ठपेत्वा । सो सतो व अस्ससति, सतो व^४ पस्ससति । दीघं वा अस्ससन्तो दीघं अस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो दीघं पस्ससामी ति पजानाति । रस्सं वा अस्ससन्तो रस्सं अस्ससामी ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी ति पजानाति । सब्बकायपटिसंबेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्खति, सब्बकायपटिसंबेदी पस्ससिस्सामी ति 20 सिक्खति । पस्सम्भयं कायसह्वारं अस्ससिस्सामी ति सिक्खति, पस्सम्भयं कायसह्वारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति ।

१. कम्मासधम्म - सी०, रो०, वम्मासधम्म - स्या० । २. भदन्ते - म० । ३. सोकपरिदेवानं - रो० । ४. पत्तयगमाय - रो० । ५. स्या०, रो० पत्तयवेणु नपि ।

“सेय्यथापि, भिक्खवे दक्खो भमकारो वा भमकारन्तेवासी वा दीघं वा अञ्छन्तो दीघं अञ्छामी ति पजानाति, रस्सं वा अञ्छन्तो रस्सं अञ्छामी ति पजानाति; एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु दीघं वा अस्ससन्तो दीघं अस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो 5 दीघं पस्ससामी ति पजानाति, रस्सं वा अस्ससन्तो रस्सं अस्ससामी ति पजानाति, रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी ति पजानाति; सब्बकायपटिसंवेदी अस्ससिस्सामी ति सिक्खति, सब्बकायपटिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति, पस्सम्भयं कायसङ्खारं अस्ससिस्सामी ति सिक्खति, पस्सम्भयं कायसङ्खारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । 10 इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, अत्थि कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव आणमत्ताय 15 पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो^१, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

(ख) इरियापयपब्बं

४. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु गच्छन्तो वा गच्छामी ति पजानाति, ठितो वा ठितोम्ही ति पजानाति, निसिघ्नो वा निसिघ्नोम्ही ति पजानाति, सयानो वा सयानोम्ही ति पजानाति । यथा यथा वा पनस्स 20 कायो पणिहितो होति, तथा तथा नं पजानाति । इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्त-वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कायस्मिं विहरति, अत्थि कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता 25 होति । यावदेव आणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि रो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

(ग) सम्पत्तानपब्बं

५. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु अभिपकन्ते पटियान्ते सम्प-

जानकारी होति, आलोकिते विलोकिते सम्पजानकारी होति, समिञ्जिते^१ पगारिते सम्पजानकारी होति, गद्गाटिपत्तचीवरघारणे सम्पजानकारी होति, असिते पीते राषिते साषिते सम्पजानकारी होति, उच्चारपस्ताव-कम्मे सम्पजानकारी होति, गते छिते निसिन्ने सुत्ते जागरिते भासिते तुण्ठीभाषे सम्पजानकारी होति । इति अज्जत्तं वा ... पे० ... एवं पि सो, भिक्खावे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

(घ) पटिकूलमनसिकारपच्चं

६. "पुन च परं, भिक्खावे, भिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला अधो केसमत्थका, तच्चपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति - 'अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा नत्ता दत्ता तथो मंसं न्हार' अट्ठि अट्ठिमिञ्ज' यकं हृदयं यकं किलोमकं पिहकं पप्फासं अन्तं अन्तगुणं उदरियं करीसं पित्तं सेम्हं पुच्चो लोहितं सेदो मेदो अस्सु यसा खेळो' सिद्धानिका' लसिका मुत्तं' ति ।

"सेम्ययापि, भिक्खावे, उभतोमुत्ता पुतोळि' पूरा नानाविहितस्स धञ्जस्स, सेम्ययिदं' - सालीनं वीहीनं मुग्गानं मासानं तिलानं तण्डुलानं । तमेनं चकरुमा पुरिसो मुञ्चित्वा पच्चवेक्खेय्य - 'इमे साली, इमे वीही, इमे मुग्गा, इमे मासा, इमे तिला, इमे तण्डुला' ति । एवमेव सो, भिक्खावे, भिक्खु इममेव कायं, उद्धं पादतला अधो केसमत्थका, तच्चपरियन्तं पूरं नानप्पकारस्स असुचिनो पच्चवेक्खति - 'अत्थि इमस्मि काये केसा लोमा ... पे० ... मुत्तं' ति । इति अज्जत्तं ... पे० ... एवं पि सो, भिक्खावे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

(ङ) पातुमनसिकारपच्चं

७. "पुन च परं, भिक्खावे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं घातुमो पच्चवेक्खति - 'अत्थि इमस्मि काये पथवीधातु' प्रापोधातु तेजोधातु वायोधातु' ति ।

"सेम्ययापि, भिक्खावे, दक्खो गोघातको वा गोघातकन्तेवासी वा गावि चधित्वा चतुमहापथे' विलसो' विमजित्वा" निसिन्ने अस्स; 25

१. समिञ्जितो - स्या०, रो० । २. न्हारि - सी०, स्या०, रो० । ३. अट्ठिमिञ्जा - रो० । ४. सेतो - सी० । ५. निट्ठानिका - स्या० । ६. पुतोळो - सी०; मुतोळो - स्या०; मुतोनि - रो० । ७. सेम्ययिदं - स्या०, रो० । ८. पटिकूलमु - स्या०, रो० । ९. वट्टं - स्या०, रो० । १०. वीही - सी० । ११. पथिविधातु - स्या०, रो० ।

एवमेव खो, भिक्खवे, भिक्खु इममेव कायं यथाठितं यथापणिहितं धातुसो पञ्चवेकखति - 'अत्थि इमस्मि काये पयवीधातु आपोधातु तेजोधातु वायोधातु' ति । इति अज्झत्तं वा काये कायानुपस्सी विहरति ... पे० ... एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

R. 295

(घ) नवसिवथिकपब्बं

B. 235 5

८. "पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय' छट्ठितं - एकाहमतं वा द्वीहमतं वा तीहमतं वा उद्धुमातकं विनीलकं विपुब्बकजातं । सो इममेव कायं उपसंहरति - 'अयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति । इति अज्झत्तं वा ... पे० ... एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

10

"पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छट्ठितं - काकेहि वा खज्जमानं कुललेहि वा खज्जमानं गिज्जेहि वा खज्जमानं^१ कच्चेहि वा खज्जमानं सुनखेहि वा खज्जमानं व्यघेहि वा खज्जमानं दीपीहि वा खज्जमानं सिङ्गालेहि वा खज्जमानं^२ विविघेहि वा पाणकजातेहि खज्जमानं । सो इममेव कायं उपसंहरति - 'अयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति । इति अज्झत्तं वा ... पे० ... एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

R. 296 15

20

"पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय छट्ठितं - अट्टिकसङ्गलिकं रामंरालोहितं न्हारुसम्बन्धं ... पे० ... अट्टिकसङ्गलिकं निमंसलोहितमक्खितं न्हारुसम्बन्धं ... पे० ... अट्टिकसङ्गलिकं अपगतमंसलोहितं न्हारुसम्बन्धं ... पे० ... अट्टिकानि अपगतसम्बन्धानि^३ ट्थिस्स, तिट्थिस्स, विक्खिस्सन्तान्नि, अज्जेन, दृश्यट्टिकं, अज्जेन, पट्टट्टिकं अज्जेन गोम्फकट्टिकं अज्जेन जङ्घट्टिकं अज्जेन ऊरुट्टिकं अज्जेन कट्टिट्टिकं^४ अज्जेन फासुकट्टिकं^५ अज्जेन पिट्टिट्टिकं अज्जेन खन्धट्टिकं अज्जेन गीवट्टिकं अज्जेन हनुकट्टिकं अज्जेन दन्तट्टिकं अज्जेन सीसकटाहं । सो इममेव कायं उपसंहरति - 'अयं पि खो कायो एवंधम्मो एवंभावी एवंअनतीतो' ति । इति अज्झत्तं वा ... पे० ... विहरति ।

R. 297

25

B. 236

"पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु सेय्यथापि पस्सेय्य सरीरं सिवथिकाय

१. सौवथिकाय - स्या०, रो० । २. एतअनतीतो - सी०, रो० । ३-३. सुवानेहि वा खज्जमानं, सिगालेहि वा खज्जमानं - स्या०, रो० । ४. अपगतन्हारुसम्बन्धानि - स्या० । ५. कट्टिट्टिकं - स्या०, रो० । ६. रो० पोत्थके नटिय ।

छद्दित - अट्टिकानि सेतानि सङ्खचण्णपटिभागानि' पे० अट्टिकानि पुञ्जकितानि सेरोवस्सिकानि . पे० अट्टिकानि पूतीनि चुण्णकजातानि । सो इममेव काय उपसहरति - 'अय पि खो कायो एवधम्मो एवभावी एवअनतीतो' ति । इति अज्झत्त वा काये कायानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा काये कायानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा कार्यास्मि विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा कार्यास्मि विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा कार्यास्मि विहरति, अत्थि कायो ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव ज्ञाणमत्ताय पटि-
स्ततिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति' ।
एव पि खो, भिक्खवे, भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति ।

कायानुपस्सना विट्ठिता ।

१३ वेदानुपस्सना

१ "कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु वेदानामु वेदानुपस्सी विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सुख वा वेदन वेदयमानो' सुख वेदन वेदयामी ति पजानाति, दुक्ख वा वेदन वेदयमानो दुक्ख वेदन वेदयामी ति पजानाति, अदुक्खमसुख वा वेदन वेदयमानो अदुक्खमसुख वेदन वेदयामी ति पजानाति, सामिस वा सुख वेदन वेदयमानो सामिस सुख वेदन वेदयामी ति पजानाति, निरामिस वा सुख वेदन वेदयमानो निरामिस सुख वेदन वेदयामी ति पजानाति, सामिस वा दुक्ख वेदन वेदयमानो सामिस दुक्ख वेदन वेदयामी ति पजानाति, निरामिस वा दुक्ख वेदन वेदयमानो निरामिस दुक्ख वेदन वेदयामी ति पजानाति, सामिस वा अदुक्खमसुख वेदन वेदयमानो सामिस अदुक्खमसुख वेदन वेदयामी ति पजानाति, निरामिस वा अदुक्खमसुख वेदन वेदयमानो निरामिस अदुक्खमसुख वेदन वेदयामी ति पजानाति । इति अज्झत्त वा वेदानामु वेदानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा वेदानामु वेदानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा वेदानामु वेदानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा वेदानामु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा वेदानामु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा वेदानामु विहरति, अत्थि वेदना ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव ज्ञाणमत्ताय पटिस्ततिमत्ताय

१ सङ्खचण्णपटिभागानि - स्या०, सङ्खचण्णपटिभागानि - रो० । २ उपादियति - रो० ।

३ वेदियमानो - रो० ।

अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति ।

वेदनानुपस्सना निट्ठिता ।

§ ४. चित्तानुपस्सना

१०. "कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं ति पजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं ति पजानाति, सदोसं वा चित्तं सदोसं चित्तं ति पजानाति, वीतदोसं वा चित्तं वीतदोसं चित्तं ति पजानाति, समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं ति पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं ति पजानाति, सङ्घित्तं वा चित्तं सङ्घित्तं चित्तं ति पजानाति, विक्खित्तं वा चित्तं विक्खित्तं चित्तं ति पजानाति, महग्गतं वा चित्तं महग्गतं चित्तं ति पजानाति, अमहग्गतं वा चित्तं अमहग्गतं चित्तं ति पजानाति, सउत्तरं वा चित्तं सउत्तरं चित्तं ति पजानाति, अनुत्तरं वा चित्तं अनुत्तरं चित्तं ति पजानाति, समाहितं वा चित्तं समाहितं चित्तं ति पजानाति, असमाहितं वा चित्तं असमाहितं चित्तं ति पजानाति, विमुत्तं वा चित्तं विमुत्तं चित्तं ति पजानाति, अविमुत्तं वा चित्तं अविमुत्तं चित्तं ति पजानाति । इति अज्झत्तं वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मामुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, वयधम्मामुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, समुदयवयधम्मामुपस्सी वा चित्तस्मि विहरति, अत्थि चित्तं ति वा पनस्स सति पच्चुपट्ठिता होति । यावदेव ज्ञाणमत्ताय पटिस्सत्तिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति ।

चित्तानुपस्सना निट्ठिता ।

§ ५. धम्मामुपस्सना

(क) नीवरणपच्चं

११. "कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मामुपस्सी विहरति ? इध, भिक्खवे, भिक्खु धम्मामुपस्सी विहरति - पच्चसु नीवरणेणु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मामुपस्सी विहरति - पच्चसु नीवरणेणु ?

१. एमं हिं - टी० ।

“इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं अत्थि मे अज्झत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं कामच्छन्दं नत्थि मे अज्झत्तं कामच्छन्दो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स कामच्छन्दस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स कामच्छन्दस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ।

“सन्तं वा अज्झत्तं व्यापादं” अत्थि मे अज्झत्तं व्यापादो ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं व्यापादं नत्थि मे अज्झत्तं व्यापादो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स व्यापादस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स व्यापादस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स व्यापादस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ।

“सन्तं वा अज्झत्तं थिनमिद्धं” अत्थि मे अज्झत्तं थिनमिद्धं ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स थिनमिद्धस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स थिनमिद्धस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स थिनमिद्धस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ।

“सन्तं वा अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं” अत्थि मे अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं नत्थि मे अज्झत्तं उद्धच्चकुक्कुच्चं ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स उद्धच्चकुक्कुच्चस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ।

“सन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छं” अत्थि मे अज्झत्तं विचिकिच्छं ति पजानाति, असन्तं वा अज्झत्तं विचिकिच्छं नत्थि मे अज्झत्तं विचिकिच्छं ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नाय विचिकिच्छाय उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नाय विचिकिच्छाय पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनाय विचिकिच्छाय आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ।

“इति अज्झत्तं वा धम्मेषु धम्मनुपत्ती विहरति, वहिद्धा वा धम्मेषु धम्मनुपत्ती विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा धम्मेषु धम्मनुपत्ती विहरति, समुदयधम्मनुपत्ती वा धम्मेषु विहरति, वयधम्मनुपत्ती वा

धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव^१ आणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय^२ अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति पच्चसु नीवरणेषु ।

(ख) खण्डपद्यं

- 5 १२. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - पच्चसु उपादानकखण्डेषु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - पच्चसु उपादानकखण्डेषु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु - ‘इति रूपं इति रूपस्स समुदयो इति रूपस्स अथङ्गमो^३, इति वेदना इति वेदनाय समुदयो इति वेदनाय अथङ्गमो, इति सञ्जा इति सञ्जाय समुदयो इति सञ्जाय अथङ्गमो, इति सङ्खारा इति सङ्खारानं समुदयो इति सङ्खारानं अथङ्गमो, इति विञ्जाणं इति विञ्जाणस्स समुदयो इति विञ्जाणस्स अथङ्गमो’ ति - इति अज्झतं वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, 10 समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव आणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - पच्चसु उपादानकखण्डेषु ।

(ग) आयतनपद्यं

- B. 240 १३. “पुन च परं, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी 20 विहरति - छसु अज्झत्तिकवाहिरेसु आयतनेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - छसु अज्झत्तिकवाहिरेसु आयतनेसु ?

“इध, भिक्खवे, भिक्खु चक्खुं च पजानाति, रूपे च पजानाति, य च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स उप्पादो होति तं च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स संयोजनस्स 25 पहानं होति तं च पजानाति, यथा च पहीनस्स संयोजनस्स आयति अनुप्पादो होति तं च पजानाति ।

“सोतं च पजानाति, सद्दे च पजानाति, यं च तदुभयं पटिच्च उप्पज्जति संयोजनं तं च पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स संयोजनस्स

उत्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भावति अनुत्पादो होति त च पजानाति ।

“घान च पजानाति, गन्धे च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च अनुत्पन्नस्स सयोजनस्स उत्पादो 5 होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भावति अनुत्पादो होति त च पजानाति ।

“जिह्व च पजानाति, रसे च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च अनुत्पन्नस्स सयोजनस्स 10 उत्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भावति अनुत्पादो होति त च पजानाति ।

“वाय च पजानाति, फोट्ट्वे च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च अनुत्पन्नस्स सयोजनस्स 15 उत्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भावति अनुत्पादो होति त च पजानाति ।

“मन च पजानाति, धम्मो च पजानाति, य च तदुभय पटिच्च उप्पज्जति सयोजन त च पजानाति, यथा च अनुत्पन्नस्स सयोजनस्स 20 उत्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सयोजनस्स पहान होति त च पजानाति, यथा च पहीनस्स सयोजनस्स भावति अनुत्पादो होति त च पजानाति ।

“इति अज्झत वा धम्मोनु धम्मानुपम्मी विहरति, यहिदा वा धम्मोनु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्जत्तबहिदा वा धम्मोनु धम्मानुपस्मी 25 विहरति, समुत्तयधम्मानुपम्मी वा धम्मोनु विहरति, वययधम्मानुपम्मी वा धम्मोनु विहरति, ममुत्तयधम्मानुपम्मी वा धम्मोनु विहरति, धम्मि धम्मा नि वा पनम्म मनि पच्चापट्टिता होति । वाग्देव आत्तमनाय पटिस्सनिमत्ताय धम्मिस्सितो च विहरति न च मज्झि लोके उत्तदिस्सि । एव नि सो, भित्तवे, भित्तव धम्मोनु धम्मानुपम्मी विहरति - एव 30 अज्जत्तनिवजाहिरेसु भावनेनु ।

(घ) वोञ्जङ्गपञ्चं

१४ "पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्ती विहरति - सत्तसु वोञ्जङ्गेषु । कथ च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेषु धम्मानुपस्ती विहरति - सत्तसु वोञ्जङ्गेषु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु सन्त वा अञ्जत्त सतिसम्बोज्जङ्ग अत्थि मे अञ्जत्त सतिसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अञ्जत्त सतिसम्बोज्जङ्ग नत्थि मे अञ्जत्त सतिसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स सतिसम्बोज्जङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स सतिसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति ।

10 "सन्त वा अञ्जत्त धम्मविचयसम्बोज्जङ्ग अत्थि मे अञ्जत्त धम्म- विचयसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अञ्जत्त धम्मविचय- सम्बोज्जङ्ग नत्थि मे अञ्जत्त धम्मविचयसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्जङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स धम्मविचयसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति ।

B 242

15 "सन्त वा अञ्जत्त विरियसम्बोज्जङ्ग अत्थि मे अञ्जत्त विरियसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अञ्जत्त विरियसम्बोज्जङ्ग नत्थि मे अञ्जत्त विरियसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स विरिय- सम्बोज्जङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स विरियसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति ।

20 "सन्त वा अञ्जत्त पीतिसम्बोज्जङ्ग अत्थि मे अञ्जत्त पीति- सम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अञ्जत्त पीतिसम्बोज्जङ्ग नत्थि मे अञ्जत्त पीतिसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स पीति- सम्बोज्जङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स पीति- सम्बोज्जङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति ।

R. 304 25

"सन्त वा अञ्जत्त पस्सद्विसम्बोज्जङ्ग अत्थि मे अञ्जत्त पस्सद्विसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अञ्जत्त पस्सद्विसम्बोज्जङ्ग नत्थि मे अञ्जत्त पस्सद्विसम्बोज्जङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स पस्सद्विसम्बोज्जङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स पस्सद्विसम्बोज्जङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति ।

“सन्त वा अज्झत्त समाधिसम्बोज्झङ्ग अत्थि मे अज्झत्त समाधि-
सम्बोज्झङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अज्झत्त समाधिसम्बोज्झङ्ग नत्थि
मे अज्झत्त समाधिसम्बोज्झङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स समाधि-
सम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स
समाधिसम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति । 5

“सन्त वा अज्झत्त उपेक्खासम्बोज्झङ्ग अत्थि मे अज्झत्त उपेक्खा-
सम्बोज्झङ्गो ति पजानाति, असन्त वा अज्झत्त उपेक्खासम्बोज्झङ्ग नत्थि
मे अज्झत्त उपेक्खासम्बोज्झङ्गो ति पजानाति, यथा च अनुप्पन्नस्स
उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स उप्पादो होति त च पजानाति, यथा च उप्पन्नस्स
उपेक्खासम्बोज्झङ्गस्स भावनाय पारिपूरी होति त च पजानाति । 10

“इति अज्झत्त वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, वहिद्धा वा
धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति, अज्झत्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मानुपस्सी
विहरति, समुदयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मानुपस्सी वा
धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्मा
ति वा पनस्स सति पञ्चुपट्टिता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सतिमत्ताय
अनिस्सितो च विहरति न च किञ्चि लोके उपादियति । एव पि खो,
भिकखवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति - सत्तसु' वोज्झङ्गेषु' । 15

(इ) चतुसच्चपव्व

१५ “पुन च पर, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी विहरति
- चतूसु' अरियसच्चेसु । कथं च पन, भिक्खवे, भिक्खु धम्मेसु धम्मानुपस्सी
विहरति - चतूसु' अरियसच्चेसु ? इध, भिक्खवे, भिक्खु इदं दुक्खं ति 20
यथाभूतं पजानाति, अथ दुक्खसमुदयो ति यथाभूतं पजानाति, अथ दुक्ख-
निरोधो ति यथाभूतं पजानाति, अथ दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा ति
यथाभूतं पजानाति ।

पठमभाणवारं निद्वित्तं ।

दुक्खसच्च

१६ “कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं अरियसच्चं ? जातिं पि दुक्खा,
जरां पि दुक्खा, मरणं पि दुक्खं, सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासां पि दुक्खा,
अप्पियेहि सम्पयोगो पि दुक्खो, पियेहि विप्पयोगो पि दुक्खो, यम्पिच्छं न
लभति तं पि दुक्खं, सङ्घित्तेन पञ्चुपादानकलन्धां पुनस्सा । 25

१७. "कतमा च, भिक्खवे, जाति? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जाति सञ्जाति ओक्कन्ति अभिनिब्बत्ति' खन्धानं पातुभावो आयतनानं पटिलाभो; अयं वुच्चति, भिक्खवे, जाति ।

D. 244

१८. "कतमा च, भिक्खवे, जरा? या तेसं तेसं सत्तानं तम्हि तम्हि सत्तनिकाये जरा जीरणता खण्डिच्चं पालिच्चं बलित्तचता^१ आयुनो संहानि इन्द्रियानं परिपाको; अयं वुच्चति, भिक्खवे, जरा ।

१९. "कतमं च, भिक्खवे, मरणं? यं तेसं तेसं सत्तानं तम्हा तम्हा सत्तनिकाया चुति चवणता भेदो अन्तरधान मच्चु मरणं कालकिरिया खन्धानं भेदो कळेवरस्स^२ निकखेपो जीवित्तिन्द्रियस्सुपच्छेदो; इदं वुच्चति, भिक्खवे, मरणं ।

R. 306

२०. "कतमो च, भिक्खवे, सोको? यो खो, भिक्खवे, अञ्जतरञ्जतरं व्यसनेन^३ समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरं दुक्खधम्मं पटुस्स सोको सोचना सोचित्तं अन्तोसोको अन्तोपरिसोको; अयं वुच्चति, भिक्खवे, सोको ।

२१. "कतमो च, भिक्खवे, परिदेवो? यो खो, भिक्खवे, अञ्जतरञ्जतरं व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरं दुक्खधम्मं पटुस्स आदेवो परिदेवो आदेवना परिदेवना आदेवित्तं परिदेवित्तं; अयं वुच्चति, भिक्खवे, परिदेवो ।

२२. "कतमं च, भिक्खवे, दुक्खं? यं खो, भिक्खवे, कायिकं दुक्खं कायिकं असातं कायसम्फस्सजं दुक्खं असातं वेदयितं; इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खं ।

२३. "कतमं च, भिक्खवे, दोमनस्सं? यं खो, भिक्खवे, चेतसिकं दुक्खं चेतसिकं असातं मनोसम्फस्सजं दुक्खं असातं वेदयितं; इदं वुच्चति, भिक्खवे, दोमनस्सं ।

२४. "कतमो च, भिक्खवे, उपायासो? यो खो, भिक्खवे, अञ्जतरञ्जतरं व्यसनेन समन्नागतस्स अञ्जतरञ्जतरं दुक्खधम्मं पटुस्स आयासो उपायासो आयासित्तं उपायासित्तं; अयं वुच्चति, भिक्खवे, उपायासो ।

B 245

२५. "कतमो च, भिक्खवे, अणियेहि गम्पयांगो दुक्खो? इयं

१. नि.वर्ति परिभित्ति - १५० । २. वणिउपता - ११० । ३. या - ११० । ४. व. ५. ६. वरण - १० । ७. अणियेहि - १० ।

यस्स ते होन्ति अनिट्ठा अकन्ता अमनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्टुब्बा धम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अनत्थ ताम्मा अहितकामा अफासुककामा अयोगक्खेमकामा, या तेहि सद्धि सङ्गति समागमो समोधान मिस्सीभावो, अय वुच्चति, भिक्खवे, अप्पियेहि सम्पयोगो दुक्खो ।

२६. "कतमो च, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ? इध यस्स ते होन्ति इट्ठा कन्ता मनापा रूपा सद्दा गन्धा रसा फोट्टुब्बा धम्मा, ये वा पनस्स ते होन्ति अत्थकामा हितकामा फासुककामा योगक्खेमकामा - माता वा पिता वा भाता वा भगिनी वा मित्ता वा अमच्चा वा आतिसालोहिता वा, या तेहि सद्धि असङ्गति असमागमो असमोधान अमिस्सीभावो, अय वुच्चति, भिक्खवे, पियेहि विप्पयोगो दुक्खो ।

२७. "कतम च, भिक्खवे, यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख ? जातिधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत मय न जातिधम्मा अस्साम न च वत नो जाति आगच्छेय्या' ति । न खो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख । जराधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत मय न जराधम्मा अस्साम, न च वत नो जरा आगच्छेय्या' ति । न खो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख । व्याधिधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत मय न व्याधिधम्मा अस्साम, न च वत नो व्याधि आगच्छेय्या' ति । न खो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख । मरणधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत मय न मरणधम्मा अस्साम, न च वत नो मरण आगच्छेय्या' ति । न खो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख । सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मान, भिक्खवे, सत्तान एव इच्छा उप्पज्जति - 'अहो वत मय न सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा अस्साम, न च वत नो सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासधम्मा आगच्छेय्यु' ति । न खो पनेत इच्छाय पत्तव्व । इद पि यम्पिच्छ न लभति त पि दुक्ख ।

२८. "कतमे च, भिक्खवे, सहित्तेन पञ्चुपादानक्खन्धा दुक्खा, मध्यथिद - रूपुपादानक्खन्धो वेदनुपादानक्खन्धो सञ्जुपादानक्खन्धो सहित्थारुपादानक्खन्धो विञ्जाणुपादानक्खन्धा ? इमे वुच्चन्ति, भिक्खवे,

सङ्घितेन पञ्चुपादानकखन्धा दुक्खा । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्ख
अरियसच्चं ।

समुदयसच्चं

R. 308

२६. “कतमं च, भिक्खवे, दुक्खसमुदयं” अरियसच्चं ? यायं तण्हा
पोनोब्भविका^१ नन्दीरागसहगता^२ तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथिदं – कामतण्हा
५ भवतण्हा विभयतण्हा ।

“सा खो पनेसा, भिक्खवे, तण्हा कथ्य उप्पज्जमाना उप्पज्जति,
कथ्य निविसमाना निविसति ? यं लोके पियरूपं सातरूपं एत्थेसा तण्हा
उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति ।

“किञ्च^३ लोके पियरूपं सातरूपं ? चक्खुं^४ लोके पियरूपं सातरूपं ।
१० एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति । सोतं
लोके ... पे० ... घानं लोके ... जिव्हा लोके ... कायो लोके ... मनो लोके
पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविस-
माना निविसति ।

“रूपा लोके ... सद्दा लोके ... गन्धा लोके ... रसा लोके ... फोट्टुब्बा
१५ लोके ... धम्मा लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना
उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति ।

“चक्खुविञ्जाणं लोके ... सोतविञ्जाणं लोके ... घानविञ्जाणं
लोके ... जिव्हाविञ्जाणं लोके ... कायविञ्जाणं लोके ... मनोविञ्जाणं
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ
२० निविसमाना निविसति ।

“चक्खुसम्फस्सो लोके ... सोतसम्फस्सो लोके ... घानसम्फस्सो
लोके ... जिव्हासम्फस्सो लोके ... कायसम्फस्सो लोके ... मनोसम्फस्सो
लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ
निविसमाना निविसति ।

R. 309

B.247 25

“चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके ... सोतसम्फस्सजा वेदना लोके ...
घानसम्फस्सजा वेदना लोके ... जिव्हासम्फस्सजा वेदना लोके ... कायसम्फ-
स्सजा वेदना लोके ... मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूपं सातरूपं । एत्थेसा
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति ।

“रूपसञ्जा लोके ... सद्दसञ्जा लोके ... गन्धसञ्जा लोके ...

१. दुक्खसमुदयो – स्या० २. पोनोभविका – सी०, रो० । ३. नन्दिरागसहगता – सी०,
रसा०, रो० । ४. किञ्चि – रो० । ५. चक्खु – म० ।

रससञ्ज्ञा लोके फोट्टुव्वरसञ्ज्ञा लोके धम्मसञ्ज्ञा लोके पियरूप सातरूप ।
एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति ।

“रूपसञ्चेतना लोके सद्दसञ्चेतना लोके गन्धसञ्चेतना लोके
रससञ्चेतना लोके फोट्टुव्वसञ्चेतना लोके धम्मसञ्चेतना लोके पियरूप सातरूप ।
एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ 5
निविसमाना निविसति ।

“रूपतण्हा लोके सद्दतण्हा लोके गन्धतण्हा लोके रसतण्हा लोके
फोट्टुव्वतण्हा लोके धम्मतण्हा लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा
तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना निविसति ।

“रूपवितक्को लोके सद्दवितक्को लोके गन्धवितक्को लोके 10
रसवितक्को लोके फोट्टुव्ववितक्को लोके धम्मवितक्को लोके पियरूप
सातरूप । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना
निविसति ।

‘रूपविचारो लोके सद्दविचारो लोके गन्धविचारो लोके
रसविचारो लोके फोट्टुव्वविचारो लोके धम्मविचारो लोके पियरूप 15
सातरूप । एत्थेसा तण्हा उप्पज्जमाना उप्पज्जति, एत्थ निविसमाना
निविसति । इद वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खसमुदय अरियसच्च । R

निरोधसच्च

३० “कतम च, भिक्खवे, दुक्खनिराध अरियसच्च ? यो तस्सायेव
तण्हाय असेसविरागनिरोधो चागो पटिनिस्सग्गो मत्ति अनालयो । सा खो
पनेसा, भिक्खवे, तण्हा कत्थ पहीयमाना पहीयति, कत्थ निरुज्झमाना
निरुज्झति ? य लोके पियरूप सातरूप एत्थेसा तण्हा पहीयमाना 20
पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति ।

“किञ्च लोके पियरूप सातरूप ? चक्खु लोके पियरूप सातरूप ।
एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना निरुज्झति । सोत
लोके पे० घान लोके जिब्हा लोके कायो लोके मनो लोके
पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्झमाना 25
निरुज्झति ।

‘रूपा लोके सद्दा लोके गन्धा लोके रसा लोके फोट्टुव्वा
लोके धम्मा लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना

पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

“चक्खुविञ्जाण लोके सोतविञ्जाण लोके घानविञ्जाण लोके जिह्वाविञ्जाण लोके कायविञ्जाण लोके मनोविञ्जाण लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

R 311

“चक्खुसम्फस्सो लोके सोतसम्फस्सो लोके घानसम्फस्सो लोके जिह्वासम्फस्सो लोके कायसम्फस्सो लोके मनोसम्फस्सो लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

10 “चक्खुसम्फस्सजा वेदना लोके सोतसम्फस्सजा वेदना लोके घानसम्फस्सजा वेदना लोके जिह्वासम्फस्सजा वेदना लोके कायसम्फस्सजा वेदना लोके मनोसम्फस्सजा वेदना लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

15 “रूपसञ्जा लोके महसञ्जा लोके गन्धसञ्जा लोके रससञ्जा लोके फोट्टव्वसञ्जा लोके धम्मसञ्जा लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

B 249

20 “रूपसञ्चेतना लोके सदसञ्चेतना लोके गन्धसञ्चेतना लोके रससञ्चेतना लोके फोट्टव्वसञ्चेतना लोके धम्मसञ्चेतना लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

“रूपतण्हा लोके सदतण्हा लोके गन्धतण्हा लोके रसतण्हा लोके. फोट्टव्वतण्हा लोके धम्मतण्हा लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

25 “रूपवितक्को लोके सद्वितक्को लोके गन्धवितक्को लोके रसवितक्को लोके फोट्टव्ववितक्को लोके धम्मवित्तारो लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना निरुज्जति ।

30 “रूपविचारो लोके महविचारो लोके गन्धविचारो लोके रगविचारो लोके फोट्टव्वविचारो लोके धम्मविचारो लोके पियरूप सातरूप । एत्थेसा तण्हा पहीयमाना पहीयति, एत्थ निरुज्जमाना

निरहङ्गति । इदं वुच्चति, भिक्खवे, दुक्खनिरोध अरियसच्च ।

मगसच्च

३१. "कतमं च, भिक्खवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरिय-
सच्च ? अयमेव अरियो अट्टङ्गिको मग्गो, सेय्यथिदं - सम्मादिट्ठि सम्मा-
सङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मन्तो सम्माआजीवो सम्मावायामो
सम्मासति सम्मासमाधि ।

"कतमा च, भिक्खवे, सम्मादिट्ठि ? य खो, भिक्खवे, दुक्खे
आण, दुक्खसनुदये आण, दुक्खनिरोधे आण, दुक्खनिरोधगामिनिया
पटिपदाय आण - अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मादिट्ठि ।

"कतमो च, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो ? नेक्खम्मसङ्कप्पो, अद्या-
पादसङ्कप्पो, अविहिंसासङ्कप्पो - अयं वुच्चति, भिक्खवे, सम्मासङ्कप्पो ।

"कतमा च, भिक्खवे, सम्मावाचा ? मुसावादा वेरमणी, पिसुणाय^१
वाचाय^१ वेरमणी, फरुसाय^२ वाचाय^२ वेरमणी, सम्फप्पलापा वेरमणी - अयं
वुच्चति, भिक्खवे, सम्मावाचा ।

"कतमो च, भिक्खवे, सम्माकम्मन्तो ? पाणातिपाता वेरमणी,
अदिन्नादाना वेरमणी, कामेसुमिच्छाचारा वेरमणी - अयं वुच्चति, भिक्खवे,
सम्माकम्मन्तो ।

"कतमो च, भिक्खवे, सम्माआजीवो ? इध, भिक्खवे, अरिय-
सावको मिच्छाआजीवो पहाय सम्माआजीवेन जीवित^३ कप्पेति - अयं
वुच्चति, भिक्खवे, सम्माआजीवो ।

"कतमो च, भिक्खवे, सम्मावायामो ? इध, भिक्खवे, भिक्खु
अनुप्पन्नान् पापकान् अकुसलान् धम्मान् अनुप्पादाय छन्दं जनेति वायमति
विरिय^४ आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति, उप्पन्नान् पापकान् अकुसलान्
धम्मान् पहानाय छन्दं जनेति वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति
पदहति, अनुप्पन्नान् कुसलान् धम्मान् उप्पादाय छन्दं जनेति वायमति
विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति, उप्पन्नान् कुसलान् धम्मान् ठितिया
असम्मोसाय भिय्योभावाय वेपुल्लाय भावनाय पारिपूरिया छन्दं जनेति
वायमति विरियं आरभति चित्तं पग्गण्हाति पदहति - अयं वुच्चति,

१ धव्यापाद० - २१० । २ वेरमणि - इति पि । ३-३ विमुक्कवाचा - म० । ४-४ फहन्-
वाचा - म० । ५ जीविक - स्या० । ६ वीरिय - म० ।

भिक्षवे, सम्मावायामो ।

“कतमा च, भिक्षवे, सम्मासति? इध, भिक्षवे, भिक्षु काये कायानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं; धम्मेषु धम्मनानुपस्सी विहरति आतापी सम्पजानो सतिमा, विनेय्य लोके अभिज्झादोमनस्सं — अयं वुच्चति, भिक्षवे, सम्मासति ।

“कतमो च, भिक्षवे, सम्मासमाधि? इध, भिक्षवे, भिक्षु विविच्चेव कामेहि विविच्च अकुसलेहि धम्मेहि सवितक्कं सविचारं विवेकजं पीतिसुखं पठमं भानं^१ उपसम्पज्ज विहरति; वितक्कविचारानं वूपसमा अज्झत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं अवितक्कं अविचारं समाधिजं पीतिसुखं दुतियं भानं उपसम्पज्ज विहरति; पीतिया च विरागा उपेक्खको च विहरति सतो च सम्पजानो सुखं च कायेन पटिसंवेदेति यं तं अरिया आधिक्खन्ति ‘उपेक्खो सतिमा सुखविहारी’ ति ततियं भानं उपसम्पज्ज विहरति; सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव सोमनस्स-दोमनस्सानं अत्यङ्गमा^२ अदुक्खमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धिं चतुल्यं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहरति — अयं वुच्चति, भिक्षवे, सम्मासमाधि । इदं वुच्चति, भिक्षवे, दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा अरियसच्चं ।

B. 251

R. 314 29

३२. “इति अज्झत्तं वा धम्मेसु धम्मनानुपस्सी विहरति, बहिद्धा वा धम्मेसु धम्मनानुपस्सी विहरति, अज्जत्तवहिद्धा वा धम्मेसु धम्मनानुपस्सी विहरति, समुदयधम्मनानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, वयधम्मनानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, समुदयवयधम्मनानुपस्सी वा धम्मेसु विहरति, अत्थि धम्मा ति वा पनस्स सति पच्चुपट्टिता होति । यावदेव जाणमत्ताय पटिस्सति-मत्ताय अनिस्सितो च विहरति, न च किञ्चि लोके उपादियति । एवं पि खो, भिक्षवे, भिक्षु धम्मेसु धम्मनानुपस्सी विहरति — चतूसु अरियसच्चेसु । धम्मनानुपस्सना निट्ठिता ।

§ ६ सतिपट्टानभावनानिसंसो

३३. “थो हि कोचि, भिक्षवे, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एवं भावेय्य सत्तवस्सानि, तस्स द्विअं फलानं अञ्जातरं फलं पाटिकह्वं — दिट्ठेव

धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता ।

“तिट्ठन्तु, भिक्खवे, सत्तवस्सानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एव भावेय्य छ वस्सानि पे० पञ्च वस्सानि चत्तारि वस्सानि तीणि वस्सानि द्वे वस्सानि एक वस्स तिट्ठन्तु, भिक्खवे, एक वस्स । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एव भावेय्य सत्तमासानि, तस्स द्वित्त फलान अञ्जतर फल पाटिक्ह - दिट्ठेव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता ।

‘ तिट्ठन्तु, भिक्खवे, सत्त मासानि । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एव भावेय्य छ मासानि पे० पञ्च मासानि चत्तारि मासानि तीणि मासानि द्वे मासानि एक मास अद्दु-मास’ तिट्ठन्तु, भिक्खवे, अद्दुमासो । यो हि कोचि, भिक्खवे, इमे चत्तारो सतिपट्टाने एव भावेय्य सत्ताह, तस्स द्वित्त फलान अञ्जतर फल पाटिक्ह - दिट्ठेव धम्मे अञ्जा, सति वा उपादिसेसे अनागामिता ति ।

३४ “एकायनो अय, भिक्खवे, भग्गो सत्तान विसुद्धिया, सौकपरि-देवान समतिक्कमाय, दुक्खदोमनस्सान अत्थङ्गमाय, वायस्स अधिगमाय, निब्बानस्स सच्छिकिरियाय यदिद चत्तारो सतिपट्टाना ति । इति य त वुत्त, इदमेत पटिच्च वुत्त” ति ।

इदमवोच भगवा । अत्तमना ते भिक्खू भगवतो भासित अभिनन्दु ति ।

महासतिपट्टानवुत्त निद्धित नवम ।

— ० —

१०. पायासिराजञ्जसुत्तं

§ १ पायासि आयस्मन्तं कुमारकस्सपं उपसङ्गमि

१ एव मे सुत्त । एक समय आयस्मा कुमारकस्सपो कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसत्तेहि येन सेतव्या^१ नाम कोसलान नगर तदवसरि । तत्र सुद आयस्मा कुमारकस्सपो सेतव्याय विहरति उत्तरेण सेतव्य सिसपावने^२ । तेन खो पन समयेन
5 पायासि राजञ्जो सेतव्य अञ्जावसति सत्तुस्सद सतिणकट्टोदक सधञ्ज राजभोग्ग, रञ्जा पसेनदिना कोसलेन दिन्न, राजदाय ब्रह्मदेय्य ।

२. तेन खो पन समयेन पायासिस्स^३ राजञ्जस्स^४ एवरूप पापक दिट्ठिगत उप्पन्न होति — “इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान^५ कम्मण फल विपाको” ति । अस्सोसु
10 खो सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका — “समणो खलु भो कुमारकस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावको, कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिक्खुसङ्घेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खुसत्तेहि सेतव्य अनुप्पत्तो, सेतव्याय विहरति उत्तरेण सेतव्य^६ सिसपावने । त खो पन भवन्त कुमारकस्सप एव कल्याणो कित्तिसद्दो अग्गुगतो — ‘पण्डितो व्यत्तो’ मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी
15 कल्याणपटिभानो बुद्धो^७ चेव अरहा च । साधु खो पन तथारूपान अरहत्त दस्सन होति” ति । अथ खो सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतव्याय निक्खमित्वा सङ्घसङ्घी^८ गणीभूता उत्तरेणमुखा गच्छन्ति येन सिसपावन* ।

३ तेन खो पन समयेन पायासि राजञ्जो उपरिपासादे दिधासेय्य उपगतो होति । अइसा खो पायासि राजञ्जो सेतव्यके ब्राह्मणगहपतिके
20 सेतव्याय निक्खमित्वा सङ्घसङ्घी गणीभूते उत्तरेणमुखे गच्छन्ते^९ येन सिसपावन^{१०} । दिस्वा खत्त आमन्तेसि — “किं नु खो, भो खत्ते, सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका सेतव्याय निक्खमित्वा सङ्घसङ्घी गणीभूता उत्तरेणमुखा गच्छन्ति येन सिसपावन” ति ?

१ पायासिगुल - म०, रो० । २ सेतव्या - रो० । ३ सिसपावने - स्या० । ४-५. पायासि-राजञ्जस्स - रो० । ५ गुकटदुक्कटान - रो०, रा० । ६ सेतव्या रा० । ७ व्यत्ता - रो० । ८ बुद्धो - रा० । ९ गङ्गासङ्घी - रो० । * तेनुपगवमनि^{११} इति ग्रथिकी पाठो रो०, रो० पोथेनेनु दिस्सति । १०-१० स्या० पोथके नरिय । † तेनुपसङ्गमन्त^{१२} इति ग्रथिकी पाठो रो०, रो० परपरेनु विस्सति ।

“अत्थि खो, भो, समणो कुमारकस्सपो, समणस्स गोतमस्स सावको, कोसलेसु चारिक चरमानो महता भिवखुसद्धेन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिवखुसतेहि सेतव्य अनुप्पत्तो, सेतव्याय विहरति उत्तरेण सेतव्य सिंसपावने । त लो पन भवन्त कुमारकस्सप एव कल्याणो कित्तिसद्दो अद्भुग्गतो - ‘पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो चित्तकथी कल्याणपटिभानो वुद्धो चैव अरहा चा’ 5 ति । तमेते’ भवन्त कुमारकस्सप दस्सनाय उपसङ्कमन्ती” ति । “तेन हि, भो खत्ते, येन सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसङ्कम, उपसङ्कमित्वा सेतव्यके ब्राह्मणगहपतिके एव वदेहि - ‘पायासि, भो, राजञ्जो एवमाह - आगमेन्नु किर भवन्तो, पायासि पि राजञ्जो समण कुमारकस्सप दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती’ ति । पुरा समणो कुमारकस्सपो सेतव्यके ब्राह्मणगहपतिके 10 वाले अब्बत्ते सञ्जापेति - ‘इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको’ ति । नत्थि हि, भो खत्ते, परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको” ति । “एव भो” ति खो सो खत्ता पायासिस्स राजञ्जस्स पटिस्सुत्वा येन सेतव्यका ब्राह्मणगहपतिका तेनुपसङ्कमि, 15 उपसङ्कमित्वा सेतव्यके ब्राह्मणगहपतिके एतदवोच - “पायासि, भो, राजञ्जो एवमाह - आगमेन्नु किर भवन्तो, पायासि पि राजञ्जो समण कुमारकस्सप दस्सनाय उपसङ्कमिस्सती” ति ।

४ अथ खो पायासि राजञ्जो सेतव्यकेहि ब्राह्मणगहपतिकेहि परिवुतो येन सिंसपावन येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्क- 20 मित्वा आयस्मता कुमारकस्सपेण सद्धि सम्मोदि । सम्मोदनीय कथ सारणीय^१ वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदि । सेतव्यका पि खो ब्राह्मण- गहपतिका अप्पेकच्चे आयस्मन्त कुमारकस्सप अभिवादेत्वा एकमन्त निसीदिस्सु । अप्पेकच्चे आयस्मता कुमारकस्सपेण सद्धि सम्मोदिस्सु, सम्मोदनीय कथ सारणीय वीतिसारेत्वा एकमन्त निसीदिस्सु । अप्पेकच्चे 25 येनायस्मा कुमारकस्सपो तेनञ्जलि पणामेत्वा एकमन्त निसीदिस्सु । अप्पेकच्चे नामगोत्त सावेत्वा एकमन्त निसीदिस्सु । अप्पेकच्चे तुण्हीभूता एकमन्त निसीदिस्सु ।

१ २ कुमारकस्सपो उपमाहि नत्थिकवाव पटिभिन्दि

५ एकमन्त निसिन्नो खो पायासि राजञ्जो आयस्मन्त कुमार-

१ तमेन वे - सी०, तमेन - से० । १ सारणीय - स्था०, से० ।

कस्सप एतदवोच - "अहञ्चिह, भो कस्सप, एववादी एवदिट्ठो - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको'" ति ।

- 5 "नाह, राजञ्ज, एववादि एवदिट्ठि अहस वा अस्सोसि वा ।
कथञ्चिह नाम एव वदेय्य - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको' ति ?

चन्दिमसुरियउपमा

- 6 "तेन हि, राजञ्ज, तञ्जेवेत्थ पटिपुच्छित्सामि । यथा ते खमेय्य तथा न व्याकरेय्यासि । त किं मञ्जसि, राजञ्ज, इमे चन्दिमसुरिया' इमस्मि वा' लोके परस्मि वा, देवा वा ते मनुस्सा वा" ति ?
10 "इमे, भो कस्सप, चन्दिमसुरिया परस्मि लोके, न इमस्मि, देवा ते, न मनुस्सा" ति ।

"इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एव होतु - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति ।

- 15 7 "किञ्चा पि भव कस्सपो एवमाह, अथ खो एव मे एत्थ होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति ।

R.320 "अत्थि पन, राजञ्ज, परियायो येन ते परियायेन एव होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान
20 कम्मान फल विपाको" ति ?

B 256 "अत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति ।

- 25 "यथा कथं विय, राजञ्जा" ति ?
"इध मे, भो कस्सप, नित्तमच्चा आतिसालोहिता पाणातिपाती आदन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा' फरसवाचा' सम्फप्पलापी अभिञ्जालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठो । ते अपरेन समयेन आबाधिका होन्ति दुक्खिता बाह्विगलाना । यदाह जानामि - 'न दानिमे इमम्हा

आवाधा वुट्टहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि - 'सन्ति खो, भो, एके समणन्नाह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - ये ते पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्जालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी, ते कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जन्ती ति । भवन्तो खो पाणातिपाती 5
अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्जालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी । सचे तेस भवत' समणन्नाह्मणान सच्च वचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कायस्स भेदा पर मरणा अपाय दुग्गति विनिपात निरय उपपज्जेय्याथ, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ - इति पि 10
अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको ति । भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका । य भवतेहि दिट्ठ यथा साम दिट्ठ एवमेत भविस्सती' ति । ते मे साधू ति पटिस्सुत्वा नेव 15
आगन्त्वा आरोचेन्ति न पन दूत पहिणन्ति । अय पि खो, भो कस्सप, परि-यायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता 15
ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको' ति ।

चोरउपमा

८ "तेन हि, राजञ्ज, तञ्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि । यथा ते खमय्य तथा न व्याकरेय्यासि । त किं मञ्जसि, राजञ्ज, इध ते पुरिसा चोर आगुचारि गहेत्वा दस्सेय्यु - 'अय ते, भन्ते, चोरो आगुचारी, इमस्स य इच्छसि त दण्ड पणेही' ति । ते त्व एव वदेय्यासि - 'तेन हि, भो, इम 20
पुरिस दब्हाय रज्जुया पच्छावाह गाब्हुवन्धन वन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा' खरस्सरेण पणवेण रथिकाय' रथिक' सिङ्घाटकेण सिङ्घाटक परिनेत्वा दक्खिणेण द्वारेण निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स आघातने सीस छिन्दथा' ति । ते साधू ति पटिस्सुत्वा त पुरिस दब्हाय रज्जुया पच्छावाह गाब्हुवन्धन 25
वन्धित्वा खुरमुण्ड करित्वा खरस्सरेण पणवेण रथिकाय रथिक सिङ्घाटकेण सिङ्घाटक परिनेत्वा दक्खिणेण द्वारेण निक्खमित्वा दक्खिणतो नगरस्स आघातने निसीदापेय्यु । लभेय्य नु खो सो चोरो चोरघातेसु - 'आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा आति-

१ भवति - स्या० । २ वदेहि - स्या० । ३ नागत्वा - सी० स्या० । ४ ४ रथियय रथिय - सी०, स्या०, रो० ।

R. 322

सालोहिता, यावाहं तेसं उद्दिसित्वा आगच्छामी' ति. उदाहु विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्युं" ति ?

“न हि सो, भो कस्सप, चोरो लभेय्य चोरघातेसु - 'आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा
5 आतिसालोहिता, यावाहं तेसं उद्दिसित्वा आगच्छामी' ति । अथ खो नं विप्पलपन्तस्सेव चोरघाता सीसं छिन्देय्युं" ति ।

“सो हि नाम, राजञ्ज, चोरो मनुस्सो मनुस्सभूतेसु चोरघातेसु न लभिस्सति - 'आगमेन्तु ताव भवन्तो चोरघाता, अमुकस्मि मे गामे वा निगमे वा मित्तामच्चा आतिसालोहिता, यावाहं तेसं उद्दिसित्वा
10 आगच्छामी' ति; किं पन ते मित्तामच्चा आतिसालोहिता पाणातिपाती अदिन्नादायी कामेसुमिच्छाचारी मुसावादी पिसुणवाचा फरुसवाचा सम्फप्पलापी अभिज्झालू व्यापन्नचित्ता मिच्छादिट्ठी, ते' कायस्स भेदा परं भरणा अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपन्ना लभिस्सन्ति निरयपालेसु - 'आगमेन्तु ताव भवन्तो निरयपाला, याव मयं पायासिस्स राजञ्जस्स
15 गन्त्वा आरोचेम - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको' ति ? इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एवं होतु - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ।

६. “किं चा पि भवं कस्सपो एवमाहु, अथ खो एवं मे एत्थ
20 होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ।

B. 258

“अत्थि पन, राजञ्ज, परियायो येन ते परियायेन एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ?

25 “अत्थि, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ।

“यथा कथं विय, राजञ्जा" ति ?

30 “इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा आतिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरत्ता अदिन्नादाना पटिविरत्ता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरत्ता मुसावादा पटिविरत्ता पिसुणाव वाचाय पटिविरत्ता फरुसाय वाचाय

पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्जालू अव्यापन्नचित्ता
 सम्मादिट्ठी, ते अपरेण समयेण आवाधिका होन्ति दुक्खिता वाब्हगिलाना ।
 यदाह जानामि - 'न दानिमे इमम्हा आवाधा बुट्ठहिस्मन्ती' ति, त्याह
 उपसङ्कमित्वा एव यदामि - 'सन्ति राो, भो, एके समणत्राह्मणा एववादिनो
 एवदिट्ठिनो - ये ते पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता 5
 कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता पिसुणाय वाचाय
 पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा पटिविरता अन-
 भिज्जालू अव्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी, ते कायस्स भेदा पर मरणा
 सुर्गात्तं सग्ग लोक उपपज्जन्ती ति । भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता
 अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता 10
 पिसुणाय वाचाय पटिविरता फरुसाय वाचाय पटिविरता सम्फप्पलापा
 पटिविरता अनभिज्जालू अव्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी । सचे तेस भवत
 समणत्राह्मणान सच्च वचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गात्तं सग्ग
 लोक उपपज्जिस्सन्ति । सचे, भो, कायस्स भेदा पर मरणा सुर्गात्तं सग्ग
 लोक उपपज्जेय्याथ, येण मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ - इति पि अत्थि परो 15
 लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मण फल
 विपाको ति । भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका । य भवन्तोहि
 दिट्ठ यथा साम दिट्ठ एवमेत भविस्सती' ति । ते मे साधू ति पटिस्सुत्वा
 नेव आगन्त्वा आरोचेन्ति न पन दूत पहिणन्ति । अय पि खो, भो कस्सप,
 परियायो येण मे परियायेण एव होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि 20 R 32
 सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मण फल विपाको" ति ।

गूयकूपुरिसउपमा

१० "तेन हि, राजञ्ज, उपम ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे'
 विञ्जु पुरिसा भासितस्स अत्थ आजानन्ति । सेय्यथापि, राजञ्ज, पुरिसो
 गूयकूपे ससोसकं निमुग्गो अस्स । अथ त्व पुरिसे आणापेय्यासि - 'तेन
 हि, भो, त पुरिस तम्हा गूयकूपा उद्धरथा' ति । ते साधू ति पटिस्सुत्वा 25
 त पुरिस तम्हा गूयकूपा उद्धरेय्यु । ते त्व एव वदेय्यासि - 'तेन हि, भो,
 तस्स पुरिसस्स काया वेळुपेसिकाहि गूय सुनिम्मज्जित निम्मज्जथा' ति ।
 ते साधू ति पटिस्सुत्वा तस्स पुरिसस्स काया वेळुपेसिकाहि गूय सुनिम्मज्जित
 निम्मज्जेय्यु । ते त्व एव वदेय्यासि - 'तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स काय

१ उपमायमिधेकच्चे - मी०, २१० । २ तमी नरो - रो० । ३ वेळुपेसिकाहि - रो० ।

पण्डुमत्तिकाय तिक्वत्तुं सुव्वट्टितं उव्वट्टेथा” ति । ते तस्स पुरिसस्स कायं
 पण्डुमत्तिकाय तिक्वत्तुं सुव्वट्टितं उव्वट्टेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि - ‘तेन
 हि, भो, तं पुरिसं तेलेन अब्भञ्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्वत्तुं सुप्पघोतं
 करोथा’ ति । ते तं पुरिसं तेलेन अब्भञ्जित्वा सुखुमेन चुण्णेन तिक्वत्तुं
 5 सुप्पघोतं करेय्युं । ते त्वं एवं वदेय्यासि - ‘तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स
 केसमस्सुं कप्पेथा’ ति । ते तस्स पुरिसस्स केसमस्सुं कप्पेय्यु । ते त्वं एवं
 वदेय्यासि - ‘तेन हि, भो, तस्स पुरिसस्स महग्घं च मालं महग्घं च
 विलेपनं. महग्घानि च वत्यानि उपहरथा’ ति । ते तस्स पुरिसस्स महग्घं
 च मालं महग्घं च विलेपनं महग्घानि च वत्यानि उपहरेय्युं । ते त्वं एवं
 10 वदेय्यासि - ‘तेन हि, भो, तं पुरिसं पासादं आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि
 उपट्टापेथा” ति । ते तं पुरिसं पासादं आरोपेत्वा पञ्चकामगुणानि
 उपट्टापेय्युं ।

R. 325

“तं किं मञ्जसि, राजञ्ज, अपि नु तस्स पुरिसस्स सुन्हातस्स
 सुविलित्तस्स^१ सुकप्पितकेसमस्सुस्स^२ आम्वक्कमालाभरणस्स^३ ओदातवत्थ-
 15 वसनस्स उपरिपासादवरगतस्स पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितस्स समङ्गी-
 भूतस्स परिचारयमानस्स पुनदेव तस्मिं गूथकूपे निमुज्जितुकामता^४
 अस्सा” ति ?

“नो हिदं, भो कस्सप” ।

“तं किस्स हेतु” ?

20 “असुचि, भो कस्सप, गूथकूपो । असुचि चेव असुचिसङ्घातो च
 दुग्गन्धो च दुग्गन्धसङ्घातो च जेगुच्छो च जेगुच्छसङ्घातो च पटिकूलो च
 पटिकूलसङ्घातो चा” ति ।

B 2/0.

“एवमेव सो, राजञ्ज, मनुस्सा देवानं असुची चेव असुचिसङ्घातो
 च, दुग्गन्धा च दुग्गन्धसङ्घाता च, जेगुच्छा च जेगुच्छसङ्घाता च, पटिकूला
 25 च पटिकूलसङ्घाता च । योजनसतं सो, राजञ्ज, मनुस्सागन्धो देवे
 उच्चाधति” । किं पन ते मित्तमञ्चा ज्जातिसालोहिता पाणातिपाता पटि-
 विरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेनुमिच्छाचारा पटिविरता भुसावादा
 पटिविरता पिग्गुणाय वाचाय पटिविरता फरसाय वाचाय पटिविरता

१. उव्वट्टेया - ह्या०; उव्वट्टेया - इति । २. उव्वट्टेया - ह्या०, रो० । ३. गु-
 विवित्त - ह्या० । ४. अजिउरेगमरगुत्थ - रो० । ५. अमृतमादाभरण - रो०, रो०; अमृत-
 मनिमरपरत्त - ह्या० । ६. निमुज्जितुताया - ह्या० । ७. उच्चाधति - रो०, ह्या० ।

सम्फप्पलापा पटिविरता अनभिज्जालू अव्यापन्नचित्ता सम्मादिट्ठी कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्ग लोक उपपन्ना ते' आगन्त्वा आरोचेस्सन्ति - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको ति ? इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एव होतु - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि 5 सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको' ति ।

११ "किञ्चा पि भव कस्सपो एवमाह, अथ खो एव मे एत्थ होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको' ति ।

अत्थि पन, भो राजञ्ज, परियायो पे० अत्थि, भो कस्सप, 10 परियायो पे० यथा कथ विय, राजञ्जा ति ?

"इध मे, भो कस्सप, मित्तामच्चा आतिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्टाना' पटिविरता, ते अपरेन समयेन आवाधिका होन्ति दुक्खिता वाब्हुगिलाना । यदाह जानामि - 'न दानिमे 15 इमम्हा आवाधा वुट्टहिस्सन्ती' ति, त्याह उपसङ्कमित्वा एव वदामि - 'सन्ति खो, भो, एके समणब्राह्मणा एववादिनो एवदिट्ठिनो - ये ते पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्टाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्ग लोक उपपज्जन्ति देवान तावत्तिसान 20 सहव्यत' ति । भवन्तो खो पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता कामेसुमिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमादट्टाना पटिविरता । सचे तेस भवत समणब्राह्मणान सच्च वचन, भवन्तो कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्ग लोक उपपज्जिस्सन्ति देवान तावत्तिसान सहव्यत । सचे, भो, कायस्स भेदा पर मरणा 25 सुगतिं सग्ग लोक उपपज्जेय्याथ देवान तावत्तिसान सहव्यत, येन मे आगन्त्वा आरोचेय्याथ - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाका ति । भवन्तो खो पन मे सद्धायिका पच्चयिका । य भवन्तेहि दिट्ठ यथा साम दिट्ठ एवमेत भविस्सती' ति । ते मे साधू ति पटिस्सुत्वा नेव आगन्त्वा 30

आरोचेन्ति न पन दूतं पहिणन्ति । अयं पि खो, भो कस्सप, परियायेो येन मे परियायेन एवं होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ।

तावर्तिसदेवउपमा

१२. "तेन हि, राजञ्ज, तञ्जेवेत्थ पटिपुच्छिस्सामि; यथा
 5 ते खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । यं खो पन, राजञ्ज, मानुस्सकं वस्ससतं, देवानं तावर्तिसानं एसो एको रत्तिन्दिवो' । ताय रत्तिया तिसरत्तियो भासो, तेन भासेन द्वादसमासियो संवच्छरो, तेन संवच्छरेन दिव्वं वस्ससहस्सं देवानं तावर्तिसानं आयुप्पमाणं । ये ते भित्तामच्चा ज्ञातिसालोहिता पाणातिपाता पटिविरता अदिन्नादाना पटिविरता
 10 कामेसुभिच्छाचारा पटिविरता मुसावादा पटिविरता सुरामेरयमज्जपमाद-ट्टाना पटिविरता, ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सग्गं लोकं उपपन्ना देवानं तावर्तिसानं सहव्यतं । सच्चे पन तेसं एवं भविस्सति - 'याव मयं द्वे वा तीणि वा रत्तिन्दिवा दिव्वेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पिता समङ्गीभूता' परिचारेम, अथ मयं पायासिस्स राजञ्जस्स गन्त्वा
 15 आरोचेय्याम - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति; अपि नु ते आगन्त्वा आरोचेय्यु - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको" ति ?

"नो हिदं, भो कस्सप । अपि हि मय, भो कस्सप, चिर
 B. 262 20 कालद्यूता पि भवेय्याम । को पनेतं भोतो कस्सपस्स आरोचेति - 'अत्थि देवा तावर्तिसा ति वा एवदीघायुका देवा तावर्तिसा ति वा ।
 R. 328 न मयं भोतो कस्सपस्स सद्दहाम - अत्थि देवा तावर्तिसा ति वा एवदीघायुका देवा तावर्तिसा ति वा" ति ।

जञ्चन्धउपमा

१३. "सेय्यथापि, राजञ्ज, जञ्चन्धो पुरिसो न पस्सेय्य कण्ह
 25 सुक्कानि रूपानि, न पस्सेय्य नीलकानि रूपानि, न पस्सेय्य पीतकानि रूपानि, न पस्सेय्य लोहितकानि रूपानि, न पस्सेय्य मञ्जिट्टकानि^१ रूपानि, न पस्सेय्य रामविरामं, न पस्सेय्य तारकानि रूपानि, न पस्सेय्य चन्दिमसुरिये । सो एवं वदेय्य - 'नत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, नत्थि

१. रत्तिन्दिवो - इति रि । २. एमण्णभूता - गो० रो० । ३. मञ्जेट्टकानि - स्वा०; मञ्जेट्टकानि - सो०; मञ्जिट्टकानि - दा० ।

कण्हसुक्कान रूपान दस्सावी, नत्थि नीलकानि रूपानि, नत्थि नीलकान
 रूपान दस्सावी, नत्थि पीतकानि रूपानि, नत्थि पीतकान रूपान दस्सावी,
 नत्थि लोहितकानि रूपानि नत्थि लोहितकान रूपान दस्सावी, नत्थि
 मञ्जिट्टकानि रूपानि, नत्थि मञ्जिट्टकान रूपान दस्सावी, नत्थि
 समविसम, नत्थि समविसमस्स दस्सावी, नत्थि तारकानि रूपानि, नत्थि 5
 तारकान रूपान दस्सावी, नत्थि चन्दिमसुरिया, नत्थि चन्दिमसुरियान
 दस्सावी । अहमेत न जानामि अहमेत न पस्सामि तस्मा त नत्थी'
 ति । सम्मा नु खो सो', राजञ्ज, वदमानो वदेय्या" ति ?

“नो हिंद, भो वस्सप । अत्थि कण्हसुक्कानि रूपानि, अत्थि
 कण्हसुक्कान रूपान दस्सावी, अत्थि नीलकानि रूपानि, अत्थि नीलकान 10
 रूपान दस्सावी पे० अत्थि समविसम, अत्थि समविसमस्स दस्सावी,
 अत्थि तारकानि रूपानि, अत्थि तारकान रूपान दस्सावी, अत्थि चन्दिम-
 सुरिया, अत्थि चन्दिमसुरियान दस्सावी । ‘अहमेत न जानामि अहमेत
 न पस्सामि तस्मा त नत्थी’ ति न हि सो, भो कस्सप, सम्मा
 वदमानो वदेय्या” ति । 15

‘एवमेव खो त्व, राजञ्ज, जच्चन्धूपमो^१ मञ्जे पटिभासि य
 म त्व एव वदेसि’ ।

“को पनेत भोतो कस्सपस्स आरोचेति — ‘अत्थि देवा तावत्तिसा
 ति वा, एवदीघायुका देवा तावत्तिसा ति’ वा ? न मय भोतो कस्सपस्स
 सद्दहाम — अत्थि देवा तावत्तिसा ति वा एवदीघायुका देवा तावत्तिसा ति 20
 वा” ति ।

“न खो, राजञ्ज, एव परो लोको दट्टब्बो यथा त्व मञ्जासि
 इमिना मसच्चखुना । ये खो ते राजञ्ज समणब्राह्मणा अरञ्जवन-
 पत्यानि पन्थानि सेनासनानि पटिसेवन्ति^२ ते तत्थ अप्पमत्ता आतापिनो 25
 पहितत्ता विहरन्ता दिव्वचक्खु विसोधेन्ति । ते दिव्वेन चक्खुना विसुद्धेन
 अतिक्वन्तमानुसकेन इम चेव लोक पस्सन्ति पर च सत्ते च ओपपातिके ।
 एव च खो, राजञ्ज, परो लोको दट्टब्बो, नत्थेव यथा त्व मञ्जासि इमिना
 मसच्चक्खुना । इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एव होतु — इति पि
 अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि नुवत्तदुक्कटान कम्मन
 फल विपाको” ति । 30

१ भो — स्या० सो० । २ जच्चन्धूपमो — स्या० । ३ पटिसेवन्ति अप्पमत्तानि अ-
 तिक्वोत्तानि — सी० रो० ।

R 330

१४ “किञ्चा पि भव कस्सपो एवमाह, अथ खो एव मे एत्थ होति-
इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान
कम्मान फल विपाको” ति ।

अत्थि पन, राजञ्जा, परियायो पे० अत्थि, भो कस्सप
5 परियायो पे० यथा कथ विय, राजञ्जा ति ?

“इदाह, भो कस्सप, पस्सामि समणब्राह्मणे सीलवन्ते कल्याणधम्म
जीवितुकामे अमरितुकामे सुखकामे दुक्खपटिकूले । तस्स मय्ह, भो कस्सप,
एव होति - ‘सचे खो इमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा एव
जानेय्यु - इतो नो मतान सेय्यो भविस्सती ति, इदानिमे’ भोन्तो
10 समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा विस वा खादेय्यु सत्थ वा
आहरेय्यु उव्वन्धित्वा वा कालङ्कुरेय्यु पपाते वा पपतेय्यु । यस्मा च
खो इमे भोन्तो समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा न एव
जानन्ति - ‘इतो नो मतान सेय्यो भविस्सती’ ति, तस्मा इमे भोन्तो
समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा जीवितुकामा अमरितुकामा
15 सुखकामा दुक्खपटिकूला^१ अत्तान^२ न मारेन्ति^३ । अय पि खो, भो कस्सप,
परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नत्थि परो लोको,
नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको’
ति ।

गम्भिनीउपमा

१५ “तेन हि, राजञ्जा, उपम ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकञ्चे
20 विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्थ आजानन्ति-

B 264

‘भूतपुव्व, राजञ्जा, अञ्जतरस्स ब्राह्मणस्स द्वे पज्जपत्तियो अहेसु ।
एकिस्सा पुत्तो अहोसि दसवस्सुद्देसिको वा द्वादसवस्सुद्देसिको वा, एका गम्भिनी
उपविजञ्जा । अथ खो सो ब्राह्मणो कालमकासि । अथ खो सो माणवको
मानुसपत्ति^४ एतदवोच - यमिद, भोति, धन वा धञ्ज वा रजत वा जातरूप
R 331 25 वा सव्व त मय्ह, नत्थि तुय्हेत्थ^५ किञ्चि, पितु मे^६ भोति, दायज्ज
निथ्यादेही^७ ति । एव वुत्ते, सा ब्राह्मणी त माणवक एतदवोच - आगमेहि
ताव, तात, याव विजायामि, सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसो
भविस्सति, सचे कुमारिका भविस्सति सा पि ते ओपभोग्गा^८ भविस्सती

१ इदानीम - स्या० । २ दवलपटिकवृत्ता - रो० । ३-३ स्या० रा० पोत्थनेसु नत्थि ।
४ मानुसपत्ति - स्या० । ५ तुय्हेय - रो० । ६ पितु मे सत्तको - स्या० । ७ निथ्यादेहि -
सी० रो० । ८ उपभोगा - स्या० ।

ति । दुतिय पि खो सो माणवको मातुसपत्ति एतदवोच - यमिद, भोति, धन वा धञ्ज वा रजत वा जातरूप वा सव्व त मय्ह, नत्थि तुय्हेत्य किञ्चि, पितु मे, भोति, दापज्ज निय्यादेही ति । दुतिय पि तो सा ब्राह्मणी त माणवक एतदवोच - आगमेहि ताव, तात, याव विजायामि, सचे कुमारको भविस्सति तस्स पि एकदेसो भविस्सति, सचे कुमारिका भविस्सति सा पि ते ओपभोग्गा भविस्सती ति । ततिय पि खो सो माणवको मातुसपत्ति एतदवोच - यमिद, भोति, धन वा धञ्ज वा रजत वा जातरूप वा सव्व मय्ह, नत्थि तुय्हेत्य किञ्चि, पितु मे, भोति, दापज्ज निय्यादेही ति । अथ खो सा ब्राह्मणी सत्य गहेत्वा ओवरक पविसित्वा उदर ओपादेसि - याव विजायामि, यदि वा कुमारको यदि वा कुमारिका ति । सा अत्तान चैय जीवित च गव्व च सापतेय्य च विनासेसि' ।

“यथा त वाला अव्यत्ता अनयव्यसन आपत्ता अयोनिसो दायज्ज गवेसन्ती, एवमेव खो त्व, राजञ्ज, वालो अव्यत्तो अनयव्यसन आपज्जिस्ससि अयोनिसो परलोक गवेसन्तो, सेय्यथापि सा ब्राह्मणी वाला अव्यत्ता अनयव्यसन आपत्ता अयोनिसो दायज्ज गवेसन्ती । न खो, राजञ्ज, समणब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा अपक्क परिपाचेन्ति, अपि च, परिपाक आगमेन्ति । पण्डितान् अथो हि, राजञ्ज, समणब्राह्मणान् सीलवन्तान् कल्याणधम्मान् जीवितेन । यथा यथा खो, राजञ्ज, समण-ब्राह्मणा सीलवन्तो कल्याणधम्मा चिर दीधमद्धान् तिट्ठन्ति, तथा तथा बहु पुञ्ज पसवन्ति, बहुजनहिताय च पटिपज्जन्ति, बहुजनसुखाय लोकानु-कम्पाय अत्थाय हिताय सुखाय देवमनुस्सान् । इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एव होतु - इति पि अत्थि परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपातिका, अत्थि सुकतदुक्कटान् कम्मान् फल विपाको” ति ।

१६ “किञ्चा पि भव कस्सपो एवमाह, अथ खो एव मे एत्य होति - ‘इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान् कम्मान् फल विपाको” ति ।

अत्थि पन, राजञ्ज, परियायो पे० अत्थि, भो कस्सप, परि-यायो पे० यथा वथ विय, राजञ्जा ति ?

“इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोर आगुजारि गहेत्वा दम्सेन्ति -

‘अयं ते, भन्ते, चोरो आगुचारी; इमस्स यं इच्छसि तं दण्डं पणेही’ ति ।
 ५ ल्याहं एवं वदामि - ‘तेन हि, भो, इमं पुरिसं जीवन्तं येव कुम्भिया पक्खि-
 पित्वा मुखं पिदहित्वा अल्लेन चम्मेन ओनन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय
 १० बहलावलेपनं’ करित्वा उद्धनं आरोपेट्वा अग्गिं देथा’ ति । ते मे साधू ति
 पटिस्सुत्वा तं पुरिसं जीवन्तमेव कुम्भिया पक्खिपित्वा मुखं पिदहित्वा
 अल्लेन चम्मेन ओनन्धित्वा अल्लाय मत्तिकाय बहलावलेपनं करित्वा उद्धनं
 आरोपेट्वा अग्गिं देन्ति । यदा मयं जानाम कालद्धतो सो पुरिसो ति,
 अथ नं कुम्भिं आरोपेट्वा उब्भिन्दित्वा मुखं विवरित्वा सणिकं निल्लोकेम -
 ‘अप्पेव नामस्स जीवं निक्खमन्तं पस्सेय्यामा’ ति । नेवस्स मयं जीवं
 १० निक्खमन्तं पस्साम । अयं पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन
 एवं होति - ‘इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता थोपपातिका, नत्थि
 सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति ।

सुपिनकउपमा

१७. “तेन हि, राजञ्ज, तञ्जेवेत्थ पट्ठिपुच्छिस्सामि । यथा ते
 खमेय्य तथा नं व्याकरेय्यासि । अभिजानासि नो त्वं, राजञ्ज, दिवा
 १५ सेय्यं उपगतो सुपिनकं पस्सित्वा’ आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमि-
 रामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यकं” ति ?

“अभिजानामहं, भो कस्सप, दिवासेय्य उपगतो सुपिनकं पस्सिता
 आरामरामणेय्यकं वनरामणेय्यकं भूमिरामणेय्यकं पोक्खरणीरामणेय्यकं”
 ति ।

१८. “रक्खन्ति तं तम्हि रामये सुज्जा पि यामनका” पि वेलासिका’
 पि कोमारिका पी” ति ?

“एवं, भो कस्सप, रक्खन्ति तम्हि रामये सुज्जा पि यामनका पि
 २० वेलासिका पि कोमारिका पी” ति ।

“अपि नु ता तुय्हं जीवं पस्सन्ति पयिगन्तं वा निक्कमन्तं वा” ति ?
 “नो हिदं, भो कस्सप” ।

“ता हि नाम, राजञ्ज, तुय्हं जीवन्तस्स जीवन्तियो जीवं न
 पस्सिस्सन्ति पयिगन्तं वा निक्कमन्तं वा; किं पन त्वं यात्तद्दुत्तम्स जीव
 पस्सिस्सामि पयिगन्तं वा निक्कमन्तं वा । इमिणा पि सो ते, राजञ्ज,

१. इति विद्वान् - १००, १०१ । २. विद्वान् - १०० । ३. पयिगन्तं - १०० । ४. इति
 विद्वान् - १०० । ५. वेलासिका - १००; वेलासिका - १०० । ६. इति - १०० ।

“एवमेव सो, राजञ्ज, यदायं कायो आयुसहगतो च होति उस्मा-
सहगतो च विञ्जाणसहगतो च तदा ल्हुतरो च होति मुदुतरो च कम्म-
ञ्जातरो च । यदा पनायं कायो नेव आयुसहगतो होति न उस्मासहगतो न
विञ्जाणसहगतो, तदा गरुतरो च होति पत्थिघ्नतरो च अकम्मञ्जातरो
5 च । इमिना पि सो ते, राजञ्ज, परियायेन एवं होतु— इति पि अत्थि
परो लोको, अत्थि सत्ता ओपपात्तिका, अत्थि मुकत्तदुक्कटानं कम्मनं पन
विपाको” ति ।

२०. “किञ्चा पि भवं कस्तपो’ एवमाह; अय सो एवं मे एत्थ
होति — इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपात्तिका, नत्थि मुक-
10 दुक्कटानं कम्मनं फलं विपाको” ति ।

अत्थि पन, राजञ्ज, परियायो ... पे० ... अत्थि, ओ गरुतप,
परियायो ... पे० ... यथा कयं विय, राजञ्जा ति ?

स्वेव कायो होति, ते फोट्टुव्वा, तञ्चायतन, नप्पटिसवेदेति । अय पि खो, भो कस्सप, परियायो येन मे परियायेन एव होति - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति ।

सङ्घमउपमा

२१ "तेन हि, राजञ्ज, उपम ते करिस्सामि । उपमाय 5
मिधेकच्चे विञ्चू पुरिसा भासितस्स अत्थ आजानन्ति -

'भूतपुब्ब, राजञ्ज, अञ्जतरो सङ्घमो सङ्घ आदाय पच्चन्तिम जनपद अगमासि । सो येन अञ्जतरो गामो तेनुपसङ्कमि, उपसङ्कमित्वा मज्जे गामस्स ठितो तिक्खत्तु सङ्घ उपलापेत्वा' सङ्घ भूमिय निक्खिपित्वा एकमन्त निसीदि । अथ खो, राजञ्ज, तेस पच्चन्तजनपदमनुस्सान' एतदहोसि 10
- अम्भो' कस्स' नु खो एसो सद्दो एवरजनीयो' एवकमनीयो एवमदनीयो एवबन्धनीयो एवमुच्छनीयो' ति । सन्धिपत्तित्वा त सङ्घम एतदवोचु -
'अम्भो, कस्स नु खो एसो सद्दो एवरजनीयो एवकमनीयो एवमदनीयो एवबन्धनीयो एवमुच्छनीयो' ति ।

'एसो खो, भो, सङ्घो नाम यस्सेसो सद्दो एवरजनीयो एवकमनीयो ।
एवमदनीयो एवबन्धनीयो एवमुच्छनीयो' ति ।

"ते त सङ्घ उत्तान निपातेसु - 'वदेहि, भो सङ्घ, वदेहि, भो सङ्घा'
ति । नेव सो सङ्घो सद्दमकासि । त त सङ्घ अबकुञ्ज निपातेसु पस्सेने
निपातेसु दुतियेन पस्सेने निपातेसु उट्ठ ठपेसु ओमुद्धक ठपेसु

पाणिना आकोटेमु लेड्डुना आकोटेसु दण्डेन आकोटेसु सत्थेन
आकोटेसु ओधुनिसु, सन्धुनिसु, निद्धुनिसु - 'वदेहि, भो सङ्घ, वदेहि,
भो सङ्घा' ति । नेव सो सङ्घो सद्दमकासि । अथ खो, राजञ्ज, तस्स
सङ्घमस्स एतदहोसि - 'याव वाला इमे पच्चन्तजनपदमनुस्सा । कथ
हि नाम अयोनिसो सङ्घसद्द गवेशिस्सन्ती' ति । तेस पेक्खमानान सङ्घ
गहेत्वा तिक्खत्तु सङ्घ उपलापेत्वा सङ्घ आदाय पक्कामि । अथ खो, राजञ्ज,
'स पच्चन्तजनपदान मनुस्सान एतदहोसि - 'यदा किर, भो, अय सङ्घो
नाम पुरिससहगतो च होति वायामसहगतो च वायुसहगतो च तदाय सङ्घो

१ उपलापेत्वा - सी०, उपलासेत्वा - स्या०, उपलासित्वा - रो० । २ पच्चन्तजनपदान
मनुस्सा - स्या०, पच्चन्तजा मनुस्सा - रो० । ३-३ विस्स - रो० । ४ एवरजनीयो -
स्या० । ५ एवमुच्छनीयो - स्या० ।

सद् करोति, यदा पनाय सह्यो नेव पुरिससहगतो होति न वायामसहगतो न वायुसहगतो, नाय सह्यो सद् करोती' ति । एवमेव खो, राजञ्ज, यदाय कायो आयुसहगतो च होति उस्मासहगतो च विञ्जाणसहगतो च तदा अभिक्कमति पि पटिक्कमति पि तिट्ठति पि निसीदति पि सेय्य पि कप्पेति, चक्खुना पि रूप पस्सति सोतेन पि सद् सुणाति घानेन पि गन्ध घायति जिह्वाय पि रस सायति कायेन पि फोट्टव्व फुसति मनसा पि धम्म विजानाति । यदा पनाय कायो नेव आयुसहगतो होति न उस्मासहगतो न विञ्जाणसहगतो तदा नेव अभिक्कमति न पटिक्कमति न तिट्ठति न निसीदति न सेय्य कप्पेति, चक्खुना पि रूप न पस्सति सोतेन पि सद् न सुणाति घानेन पि गन्ध न घायति जिह्वाय पि रस न सायति कायेन पि फोट्टव्व न फुसति मनसा पि धम्म न विजानाति । इमिना पि खो ते, राजञ्ज, परियायेन एव होतु - इति पि अत्थि परो लोको अत्थि सत्ता ओपपातिका अत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति । *

२२ "किञ्चा पि भव कस्सपा एवमाह, अथ खो एव म एत्थ होति - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति ।

R 339 अत्थि पन, राजञ्ज, परियायो ५० अत्थि, भो कस्सप, परियायो पे० यथा कथ विय, राजञ्जा ति ?

20 "इध मे, भो कस्सप, पुरिसा चोर आगुचारि गहेत्वा दस्सेन्ति - 'अय ते, भन्ते, चोरो आगुचारी । य इच्छसि त दण्ड पणेही' ति । त्याह एव वदामि - 'तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स छविं छिन्दथ - अप्पेव नामस्स जीव पस्सेय्यामा' ति । ते तस्स पुरिसस्स छविं छिन्दन्ति । नेवस्स मय जीव पस्साम । त्याह एव वदामि - 'तेन हि, भो, इमस्स पुरिसस्स चम्म छिन्दथ मस छिन्दथ न्हारु छिन्दथ अट्ठि छिन्दथ अट्ठिमिञ्ज छिन्दथ - अप्पेव नामस्स जीव पस्सेय्यामा' ति । ते तस्स पुरिसस्स अट्ठिमिञ्ज छिन्दन्ति । नेवस्स मय जीव पस्साम । अय पि खो, भो कस्सप, परियायो येन म परियायन एव होति - 'इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटान कम्मान फल विपाको" ति ।

अग्गिकजटिलउपमा

२३ "तेन हि, राजञ्ज, उपम ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्चे'

विञ्जु पुरिसा भासितस्त अत्थ आजानन्ति -

'भूतपुञ्ज, राजञ्ज, अञ्जतरो अग्गिको जटिलो अरञ्जायतने
पण्णकुटिया वसति' । अथ खो, राजञ्ज, अञ्जतरो जनपदे सत्थो^१
बुद्धसि । अथ खो सो सत्थो^१ तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स अस्समस्स
सामन्ता एकरत्ति वसित्वा पक्कामि^२ । अथ खो, राजञ्ज, तस्स अग्गिकस्स 5
जटिलस्स एतदहोसि - यन्नूनाह येन सो सत्थवासो^३ तेनुपसङ्कमेय्य -
अप्पेव नामेत्य किञ्चि उपकरण अधिगच्छेय्य ति । अथ खो सो अग्गिको
जटिलो कालस्सव बुद्धाय येन सो सत्थवासो तेनुपसङ्कमि, उपरुद्धमित्वा
अहस तस्मि सत्थवासे दहर कुमार मन्द उत्तानसेय्यक छड्ढित । दिस्वा-
नस्स एतवहोसि - न खो मेत पतिरूप^४ य मे पेक्खमानस्स मनुस्सभूतो 10
कालङ्करेय्य, यन्नूनाह इम दारक अस्सम नेत्वा आपादेय्य पोसेय्य वड्ढेय्य
ति । अथ खो सो अग्गिको जटिलो त दारक अस्सम नेत्वा आपादेसि
पोसेसि वड्ढेसि । यदा सो दारको दसयस्सुद्धेसिको वा होति द्वादसवस्सुद्धेसिको
वा, अथ खो तस्स अग्गिकस्स जटिलस्स जनपदे किञ्चिदेव करणीय
उप्पज्जि । अथ खो सो अग्गिको जटिलो त दारक एतदवोच - इच्छामह, 15
तात, जनपद^५ गन्तु, अग्गि, तात, परिचरेय्यासि, मा च ते अग्गि निब्बायि;
सचे च ते अग्गि निब्बायेय्य, अथ वासी इमानि कट्टानि इद अरणिसहित,
अग्गि निब्बत्तेत्वा अग्गि परिचरेय्यासी ति । अथ खो सो अग्गिको जटिलो
त दारक एव अनुसासित्वा जनपद अगमासि । तस्स खिट्ठापसुतस्स अग्गि
निब्बायि । अथ खो तस्स दारकस्स एतदहोसि - पिता खो म एव अथच - 20
अग्गि, तात, परिचरेय्यासि, मा च ते अग्गि निब्बायि, सचे च ते अग्गि
निब्बायेय्य, अथ वासी इमानि कट्टानि इद अरणिसहित, अग्गि निब्बत्तेत्वा
अग्गि परिचरेय्यासी ति । यन्नूनाह अग्गि निब्बत्तेत्वा अग्गि परिचरेय्य
ति । अथ खो सो दारको अरणिसहित वासिया तच्छि - अप्पेव नाम अग्गि
अधिगच्छेय्य ति । नेव सो अग्गि अधिगच्छि । अरणिसहित द्विधा 2'
फालेसि, तिधा फालेसि, चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि,
सतधा^६ फालेसि, सकलिक सकलिक अकासि, सकलिक सकलिक
करित्वा उदुक्खले कोट्टेसि, उदुक्खले कोट्टेत्वा महावाते ओपुनि^७ -

१. सम्मति - म०, स्या० । २ सत्थो जनपदपदेसा - सी०, जनपदो सत्थवासो - स्या०,
जनपदपदेसो - रो० । ३ सत्थवासो - स्या० । ४ पक्कमि - सी० । ५ सत्थवाहो - सो० । ६
पट्टिरूप - रो०, स्या० । ७ नगर - सा० । ८ वीसतिधा - स्या० । ९ भोफनि - स्या०, भोफुणि -
सी० ।

- अप्पेव नाम अग्निं अधिगच्छेय्यं ति । नेव सो अग्निं अधिगच्छि ।
 अथ खो सो अग्निंको जटिलो जनपदे तं करणीयं तीरेत्वा येन सको
 अस्समो तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्वा तं दारकं एतदवोच - कच्चि ते, तात,
 अग्निं न निव्वुतो ति ? इध मे, तात, खिद्दुपसुतस्स अग्निं निव्वायि ।
 5 तस्स मे एतदहोसि - पिता खो मं एवं अवच - अग्निं, तात, परिचरेय्यासि;
 मा च ते, तात', अग्निं निव्वायि; सचे च ते अग्निं निव्वायेय्य, अयं वासी'
 इमानि कट्टानि इदं अरणिसहितं, अग्निं निव्वत्तेत्वा अग्निं परिचरेय्यासी
 ति । यन्नूनाहं अग्निं निव्वत्तेत्वा अग्निं परिचरेय्यं ति । अथ ख्वाहं, तात,
 अरणिसहितं वासिया तच्छि - अप्पेव नाम अग्निं अधिगच्छेय्यं ति ।
 10 नेवाहं अग्निं अधिगच्छिं । अरणिसहितं द्विधा फालेसि, तिधा फालेसि,
 चतुधा फालेसि, पञ्चधा फालेसि, दसधा फालेसि, सतधा फालेसि, सकलिकं
 सकलिकं अकासि, सकलिकं सकलिकं करित्वा उदुक्खले कोट्टेसि', उदुक्खले
 कोट्टेत्वा महावाते ओपुनि - अप्पेव नाम अग्निं अधिगच्छेय्यं ति । नेवाहं
 अग्निं अधिगच्छि ति । अथ खो तस्स अग्निंकोस्स जटिलस्स एतदहोसि - याव
 15 वालो अयं दारको अव्यत्तो । कथं हि नाम अयोनिं सो अग्निं गवेसिस्सती
 ति ! तस्स पेक्खमानस्स अरणिसहितं गहेत्वा अग्निं निव्वत्तेत्वा तं दारकं
 एतदवोच - एवं खो, तात, अग्निं निव्वत्तेत्त्वो न त्वेव यथा त्वं वालो
 अव्यत्तो अयोनिं सो अग्निं गवेसी" ति ।

- "एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, वालो अव्यत्तो अयोनिं सो परलोक्
 20 गवेसिस्ससि । पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज, पापकं दिट्ठिगतं ! पटिनिस्सज्जेतं,
 राजञ्ज, पापकं दिट्ठिगतं ! मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय
 दुक्खाया" ति ।

२४. "किञ्चा पि भवं कस्सपो एयमाह, अथ खो नेवाहं सक्कोमि
 इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जित्तुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति
 25 तिरोराजानो पि - 'पायासि राजञ्जो एवंवादी एवंदिट्ठी - इति पि नत्थि
 परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिक्का, नत्थि सुकत्तदुक्कटानं कम्ममं फलं
 विपाको' ति । सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जि-
 स्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो - 'याव वालो पायासि राजञ्जो अव्यत्तो
 दुग्गहितगाहा' ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि नं हरिस्सामि

पलासेन पि नं हरिस्सामी" ति ।

द्वैसत्यवाहउपमा

२५. "तेन हि, राजञ्ज, उपम ते करिस्सामि, उपमाय मिधेकच्चे" विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्य आजानन्ति-

'भूतपुञ्ज, राजञ्ज, महासकटसत्यो सकटसहस्स पुरत्थिमा जनपदा पच्छिम जनपद अगमासि । सो येन येन गच्छति^१ सिप्पयेव^२ परियादियति तिणकट्टोदक हरितकपण्ण^३ । तस्मिं सो पन सत्ये द्वे सत्यवाहा अहेसु - एको पञ्चन्न सकटसतान, एको पञ्चन्न सकटसतान । अथ सो नेस सत्यवाहागं एतदहोसि - अथ सो महासकटसत्यो सकटसहस्स, ते मय येन येन गच्छाम सिप्पमेव परियादियति तिणकट्टोदक हरितकपण्ण, यद्भून मय इम सत्य द्विधा विभजेय्याम - एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्चसप्तसतानी ति । ते त सत्य द्विधा विभजिसु^४ - एकतो पञ्च सकटसतानि, एकतो पञ्च सकटसतानि । एको ताव^५ सत्यवाहो बहु तिण च कट्ट च उदक च आरोपेत्वा सत्यं पयापेसि^६ । द्वीहतीहपयातो सो पन सो सत्यो अहस पुरिस काळ लोहितक्ख^७ सन्नद्धकलाप^८ कुमुदमालि^९ अल्लवत्य अल्लकेस कद्दममविसतेहि चक्केहि भद्रेण^{१०} रयेन पट्टिपय आगच्छन्त । दिस्वा एतदयोच - 'कुतो, भो, आगच्छसी' ति ?

'अमुकम्हा जनपदा' ति ।

'कुहि गमिस्ससी' ति ?

'अमुक नाम जनपद' ति ।

'कच्चि, भो, पुरतो वन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो^{११}' ति ?

'एव, भो, पुरतो वन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्ठो । आसित्तोदकानि वट्टमानि । बहु^{१२} तिण च कट्ट च उदक च । छड्ढेय, भो, पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि । लहुभारेहि सकट्टेहि सीघ^{१३} सीघ^{१४} गच्छय । मा योग्गानि किलमित्था' ति ।

"अथ सो सो सत्यवाहो सत्यके आमन्तोसि - 'अथ, भो, पुरिसो

१ पिपेक्खे - त्या०, रो० । २ गच्छि - म० । ३ सिप्पमेव - गो०, रो० । ४ हरितकपण्ण - रो० । ५ विभजेसु - इति पि । ६ म० पेट्टन मत्ति । ७ पायापेसि - सी०, रो० । ८ लोहितक्खि - रो० । ९ सन्नद्धकलाप - त्या०, सपन्नकलाप - रो० । १० कुमुदमाल - त्या० । ११ अहेण - गो० । १२ अभिप्पवुट्ठो - रो० । १३ बहु - म० । १४-१५. सीघनीय - गो० ।

एवमाह - पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्टो, आसित्तोदकानि वट्टमानि, बहु तिण च कट्ट च उदक च, छड्ढेय, भो, पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघ सीघ गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था ति । छड्ढेय, भो, पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि, लहुभारेहि
 5 सकटेहि सत्थ पयापेया' ति । 'एव, भो' ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा छड्ढेत्वा पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि लहुभारेहि सकटेहि सत्थ पयापेसु । ते पठमे पि सत्थवासे न अट्टससु तिण वा कट्ट वा उदक वा, दुतिये पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, चतुत्थे पि सत्थवासे, पञ्चमे पि सत्थवासे, छट्ठे पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न अट्टससु
 10 तिण वा कट्ट वा उदक वा । सव्वेव अनयव्यसन' आपज्जिसु' । ये च तस्मिं सत्थे अहेसु मनुस्सा वा पसू वा सव्वे सो यक्खो अमनुस्सो भक्खेसि । अट्टिकानेव तेसानि ।

R 345 15 "यदा अञ्जासि दुतियो सत्थवाहो - 'बहुनिवखन्तो खो भो, दानि सो सत्थो' ति, बहु तिण च कट्ट च उदक च आरोपेत्वा सत्थ पयापेसि । द्वीहतीहपयातो खो पन सो सत्थो अट्टस पुरिस काळ लोहितवख सन्नद्धकलाप कुमुदमालि अल्लवत्थ अल्लकेस कट्टममक्खितेहि चक्केहि भद्रेण रथेन पटिपथ आगच्छन्त । दिस्वा एतदवोच - 'कुतो, भो, आगच्छसी' ति ?

'अमुकम्हा जनपदा' ति ।

'कुहि गमिस्ससी' ति ?

20 'अमुक नाम जनपद' ति ।

'कच्चि, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्टो' ति ?

B 274 'एव, भो, पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्टो । आसित्तोदकानि वट्टमानि । बहु तिण च कट्ट च उदक च । छड्ढेय, भो, पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि । लहुभारेहि सकटेहि सीघ सीघ गच्छथ । मा योग्गानि
 25 किलमित्था' ति ।

"अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि - 'अय, भो, पुरिसो एवमाह - पुरतो कन्तारे महामेघो अभिप्पवुट्टो, आसित्तोदकानि वट्टमानि, बहु तिण च कट्ट च उदक च, छड्ढेय, भो, पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि, लहुभारेहि सकटेहि सीघ सीघ गच्छथ, मा योग्गानि किलमित्था ति । अय
 30 भो पुरिसो नेव अम्हाक भित्ति न जातिसालोहितो । ऋथ मय इमस्स

सद्वाय गमिस्साम ! न'त्रो' छद्देतब्बानि पुराणानि तिणानि कट्टानि उदकानि ।
 यथाकतेन भण्डेन सत्थं पयापेथ । न नो पुराणं छद्देस्सामा' ति' । 'एवं, भो'
 ति खो ते सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यथाकतेन भण्डेन सत्थं
 पयापेसुं । ते पठमे पि सत्थवासे न अद्दसंसु तिणं वा कट्टं वा उदकं वा ;
 दुतिये पि सत्थवासे, ततिये पि सत्थवासे, चतुत्ये पि सत्थवासे, पच्चमे
 पि सत्थवासे, छद्दे पि सत्थवासे, सत्तमे पि सत्थवासे न अद्दसंसु तिणं वा
 कट्टं वा उदकं वा । तं च सत्थं अद्दसंसु अनयव्यसनं आपन्नं' । ये च' तस्मिं
 सत्थे पि अद्देसुं मनुस्सा वा पसू वा तेसं च अट्टिकानेव अद्दसंसु, तेन यक्खेन
 अमनुस्सेन भविस्सतानं ।

"अथ खो सो सत्थवाहो सत्थिके आमन्तेसि - 'अयं खो, भो, सत्थो
 अनयव्यसनं आपन्नो यथा तं तेन वालेन सत्थवाहेन परिणायकेन । तेन हि,
 भो, यानम्हाकं सत्थे अप्पसारानि पणियानि तानि छद्देत्वा, यानि इमस्मि
 सत्थे महासारानि पणियानि तानि आदियथा' ति । 'एवं, भो' ति खो ते
 सत्थिका तस्स सत्थवाहस्स पटिस्सुत्वा यानि सकस्मि सत्थे अप्पसारानि
 पणियानि तानि छद्देत्वा, यानि तस्मिं सत्थे महासारानि पणियानि तानि
 आदियित्वा सोत्थिना तं कन्तारं नित्यारिसु, यथा तं पण्डितेन सत्थवाहेन
 परिणायकेन ।

"एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, बालो अव्यत्तो अनयव्यसनं आपज्जि-
 स्ससि अयोनिसो परलोकं गवेसन्तो, सेय्यथापि सो पुरिमो सत्थवाहो । ये
 पि तव' सोतब्बं सद्दातब्बं' मञ्जिस्सन्ति ते पि अनयव्यसनं आपज्जिस्सन्ति,
 सेय्यथापि ते सत्थिका । पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज, पापकं दिट्ठिगतं ;
 पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज, पापकं दिट्ठिगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं
 अहिताय दुक्खाया' ति ।

२६. "किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सककोमि'
 इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जितु । राजा पि मं पसेनदि कोसलो जानाति
 त्तिरोराजानो पि - 'पायासि राजञ्जो एवंवादो एवंदिट्ठी' - इति पि नत्थि
 परो लोको ... पे० ... विपाको' ति । सचाहं, भो कस्सप, इदं पापकं
 दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि भविस्सन्ति मे वत्तारो - 'थाव बालो पायासि
 राजञ्जो अव्यत्तो दुग्गहितगाही' ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि मक्खेन पि

१. खो - सी०, रो० । २-२. आपन्नं येव - रो० ; आपन्नयेव - स्फ० । ३. ते - इति
 पि । ४. सद्दातब्बं - रो० । ५. सम्याहामि - रो० । ६. एवदिट्ठि - सी० ।

नं हरिस्सामि पलासेन पि नं हरिस्सामी" ति ।

गूयभारिकउपमा

२७. "तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिघेकच्चे विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति -

‘भूतपुब्बं, राजञ्ज, अञ्जतरो सूकरपोसको पुरिसो सकम्हा गामा
 5 अञ्जं गामं अगमासि । तत्थ अद्दस प्हूतं सुक्खं गूथं छद्दितं । दिस्वानस्स
 एतदहोसि - अयं खो बहुको सुक्खगूथो छद्दितो ममं च सूकरभत्तं;
 यन्नूनाहं इतो सुक्खगूथं हरेय्यं ति । सो उत्तरासङ्गं पत्थरित्वा प्हूत
 सुक्खगूथं आकिरित्वा भण्डिकं वन्धित्वा सीसे उच्चारोपेत्वा अगमासि ।
 तस्स अन्तरामगे महाअकालमेघो पावस्सि । सो उग्घरन्तं पग्घरन्तं याव अग-
 10 नखा गूथेन मक्खितो गूथभारं आदाय अगमासि । तमेनं मनुस्सा दिस्वा एव-
 माहंमु - कच्चि नो त्वं, भणे, उम्मत्तो, कच्चि विचेतो? कथं हि नाम
 उग्घरन्तं पग्घरन्तं याव अग्नखा गूथेन मक्खितो गूथभारं हरिस्सती ति!

तुम्हे ख्वेत्य, भणे, उम्मत्ता, तुम्हे विचेता । तथा हि पन मे
 सूकरभत्तं ति ।

15 "एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, गूयभारिकूपमो" मञ्जे पटिभासि ।
 पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज, पापकं दिट्ठिगतं; पटिनिस्सज्जेतं, राजञ्ज,
 पापकं दिट्ठिगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं अहिताय दुक्खाया" ति ।

२८. "किञ्चा पि भवं कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाहं सककोमि
 इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जितुं । राजा पि मं पसेनदि कोसलो
 20 जानाति तिरोराजानो पि - 'पायासि राजञ्जो एवंवादी एवंदिट्ठी-
 इति पि नत्थि परो लोको ... पे० ... विपाको' ति । सचाहं, मो कत्तए,
 इदं पापकं दिट्ठिगतं पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो - माय
 वालो पायासि राजञ्जो अज्यत्तो दुग्गहितगाही ति । कोपेन पि नं हरिस्सामि
 मक्खेन पि नं हरिस्सामि पलासेन" पि नं हरिस्सामी" ति ।

अकराधुत्तकउपमा

25 २९. "तेन हि, राजञ्ज, उपमं ते करिस्सामि । उपमाय मिघेकच्चे
 विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्थं आजानन्ति -

१. यद्वं - सी० । २. मे - रो० । ३. प्हूतो - एत्ता० । ४. ममं - रो० । ५-६. गूक्खं
 भक्को - एत्ता० । ७. प्पारएत्ता - रो० । ८. उच्चारोपेत्ता - एत्ता० । ९.
 कच्चिन्नु - एत्ता० । १०. वेपेत्तो - रो० । ११. गूयभारिकूपमो - सी०, रो० । १२. पञ्जोव -
 एत्ता०, रो० ।

‘भूतपुब्ब, राजञ्ज, द्वे अक्खधुत्ता अक्खेहि दिव्विसु । एको अक्ख-
धुत्तो आगतागत कलि गिलति । अद्दसा खो दुतियो अक्खधुत्तो त अक्खधुत्त
आगतागत कलि गिलन्त । दिस्वा त’ अक्खधुत्त एतदवोच - त्व खो, सम्म,
एकन्तिकेन जिनासि । देहि मे, सम्म, पजोहिस्सामी’ ति । एव सम्मा ति खो
सो अक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स अक्खे पादासि । अथ खो सो अक्खधुत्तो
अक्खे विसेन परिभावेत्वा त अक्खधुत्त एतदवोच - एहि खो, सम्म, अक्खेहि
दिव्विस्सामा ति । एव सम्मा ति खो सो अक्खधुत्तो तस्स अक्खधुत्तस्स
पच्चस्सोसि । दुतिय पि खो ते अक्खधुत्ता अक्खेहि दिव्विसु । दुतिय पि खो
सो अक्खधुत्तो आगतागत कलि गिलति । अद्दसा खो दुतियो अक्खधुत्तो त
अक्खधुत्त दुतिय पि आगतागत कलि गिलन्त । दिस्वा त अक्खधुत्त एतदवोच-
लित्त परमेन तेजसा, गिलमक्ख पुरिसो न वुञ्जति ।

गिल’ रे गिल पापधुत्तक’, पच्छा’ ते कटुक भविस्सती’ ति ॥

“एवमेव खो त्व, राजञ्ज, अक्खधुत्तकूपमो’ मञ्जे पटिभासि ।
पटिनिस्सज्जेत, राजञ्ज, पापक दिट्ठिगत, पटिनिस्सज्जेत, राजञ्ज, पापक
दिट्ठिगत । मा ते अहोसि दीघरत्त अहिताय दुक्खाया” ति ।

३० “किञ्चा पि भव कस्सपो एवमाह, अथ खो नेवाह सक्कोमि
इद पापक दिट्ठिगत पटिनिस्सज्जितु । राजा पि म पसेनदि कोसलो जानाति
तिरोराजानो पि - ‘पायासि राजञ्जो एववादी एवदिट्ठी - इति पि नत्थि
परो लोको पे० विपाको’ ति । सत्ताह, भो कस्सप, इद पापक दिट्ठिगत
पटिनिस्सज्जिस्सामि, भविस्सन्ति मे वत्तारो - ‘याव वालो पायासि राजञ्जो
अव्यत्तो दुग्गहितगाही’ ति । कोपेन पि न हरिस्सामि मक्खेन पि न
हरिस्सामि पलासेन पि न हरिस्सामी” ति ।

तदणभारिक्खपमा

३१ “तेन हि, राजञ्ज, उपम ते करिस्सामि । उपमाय मिधेकच्चे
विञ्जू पुरिसा भासितस्स अत्थ आजानन्ति -

‘भूतपुब्ब, राजञ्ज, अञ्जतरो जनपदो वुट्ठासि । अथ खो सहायको
सहायक आमन्तेसि - आयाम, सम्म, येन सो जनपदो तेनुपसङ्गमिस्साम -
अप्पेव नामेत्थ किञ्चि धन अधिगच्छेय्यामा ति । एव सम्मा ति खो
सहायको सहायकस्स पच्चस्सोसि । ते येन सो जनपदो येन अञ्जतर

१ रो० पोटपके नत्थि । २ पज्जोहिस्सामी - सी०, पजोहरिस्सामि - स्या० । ३-३ गिल
रे पापधुत्ता - स्या० । ४ कपणा - स्या० । ५ अक्खधुत्तकूपमो - रो० अक्खधुत्तकूपमो - सी०,
अक्खधुत्तकूपमो - स्या० ।

C. 350

गामपट्टं तेनुपसङ्कमिसु । तत्त्य अद्दसंसु पहूतं साणं छड्ढितं । दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि - इदं खो, सम्म, पहूतं साणं छड्ढितं ।

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं वन्ध, अहं च साणभारं वन्धिस्सामि । उभो साणभारं आदाय गमिस्सामा ति ।

5 एवं सम्मा ति खो सहायको सहायकस्स पटिस्सुत्वा साणभारं वन्धित्वा ते उभो साणभारं आदाय येन अञ्जातरं गामपट्टं तेनुपसङ्कमिसु । तत्त्य अद्दसंसु पहूतं साणमुत्तं छड्ढितं । दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि - यस्स खो, सम्म, अत्याय इच्छेय्याम साणं, इदं पहूतं साणमुत्तं छड्ढितं ।

तेन हि, सम्म, त्वं साणभारं छट्ठेहि, अहं च साणभारं छट्ठेस्सामि ।
10 उभो साणमुत्तभारं आदाय गमिस्सामा ति ।

अयं खो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च । अतं मे, त्वं पजानाही ति ।

अथ खो सो सहायको साणभारं छट्ठेत्वा साणमुत्तभारं आदिमि । ते येन अञ्जातरं गामपट्टं तेनुपसङ्कमिसु । तत्त्य अद्दसंसु पहूता साणियो
15 छड्ढिता । दिस्वा सहायको सहायकं आमन्तेसि - यस्स खो, सम्म, अत्पाय इच्छेय्याम साणं वा साणमुत्तं वा, इमा पहूता साणियो छड्ढिता ।

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं छट्ठेहि, अहं च साणमुत्तभारं छट्ठेस्सामि । उभो साणभारं आदाय गमिस्सामा ति ।

अयं गो मे, सम्म, साणभारो दूराभतो च सुसन्नद्धो च । अतं मे,
20 त्वं पजानाही ति ।

D. 278

कप्पास वा कप्पासिकसुत्त वा कप्पासिकदुस्स वा अथ वा लोह वा तिपु
वा सीस वा सज्जु वा, इदं प्हूत सुवण्णं छड्ढित्तं ।

तेन हि, सम्म, त्वं च साणभारं छड्ढेहि, अहं च सज्जुभारं
छड्ढेस्सामि । उभो सुवण्णभारं आदाय गमिस्सामांति ।

अथ खो मे, सम्म, साणभारो द्वाराभतो च सुसन्नद्धो च । अलं 5
मे, त्वं पजानाहीति ।

अथ खो सो सहायको सज्जुभारं छड्ढेत्वा सुवण्णभारं आदियि ।
ते येनं सको गामो तेनुपसङ्कमिमु । तत्थं यो सो सहायको साणभारं
आदाय अगमासि तस्स नेव माता पितरो अभिनन्दिसु, न पुत्तदारा
अभिनन्दिसु, न मित्तामच्चा अभिनन्दिसु, न च ततोनिदानं सुखं सोमनस्स 10
अधिगच्छि । यो एनं सो सहायको सुवण्णभारं आदाय अगमासि तस्स
माता पि पितरो पि अभिनन्दिसु, पुत्तदारा पि अभिनन्दिसु, मित्तामच्चा
पि अभिनन्दिसु, ततोनिदानं च सुखं सोमनस्स अधिगच्छि ।

“एवमेव खो त्वं, राजञ्ज, साणभारिकूपमो मञ्जे पटिभासि ।
पटिनिस्सज्जेत, राजञ्ज, पापकं दिट्ठिगतं, पटिनिस्सज्जेत, राजञ्ज, 15
पापकं दिट्ठिगतं । मा ते अहोसि दीघरत्तं अहितायं दुक्खाया”ति ।

३३ पायासि उपासकत पटिवेदेति

३२ “पुरिमेनेव अहं ओपम्मेन भोतो कस्सपस्स अत्तमनो
अभिरद्धो । अपि चाहं, इमानि विचित्रानि पञ्हापटिभानानि सोतुकामो
एवाहं भवन्तं कस्सपं पच्चनीकं कातब्बं अमञ्जिस्सं । अभिक्कन्तं,
भो कस्सप, अभिक्कन्तं, भो कस्सप । सेय्यथापि, भो कस्सप, निक्कुज्जितं 20
वा उक्कुज्जेय्यं, पटिच्छन्नं वा विवरेय्यं, मूब्हस्सं वा मग्गं आचिक्खेय्यं,
अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्यं, चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्ती”ति,
एवमेव भोता कस्सपेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं, भो
कस्सप, तं भवन्तं गोतमं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङ्घं च ।
उपासकं मं भव कस्सपो धारेतु अज्जतग्गं पाणुपेतं सरणं गतं । इच्छामि 25
आहं, भो कस्सप, महायञ्जं यजितुं । अनुसासतुं मं भव कस्सपो, यं
ममस्सं दीघरत्तं हितायं सुखाया”ति ।

१-१ पच्चनीकं कातब्बं - स्या०, पच्चनीकातब्बं - रो० । २ धममञ्जिस्सन्ति - छी० ।

३ तेलपज्जोतं - स्या० । ४ दक्खिन्ती - रो० । ५ एवमेव - छी०, स्या०, रो० । ६ मम अस्सं -
रो०, मम अस्सं - स्या० ।

§४. महप्फलो महानिसंसो यञ्जो

३३. “यथारूपे खो, राजञ्ज, यञ्जे गावो वा हञ्जन्ति अजेळका वा हञ्जन्ति कुक्कुटसूकरा वा हञ्जन्ति विविधा वा पाणा सञ्जातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिद्वी मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, एवरूपो, राजञ्ज, यञ्जो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो । सेय्यथापि, राजञ्ज, कस्सको वीजनङ्गलं आदाय वनं पविसेय्य । सो तत्थ दुक्खेत्ते दुग्भूमे^१ अविहतखाणुकण्टके^२ वीजानि पतिट्ठापेय्य खण्डानि पूतीनि वातात्तपहतानि असारदानि असुखसयितानि । देवो च न कालेन कालं सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य । अपि नु तानि वीजानि बुद्धिं^३ विरुब्धिं वेपुल्लं आपज्जेय्युं, कस्सको वा विपुलं^४ फलं^५ अधिगच्छेय्या” ति ? “नो^६ हिदं^७ भो कस्सप” ।

- “एवमेव खो, राजञ्ज, यथारूपे यञ्जे गावो वा हञ्जन्ति अजेळका वा हञ्जन्ति कुक्कुटसूकरा वा हञ्जन्ति विविधा वा पाणा सञ्जातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति मिच्छादिद्वी मिच्छासङ्कप्पा मिच्छावाचा मिच्छाकम्मन्ता मिच्छाआजीवा मिच्छावायामा मिच्छासती मिच्छासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ज, यञ्जो न महप्फलो होति न महानिसंसो न महाजुतिको न महाविप्फारो । यथारूपे च खो, राजञ्ज, यञ्जे नेव गावो हञ्जन्ति न अजेळका हञ्जन्ति न कुक्कुटसूकरा हञ्जन्ति, न विविधा वा पाणा सञ्जातं आपज्जन्ति, पटिग्गाहका च होन्ति सम्मादिद्वी सम्मावाचा सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो खो, राजञ्ज, यञ्जो महप्फलो होति महानिसंसो महाजुतिको महाविप्फारो । सेय्यथापि, राजञ्ज, कस्सको वीजनङ्गलं आदाय वनं पविसेय्य । सो तत्थ सुखेत्ते^१ सुभूमे सुविहतखाणुकण्टके वीजानि पतिट्ठापेय्य^२ अखण्डानि अपूतीनि अवातात्तपहतानि सारदानि सुखसयितानि । देवो च कालेन कालं सम्माधारं अनुप्पवेच्छेय्य । अपि नु तानि वीजानि बुद्धिं^३ विरुब्धिं वेपुल्लं आपज्जेय्युं, कस्सको वा विपुलं^४ फलं^५ अधिगच्छेय्या” ति ?

“एवं, भो कस्सप” ।

“एवमेव खो, राजञ्ज, यथारूपे यञ्जे नेव गावो हञ्जन्ति न

१. दुग्भूमे - स्या० । २. अविहतखाणुके - रो० । ३. बुद्धि - स्या० । ४-५. विपुलफलं - रो० । ६-७. नो एवं - ही०; न येव - स्या० । ८. सुखेत्ते - स्या० । ९. पतिट्ठापेय्य - म० ।

अजेळका हञ्जन्ति न कुक्कुटसूकरा हञ्जन्ति न विविधा वा पाणा राक्ष्णात्
 आपञ्जन्ति, पटिग्गाहवा च होन्ति सम्मादिद्वी सम्मासङ्कप्पा सम्मावाचा
 सम्माकम्मन्ता सम्माआजीवा सम्मावायामा सम्मासती सम्मासमाधी, एवरूपो
 खो, राजञ्ज, यञ्जो महप्फलो होति महानिससो महाजुतिको
 महाविप्फारो” ति ।

§ ५ सर्वकचवासर्वकचदानफलानि

३४ अथ खो पायासि राजञ्जो दान पट्टपेसि समणब्राह्मण-
 कपण्डिववणिब्बकयाचकान । तस्मिं खो पन दाने एवरूप भोजन दीयति'
 - कणाजक' विलङ्गदुतिय, धोरकानि' च वत्थानि गुळवालकानि" । तस्मि
 खो पन दाने उत्तरो नाम माणवो वावटो' अहोसि । सो दान दत्वा एव
 अनुद्दिसति - “इमिनाह दानेन पायासि राजञ्जमेव इमस्मि लोके समागच्छि,
 मा परस्मि” ति । अस्सोसि खो पायासि राजञ्जो - “उत्तरो किर माणवो
 दान दत्वा एव अनुद्दिसति - इमिनाह दानेन पायासि राजञ्जमेव इमस्मि
 लोके समागच्छि, मा परस्मि” ति । अथ खो पायासि राजञ्जो उत्तर
 माणव आमन्तापेत्वा एतदवोच - “सच्च किर त्व, तात उत्तर, दान
 दत्वा एव अनुद्दिससि - ‘इमिनाह' दानेन पायासि राजञ्जमेव इमस्मि
 लोके समागच्छि, मा परस्मि” ति ?

“एव, भो” ।

“किस्स' पन त्व, तात उत्तर, दान दत्वा एव अनुद्दिससि -
 ‘इमिनाह दानेन पायासि राजञ्जमेव इमस्मि लोके समागच्छि, मा परस्मि'
 ति ? ननु मय, तात उत्तर, पुञ्जत्थिका दानस्सेव फल पाटिकद्धिनो” ति ?

“नरोत्तो इतो ज्ञाने एरएस्स भोणन जीपानि - ज्ञानाणप्फा धित्तङ्गदुतिय,
 य' भव पादा पि न इच्छेय्य सम्फुसितु', कुतोमुञ्जितु, धोरकानि च
 वत्थानि गुळवालकानि, यानि भव पादा पि न इच्छेय्य सम्फुसितु, कुतो
 परिदहितु । भव खो पनम्हाक पियो मनापो । कथ मय मनाप अमनापेन
 सयोजेमा” ति ?

“तेन हि त्व, तात उत्तर, यादिसाह भोजन मुञ्जामि तादिस

१ दिव्यति - खी०, रो० । २ कणाजिक - स्पा० । ३ धोरकानि - स्पा०, धोरकानि -
 खी० । ४ गुळगाळकानि - खी० । ५ व्यावटो - रो०, व्यावटो - खी० । ६ इमिना -
 स्पा०, रो० । ७ कस्मा - स्पा० । ८ स्पा०, खी० पोत्पकेमु नत्थि । ९ फुसितु - खी०,
 धुपितु - रो० ।

भोजनं पट्टपेहि, यादिसानि चाहं वत्थानि परिदहामि तादिसानि च वत्थानि पट्टपेही” ति ।

“एवं, भो” ति खो उत्तरो माणवो पायासिस्स राजञ्जस्स पठिस्सुत्वा यादिसं भोजनं पायासि राजञ्जो भुञ्जति तादिसं भोजनं पट्टपेसि, यादिसानि च वत्थानि पायासि राजञ्जो परिदहति तादिसानि च वत्थानि पट्टपेसि ।

R. 356 ३५. अथ खो पायासि राजञ्जो असक्कच्चं दानं दत्त्वा, असहत्था दानं दत्त्वा, अचित्तीकतं^१ दानं दत्त्वा, अनपविद्धं^२ दानं दत्त्वा कायस्स भेदा परं मरणा चातुमहारजिकानं^३ देवानं सहव्यतं^४ उपपज्जि^५ सुञ्जं सेरीसकं^६ विमानं । यो पन^७ तस्स^८ दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्चं दानं दत्त्वा, सहत्था दानं दत्त्वा, चित्तीकतं दानं दत्त्वा, अनपविद्धं दानं दत्त्वा, कायस्स भेदा परं मरणा सुगतिं सगं लोकं उपपज्जि देवानं तावत्तिसानं सहव्यतं ।

B. 282 ३६. तेन खो पन समयेन आयस्मा गवम्पति अभिक्खणं सुञ्जं सेरीसकं विमानं दिवाविहारं गच्छति । अथ खो पायासि देवपुत्तो येनायस्मा गवम्पति तेनुपसङ्गमि; उपसङ्गमित्त्वा आयस्मन्तं गवम्पति अभिवादेत्त्वा एकमन्तं अट्ठासि । एकमन्तं ठितं खो पायासि देवपुत्तं आयस्मा गवम्पति एतदवोच - “कोसि त्वं, आवुसो” ति ?

“अहं, भन्ते, पायासि राजञ्जो” ति ।

20 “तनु त्वं, आवुसो, एवंदिट्ठिको अहोसि - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको” ति ?

“सच्चाहं”, भन्ते, एवंदिट्ठिको अहोसि - इति पि नत्थि परो लोको, नत्थि सत्ता ओपपातिका, नत्थि सुकतदुक्कटानं कम्मानं फलं विपाको ति ।
R. 357 अपि चाहं अय्येन कुमारकस्सपेन एतस्मा पापका दिट्ठिगता विवेचितो” ति ।

25 “यो पन ते, आवुसो, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो कुहि उपपन्नो” ति ?

“यो मे, भन्ते, दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्चं दानं दत्त्वा, सहत्था दानं दत्त्वा, चित्तीकतं दानं दत्त्वा, अनपविद्धं दानं

१. अचित्तीकत - सी०, स्वा०, रो० । २. अनपविद्धं - स्वा० । ३. चातुमहारजिकानं - स्वा०, रो० । ४. सहव्यतं - रो० । ५. उपपज्जि - रो० । ६. सेरिस्ताकं - सी० । ७-७. पनेतस्स - स्वा० । ८. स्वाहं - रो०; सचाहं - सी० ।

दत्त्वा, कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्न लोक उपपन्नो देवान तावत्तिसान सहव्यत । अह पन, भन्ते, असक्कच्च दान दत्त्वा, असहत्था दान दत्त्वा, अचित्तीकत दान दत्त्वा, अपविद्ध दान दत्त्वा, कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उपपन्नो सुञ्ज सेरीसक विमान । तेन हि, भन्ते गवम्पति, मनुस्सलोक गन्त्वा एवमारोचेहि — 'सक्कच्च दान देथ, 5 सहत्था दान देथ, चित्तीकत दान देथ, अनपविद्ध दान देथ । पायासि राजञ्जो असक्कच्च दान दत्त्वा, असहत्था दान दत्त्वा, अचित्तीकत दान दत्त्वा, अपविद्ध दान दत्त्वा, कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उपपन्नो सुञ्ज सेरीसक विमान । यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्च दान दत्त्वा, सहत्था दान दत्त्वा, चित्तीकत दान 10 दत्त्वा, अनपविद्ध दान दत्त्वा, कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्न लोक उपपन्नो देवान तावत्तिसान सहव्यत" ति ।

अथ खो आयस्मा गवम्पति मनुस्सलोक आगन्त्वा एवमारोचेसि — 'सक्कच्च दान देथ, सहत्था दान देथ, चित्तीकत दान देथ, अनपविद्ध दान देथ । पायासि राजञ्जो असक्कच्च दान दत्त्वा, असहत्था दान दत्त्वा, 15 अचित्तीकत दान दत्त्वा, अपविद्ध दान दत्त्वा, कायस्स भेदा पर मरणा चातुमहाराजिकान देवान सहव्यत उपपन्नो सुञ्ज सेरीसक विमान । यो पन तस्स दाने वावटो अहोसि उत्तरो नाम माणवो सो सक्कच्च दान दत्त्वा, सहत्था दान दत्त्वा, चित्तीकत दान दत्त्वा, अनपविद्ध दान दत्त्वा, कायस्स भेदा पर मरणा सुगतिं सग्न लोक उपपन्नो देवान तावत्तिसान सहव्यत" ति । 20

पायासिनुत्त निद्धित दसम ।

महावग्गो दुत्तियो ।

तस्सुहानं

महापदान^१ निदान^२, निव्वानञ्च गुदस्सन ।

जनवसभ^३ च^४ गोविन्द, समय सक्कपञ्चक^५ ।

महासतिपट्टानञ्च^६, पायासि दसम भवे^७ ।

महावग्गो निद्धितो ।

— ० —

१ अनपविद्ध - स्वा० । २-२ अपगत निदान च - स्वा०, रा०, महापदान निदान - म० ।

३-३ जनवसभ - म० स्वा० रा० । ४ सक्कमेव च - रा० । ५-५ अत्रिपट्टानपानाधि महा-

दीप० - २

।

वित्तसपदानं

अनुबकमणिका

[पदानं अल्पयोगद्वानानि बन्धनीसु विद्धानि]

अ		अ	
अकनिट्टा (देवा)	४१	अतदोपा विहरप	८०
अकालपुष्फेहि (सब्बफालिफुल्ला होन्ति,		अतदुत्ति (कुत्तिनारं पावति, आनन्दो)	११५
यमकसाला)	१०६, १०७	अतवाहुपानं	५६
अकालिको (धम्मो)	१७१	अत्तसरणा	८०
अकुसला धम्मा	२०६, २१०, २११	अत्ता	५१, ५५
अक्खधूसकूपमो	२५६	अत्तानं	५१, ५२, ५३
अक्खधुत्ता	२५६	अत्यकरणे	१७
अग्गसानकमुग	३२	अवष्ठावचरो	२१५
अग्गिको जटिलो	२५३	अवष्टेन (इमं पयवि अभिविजिय)	१५
अग्गिदत्तो (ककुसम्बस्व भगवतो पिता)	८	अवस्सन् (मातुगामे पटिपग्गित्थं)	१०६
अङ्गमगधा	१५२	अदुक्खमसुखं	२३५
अङ्गेषु	१७५	अनच्छरिया (गाथायो पटिमंसु)	३०, ३१
अञ्चुता (देवा)	१६५	अनञ्जासरणा	८०
अञ्जुरियधम्मा (आनन्दे)	१११	अनत्तं	५२
अच्छेदिका (ककुथा नदी)	१००	अनागामिता	२३५
अजपालनिबोधे (मारस्स पातुभावो)	८८, २००	अनाथपिण्डकस्त (प्रारामे करेत्थुटिकायं)	३
अजातसत्तु (सरीरघातुं पावि)	१२६, १२८	अनाथो (दुक्खनिरोध भरियत्तच्च)	१०६, २३१
अजितो केसकम्बलो	११६	अनावत्तिधम्मो (अनागामी)	१५७
अजेळका	२६३	अनासवो	१११
अज्जत्तधहिदा	२१८, २२३, २२५	अनिस्सितो	२२२
अज्जत्तं	२१८, २२३, २२५	अनुत्तरं	२२२
अज्जोसान (पटिक्क परिगहो)	५७, ५८	अनुपम्मचारिणा	१०७
अज्जात्तित्थियपुब्बो (चत्तारो मामे परिवसति)	११७	अनुपुम्बि कयं	३५, ३६
अज्जा (दिट्ठेय धम्मे)	२३५	अनुयन्ता	१३२
अज्जयममगानो (सरो होन्ति, ब्रह्मणो)	१५६, १७०	अनुहुटो	१२०, १२१
अट्ठिक्को (मग्गो)	६५, ११६, ११७, २३२	अनुहुटं	१२०, १२५
अट्ठया (विमज्जासि, भावतो सरीरानि)	१२८	अनेरूपातु (लोको)	२११
अट्ठानं (य दे बुद्धा उप्पज्जेम्)	१६८	अनोमं (वेस्समस्स राजपाली)	८
अट्ठिव सत्तुत्तिकं	२२०	अन्तरावघा	३, ६
अट्ठिवाग्नि धानगत सम्बन्धानि	२२०	अन्तरेन (यमन तात्तानं, निम्बानमज्जं)	१०६
अनन्नावचरो (धम्मो)	३०	अन्तलिक्कणा	१०७
अज्जा (देवा)	५१	अपगतपंथलोत्थि	२२०
अतोत्तमपुत्र (पायघनं)	११८	अपरत्तिवत्तं	१८६
		अपायं	२१६

अप्यदिसवेदो (मे अत्ता)	५३, ५४	अविच्छदन्तो (महापुरिसमवयग)	१६
अप्यमादेन (सम्पादेय)	६४	अविहिंसा	२४
अप्परज्जकजगितिका (तन्ति सत्ता)	३७	अविहिंसासङ्कुप्पी	२३३
अप्परजनसे	३१	अविहेमु (देरेमु)	४०
अणोस्सुककत्ताय (वित्त नमि)	३०	अवेच्चपसादेन (समप्रागतो होति, वृत्ते)	७१
अभ्युत्ता धम्मा (रञ्जे चक्कजतिम्हि)	११२, ११३	असञ्जसत्तायतन	५१
अभ्यापादसङ्कुप्पी	२३३	असत्पावचरो	२१४
अभ्यावटा (होय, तयागतस्स सरीरपूजाय)	१०६	असरयेन (पयवि अभिविजिय)	१४
अभिञ्छादोमनस्सनिं	२३४	असमाहिण	२२२
अभिञ्छादोमनस्स	२१७	असुञ्जो (लोको अस्स, अरहन्तेहि)	११७
अभिञ्छाद	२१४	असुरकाया	१५७
अभिनीलनेत्तो (महापुरिसलववण)	१६	असुरा	२०६
अभिभायत्तनानि	८६	अनोको (विपत्तिस्स उपट्टाको)	७, ११
अभिभसम्भवं (सिञ्चिस्स भगवतो सावकपुण)	५	अस्सकमिञ्च	१७५
अभिधमयो (अट्ट, पञ्जाय)	२७	अस्सत्थस्स मूले	४१
अनहुम्मत्त	२२२	अस्सरतन	१४, १६, १३३, १३४
अन्वयामो	६६		
अन्वपालिवने	७६, ७७, ७९	अ	
अन्वपाली (गणिका)	७६, ७८	आकासानञ्चायतन	५६, ८८, ११६, १२०
अश्वलट्टिका	६५	आकासे (पथवीसञ्चिज्जानो देवा)	१२१
अश्ववने (चुरदस्स कम्मारुत्तसा)	६८	आकिञ्चञ्जायतनूपाया (देवा)	५५
अश्वराणा (ब्राह्मणगामो, राजगहे)	११७, ११८	आकिञ्चञ्जायतन	११६, १२०
अरञ्जागतो	२१७	आचरियमुट्ठि (नरिय, तयागतस्स)	८०
अरगिसहित	२५३	आजीवको	१२४
अरहन्तेहि (असुञ्जो लोको अस्स)	११७	आतापी	२१७, २३४
अरह (होति, सम्मासम्बुदस्स)	१५, १६	आनुमाय (भुसागारे)	१०२
अरिट्टका (देवा)	१६४	आदिकल्पाय (पम्म)	३७
अरिसराच्चेमु (धम्मामुपस्सी विहरति)	२२७	आदीनवा दुस्सीलस्स	६८
अरियो	११६, ११७, १८७, २३३	आधिपतेय्यसवत्तनिक (कम्म उपचित, चुन्नेन)	१०६
अरुणवती (सिञ्चिस्स भगवतो राजपानी)	७	आनन्द	४५, ५१, ७४
अरुणा (देवा)	१६५	आनन्दे	६६, ६८, १११, ११२, ११३
अरुणी (सिञ्चिस्स भगवतो पिता)	७	आनन्दो	७, ४१, ४३, ४४, ६८, ८१, ८२, ६६, १०४
अरुणभवी	४६		१०६, १०७, १११, ११२, ११३, ११४, ११५
अरुणी (मे अत्ता)	५१		११६, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १३०
अल्लकम्पका (बुलपी)	१२७, १२८		१५३, १५४
अवन्तीन	१७५	आनन्द	७६, १०३, १२३
अविचार	२०६, २३४	आनिउसा (मोलसम्पाय)	६६
अवितर्क	२०६, २३४	आणो (देवी)	१६३
अविनिपातधम्मो (सोतापणो)	११६, १८७	आरोयातु	२१६

एकेकवीमो (महापुरिसलवण)	१५	वम्मारपुत्तरस (वुन्दरस, भग्गवणे)	६८ १०६
एजा (रोगो, मण्डो, सल्ल)	२१२	वम्माराधम्म (कुल्लु निगमो)	४४, २१७
एणिजङ्घो (महापुरिसलवण)	१५	वरम्मा (देवा)	१६५
एरावणो	१६३	वरुणा (देवा)	१६३
एहिपरिसको (धम्मो)	१७१	वरुणासङ्गतेन (चेतसा)	१५२, १८६
		वरुण धारा	१७६, १७७
		वरुरिबुटिभाव	३
		वरुरिमण्डलमाळो	३
		वरुरिमण्डलमाळो	६
		वलन्दकनियामे	६१
		वलन्दवनिवारो	६२
		वल्लिङ्गान	१७५
		वलि (धामतामत्त विलति)	२५६
		वत्सप	२३६, २४०, २४२, २४५, २४६, २४७
		वत्सपस्ता (भगवतो)	६, ७, ८
		वत्सरो	४, ५, ४२, २४३, २४६, २४७, २४४
			२४७, २४८, २४९, २६१
		कामच्छन्द	२२३
		कामतण्हा	२३०
		कामभवी	४६
		कामवित्तको	१४२
		कामसेट्ठो	१६२
		कामुपादान	४६
		कामसङ्कारा	१६१
		कामसङ्कार	२१७, २१८
		कामसमाचार	२०६
		कामसम्पत्तो	१३५
		कामानुपस्ताना	२१७
		कामानुपस्ती	७६, १६२, २१७ २१८, २१६, २२१, २३४
		कालकञ्चा (देवा)	१६३
		कानामो (भाट्टरो)	१०१
		कानिकोसनेमु	१४६, १५१, १५२
		कानीक	१७५
		काट्टसिना (राजगहे, इतिगणिवरसे)	६२
		काट्टसिनाव	६१
		काट्टवीरो (धम्मरत्तन)	१३३
		काट्टिवी (उपामको)	७४
		किक्की	८
ककुसाण्यस (भगवतो)	६, ७, ८		
ककुसान्धो (भगवा)	४, ५, ४२		
कञ्चनसत्तिभत्तचो (महापुरिसलवण)	१५		
कटिस्सद्धो (उपासको)	७४		
कट्टका	१६५		
कण्हसुनकानि	२४५		
कण्हसुनकानि रूपानि	२४४		
कण्हसुनकान रूपान	२४५		
कण्ठी	१६६		
कन्तारे	२५६		
कपिलवत्थु	८, ४१, ४३, १६०, १६२		
कपिलवत्थुवागी	१२७, १२८		
कपिलवत्थुसिम्	१८६, २०२		
कपिलोत्त (भालम्बित्वा रोदमाना अट्टासि, धायत्सा धानन्दो)	१११		
कप्पावसेस	८१, ६१		
कप्पातिकुत्त	२६०		
कप्पाधिकमुत्त	२६०, २६१		
कप्पात्त	२६०, २६१		
कप्प	८१, ६०, ६१		
कम्बलस्सत्ता	१६३		
कम्मान	२३६		
कम्मान फल	२३६, २३८, २४३, २४४, २४६, २४६, २४९, २५२, २५४, २६४		

जन्मुगामो	६६	तयागतस्त पम्मता	८
जम्बुदीपे	३६	तयागता	२०१
जरा	१८, २२, २२७, २२८	तयागते अभिष्यत्सना	११३
जरापम्मा	२२६	तयागतौ	६, १०७, ११०
जरामरणनिरोगो (जातिनिरोगा)	२७	तयागत	१०८
जरामरण	२५, २७, २६, ४४, ४५	तयापादौ	१६७, १७१
जाति	२२, २६, २७, ४५, २२७, २२८	तत्त्वपरिनिम्बायिना	१८७
जातिपम्मा	२२६	तन्ताकुलनजाता (धर्म पत्रा)	४४
जातिनिरोगा (जरामरणनिरोगो)	२७, २६, ४५	तनीदारामे	६१
जातिनिरोगो (भवनिरोगा)	२७, २६	तालवा	१३६
जातिपचचया	२५, २७, ४४, ४५	तावतिसवाम	२०२
जालहृत्यपादो (महापुरिसलवल्लण)	१५	तावतिसदेवउपमा	२४४
जिह्व	२२५	तावतिसपरिशा	८६
जीवनम्बवने	६१	तावतिससत्तिस	७७
जीवनम्बवण	६२	तावतिसा	७७, १५६, १५७, १६०, १६२, १६५, १६६, १६८, १६९, २४५
जीवित्तिन्द्रियसमुपच्छेदो	२२८	तावतिसान	१५८, १५९, १६५, १६८, १७०, १८७, २००, २०१
जेनवने	३	तावतिसो	१६७
जोतिपातो	१७२, १७३	ताऽऽमचर	१२२
ब		तिविसान्द्रिये	३१
आति	२२६	तिष्णविविचिच्छो	१६७, १७१
आणपटिवेषा	२५	तिम्ब	१६३
आणमत्ताप	२१८, २२१, २२४, २२५	तिसान	२१६
आण	२७	तिरसनाऽऽज	६
त		तिसा	३२, ३५, १६५
तन्मुत्तानं	२१६	तिसत	३१
तन्मुत्तानो	२६, ३०	गुप्तीभावेन (अधिवासेति)	८८
तण्टा	२६, २७, ४४, ४५, ४६	गुम्बपूो (गम्भो)	१२८
तण्डानिरोषा (उगानानिरोषो)	२८, २६, ४६	गुम्ब	१२८
तण्डानिरोषा (वेदानिरोषा)	२६	गुम्बपामा	८५
तण्डानिरोषा	२७, ४४, ४५, ६६	गुम्बिता	११, १६५
तण्डानिरोषा	२३०	गुम्बितान (देवान)	१२६, १८६
तण्डानिरोषा	२१२	तेजो	१६३
तण्डानिरोषा	१७, ४६	तेजोपागु	२१६
तण्डानिरोषा	११६, १२०, १४०, २१४	ध	
तण्डानिरोषा (तण्डा)	२३०	निर्गम्य	८३
तण्डानिरोषा	१६७, १७१	दुग्गा	११०, १११
तण्डानिरोषा	८१, १०६, १०७, १०८, ११०, ११४	दुग्	११०, १२५

वन्तपुरं	१७५	देवानं असुची	२४२
वस्वनीयानि (ठानानि)	१०६	देवानं सहव्यत	२६४
वानकम्	३३	देवासुरसङ्ग्रामो	२१३
वायपाल	३३	दोगो (ब्राह्मणो)	१२८
विद्वधम्मा	३४, ३५, ३६	दोमनस्स	२०८, २२८
विद्विगत	२३६	दत्तिसमहापुरिसलक्खणेहि (समभ्रातरो)	१५
विद्वुपादान	४६	द्राकारे	३१
दिव्वचञ्जु	१७, १३४	द्वे भ्रात्यवाननि	५५
दिव्वपरिस्सा	१६५	द्वे कस्सका भातरो हता	१०२
दिग्धानि	१०७		
दिग्घेन चक्खुना	२४५	घ	
दितम्पति (राजा अहोसि)	१७२, १७३, १७४, १७५	घञ्जास्स	२१६
दीघद्दगुली (महापुरिसलक्खण)	१५	घतरुद्धा	१७६, १६३
दुक्कट	६१	घतरुद्धो	१५६, १६५, १६१, १६२
दुक्खलक्खन्धस्स	२७, २६, ४५	घनवत्तो	८
दुक्खानिरो उगामिनी (पटिपदा)	२२७, २३४	घनुपाकार	१२६
दुक्खानिरोघो	२२७	घम्मचक्कप्पवतन	४०, ४१, ४३
दुक्खानिरोध अरियसच्च	२३१, २३३	घम्मचक्क	८५
दुक्खसमुदय अरियसच्च	२३०	घम्मचक्खुं	३३, ३५, २१६
दुनलसमुदयो	२२७	घम्मचरिया	२४
दुक्ख	३३, २२१, २२७, २२८	घम्मता (बोधिसत्तान)	११, १२, १३, १४
दुक्ख अरियसच्च	२२७	घम्मवेसना	३५
दुग्गाति	२३६	घम्मघातु	८, ९, १०, ४३
दुत्तिय ज्ञान	११६, १२०, १४२, २३४	घम्मन्वयो	६७
दुत्तिय महापवेस	६७	घम्मपरियाय	७७५
दुद्दसो (घम्मो)	३०	घम्मपासावपोलसरणी	१३६
दुद्दस (इद ठान)	२६	घम्मपासावप्पमुत्तानि	१४३
दुरतुत्तोघो (घम्मो)	३०	घम्मराजा	११३
देवकाया	१८६, १६०, १६१	घम्मविचयसम्बोज्जङ्गो	२२६
देवता	१०८, १८६, १६०	घम्मविनयो	२५
देवदुन्दुभिधो (फलिसु)	८४	घम्मसरणा	८०
देवपुत्ता	१२, १३	घम्मा	१४०, २२६
देवपुत्त	१३८	घम्मादाण	७५
देवमूतो (भावति)	१६२	घम्मानुघम्मपटिपत्ता	१०७
देवा	१३, ५५	घम्मानुपवत्तो	७६, १६२, २१७, २२२, २२३, २२४, २२५, २२७
देवानभिन्द	१७०, २१३	घम्मानिसमयो	३५
देवानभिन्दो	१३८, १५६, १६५, १६८, १७२, २०१, २०२, २०६, २१५	घम्मिको	११३
		घम्मे (पासादे)	१४८, २२५
		घम्मो	२६, ३०, ८० १३८, १३६ १६६

धम्मं	१३८, १४०, २११	निव्व्यान	२६, ३०, १६७, १७१
धातुसो	२१६	निमसलोहितमक्खित	२२०
		निम्मानरत्तिवो (देवा)	१६५
न		निम्मानरत्तीन (देवान)	१५६, १८६
नगरसहस्रानि	१४३	निरयपाला	२४०
नदिका	१००	निरामिस वा सुख	२२१
नन्दा (नाम भिक्षुनी)	७३, ७४	निरोधघम्म	३४
नन्दीरागसहस्रता	२३०	निरोधसन्ध	२३१
नमुची	१६३	निरोधाय	२१४
नळीराजा	१६३	निरोध	३३
नागराजा	१५०	नीवरणेसु	२२२, २२४
नागसहस्रानि	१४३	नेवखम्मसङ्कुप्पो	२३३
नामसा	१६३	नेत ठान विज्जति	१६८
नागापलोकित (रूपलोकेसि, भगवा)	६५	नेमित्ते (ब्राह्मणे)	१४, १६
नातिका	७३	नेरञ्जराय	८८, २००
नातिके	७५, ७६	नेवसञ्जानासञ्जायतन	५६ ८८, ११६, १२०
नातिक	१५४	न्हिसम्बन्ध	२२०
नातिके	१५१		
नानत्तकाया (सत्ता)	५५	प	
नानत्तसञ्जानी (सत्ता)	५५	पकुपो कच्चायनो	११६
नालाधातु	२११	पच्चेकसम्बुद्धो	११०
नामरूपनिरोधा	२८, २९	पच्छानिपात्तिनी (इत्थिरत्तन)	१३४
नामरूपनिरोधो	२८, २९	पच्छावाह	२६६
नामरूपपच्यया (फस्सो)	४५, ५०;	पच्छिमक (वेत्तालिया दस्सन)	६५
(विच्छाण)	२७, ५१;	पच्छिमो (सो सविख सावके)	११८
(सञ्जायतन)	२६	पच्छिम (पिण्डपात)	१०५
नामरूप	२६, २७, ४५, ५०	पञ्चासिख	१८७, २००, २१६
नाळन्दा	६६	पञ्चासिखो (गन्धध्वदेवपुत्तो)	१५८, १६५, १८८,
नाळन्दाय	६७		१६३, १६७, १६८
निकटो (उपासको)	७४	पञ्चिन्द्रियानि	६४
निगण्ठो (नातपुत्तो)	११६	पञ्चुपादानकखण्या	२२६
निघोषपरिमण्डलो (महापुरिसलकखण)	१५	पञ्जा	२७, ६५, ७३, ७५
निघोषस्स (मूले अमिसम्बुद्धो, कस्सपो भगवा)	५	पञ्जापरिभाविता (चित्त आसवेहि विमुच्चति)	६६, ७६
निपण्डु (देवो)	१६२		
निपुणो (धम्मो)	३०	पञ्जाय (अमिसमपो धट्टु)	२७
निव्वानगामिनी पटिपदा	१६७	पञ्जाविमुत्ति	१८७
निव्वानधातुया	८५	पञ्हापटिमानानि (विवित्तानि सीतुकामो)	२६१
निव्वानस्स	२१७	पटिच्चसमुपासो (याय गम्भीरो)	४४
निव्वानाय	२१४	पटिपज्जित्तव (त्थागतस्स सरोरे)	१२३

पटिपदा (निबन्धानगामिनी)	१६७, १७१	पातिमोस्तसवराय	२१०
पटिस्सत्तिमत्ताय	२१८, २२१, २२४, २२५	पातिमोस्तुद्धेसाया	३७, ३८, ३९
पठम ज्ञान	११९, १२०, १४२, २३४	पातिमोक्ख	३९
पण्डितवेदनीयो (घम्मो)	३०	पाचागा (देवा)	१९३
पथवी	१९३	पायासि	२३६, २३७, २५८, २६३, २६४
पथवीपातु	२१९	पारगा (देवा)	१९४
प्रायश्चीसञ्चानियो	१०८, १२१	पालिच्च	२२८
पनादो	१९२	पावचन (भतीतसंयुक्त)	११८
पपञ्चसञ्जासङ्गानिरोधसारुपगामिनि	२०९	पावा	९८
पव्वज्जा	२५, १८७, १८८	पावाय	१२४
पभावती (माता सिखिस्स भगवतो)	७	पावारिस्सम्भवने	६६, ६७
परनिमित्तवसवत्तीन (देवान)	१५९, १८६	पावेय्यका	१२७ १२८
परप्पवादा	११७	पाव	१००
परिग्गहनिरोधा (मच्छरियनिरोधो)	४८	पिण्डपाता (द्वे समसमफला)	१०५
परिग्गहं (पटिच्च मच्छरिय)	४७	पिण्डपात (पच्छिम)	१०५
परिणायकरत्तनेवे (सत्तम)	१५ १६	पिप्पसिवनिया (मोरिया)	१२८
परिणायकरत्तग	१३५, १४४	पिप्पसिवने (अङ्गारान भूत भक्तसु)	१२८
परित्तं	५२, १००	पियाणियनिदान (इस्सामच्छरिय)	२०७
परिदेवो	२२८	पीतिसम्बोज्जाङ्गो	२२६
परिनिब्वान	८४, १०४, ११४	पीतिसुत्त	२३४
परिब्बाजको	११५	पुक्कुसो (मल्लमुत्तो)	१००, १०३, १०४
परिब्बाजक	११६	पुगलवेमत्तता (विदिता, भगवतो)	११७
परिसायो	२४०, २४४	पुञ्जकिरिया (सायु)	२४
परियुद्धित्तचित्तो	८१	पुण्डरीकस्स (मूलं भूमिसम्बुद्धो, सिखी)	५
परिवेसन	४९, २०९, २१०	पुब्बुद्धायिनी (इत्थिरत्तन)	१३४
परियोसानकल्याण (घम्म)	३७	पुब्बेनिवासपटिसयुत्ता (घम्मो कया उदपादि)	३
परो लोको	२३६, २३८, २३९, २४०, २४३, २४४, २४९, २५१, २५२, २६४	पुरिन्दो (देवो)	१९४
पसेनदि कोसलो	२५४, २५७	पूरणो वस्सपो	११६
पस्सद्विसम्बोज्जाङ्गो	२२६	पोक्खरणी	१४०
पहरादो (देवो)	१९३	पोक्खरणीरामणेय्यक	२४८
पहूतजिह्वो (महापुरिसल्लक्षण)	१६		
पाग्लिगामिका (उपासका)	६८		
पाटलिपामि (नगर मणिन्ति)	७०		
पाटलिपामो	६८		
पाटलिमुत्त (अग्गनगर भविस्सति)	७१		
पाटलिया	५, ११, ४०, ४१		
पाणात्तिपाती	२३८		
पातिमोस्तसवररपटिपदा	२०९		
		फ	
		फन (कम्मान)	२३९
		फस्सनिरोधा	२८, २९
		फस्सनिरोधो	२८, २९
		फस्सपच्चया	२६, २७, ४५, ४९
		फस्सो	२६, २७, ४५
		फोद्ध्या	२२९

फोदुब्बे	२२५
फोदुब्बं	२११
व	
वन्धुमतिवा	२५, ३२, ३४, ३७, ३८
वन्धुमती (राजधानी, विपस्तिस्स भगवतो)	७, ११, ३६, ३६, ४०, ४२
वन्धुमति (राजधानि)	३३, ३५
वन्धुमन्त (राजान)	१४
वन्धुमत्स (रज्जो)	१६, २१, २३
वन्धुमा	७, ११, १६, १७, १८, २०, ४०, ४२
वलानि (पञ्च)	६४
वहिहा	२१८, २२३, २२५
वह्जजनमुखाय (देसेय धम्म)	१७०
वह्जजनहिताय (देसेय धम्म)	१७०
वह्जुत्ते (चेतिये)	६२
वह्जुत्त (चेतिय)	८१
वारान्णी	८, ११३, १३०, १७५
विम्बितारो (धम्मिको राजा)	१५२;
(मह भगवा ति)	१५५
विलङ्घुतिप	२६३
वुद्धसरीरपूजा	१२२
मुद्धिजो (निम्बु उपट्टाको, ककुसन्धस)	७
वुद्धे	७५
सुलयो (मल्लकप्पका)	१२७, १२८
सैनुवपण्डुवीण (पण्डितियो भगवन्तं अस्तावेसि)	१६८
सोञ्जङ्गा	६४
सोञ्जङ्गु	२२६
सोधिस्स	५
सोधिस्सतमाता	१२, १३
सोधिस्सतो	११, २५, ८५
स्योधिधम्मा	२२६
स्योपादवित्तवरो	१४२
स्योपाद	२२३
स्योपादिवा (देवा)	५५
स्योदण्डो (दातव्यो, दण्डस्स)	११८
स्योदत्ता	८, १७६
स्योदव्य	२३६
स्योपरिता	८६

ब्रह्मपुरोहितं (देवं)	२०३
ब्रह्मपाचनकथा	२६
ब्रह्मलोकसहस्यताय	१८७
ब्रह्मलोकं	१८६
ब्रह्मस्सरो	१६, १५६
ब्रह्मा	१५७, १५८, १६६, १७०, १७६
ब्रह्मान	१७६, १७७, १७६
ब्रह्मा सहस्यति	१२०
ब्रह्मजुत्तो	१५
ब्रह्मणो	१७२, १८२, १८३, १८४, १८५, २१५
ब्राह्मणगानो (धम्मसण्डा)	१६८
ब्राह्मणपरिया	८६
ब्राह्मणमहापाता	११३, १८६
ब्राह्मणो	४, १२७, १२८, १७४

अ

अण्डपाणे	६६
अण्डपाणो	६५
अण्डु (पञ्चजितं)	२३
अत्ताभिहारेण (अञ्जण एवेण उपसङ्गमितव्यो)	१७७, १७८
अट्ट (नाम उपसङ्गको)	७४
अरतो (द्वात्रं खत्तियान अञ्जतरतो)	१७६
अवतण्हा	२३०
अवनिरोपा	२७, २६, ४६
अवनिरोपो	२७, २६
अवपञ्चवा	२७, ४५, ४६
अवो	२६, २७, ४५, ४६
अभ्योसुत्तर (कोणागमनस्स भगवतो सावकयुग)	६
अभुत्तागारे	१०२
अभुत्ति (वेस्सवणस्स महाराजस्स परिचारिवा)	२०१
अभुत्तानुक्कम्मा (साधु)	२४
अभुत्तिलस्स (अट्ट पञ्चवा)	८४
अभुत्तरामण्येत्तं (सुप्पिने)	२४८
अभोगनारे	६६, ६८

अ

अनसति गोथ सो	११६
अणपमहामत्ता	७१

मगधेसु	१५२, १६७	महागारगा (देवा)	१६८
मगो (अरियो अट्टुङ्गो)	११९, ११७	महाब्रह्मा	३१, ३२, ३७, ५८
मगं (अरियोत्तञ्च)	३३	महाब्रह्मो	३०
मञ्जरिय (परिगह पटिञ्च)	५७	महाब्रह्मे	१७०
मञ्जुसरोनेसु (कालद्धते उक्कपतीसु व्याकरोति)	१५२	महामूमिवातो (अट्टोमि, घोम्मट्टे चावुमहारे)	८५, १२०
मञ्जेकरुमाण (घम्मं)	३७	महारजसस (वेत्तवणत्तम)	२०१
मञ्जकं (उत्तरणीसकं)	१०६	महाराना (देवा)	१६२
मणिरत्तं	१५, १६, १३५	महारानातो	१५६, १५७, १६५, १६८, १६९
मद्दुत्तुत्तारिम	६१, ६२	महावनं	१८६
मनुत्तसगयो (योजनसत्त देवे उब्बापति)	२५२	महावन	६३
मनुत्ता (इत्तामच्छरियसयोजना)	२०६, २५२	महासत्तगत्तो	२५५
मतोपदोसिका (देवा)	१६५	महासमयो	१८६
मन्दयत्ताहका (देवा)	१६५	महासमाना (देवा)	१६५
मन्दारुप्फोहेहि (कुसिनारा मन्वत्ता होति)	१२३	महासुदत्तानवया	११३
मन्दारुप्फु (गहेत्वा प्राजीवको मणपटिपमो होति)	१२५	महासुदत्तमन्त (निवेगनमापन)	१३८, १५३
मन्दारवुप्फानि (दिव्यानि, अन्तलिकमा पवत्ति)	१७७	महासुदत्तमो	११३, १३०, १३५, १३५, १३६, १५५, १५८, १५९
ममच्चयेन (यो घम्मो देसितो सो वो सत्था)	११८	महामेतो (देवो)	१६६
मय पि सत्तिया (सरीरान विमाने)	१२६, १२७	महायका	१५२, १५३, १५५, १६३
मरणघम्मा (अट्टो वत्त न घम्माम)	२२६	मागयो (राजा अजातगतु)	१०८, १५७
मरणघम्मो	२२	मासि (देवगुतो)	१६७
मरण	२२, २२७, २२८	मातवित्त (पुत्तो, मिण्णो)	७००
मल्लपागोक्का	१२५	मातापिता (मगवन्नात्तं युदात्तं)	७
मल्लपुत्तो (पुत्तुगो)	१००, १०१, १०३, १०५	मातुगामे (कथ पटिपग्गिवात्तं)	१०६
मत्ता	१२२, १२५, १२५, १२७, १२८	माया (देवी, भगवतो माता)	८, ४१, ५३
मत्तानि १०५, १०६, १०८, ११५, ११५, १२५, १३०		मारपरिणा	८६
मत्ते (कुलपरिवत्ततो वन्दापेमि)	११५, ११५	मारयाचनकथा	८८
मद्दमात्त	२२२	मारोना	१६६
मद्दुत्ततरा (द्वे पिण्डपाता)	१०५, १०६	मारो	८२, ८८
मद्दानस्सेपेन (वन्दिते, चित्तो पग्गत्ति)	१२६	माहिम्मति	१७५
मद्दाकस्सो (अज्ञानमणपटिपमो होति)	१२५, १२५	मिगदायो	६२
मद्दामोविन्दो १७३, १७५, १७६, १७७, १७८, १८१, १८२, १८५, १८५, १८६		मिच्छाधावीवा	२६२
मद्दामोविन्दोत्तेव (गमञ्जा उददादि)	१७३	मिच्छाकम्मणा	२६२
मद्दानपरानि	११३, १२०	मिच्छादिट्ठी	२६२
मद्दानिंमत्तरा (द्वे पिण्डपाता)	१०५, १०६	मिच्छावावा	२६२
मद्दापदेसा (चत्तारो)	६६	मिच्छाधापामा	८६२
मद्दापदेवि (उत्तरेण प्राया दक्खिनेन सकटमुत्तं)	१७५	मिच्छासङ्कप्पी	२६२
		मिच्छामती	२६२

मिन्धासमाधी	२६२	रूपतण्डा	२३१, २३२
मिथिला	१७५	रूपभवी	५६
मुकुटबन्धनं	१२३, १२५	रूपविचारो	२३१, २३२
मुग्गानं	२१६	रूपवितकको	२३१, २३२
मुञ्जकेसो (भस्सरतनं)	१३३	रूपसञ्चेतना	२३१, २३२
मुञ्जबन्धजभूता (भयं पजा)	४४	रूपसञ्चया	२३२
मुक्ति	२३१	रूपस्य अत्यङ्गमो	२२५
मुदितासहगतेन (चेतसा)	१४२, १८६	रूपस्य समुदयो	२२५
मुदिन्द्रिये	३१	रूपा	२२६
मुद्रुतनुनहृत्पपादो (महापुरिसलबखणं)	१५	रूपी	५६
मेरता	१६३	रूपुपादानवसन्धो	२२६
मेतासहगतेन (चेतसा)	१४२, १८६	रूपं	२१०, २११, २२५
मेघावी (आनन्दो)	११२	रूपि	५१, ५२
मौरिया (पिप्पलिवनिया)	१२८	रेणु	१७२, १७५, १७६, १८१
मंसवक्त्रुना (न परी लोको दृष्टव्यो)	२४५	रोजा (देवा)	१६५

य

यत्रजो (अन्तरहिवो, सद्मनुस्तावेसि)	१५५
यञ्जादतो (कोणागमनस्त पिता)	८
ययाकारो	१६७, १७१
ययायादी	१६७, १७१
यमकसालाग	१०४, १०६, १३०
यससंबत्तनिक (कर्म उपचित, चन्देन)	१०६
यामा (देवा)	१६५
यामुना (देवा)	१६३

र

रमणीया (कजुषा नदी)	१००
रसगमणी (महापुरिसलबखणं)	१६
रसा (अकन्ता भ्रमनाया)	२२६
रसे (जिन्हू घ, पञ्चमाति)	२२५
राजगहस्त (पाचीनतो, अम्बतण्डा)	१६७
राजगहे	६५, ६१, १२८, १६५
राजगहं	११३, १३०
राजज्जो	२३७
राजदामं	२३६
राजो महामुदस्तनो	१४०, १४२
राजा मागधो	१२६, १५३, १५५
रामगामका (कोळिका)	१२७, १२८

ल

लम्बीतका (देवा)	१६५
लामसेट्टा (देवा)	१६५
लिच्छवियपरिम	७८
लिच्छवी	७७, १२६, १२८
लोकधामु	१४
लोकधामुसु	१०८, १६०
लोकधामुहि	१८६
लोकानुकम्पाय	१७०
लोहितपक्खन्दिका	६६
लोह	२६०, २६१

व

वचीसमाचार	२०६, २१०
वज्जिमल्लेसु	१५१, १५२
वण्णसंबत्तनिकं (कर्म उपचित, चन्देन)	१०६
वनरामणैय्यकं (सुपिने)	२४८
वन्दिते (महाकस्तपेन, चितको पञ्जसि)	१२६
वययम्मानुपस्ती	२१८, २२१, २२२, २२३, २२५, २२७
वयणा (देवा)	१६३, १६५
वलाहको (नाम भस्तराजा)	१३३, १५०
वस्तवती (देवा)	८

बायो	१६३	बिरियान्मोज्ञानं	२२६
बायोपाठ	२१६	बिरुपवस्तो	१५६, १६५, १६२
वारणा (देवा)	१६३	बिरुब्हुको	१५६, १६५
वाग्व्यकीर्तिमुद्रनमतो (नरिय सौ पदेतो)	१०८	बिरुब्हु	१६२
वाचवो	१६४	बिवेकजं (पीतिसुरं)	२३४
वातेद्रु	११४	बिसाया (ब्राह्मणी, वटुत्तमस्त माता)	=
विविपस्तं	२२२	विस्वकर्म	१३८
विमत्तकपपुत्रो	१६७, १७१	विहिंसावितकको	१५२
विचिकिञ्च	२२३	वीतरागा	१०८
विज्जा	२७	वीतरागं	२२२
विज्जाणञ्चायतनूपका	५५	वीमसासमाधिपधानसङ्घारतामनागणं (इदियाद	
विज्जाणञ्चायतन	५६, ८८, ११६, १२०	भावेति)	१६०
विज्जाणद्धित्तियो	५५	बुद्धपञ्चजिको	१२५
विज्जाणद्धित्तीन	५६	वेजयन्तरयणमुत्तानि	१४३
विज्जाणनिरोधा	२६	वेजयन्तरथो	१५०
विज्जाणनिरोधो	२८	वेदुदीपको	१०७, १२८
विज्जाणपञ्चया	२७, ५५, ५०	वेणुदेवा	१६४
विज्जाणपञ्चया नामरू	२६	वेदना	२६, २७, ४५, ५३, २५
विज्जाणसहयतो	२५०, २५२	वेदनावाग्गो	५३, ५४
विज्जाणुपादानसम्बो	२२६	वेदनानिरोधा	२८, २६, ५५, ४६
विज्जाण	२७, ४५, ५१, २२४	वेदनानिरोधो	०८, २६
विटुञ्च (देवो)	१६२	वेदनानुपस्सना	२२१
विटुटो (देवो)	१६२	वेदनानुपस्ती	७६, १६२, २१७, २२१, २३४
विटुण्डु (देवो)	१६२	वेदनानुपाधानवत्तन्वो	२२६
वितकको	२०७	वेदनापञ्चया	२६, २७, ४५
विदेहान	१७५	वेदन	४७
विदुरमञ्जीव (ककुसन्धस्ता सावकमुता)	६	वेदपटिलाभी	२१४
विनिच्छय (साम पटिञ्च)	४७, ४८	वेदपटिलाभ	१५८, २१२, २१४
विनिपातिका	५५	वेदविधो पब्बतो	१६७, १६८
विपरिसरस	६, ७;	वेदविह्युत्तो	१२६, १२८
(कुमारस)	१६;	वेदान्ति	१६३
(बोधिसत्तस)	२७;	वेमारपस्से (सत्तपग्निगुहा)	६१, ६२
(भगवतो)	३०, ३५, ३७	वेरोचनामका (देवा)	१६३
विपस्ती	४, १७, १८, २५, ३३, ५३;	वेनामा (देवा)	१६३
(कुमाटो)	२१, २२, २३, २४;	वेनाजिका	१६३
(बोधिसत्तो)	१६, २६;	वेनाजिय	७७, १२६, १२८
(भगवा)	११, ३०, ३१, ३५, ३६, ३६, ५०	वेनाजि	६२
विपस्वी निपस्वी (स्वेव समञ्जसा उदपादि)	१७	वेनानी	७७, ८०, ६३, ६५
विरियनमाधिपधानसङ्घारतामनागणं (इदियाद		वेस्ममुस्स	७६, ८१
भावेति)	१६०		७

गन्धामारे (मल्लानं)	११४	सम्बोधिवपरायणो	११९
गन्धिद्रुको (धम्मो)	१७१	सम्बन्धधाना	६४
गन्धामारे (मल्लानं)	१२२, १२६	सम्भासमीवो	१६२, १६३, १८७, २३३, २६३
सम्भापारं (कारावैत्वा, महाभोगिन्दो ब्राह्मणो)	१७८	सम्भाकम्मन्तो	१६२, १६३, १८७, २३३, २६३
सन्धिगतमलसंकटोरा (मन्दासुष्कोहि सन्धता, कुसिनारा)	१२३	सम्भाप्राप (प्रहोति सम्भासमापिसम्)	१६३
गणस्त्रिमारे (सम्भासमापि)	- १६३	सम्भादिट्ठि	१६२, १८७, २३३, २४१, २६३
सम्भसोण्डिपपद्मारे (राजगहे)	६१, ६२	सम्भावाचा	१६२, १६३, १८७, २३३, २६३
सम्बन्धिनीनं (गन्धब्बवार्थं)	१५६	सम्भावापामो	१६२, १६३, १८७, २३३, २३४, २६३
सम्बन्धिफुल्ला (यमनसाला)	१०६, १०७	सम्भानिमृति	१६३
सम्बन्धितो (कस्तपस्स भगवतो उपट्ठाको)	७	सम्भासङ्कप्पा	२६३
सम्बन्धित्वात्तमथो (बुद्धं ठानं)	२६, ३०	सम्भासङ्कम्पो	१६२, १६३, १८७
सम्बन्धितो (हस्विगतं)	१३३	सम्भासति	१६२, १६३, १८७, २३३, २३४, २६३
सव्वाकायपटिसंबेदी	२१७, २१८	सम्भासमापि	१६३, १८७, २३३, २३४, २६३
सव्वुत्तमिपटिनिस्तान्णो (बुद्धं ठानं)	२६, ३०	सम्भासमुत्ता (चत्तारो उपपज्जेयु, प्रहो)	१६८
समायं (मूयम्मायं)	१५७	सम्भासमुत्तेन (सुपञ्जाता, सनिपट्ठाना)	१६२
समचरिणा (तापु)	२४	सम्भासमुत्तो (उदपादि, प्रहोति)	११
समणपरिणा	८६, ११३	(मूपात्तो)	११०
समदन्तो (महाभुदिसलवयणं)	१६	सम्भासम्बोधि (मत्ता धम्मिमम्बुज्जति)	८५
सगविधावना (द्वे पिण्डपाता)	१०५	सम्भेतलोहित (सरीर सीरयिवाय छद्दित)	२२०
समसमाकला (द्वे पिण्डपाता)	१०५	सपमेव (चित्तको वज्जति)	१२६
समाधि	६५, ७३, ७५	सरीरपूजाम (धम्मवादा होय)	१०६
समाधिपिनं पीतिसुख	२३४	सरीरपूज (तयागतय, वरित्तमति)	१०६
समाधिपरिक्कारां (सत्त)	१६२	सज्जागारके (सावतिपय)	२०१
समाधिपरिभाविता (पञ्जा महफुल्ला)	६५, ७६	सविचारं	२०६, २३४
समाधिसम्भोज्जङ्को	२२७	सवित्तकं	२०६, २३४
समाना (देवा)	१६४	ससत्थावचरो (वेदादितामो, सोमनस्सपटिमानो)	२१४
समाहितं / चित्तं	२२२	सद्वयम्मा (देवा)	१६४
समीपधारो (भगवतो, मायस्सा उपकाणो)	१०८	सहभू (देवा)	१६४
समुदयधम्मामानुपस्ती	२१८, २२१, २२२, २२३, २२५, २२७	सहसि (देवा)	१६४
समुदयधम्म	३३	सत्तापत्तननिरोप	२८, २६
समुदयवयधम्मामानुपस्ती	२१८, २२१, २२२, २२५, २२७, २२८, २२९	सत्तापत्तननिरोपी	२८, २६
समेहि पारेहि (बोधियत्तस्स धम्मता)	१४	सत्तापत्तनपञ्चय	२७
सम्पायेय (अल्पमादेन)	६४	सत्तापत्तन	२६, २७
सम्बोध्य (वेदपटितामो सोमनस्सपटितामो)	२१४	सत्तापत्तन	११३, १३०
सम्बोधि	१५२, १५४	सत्तापत्तनकरे	११३
सम्बोधिवपरायणा	१५२, १६३, १८७	सत्तापत्तनगे	१३०
		सत्तापत्तनपत्तं	१५
		सत्तापत्तनवपणा	२५६

साणसुत	२६०	सीहहनु (महापुरिसलवक्षण)	१६
साणिभार	२६०	सुषततुक्कटान (कम्मान फल)	२३८
साण	२६०	सुक्का (देवा)	१६५
सातागिरा (पनखा)	१६१	सुसतवतानिक (कम्म उपचित्त, चुन्देव)	१०६
सातोदका (ककुथा नदी)	१००	सुचित्ति (देवा)	१६३
सामिसं सुख	२२१	सुजाता (उपासिका, नातिवे)	७३, ७४
सामीपिप्पटिपत्ता	१०७	सुञ्जा (परप्पवादा समणेभि)	११७
सामुक्कसिका (धम्मदेसना)	३३	सुदत्तो (उपासको)	७३, ७४
सारत्थे (पटथ)	१०६	सुदत्ता (देवा)	४१
सारत्थदे (चेतिये)	६२	सुदत्ती (देवा)	४१
सारत्थद (चेतिय)	८१	सुद्धावासेहि (देवेहि)	३६
सारिपुत्तमोग्गल्लान	६, ४१, ४२	सुद्धोददो	८, ४१, ४२
सारिपुत्तो	६६	सुधम्मा (देवममा)	१६५
सालराजमूले	३६, ४०	सुधम्माय (देवसभाय)	१५६, १५७, १६८, २००
सालवने	१०४, १३०	सुनिधवसस्सकारा (मणयमहामत्ता)	७०, ७१, ७२
सालवन	१०६, १०८, ११५	सुपुण्णा (देवा)	१६३
सालीन	२१६	सुपिनणउपमा	२४६
सावकमुण	५, ११	सुप्पतिट्ठितपादो (महापुरिसलवक्षण)	१५
सावकसन्निपाता	६	सुप्पतितो (वेस्सभुस्स पिता)	७
सावकान सन्निपाता	११	सुप्पतित्था (ककुथा नदी)	१००
सावको (पूपाट्ठो)	११०	सुनकिण्हा (देवा)	५५
सावरीय (महानगर)	११३, १३०	सुनयवने (सालराजमूले, उक्कट्टाय)	३६, ४०
सावरीय (जेतवने)	३,	सुमहपरिब्बाजकवत्थु	११५
(सलळागारकै)	२०१	सुमहोदेवी	१४३, १५७
साब्धो (भिक्खु नातिके कालकतो)	७३, ७४	सुमहो (उपासका)	७४,
सिखण्ठी (मात्तलिस्स पुत्तो)	२००	(परिब्बाजको)	११५, ११६, ११८,
सिलिस्स (भनवत्तो)	७	(बुद्धपब्बजितो)	१२५
सिली (भगवा)	४, ४२	सुमुत्ता (मय तेन महासमणेन)	१२५
सिद्धीपण्ण (सुममट्ट)	१०३	सुरियवच्छाया	१६३, २००, २१६
सिरीसरत्त (मूले अभिसम्भुट्टो, ककुथयो)	५	सुवण्णवण्णो (महापुरिसलवक्षण)	१५
सिसपावने	२३६, २३७	सुगुक्कदाटो (महापुरिसलवक्षण)	१६
सोतवने (राजमहे सप्पसोण्डिकप्पम्भारे)	६१, ६२	सुकरनोसको	२५८
सोनोदका (ककुथा नदी)	१००	सुकरमद्व	६८, ६६
सोतपरिभाविता (समाधि महक्कनो हांति)	६५, ७६	सूरसेनेसु	१५१
सोतम्बतुपादान	४६	सेखो	१११
सोत्तसम्पदाय (धानिससा)	६६	सेत्तव्याय	२३६
सोत्तवट्ठाह (प्रञ्जेत)	२२०	सेत्तव्य	२३७
सोहोव्वडकायो (महापुरिसलवक्षण)	१५	सेनोदका (ककुथा नदी)	१००
सीहोसम्भं (सप्येन, भगवा)	१०४, १०६	सेनियो (राजा विम्बिसारो)	१५२

सेम्ययापि, भ्रान्त, जञ्जर सखट वेधमिस्तानेन यापेति ८०	सेम्ययापि, भिन्नाने, दक्को गोषागतो व गोषावृद्धो यागो वा गावि यधित्वा चतुस्रहापये विततो
सेम्ययापि तु शक्तिवत् २५७	विभजित्वा निमित्तो भ्रम २१६
सेम्ययापि देवा ताप्यताता १७	सेम्ययापि, भिन्नाने, दक्को समकारो वा भमकारत्वेवानो वा २१८
सेम्ययापि नाम उप्यतिनिषं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकिनियं वा अथेवचचानि उप्यतानि वा पदुमानि वा पुण्डरीकानि वा उदने जातानि उदने सव्युग्नि उदकानुगतानि अन्तो निमुगपोसीनी ३१	सेम्ययापि, भिन्नाने, मणिरत्नं मासितो यत्पे निकिपता नैव मणिरत्नं मासिकं यत्पे मन्वेति ना पि मासिवत्त्वं मणिरत्नं मन्वेति १३
सेम्ययापि नाम उम्मापुष्कनील नीलवर्णं नील- निदरस्तन ८७	सेम्ययापि, भिन्नाने, मणिवेष्टुरियो सुभो जातिना प्रष्टुतो सुपरिवम्भस्तो मन्त्रो विष्यमन्त्रो भनादितो सध्यावारम्भन्त्रो १२
सेम्ययापि नाम श्रीसधिता रत्नं श्रीदाता श्रीदातवर्णा ८७	सेम्ययापि, भिन्नाने, हिमवन्ते पन्वने बरवीना नाम सत्रुजगति मञ्जुसारा च वगुम्भरा च मयुरसारा च वेमनिपस्तरा १७
सेम्ययापि नाम कणिवार्युष्क पीत पीतवर्ण ८७	सेम्ययापि, भो वस्त्रा, निष्ठुजना वा उगुग्जेय २९१
सेम्ययापि नाम गङ्गोदक यमुनोदकेन सासन्दि तमेति १६७, १७१	सेम्ययापि, राजञ्ज, वस्ताको बीजन ज्ञत्वं प्रादाय वन पविरोय्य २६२
सेम्ययापि नाम वयुजीवपुष्क लोहितव लोहितवर्ण ८७	सेम्ययापि, राजञ्ज, अश्वत्थो पुरितो न पन्थेय्य मण्डुसुस्तानि रूपानि २४४
सेम्ययापि नाम बलया पुरितो समिञ्जिन वा वाह पतारैय्य ३०, ३३, ३७, ३८, ४०, ७२, १३८, १७६, १८६, १८७	सेम्ययापि, राजञ्ज, पुरितो मूयकूपे ससीसार् निमुगो घस्त २४१
सेम्ययापि नाम गुद्ध वत्य भ्रमगतकाष्ठक सम्भदेव रजन पटिगण्ठेय्य ३३, ३९	सेम्ययापि, राजञ्ज, पुरितो दिवन मन्तत भयोगुद्ध प्रादित सम्पञ्जलित सन्तोतिभूत सुसाय सुनेय २४६
सेम्ययापि पस्तेय्य सरीर सिवविकाय छद्दिन २२०	सेम्ययापि मो पुरिमो सत्यवाद्दो सरोतक विमान २६४
सेम्ययापि, भन्ते, निवकुञ्जिन वा उगुग्जेय्य, पटिब्धप्र वा विवरेय्य ३४	सोत्तारिदेवदुम्भदोमनमुगायाता २२७
सेम्ययापि, भन्ते, उरन्तो पञ्चन्तिम नगर दम्बुदा दम्बुदानारतोरण एनद्धार ६७	सोत्तार (वेत्तमूल्य सावकपुत्र) ५
सेम्ययापि, भन्ते, राजा घातियो मुदावसितो सपुनाभिसितो रज्जेन १५८, १६६	सोत्तारः ७४, ११६, १५१, १५२, १६२, १८७, २१३
सेम्ययापि, भन्ते, सोवग्गो विग्गहो मानुग विग्गहं घातिरोवति १५८	सोयिबो (कोगायनत्तव उरुद्धो) ७
सेम्ययापि, भिस्तवे, उप्यन वा पदुम वा पुण्डरीक वा द्वुनो जनस्त विच मजा १७	सोयवनी (कोताग्नन्तस राजवाली) ८
सेम्ययापि, भिस्तवे, उम्भोमया पुकोडि पूरा नावा- विहितस धञ्जस्त २१६	सोयो (नाम राजा महीमि) ८
	सोयनस्ततटिवायो २१४

सोमनस्सपटिलाभं	१५८, २१३, २१५		
सोमनस्स	२०८	हत्थिगामो	६६
सौवीरानञ्च	१७५	हत्थिरतन	१५, १६, १३३
सयोजनस्स	२२४	हरयो (देवा)	१६४
सदेजनीयानि (ठानानि)	१०६	हारितो (देवो)	१६५
		हिच्छावतिया (नदिया पारिमे तीरे कुसिनारा)	१०६

मुद्रक - श्री कृष्णचन्द्र बेरी, विद्यामन्दिर प्रेस (प्राइवेट) लिमिटेड,
डी० १५।२४, मानमन्दिर, वाराणसी-१.

प्रकाशक - भिक्षु जगदीश काश्यप, मन्त्री, पालि प्रकाशन मण्डल,
बिहार, नालन्दा (पटना)